

॥ श्रीः ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

१३०
—

॥ श्रीः ॥

प्राकृत-प्रबोधः

(प्राकृत भाषा-रचनानुवाद-सम्बन्धी सोदाहरण विवेचन)

लेखक

डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री

ज्योतिषाचार्य, न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न

एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी, प्राकृत एवं जैनालॉजी); पी-एच० डी०

स्वर्णपदक प्राप्त

अध्यक्ष : संस्कृत-प्राकृत-विभाग, एच० डी० जैन कालेज, आरा

(मगध विश्वविद्यालय)



चीरबन्ध विद्याभवन, वाराणसी-१

१९६५

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी
मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी
संस्करण : प्रथम, वि० संवत् २०२२
मूल्य : ८-००

© The Chowkhamba Vidya Bhawan,
Chowk, Varanasi-1 (India)
1965

Phone : 3076

Also can be had of

THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

Publishers & Antiquarian Book-Sellers

POST BOX 8 VARANASI-1 (India) PHONE : 3145

THE
VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA

130

PRĀKR̥TA-PRABODHA

(Introduction to the Prākṛta Language Composition
and Translation with examples)

By

Prof. N. C. Shastri

M. A., Ph. D. (Gold Medallist)

Head of the Deptt. of Sanskrit & Prakrit

H. D. Jain College, Arrah.

(Magadh University)

THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

VARANASI-1

1965

प्राकृत भाषा और साहित्य के मनीषी चिन्तक

श्री पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्ताचार्य, वाराणसी

को

सादर : सभक्ति

समर्पित



नेमिचन्द्र शास्त्री

आमुख

आपरितोपाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् ।

प्राचीन भारत की विशाल ज्ञाननिधि संस्कृत, प्राकृत और पालि इन तीनों भाषाओं में सुरक्षित है। अतः भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान को अवनत करने के हेतु प्राकृत भाषा का ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। भारतीय वाङ्मय में प्राकृत वाङ्मय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। किन्तु इसके अध्ययन के अभाव में प्रत्येक जिज्ञासु के ज्ञान की चमक धुंधली ही रहेगी। इसमें केवल कल्पना, बौद्धिक विलास एवं मत-मतान्तरों की समीक्षाएँ ही नहीं हैं, अपितु ज्ञानसागर के मन्थन से समुद्भूत जीवनस्पर्शी अमृत रस है। काव्य, कथाएँ, नाटक, दर्शन, अध्यात्म, सृक्तिकाव्य, स्तोत्र-भक्ति-काव्य एवं लोकोपयोगी विविधविषयक साहित्य प्राकृत भाषा में निबद्ध है। समृद्ध वही भाषा मानी जाती है, जिसमें जनसाधारण के बौद्धिक स्तर को पुष्ट करने के साथ विशेषज्ञों के चिन्तन-मनन के लिए भी यथेष्ट ज्ञान-सामग्री वर्तमान हो। संस्कृत भाषा के समान ही प्राकृत का कौष नाना-विषयक साहित्य विद्याओं से परिपूर्ण है। ज्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी सभी प्रकार की रचनाएँ इस भाषा के गौरव को वृद्धिगत कर रहीं हैं। अतएव प्राकृत भाषा के ज्ञान की आवश्यकता अन्येक जिज्ञासु के लिए है। हिन्दी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संस्कृत भाषा के अध्ययन से कहीं अधिक प्राकृत भाषा का अध्ययन आवश्यक है। हिन्दी के प्रत्यय एवं रूपों का जितना निकट का सम्बन्ध प्राकृत भाषा के साथ है, उतना अन्य किसी भाषा के साथ नहीं। यह सत्य है कि शब्दकौष के लिए हिन्दी संस्कृत की ऋणी है, तो रूप-गठन के लिए प्राकृत की।

यह एक सार्वजनीन सिद्धान्त है कि किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना रचना और अनुवाद की शिक्षा के बिना कठिन है। भाषा को सहज रूप में ज्ञात करने का वैज्ञानिक साधन रचनानुवाद प्रक्रिया है। यतः व्याकरण की विशेष जानकारी रहने पर भी अध्येताओं को उच्च शिक्षा के अभाव में किसी भी भाषा को बोलने और लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि व्याकरण की शुष्क शिक्षा रचना और अनुवाद के द्वारा ही की जाय तो वह सहज ग्राह्य हो जाती है तथा भाषा के लिखने और बोलने में दक्षता प्राप्त होती है।

विश्वविद्यालयों में प्राकृत का पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाने के उपरान्त तो यह आवश्यक हो गया है कि रचनानुवाद सम्बन्धी पुस्तक शीघ्र ही अव्येताओं के समक्ष उपस्थित की जाय। इस विषय की कोई भी व्यवस्थित वृत्ति अभी तक नहीं थी। यद्यपि आदरणीय पं० वेणुदास दीरी ने प्राकृत-प्रवेशिका जैसी दो-एक रचनाएँ गुजराती माध्यम से लिखी हैं, पर छात्रों के लिए वे रचनाएँ

उत्तनी उपयोगी नहीं है, अतएव रचनानुवाद के लिए एक स्वतन्त्र पुस्तक की अत्यन्त आवश्यकता बनी हुई थी। इस कमी की पूर्ति के लिए आदरणीय डॉ० एच० एल० जैन, जबलपुर तथा पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्ताचार्य वाराणसी की प्रेरणा एवं आदेश से यह रचना जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

रचनानुवाद में व्याकरण के जिन-जिन नियमों की आवश्यकता होती है, उन-उन नियमों का समावेश इस कृति में किया गया है। अतएव रचना-सम्बन्धी व्याकरण के नियमों का बोध कराने के हेतु प्रकरणानुसार ऐसे कई ज्ञातव्य और उपयोगी विषयों की अवतारणा की गयी है, जो पढ़ते ही हृदय में पैठ जाते हैं। प्रयोजनीय नियमों, रूपों और उदाहरणों को व्याख्यापूर्वक समझाने का प्रयास भी किया गया है। व्याकरण, रचना और अनुवाद सम्बन्धी उन प्रारम्भिक बातों का समावेश करने की चेष्टा की गयी है, जिनकी आवश्यकता भाषा को सीखने के लिए अपेक्षित है। उदाहरण-वाक्य और प्रयोग-वाक्यों से कोई भी पाठक प्राकृत बोलने और लिखने का अभ्यास कर सकता है। विश्वविद्यालय के छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अंग्रेजी अभ्यास भी दिये गये हैं।

द्वितीय भाग में प्राकृत भाषा के उपयोगी अंश संकलित हैं, इन अंशों के अध्ययन से प्राकृत भाषा और साहित्य का परिज्ञान प्राप्त करने में सरलता का अनुभव होगा। चयन करने में अपनी रुचि के साथ छात्रों की रुचि और योग्यता का भी ध्यान रखा गया है। अतएव द्वितीय खण्ड के कई अंश पाठ्यक्रम में रखे जा सकते हैं। इस पुस्तक का मननपूर्वक अध्ययन करने से कोई भी जिज्ञासु गुरु की सहायता के बिना प्राकृत भाषा की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मेरा यह विश्वास है कि प्राकृत भाषा की अभिज्ञता प्राप्त करने के लिए यह रचना उसी प्रकार उपयोगी सिद्ध होगी, जिस प्रकार संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और वामन शिवराम आप्टे की संस्कृत रचनाएँ उपयोगी हैं।

प्राकृत भाषा के अविजिज्ञानुओं को इस रचना में लाभ होगा तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा।

मैं चौखम्बा संस्कृत नीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी के व्यवस्थापक को धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से यह रचना प्रकाश में आ सकी है।

विषय-सूची

पढमो पवाढओ	...	१-८
अकारान्त शब्दरूप और उनके प्रयोग	.	१ १
अकारान्त शब्दों में जुड़नेवाले विभक्ति चिह्न	.	"
देव शब्द के रूप	...	२
शब्दकोष	..	"
वर्तमानकाल के धातु प्रत्यय	...	३
भू और हस धातु के वर्तमानकालिक रूप	...	"
अच्चास	...	"
क्रियाकोष	..	४
प्रयोगवाक्य	...	"
अच्चास	...	६
वीओ पवाढओ	...	८-२३
सर्वनाम शब्दों के रूप और प्रयोग	...	८
तुम्ह (युष्मद्) के रूप	...	९
अम्ह, त, ज शब्दों की रूपावलि	...	१०
क, एत, इम की रूपावलि	..	११
अमु, नव्व, अन्न, दुव्व की रूपावलि	..	१२
स, जा, एई के रूप	..	१३
इमी, अमु, त, ज (नपुं०) रूपावलि	...	१४
कि, एअ, अमु, इम (नपुं०) रूपावलि	..	१५
उदाहरण वाक्य	..	"
शब्दकोष	...	१९
धातुकोष	...	२०
अनुवाद	...	२१
अच्चास	...	२२
तइओ पवाढओ	...	२४-४७
उकारान्त और उकारान्त शब्दरूपों के प्रयोग	..	२४
हरि और णरवड शब्दों के रूप	...	"

इसी, अग्नि, भाणु शब्दों के रूप	...	२५
वाउ और पही शब्दों के रूप		२६
गामर्णी, खलपू और सयंभू शब्दों के रूप	..	२७
प्रयोग वाक्य	.	२८
उदाहरण वाक्य	..	२९
शब्दकोष	..	३१
धातुकोष	.	३३
अव्भास	.	३४
कत्तार (कता) के रूप	.	३६
भत्तार, भायर, पिअर शब्दों की रूपावलि	.	३७
दाउ, सुरेअ, गिलेअ की रूपावलि	.	३८
आपाण, राय, महव की रूपावलि	..	३९
मुद्ध, जम्म, चन्दम की रूपावलि		४०
हसन्त और भगवन्त के रूप	...	४१
प्रयोग वाक्य		"
शब्दकोष	..	४४
अव्भास	..	४५
चउत्थो पवाहओ	...	४८-८२
खील्लिङ्ग शब्दों के रूप और उनके प्रयोग	..	४८
लता, माला, छिहा, हलिद्दा की रूपावलि	...	४९
मट्टिआ, मड, मुत्ति की रूपावलि	...	५०
राड, लच्छी, सपिणी की रूपावलि	..	५१
वहिणी, घेणु, तणु-रूपावलि	..	५२
वहू, साम्, मात्रा के रूप	...	५३
मसा, नणन्दा और माउसिआ के रूप	..	५४
भूआ, गावी और नावा के रूप	...	५५
प्रयोगवाक्य	.	५६
शब्दकोष	.	०
धातुकोष	..	६६
अव्भास	..	६८
कन्मा और नहिमा के रूप	..	७२
अन्धि, ईगह और भगवर्त के रूप	...	७३

तडि, छुहा और विजु के रूप	...	७४
शब्दकोष	.	७५
क्रियाकोष	...	७६
प्रयोगवाक्य	...	७८
अव्भास	...	८०

पंचमो पवादओ

नपुंसकलिंग शब्द और उनके प्रयोग	...	८३
वण और धण शब्दों की रूपावलि	...	"
दहि, वारि, सुरहि और महु की रूपावलि	...	८४
जाणु, अंसु, दाम, नाम की रूपावलि	.	८५
दे,म्म अह, सेय, वय और हसंत के रूप	..	८६
भगवन्त और आउ शब्द के रूप		८७
शब्दकोष	..	"
क्रियाकोष	..	९१
प्रयोगवाक्य	..	९२
अव्भास	.	९३

छट्टो पवादओ

काल और क्रियारूपों का व्यवहार	..	९६
ठा, ने और पा के वर्तमानकालिक रूप	.	९८
पहा, कर, अस् के वर्तमानकालिक रूप	.	९९
भूतकाल के धातुरूपों की प्रयोगविधि	.	"
हस, हो, ठा, झा और ने के भूतकालिक रूप	..	१००
प्रयोग वाक्य	.	१०१
भविष्यत्काल के धातुरूपों के प्रयोग	..	१०२
हस, हो, ठा, झा के भविष्यत्कालिक रूप	..	"
ने और पा के भविष्यत्कालीन रूप	..	१०३
प्रयोगवाक्य	...	"
विधि और आज्ञा के प्रयोग	...	१०४
हस, हो, ठा, झा के विधि और आज्ञा सम्बन्धी रूप	...	१०५
ने, पा, पहा, कर, पस, गच्छ के विधि-आज्ञा के रूप	..	१०६
प्रयोगवाक्य		१०७
क्रियातिपत्ति के प्रयोगविधि	..	१०८

हस, हो, ठा, पा और गच्छ के क्रियातिपत्ति के रूप
प्रयोगवाक्य	..	१०९
शब्दकोष (भोज्यपदार्थ)	.	११०
अव्भास	.	११२
सत्तमो पवाढओ	.	११५-१२९
कृदन्तरूप और उनका व्यवहार	...	११५
भूतकालिक कृदन्तों का व्यवहार	.	११६
भूतकालिक कृदन्तों के प्रयोग	.	११७
विधिकृदन्तों का व्यवहार	.	११८
प्रेरक विधिकृदन्तों का व्यवहार	.	१२०
प्रयोगवाक्य		..
भविष्यत्कृदन्तों का व्यवहार	..	१२२
प्रयोगवाक्य
सम्बन्धभूत कृदन्तों का व्यवहार	...	१२३
प्रयोगवाक्य	.	१२५
हेत्वर्थकृदन्तों का व्यवहार	.	१२६
प्रयोगवाक्य	.	१२७
अव्भास	.	१२९
अष्टमो पवाढओ	...	१३०-१४८
वाच्यपरिवर्तन के नियम	..	१३०
हस और हो धातु के कर्म और भावि के रूप	.	१३१
प्रेरणार्थक क्रिया के नियम और व्यवहार विधि	..	१३२
हस धातु के प्रेरणार्थक रूप	...	१३३
कर धातु के प्रेरणार्थक रूप	.	१३४
हस के प्रेरक भाव और कर्म के रूप	...	१३५
उपयोगी शब्दकोष	..	१३६
वन्त्रामुपण सम्बन्धी शब्दकोष	...	१३७
पुप, मुगन्धित द्रव्य-कोष	...	१३८
अन्त्रकोष		..
मन्धन्वित्रों का नामावलि-कोष		१३९
तृन्निजीवी कोष	.	..


पशु-पक्षियों का नामावलि-कोष	• •	१४०
शरीर के अंगों का कोष		१४१
निवासस्थानादि के नामों का कोष	•	१४१
गत्यर्थक धातुकोष	••	१४३
भोजनार्थक और ज्ञानार्थक धातुकोष		"
शब्दार्थक और भावार्थक धातुकोष	•	१४४
हस्तक्रियार्थक धातुकोष	•••	१४५
विविध क्रियाएँ		"
प्रयोगवाक्य	•	१४६
अनुवादवाक्य		१४७

नवमो पचाहो

१४९-१७७

विशेषणों के भेद और व्यवहारविधि		१४९
संख्यावाचक शब्दों के रूप		१५०
अग्रसंख्यावाचक विशेषण	•	१५५
क्रमवाचक विशेषण		"
प्रकारवाचक	•	१५७
तुलनात्मक विशेषण	•	"
प्रयोगवाक्य		१५८
विभक्ति—कारक के नियम	•	१६१
समास के भेद और प्रयोगविधि		१६८
तद्धित प्रत्यय और तद्धितान्तों का व्यवहार		१७१
शब्दकोष (अव्यय)	•	१७५
अव्यय	•••	१७७
प्राकृत अनुवाद के लिए हिन्दी और अंग्रेजीके अभ्यास		१७८
वरुणकहा		२०३
चाणक्यकहाणं	•	२१२
आहीरीचंगवजिनकहाणं	•	२१६
कविलकहाणं	•	२१७
अरिष्टनेमिकहाणं	• •	२२०
हृत्पुत्रकहाणं	•••	२२६
सुवेरदत्ताकहाणं	• •	२२७
शुत्तमियालकहाणं	• •	२३०

उवासगे कुंडकोलिए	.	२३१
रोहिणीए दक्खत्तणं	...	२३४
दुवे कुम्मा	.	२३९
सिरिसिखिवालकहा	...	२४३
सीलवः कहाणगं	..	२६९
सागधी-पाठ		२७८
नाटकीय शौरसेनी-पाठ	...	२८०
महाराष्ट्री-पाठ	..	२८२
मूलदेव	..	२८५
करकंडु		२९५



प्राकृत-प्रबोध

भाग १

पहलो पवादओ Lesson 1

अकारान्त शब्दरूप और प्रयोग

१. प्राकृत में तीन लिङ्ग, तीन पुरुष और दो वचन होते हैं। द्विवचन का व्यवहार प्राकृत में नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर भी बहुवचन का प्रयोग होता है।

२ प्राकृत में चार प्रकार के शब्द पाये जाते हैं— अकारान्त—अ और आ से अन्त होनेवाले शब्द; इकारान्त—इ और ई से अन्त होनेवाले शब्द, उकारान्त—उ और ऊ से अन्त होनेवाले शब्द एवं हलन्त—जिनके अन्त में व्यञ्जन अक्षर आये हों। पर विशेषता यह है कि प्रयोग में, हलन्त्य शब्द उपलब्ध नहीं होते, अतः उनके स्थान पर भी उक्त तीनों प्रकार के शब्दों में से किसी भी प्रकार के शब्द का व्यवहार पाया जाता है।

पुँल्लिङ्ग अकारान्त शब्दों में जोड़े जानेवाले विभक्ति चिह्न

	एकवचन	बहुवचन
पहमा-प्रथमा	ओ	आ
वीआ-द्वितीया	.	ए, आ
तइया-तृतीया	ण, णं	हि, हि, हिं
चउत्थी-चतुर्थी	य, स्स	ण, णं
पंवमो-पञ्चमा	त्ता, ओ, उ, हि	त्तो, ओ, उ, हि, हितो, सुतो
छट्ठी-षष्ठी	स्स	ण, णं
सत्तमी-सप्तमी	ए, न्मि, सि	सु, सुं
संवोहण-सम्बोधन	ओ, लुक्	आ

अकारान्त देव शब्द के रूप

एकवचन	बहुवचन
प० देवो	देवा
वी० देवं	देवा, देवे
त० देवेण, देवेणं	देवेहि-हिं-हिं
च० देवाय, देवस्स	देवाण, देवाणं
प० देवत्तो, देवाओ, देवाउ, देवाहि	देवत्तो, देवाओ, देवाहितो, देवासुन्तो
छ० देवस्स	देवाण, देवाणं
स० देवे, देवम्मि, देवंसि	देवेसु-सुं
सं० हे देवो, देवा	हे देवा

Translate into Prakrit पाइयभासाए अणुवायं करेन्तु

देव के लिए । देव को । देवों के द्वारा । देवों पर । देव में ।
देव से । देवों से । देव ने । दो देव । दो देवों को ।

शब्दकोष

लोक = लोओ	सूर्य = सुज्जो, आइच्चो
सोना = कणयो	किरण = किरणो
मेघ = मेहो	अपमान = अवमाणो
गाँव = गामो	कुठार = कुठारो
समुद्र = सायरो	क्रोध = कोहो
चन्द्रमा = चन्दो	आचार = आयारो
पहाड़ = पव्वओ	उद्यम = उज्जमो
नगर = नयरो	न्याय = नायो
हाथ = करो	राजा = राया, नरिंदो, निवो
नौकर = सेवओ, भिच्चो	नरक = निरयो
घोंसला = कुलाओ, नीडो	बहिरा = बहिरो
कुँआ = कूवो	ब्राह्मण = वंभणो, माहणो
तालाब = तडाओ	मनोरथ = मणोरहो
हवा = पवनो, वाउ	मृग = मिओ, मिगो
रोप = रोसो	मोक्ष = मोक्खो
व्याध = वाहो	विनय = विणयो
शट = सटो	स्वभाव = सहावो

३ क्रिया की सहायता के बिना अनुवाद नहीं हो सकता है। यतः वाक्य का प्राण क्रिया ही है। वाक्य की परिभाषा में केवल क्रिया को भी वाक्य कहा है। प्राकृत के क्रियारूप संस्कृत की अपेक्षा बहुत सरल हैं। प्राकृत में प्रायः भ्रादिगण की धातुएँ ही हैं और अकारान्त धातुओं को छोड़कर शेष धातुओं में आत्मनेपदी और परस्मैपदी का भेद भी नहीं है। प्राकृत में लकार नहीं होते। केवल वर्तमान, भूत, भविष्य, विधि, आज्ञा एवं क्रिया-क्रियातिपत्ति ये छः काल के भेद माने गये हैं।

वर्तमानकाल के प्रत्यय

एकवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष (Third person) इ, ए	न्ति, न्ते, इरे
मध्यम पुरुष (Second person) सि, से	इत्था, ह
उत्तम पुरुष (First person) मि	मो, मु, म

हे/भू-होना धातु के वर्तमानकाल के रूप

एकवचन	बहुवचन
प्र० पु० होइ	होन्ति, होन्ते, होइरे
म० पु० होसि	होइत्था, होह
उ० पु० होमि	होमो, होमु, होम

हस-हँसना धातु के रूप

एकवचन	बहुवचन
प्र० पु० हसइ	हसन्ति, हसन्ते, हसिरे
म० पु० हससि	हसित्था, हसह
उ० पु० हसामि, हसेमि	हसिमो, हसिमु, हसिम

Translate into Prakrit पाइयभासाए अणुवायं करेन्तु

बहिरा हँसता है। राम हँसता है। बादल बरसते हैं। राम का नौकर हँसता है। गोपाल के हाथ में पत्र है। आकाश में बादल हैं। लड़के हँसते हैं। केशव का तालाब है। मोहन का कुँआ गाँव में है। हरिहर के कुँए का पानी मीठा है। चोर धन चुराता है। घोड़े जाते हैं। पहाड़ ऊँचा है। वाराणसी गङ्गा के तट पर स्थित है। लड़के मैदान में खेलते हैं।

क्रियाकोष

है = अत्थि

हैं = अत्थि, सन्ति

जाता है = गच्छइ

जाते हैं = गच्छन्ति

नहीं है = णत्थि

वरसता है = वरसइ

चुराता है = चोरेइ

कहता है = कहइ, भणइ

बोलता है = बोलेइ

पढ़ता है = पठइ

चलता है = चलइ

जानता है = जाणइ, मुणइ

खाता है = भुंजइ, जेमइ, खादइ, खाअइ

नमस्कार करता है = नमइ

गिरता है = गिरइ, पढइ

पीता है = पिवइ, पिज्जइ

पीड़ा या दुःख देता है = पीडइ, पीलइ

गर्जता है = गज्जइ

थूकता है = थुक्कइ

खेलता है = खेलेइ

भ्रमण करता है = भमइ

इच्छा करता है = इच्छइ, पिहइ

ढकता है = पिंधइ

कूटता है = कुट्टइ

घृणा करता है = गरहइ

पूछता है = पुच्छइ

दौड़ता है = धावइ

धारण करता है = धारइ

धिक्कारता या तिरस्कार

करता है = धिक्कारइ

जोड़ता है = पवंजइ

प्रवृत्ति करता है = पउत्तइ

द्वेष करता है = पउसइ

पकाता है = पचइ

निन्दा करता है = पगंथइ

विश्वास करता है = पच्चाअइ

आश्वादन करता है = पच्चोगिलइ

प्रार्थना करता है = पच्छइ

त्याग करता है = पजहइ

जगाता है = पडिवोहइ

वापस जाता है = पडिवच्चइ

ठगता है = पतारइ

रुकता है = थंभइ

रहता है = वसइ

देखता है = पेच्छइ

भेजता है = पेसइ

पीसता है = पीसइ

पवित्र करता है = पुणइ

क्रोध करता है = कुब्भइ

तलाश करता है = गवेसइ

बड़ा बनता है = गरुअइ

प्रयोगवाक्य

मोहन पढ़ता है

राम पुस्तक लिखता है

नलिन स्कूल में पढ़ता है

राम का घर नदी किनारे है

= मोहनो पठइ ।

= रामो पोत्यअं लिहइ ।

= नलिनो विज्जालयम्मि पठइ ।

= रामम्म गिहं नइत्ते अत्थि ।

लड़का खाता है	=	बालओ खाअइ ।
मनुष्य बोलते हैं	=	माणुसा बोलन्ति ।
लड़के मैदान में खेलते हैं	=	बालआ खेत्ते खेलन्ति ।
पुत्र पिता को प्रतिदिन प्रणाम करता है	=	पुत्तो पइदिणं पिअरं पणमइ ।
राम का पिता पटना जाता है	=	रामस्स पिआ पाडलिपुत्तं गच्छइ ।
मोहन का लड़का जाता है	=	मोहनस्स पुत्तो गच्छइ ।
केशव का छोटा भाई रोता है	=	केसवस्स अणुयो कंदइ ।
श्याम मोहन को पीड़ा देता है	=	सियामो मोहनं पीडइ ।
गोपाल का बड़ा भाई हँसता है	=	गोवालस्स अग्गओ हसइ ।
दो मोर नाचते हैं	=	दुण्णि मोरा णच्चन्ति ।
सीता राम का विश्वास करती है	=	सीया रामं पच्चाअइ ।
सुग्रीव राम से पूछते हैं	=	सुग्गीवो रामं पुच्छइ ।
गोपाल नौकर को पूछता है	=	गोवालो भिच्चं पुच्छइ ।
इन्द्र का बड़ा भाई पत्र लिखता है	=	इंदस्स अग्गओ पत्तं लिहइ ।
राम देवों को प्रणाम करता है	=	रामो देवे पणमइ ।
नलिन कुँए से पानी खींचता है	=	नलिनो कूवत्तो जलं भरइ ।
चिड़िया घोंसले में रहती है	=	चडआ नीडम्मि वसइ ।
व्याध पशुओं को मारता है	=	वाहो पसुणो हणइ ।
सूर्य में किरण हैं	=	सुज्जम्मि किरणा संति ।
आकाश में बादल हैं	=	आयासे मेहा सन्ति ।
पहाड़ पर पेड़ नहीं हैं	=	पव्वयम्मि रुक्खा ण संति ।
गाँव में तालाब नहीं है	=	गामंसि तडाओ णत्थि ।
कुँए में दो घंड़े हैं	=	कूवम्मि दुण्णि घडा सन्ति ।
धूल में बालिकाएँ खेलती हैं	=	धूलीए बालिआ खेलन्ति ।
राजा की सेना जाती है	=	राइणो सेना गच्छइ ।
गुरु धर्म का उपदेश देता है	=	गुरु धम्मोवएसं देइ ।
अग्नि उष्ण होती है	=	अग्गि उष्णं होइ ।
कमल का पुष्प सुन्दर होता है	=	उप्पलस्स पुष्पं सुन्दरं होइ ।
राजा शत्रु पर आक्रमण करता है	=	नरिंदो सत्तुणो वोहइ ।
मोहन राम का अभिनय करता है	=	मोहनो रामस्स अहिणयं कुणइ ।
राम चन्द्रमा का दर्शन करता है	=	रामो चंद्रं पेच्छइ ।
मृग दौड़ता है वन की ओर	=	मिओ धावइ वणं पडि ।
वह मोक्ष की कामना करता है	=	सो मोक्खं अहिलहइ ।

ब्राह्मण क्रोध करता है	=	माहणो कोपं कुणइ ।
वन में सिंह गरजता है	=	वणम्मि सीघो गज्जइ ।
नरक में बहुत दुःख होते हैं	=	णरयम्मि बहू दुक्खा संति ।
आकाश में पक्षी उड़ते हैं	=	आयासम्मि खगा उडुन्ति ।
उसके खेत में तालाब है	=	तस्से खेत्ते तडाओ अत्थि ।
आरा में अनेक लोग रहते हैं	=	आराणयरम्मि अणेगा जणा णिवसंति ।
वह नौकर को घर भेजता है	=	सो भिच्चं घरं पडि पेसइ ।
वे भात खाते हैं	=	ते भत्तं खाअन्ति, खादन्ति वा ।
राम हरि को धिक्कारता है	=	राम हरि धिक्कारइ ।
घर में वे लोग गिरते हैं	=	घरम्मि ते जणा पडंति ।
राम दीवाल पर थूकता है	=	रामो भित्तीए थुक्कइ ।
वदनसिंह पढ़ने में लगता है	=	वदनसीघो पढणम्मि लगइ ।
रामदास दूत भेजता है	=	रामदासो दूयं पेसइ ।
कालिदास मेघदूत लिखता है	=	कालिदासो मेहदूअं लिहइ ।
जगन्मोहन कष्ट देता है	=	जगन्मोहनो पीडइ ।
वह राम से घृणा करता है	=	सो रामं गरहइ ।
वे लोग प्रतिदिन काम करते हैं	=	ते पडिदिणं कज्जं कुणति ।
राम पाठ पूछता है	=	रामो पाठं पुच्छइ ।
श्याम हर बात पर हँसता है	=	सियामो पइएगवत्तम्मि हसइ ।
वाराणसी में साधु रहते हैं	=	वाराणसीए साहू णिवसन्ति ।
काशी नगरी में अपार भीड़ है	=	कासीनयरीए अपारसंदोहो अत्थि ।
रामदास वन में गाय तलाश करता है	=	रामदासो वणम्मि गावं गवेसइ ।

अवभासो Exercise

Translate into Hindi हिन्दीभाषाए अणुवायं करेन्तु

एगस्स सेट्ठिवरस्य खत्तियपुत्तो लेहवाहगो अत्थि । महिसी पाडलिपुत्तं गच्छइ । मगहाविसए सालिगामो नाम गामो । राजगिहे नयरे सेणियो नरिन्दो अत्थि । रामो नयरं गच्छइ । नलिनो वायरणं पढइ । धणं धणेण वडइ । मोरा नच्चन्ति । थोवा णरा कि करेन्ति । चालो रहेण सह चलइ । सुवणं भूसणाय होइ । पुत्तस्स धणं देइ । रामो फुल्लाणि चिणइ । मुरुक्खो वुहं निदइ । समणो नयरं विहरेइ । पुरिसा देवं नमइ । पावा मुहं न पावेन्ति । आयासे मेहा सन्ति । रामो पोत्थयं पढइ । चोरो धणं चोरेइ । र्हो पावाअरं चलइ । तस्स मणो सया धम्मे लगइ ।

नलिनो परोवयारं कुणइ । सीया महुरं गायइ । रामो रहोवरि चढइ । ठक्कुरस्स समीवे गच्चा कहेइ । इमा लड्डुआ सप्पहावा सन्ति । सियामो मोहणं बोह्लइ । तत्थ वहूणि रयणाइं सन्ति । तत्थ एगो निद्धणो सेट्ठी वसइ । भोयणावसरे जिणदास्सो पुत्तं भणइ । तत्थ णयरीए एगो धम्मदासो सत्थ-वाहो परिवसइ । पच्चूसे सेट्ठी वियारेइ । दाणसीलो जिणदासो सेट्ठिवरो वसइ । निवो मोहणं भणइ । रामस्स पिआ गच्छइ । तस्स चउरो भायरो सन्ति । अत्थ एगो पुरिसो गच्छइ, एगो पढइ, एगो भमइ, एगो नच्चइ य । चउत्थे दिवसे रायसुओ धिक्कारइ । रायसुओ गिहं पजहइ । धुत्तो सुयणं पतारइ । मोहणो मग्गे थुक्कइ । जोइन्दो सव्वत्थ थुक्कइ । सियामो मोहणं पगंथइ । नलिनो पढणम्मि पउत्तइ । राजारामो दुद्धं पित्रइ । सा भत्तं खाअइ । महारायं को न जाणइ । नयरे अणेया लोआ सन्ति । एसो नियमो निव्वेण कओ अत्थि । पेमकुमरो भत्तं पचइ । रीया चुण्णं पीसइ । नइपवाहो थंभइ । मेहो गज्जइ । सेणा दुग्गम्मि पविसइ । मुणी तित्थं गच्छइ । रामो वणेसुं भमइ । हंसा सरोवरं गच्छन्ति । किसओ वइल्ले सअडंसि पउंजइ । भिच्चो पत्तं नेइ । थविरा मोहणं पउसइ । अस्सो खेत्तं धावइ । उज्जाणे फुल्लो फुल्लइ । सोहणो नियगिहम्मि बोह्लइ । तेलिओ तेलं नेइ । रहुवरो जुअं कीडइ । अस्स बालअस्स बुद्धी तिक्खा अत्थि । सियामस्स कण्णा सुसिक्खिया अत्थि । गोवालस्स भज्जा आगच्छइ । तस्स बालिआ बहिरा अत्थि । जिणदासस्स भायरा पंढिआ सन्ति । गोइन्दस्स पुत्तो महाविज्जालयम्मि पढइ ।

Translate into Prakrit पाइयभासाए अणुवायं कुणन्तु

राजगृह में नेमकुमार रहता है । नालन्दा में विद्यारीठ है । रामदास हरिमोहन का विश्वास करता है । नलिन दौड़ता है । राजा नगर का त्याग करता है । रीता आटा पीसती है । गंगाजल स्वच्छ होता है । मोहन प्रातःकाल पढ़ता है । शिष्य (सिस्सो) गुरु से प्रश्न (पण्हं) पूछता है । ब्राह्मण पुस्तक पढ़ता है । राजा प्रजा पर शासन करता है । पानी बरसता है । चोर धन चुराता है । धूर्त सज्जनों को ठगते हैं । गंगा की धारा रुकती है । स्कूल के लड़के खेलने हैं । योगेन्द्र सब जगह थूकता है । श्याम पटना में रहता है । देवपूजा सबको पवित्र करती है । वह पढ़ने में प्रवृत्त होता है । नलिन लिख रहा है । राम पुस्तक ढूढ़ता है । मोहन पाप से घृणा करता है ; रामप्रवेश घृणता है । मोहन पेड़ से गिरता

है। किसान खेत जोतता है (कसइ)। गोविन्द अपने घर में धान का छिलका अलग करता है (कंडइ)। सिपाही चिट्ठी ले जाता है। दो चालिकाएँ तालाब में नहाती हैं (णहान्ति)। गीता कटाक्ष करती है (कडक्खइ)। राजा की सेना पीछे हटती है (ओणिअत्तइ)। उसके पास कपड़े हैं। सभी बच्चे पिता को प्रणाम करते हैं। माली बगीचे (बज्जाण) की घास को (तिणं) काटता है (कत्तइ)। मुनि लोग आत्मा का (अप्पं, अत्तं) ध्यान करते हैं (झाअइ)। राम गुरुजनों को नमस्कार करता है। मोतीराम धनसंग्रह करता है। गाँव में तालाब नहीं है। ब्राह्मण पढ़ता है और लिखता है। चिड़ियाँ घोंसलों में रहती हैं। पहाड़ पर अरने होते हैं। सोने से आभूषण बनते हैं (णिम्मइ)। अग्नि गर्म होती है। सुग्रीव राम से पूछता है। सुमतिचन्द्र मोक्ष की कामना करता है। प्राकृत भाषा मधुर है। पावापुर महावीर का निर्वाणस्थान (निव्वाणथाण) है। राजा शत्रु पर आक्रमण करता है। गिरिराज गुरु से डरता है (बीहइ)। कुत्ता भूंकता है (बुक्कइ)। राम विज्ञान को अच्छी तरह समझता है (बुज्झइ)। रामदयाल लकड़ी (काट्ठं) फाड़ता है (फाडइ)। दासी ईंटों को (इट्ठिया) फोड़ती है (फोडइ)। राम बड़बड़ाता है (वडवडइ)। माधवराम अपने अध्ययन (अज्झयण) को समाप्त करता है (णिट्ठवइ)। नलिन ब्राह्मण को निमन्त्रण देता है (णिमंतइ)। मोहन चन्दन का विलेपन करता है (णिम्मच्छइ)। हरि विद्यालय की देखभाल (णिभालइ) करता है। उसके विद्यालय में मेरा पुत्र पढ़ता है। राममोहन का घर सुन्दर (सुण्णेरं) है। गीता नाचती है। सीता सावधान होती है (चेअइ)। लड़के शिक्षक की प्रशंसा करते हैं (अहिणंदन्ति)।

बीओ पवाहओ Lesson 2

सर्वनाम (Pronouns) के रूप और प्रयोग

४ संज्ञा के स्थान पर जो आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। यथा—
दीवायणो तत्थ वसह। सो य अड्डुक्करं वालत्तवमणुचरइ। अर्थात् वहाँ द्वीपायन रहना है और वह अत्यन्त कठोर चालतप करता है। उक्त वाक्य में 'सो' 'दीवायणो' के स्थान पर आया है। वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य सुन्दर बन जाते हैं।

५ जिस संज्ञा के स्थान पर या उसके साथ जो सर्वनाम आता है, उसमें उसी के लिङ्ग, वचन होते हैं। यथा—

राम का नौकर क्षत्रियपुत्र था। वह दुर्बल होने पर भी निर्भय था = रामस्स भिच्चो खत्तियपुत्तो अत्थि। सो दुब्बलो वि निच्चओ अत्थि। यहाँ 'खत्तियपुत्त' पुँल्लिङ्ग और एकवचन है, अतः इसके स्थान पर प्रयुक्त होनेवाला सर्वनाम 'सो' भी पुँल्लिङ्ग और एकवचन है।

६. अनुवाद करने में कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता जब उत्तम पुरुष First person में रहता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होती है, कर्ता जब मध्यमपुरुष Second person में रहता है, तो क्रिया मध्यम पुरुष की और कर्ता जब प्रथम पुरुष Third person में रहता है तो क्रिया प्रथम पुरुष की होती है।

७. 'तुम, और 'मैं' बोधक शब्दों के अतिरिक्त शेष सभी शब्द प्रथम पुरुष Third person होते हैं।

८. शब्दरूपावली के नियमों के आधार पर संस्कृत के समान प्राकृत में सर्वनामों को सर्वादि—सर्व, विश्व, उभय, एक, एकतर; अन्यादि—अन्य, इतर, कतर कतम; यदादि—यद्, तद्, एतद्, किम्; पूर्वादि—पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व एवं इदमादि—इदम्, अदस्, युष्मद्, अस्मद्, भवत् वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

९. पास की वस्तु या व्यक्ति के लिये इम (इदम्); अधिक पास की वस्तु या व्यक्ति के लिये एअ (एतद्); सामने के दूरवर्ती पदार्थ या व्यक्ति के मन्वन्ध से अमु (अदस्) और परोक्ष—जो वक्ता के सामने नहीं हो, पदार्थ या व्यक्ति के लिए स (तद्) शब्द का व्यवहार किया जाता है।

तीनों लिङ्गों में पुरुषवाचक सर्वनाम तुम्ह (युष्मद्) के रूप

एकवचन	बहुवचन
प० तुमं, तुं, तुह	तुम्हे, तुज्झ, तुम्ह, तुम्हे
बी० तुमं, तुमे, तुवे	तुज्झ, तुम्हे
त० तुमइ, तुमए	तुम्हेहि, तुम्हेहि, तुज्झेहि
च० तुम्हं, तुज्झं, तुह	तुमाण, तुहाण, तुम्हाण, तुज्जाण
पं० तुवत्तां, तुमाओ, तुहाओ	तुम्हेहितो, तुम्हाहितो, तुम्हासुतो
छ० तुम्हं, तुज्झं, तुह	तुमाण, तुहाण, तुम्हाण
स० तुमए, तुहम्मि, तुमम्मि	तुसु. तुमेसु, तुम्हेसु

तीनों लिङ्गों में अम्ह (अस्मद्)—हम

	एकवचन	बहुवचन
प०	हं, अहं, अस्मि	अम्ह, वयं
बी०	अस्मि, अम्ह, ममं	अम्हे, अम्ह
त०	ममए, मए	अम्हेहि, अम्हाहि
च०	मम, महं, मञ्ज	अम्हाण, मञ्जाण, ममाण
प०	मइत्तो, ममाओ, मञ्जाओ	ममाहितो, ममेहितो, अम्हेहि
छ०	मम, महं, मञ्ज	ममाण, मञ्जाण, अम्हाण
स०	म , अम्हस्मि, महस्मि	अम्हेसु, ममेसु, मम्हेसु

पुँल्लिङ्ग त (तद्)—वह—प्रथम पुरुष

	एकवचन	बहुवचन
प०	सो, ण	ते, ऐ
बी०	तं, णं	ते, ऐ
त०	तेण, ऐण	तेहिं, ऐहि
च०	तस्स, से	तेसिं, ताणं
प०	तत्तो, ताओ	ताहितो, तेहितो, तासुन्तो
छ०	तस्स, से	तेसि, ताणं
स०	तहिं, तस्मि, तस्सि	तेसु, तेसुं

पुँल्लिङ्ग ज (यद्)—जो—सम्बन्धवाचक

(Relative pronoun)

	एकवचन	बहुवचन
प०	जो	जे
बी०	जं	जे
त०	जेण	जेहि-हिं-हिं
च०	जस्स	जाण-णं
प०	जम्हा, जत्तो, जाओ	जाहितो, जेहितो, जासुन्तो
छ०	जस्स	जाण-णं
स०	जन्मि, जस्सि	जेसु

पुँल्लिङ्ग क (किम्)—कौन प्रश्नवाचक

(Interogative pronoun)

	एकवचन	बहुवचन
प०	को	के
बी०	कं	के
त०	केण	केहि-हि-हि
च०	कस्स	काण, केसि
पं०	किणो, कत्तो	काहिंतो, कासुंतो
छ०	कस्स	केसि, काण
स०	कम्मि, कस्सि	केसु

पुँल्लिङ्ग एत, एअ (एतद्)—यह

	एकवचन	बहुवचन
प०	एसो, एस	एते, एए
बी०	एतं, एअं	एते, एआ
त०	एतेण, एएण	एतेहि, एएहि
च०	एतस्स, एअस्स	एतेसिं, एताणं
पं०	एत्तो, एअत्तो, एआओ	एताहिंतो, एआसुंतो
छ०	एतस्स, एअस्स	एतेसि, एताणं
स०	एतम्मि, एअम्मि, एअस्सि	एएसु

पुँल्लिङ्ग इम (इदम्)—यह

	एकवचन	बहुवचन
प०	अयं, इमो	इमे
बी०	इमं, इणं	इमे
त०	इमिणा. णेण	इमेहि, णेहि
च०	अस्स, इमस्स	इमेसि, इमाणं
पं०	इमत्तो, इमाओ	इमाहिंतो, इमासुंतो
छ०	अस्स, इमस्स	इमेसि, इमाणं
स०	अस्सि, इमम्मि	इमेसु, एसु

पुँल्लिङ्ग अमु (अदस्)—वह, अमुक

	एकवचन	बहुवचन
प०	अमू	अमुणो, अमू
त्री०	अमुं	अमुणो, अमू
त०	अमुणा	अमुहि-हिं-हिं
च०	अमुणो, अमुस्स	अमूण-णं
प०	अमुत्तो, अमुणो	अमूहितो, अमूसुंतो
छ०	अमुणो, अमुस्स	अमूण-णं
स०	अमुम्मि	अमूसु-सुं

पुँल्लिङ्ग सव्व (सर्व)—मभी, सव

	एकवचन	बहुवचन
प०	सव्वो	सव्वे
वी०	सव्वं	सव्वे
त०	सव्वेण	सव्वेहिं
च०	सव्वाय, सव्वस्स	सव्वेसि, सव्वाणं
प०	सव्वत्तो, सव्वाओ	सव्वाहितो, सव्वासुंतो
छ०	सव्वस्स	सव्वेसिं, सव्वाणं
स०	सव्वम्मि, सव्वस्सि	सव्वेसु

पुँल्लिङ्ग अन्न (अन्य)—दूसरा

	एकवचन	बहुवचन
प०	अन्नो	अन्ने
वी०	अन्नं	अन्ने
त०	अन्नेण	अन्नेहि-हिं-हिं
च०	अन्नाय, अन्नस्स	अन्नेसि, अन्नाणं
प०	अन्नत्तो, अन्नाओ	अन्नाहितो, अन्नासुंतो
छ०	अन्नस्स	अन्नेसि, अन्नाणं
स०	अन्नम्मि, अन्नस्सि	अन्नेसु

पुँल्लिङ्ग—पुव्व, पुरिम (पूर्व)

	एकवचन	बहुवचन
प०	पुव्वो, पुरिमो	पुव्वे, पुरिमे
वी०	पुव्वं, पुरिमं	पुव्वे, पुरिमे

एकवचन	बहुवचन
त० पुव्वेण, पुरिमेण	पुव्वेहिं, पुरिमेहि
च० पुव्वाय, पुव्वस्स, पुरिमस्स	पुव्वाणं, पुरिमाणं
पं० पुव्वत्तो, पुरिमत्तो	पुव्वाहितो, पुरिमाहितो
छ० पुव्वस्स, पुरिमस्स	पुव्वाणं, पुरिमाण
स० पुव्वम्मि, पुरिमम्मि	पुव्वेसु, पुरिमेसु

स्त्रीलिङ्ग सा (तद्)—वह

एकवचन	बहुवचन
प० सा, णा	तीआ, ताओ
बी० तं, णं	तीआ, ताओ
त० तीआ, तीए, तीइ, णाए	तीहि, ताहि
च० तीसे, तीइ, तीए, ताए	ताणं, तेसि
पं० तीए, ताए	तीहिंतो, तासुंतो
छ० तिस्सा, तीए	ताणं, तेसि
स० तीअ, तीए, ताए	तीसु, तासु

स्त्रीलिङ्ग जा (यद्)—जो

एकवचन	बहुवचन
प० जा	जाओ, जीओ
बी० जं	जाओ, जीओ
त० जीआ, जीए	जीहि, जाहि
च० जिस्सा, जीए	जेसिं, जाण
पं० जीए, जित्तो	जिहिंतो, जासुंतो
छ० जिस्सा, जीए	जेसि, जाणं
स० जीए, जाए	जीसु, जासु

स्त्रीलिङ्ग एई, एआ (एतद्)—यह

एकवचन	बहुवचन
प० एसा	एईआ, एआ, एई
बी० एहं, एअं	एईआ, एआउ
त० एआए, एईए	एआहि, एईहि-हि
च० एईअ, एआऊ	एईणं, एआणं
पं० एअत्तो, एईअ	एआहिंतो, एआसुंतो
छ० एईअ, एआअ	एईण, एआण-णं
स० एईअ, एआअ	एआसु, एईसु

स्त्रीलिङ्ग इमी, इमा (इदम्)—यह

एकवचन	बहुवचन
प० इमी, इमा	इमाओ, इमीओ
वी० इमि, इमं	इमीओ, इमाओ
त० इमीअ, इमाए	इमीहि, इमाहि
च० इमीअ, इमाअ	इमीण, इमाण-णं
पं० इमीअ, इमाओ, इमत्तो	इमाहितो, इमासुंतो
छ० इमीए, इमीअ	इमीण, इमाणं
स० इमीए, इमाए	इमीसु, इमासु

स्त्रीलिङ्ग अमु (अदस्)—वह, अमुक

एकवचन	बहुवचन
प० अमू	अमूओ
वी० अमुं	अमूओ
त० अमूए	अमूहि-हि
च० अमूए	अमूण
पं० अमूए, अमुत्तो	अमूहितो, अमूसुंतो
छ० अमूए, अमूअ	अमूण णं
स० अमूए, अमूअ	अमूसु

नपुंसकलिङ्ग त (तद्)—वह

एकवचन	बहुवचन
प० तं	ताइं, ताणि
वी० तं	ताइं, ताणि

जेप शब्दरूप पुल्लिङ्ग के समान होते हैं ।

नपुंसकलिङ्ग ज (यद्)—जो

एकवचन	बहुवचन
प० जं	जाइं, जाणि
वी० जं	जाइं, जाणि

जेप शब्दरूप पुल्लिङ्ग के समान होते हैं ।

नपुंसकलिङ्ग (किम्)—कौन

	एकवचन	बहुवचन
प०	कि	काइं, काणि
बी०	कि	काइं, काणि

शेष रूप पुँलिङ्ग के समान होते हैं ।

नपुंसकलिङ्ग एअ (एतद्)—यह

	एकवचन	बहुवचन
प०	एअं, इणं	एआइं, एआईं, एआणि
बी०	एअं, इणं	एआइं, एआईं, एआणि

शेषरूप पुँलिङ्ग के समान होते हैं ।

नपुंसकलिङ्ग अमु (अदस्)—वह, अमुक

	एकवचन	बहुवचन
प०	अमुं	अमूइं, अमूणि
बी०	अमुं	अमूइं, अमूणि

शेष रूप पुँलिङ्ग के समान होते हैं ।

इम (इदम्)—यह

	एकवचन	बहुवचन
प०	इदं, इणं	इमाइं, इमाणि
बी०	इदं, इणं	इमाइं, इमाणि

उदाहरण वाक्य

यह बोलता है = अयं बोलइ; इमो बोलइ । यह हँसता है = इमो हसइ । वह जाता है = सो गच्छइ । ये जाते हैं = एते गच्छन्ति । ये नमस्कार करते हैं = इमे णमन्ति । यह देव को नमस्कार करता है = इमो देवं णमइ । ये महादेव को नमस्कार करते हैं = इमे महादेवं णमन्ति । यह भात खाता है = इमो भक्त खादइ. भुंजइ वा । वह सोना चुराता है = सो सुवर्णं चोरेइ । ये मैदान में दौड़ते हैं = एते खेत्ते धावन्ति । वे पाठ लिखते हैं = ते पाठं लिखन्ति । वे घर को जाते हैं = अमुणो गिहं गच्छन्ति । वे लोग मित्र की निन्दा करते हैं = ते जणा मित्तं पगंथन्ति । ये उसका विश्वास करते हैं = एते तं पचाअन्ति । वे उसको धिक्कारते हैं = ते तं

धिकारन्ति । वे गन्ने का आस्वादन करते हैं = ते उच्छुं पचोगिलन्ति ।
वे लोग विद्यालय जाते हैं = ते विज्ञालयं गच्छन्ति ।

राम इनसे धन लेता है	=	रामो इमत्तो धणं गोण्हइ ।
इनसे पुस्तक लेता है	=	इमाहितो पोत्थयं गोण्हइ ।
इसका घर बाजार में है	=	अस्स गिहं आवणे अत्थि ।
इसके द्वारा कार्य होता है	=	इमिणा कज्जं हयइ ।
इनके द्वारा सहायता मिलती है	=	इमेहिं साहज्जं मिलइ ।
वह इनके हाथ से पुस्तक लेता है	=	सो इमाण हत्थत्तो पोत्थयं गोण्हइ ।
उनके आदमी श्याम को ठगते हैं	=	तेसिं जण सामं पतारन्ति ।
उसकी पत्नी आटा पीसती है	=	तस्स भज्जा चुण्णं पीसइ ।
उनपर उनका कर्ज है	=	अमूसुं ताणं रिणं अत्थि ।
उससे प्रश्न पूछता है	=	अमुत्तो पण्हं पुण्णइ ।
वह रथ में घोड़े जोड़ता है	=	सो रहम्मि अस्सा पउंजइ ।
इनसे मोहन ऋण मांगता है	=	एताहितो मोहणो रिणं मग्गइ ।
वह हँसता है	=	सो हसइ ।
वह घर में रहता है	=	सो गिहे वसइ ।
वे हँसते हैं	=	ते हसेइरे ।
वे काम करते हैं	=	ते कज्जं करन्ति ।
तुम बोलते हो	=	तुमं भणसि ।
तुम चलते हो	=	तुमं चलसि ।
तुम जाते हो	=	तुमं गच्छसि ।
तुम पुस्तक पढ़ते हो	=	तुमं पोत्थयं पढसि ।
तुम पढ़ने में प्रवृत्ति करते हो	=	तुमं अज्झयणे पउत्तसि ।
तुम घर को वापस जाते हो	=	तुमं गिहं पडिक्कवसि ।
तुम राम को देखते हो	=	तुमं रामं पेच्छसि ।
तुम क्रोध करते हो	=	तुमं कुज्जसि ।
तुम नौकर को भेजते हो	=	तुमं भिच्चं पेससि ।
तुम जल पीते हो	=	तुमं जलं पिवसि ।
तुम भात खाते हो	=	तुमं भत्तं भुंजसि ।
तुम मोहन को धिक्कारते हो	=	तुमं मोहणं धिक्कारसि ।
तुम मोहन को जानते हो	=	तुमं मोहणं जाणसि ।
तुम पटना जाते हो	=	तुमं पाटलिपुत्तं गच्छसि ।
तुम चने भूँजते हो	=	तुमं चणआ भंजसि ।

तुम दीपक बुझाते हो	=	तुमं दीवं णिव्वयसि ।
तुम भूमि पर बैठते हो	=	तुमं भूमीए णिसीअसि ।
तुम मोहन का धन लेते हो	=	तुमं मोहणस्स धणं गेण्हसि ।
वह तुम्हारा सच्चा मित्र है	=	सो तुम्हाण सच्चं मित्तं अत्थि ।
तुम्हारा पुत्र कहाँ रहता है	=	तुज्ज पुत्तो कहि वसइ ।
तुम कहाँ से आते हो	=	तुमं कओ आगच्छसि ।
तुम क्या करते हो	=	तुमं कि करेसि ।
तुम्हारी पुस्तक मे क्या लिखा है	=	तुज्ज पोत्थयम्मि कि लिखियं अत्थि ।
तुमसे राम धन लेता है	=	तुवत्तो रामो धणं गेण्हइ ।
तुम तीर्थंकर को नमस्कार करते हो	=	तुमं तित्थयरं ष्णमसि ।
राम तुमको घड़ा देता है	=	रामो तुम्हं घडं देइ ।
तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है	=	तुज्ज किमवि अवराहो णत्थि ।
तुम इसी तरह कहते हो	=	तुमं एवमेव कहसि ।
तुम नीचे जाते हो	=	तुम अहो गच्छसि ।
तुम यहीं पर रहते हो	=	तुमं इह एव णिव्वससि ।
तुम उत्तर से आते हो	=	तुमं उत्तरओ आगच्छसि ।
तुम सभी लोग पढ़ते हो	=	तुम्ह पढित्था ।
तुम लोग कहते हो	=	तुम्हे कहह ।
तुम लोग जानते हो	=	तुम्हे जाणह ।
तुम लोग डरते हो	=	तुम्हे बीहित्था ।
तुम कहते हो	=	तुम्हे भणित्था ।
तुम लोग जल पीते हो	=	तुम्हे जलं पिव्वह ।
तुम लोग काम करते हो	=	तुम्हे कज्जं करित्था ।
तुम लोग वृक्ष पर से गिरते हो	=	तुम्हे रुक्खत्तो पडह ।
तुम लोग कुँए से पानी भरते हो	=	तुम्हे कूवत्तो जलं भरित्था ।
तुम लोग रास्ते मे थूकते हो	=	तुम्हे पहम्मि थुकेज्ज ।
तुम लोग प्रातःकाल जागते हो	=	तुम्हे पच्चूसे पडिबोहित्था ।
तुम लोग वर्तन को ढकते हो	=	तुम्हे पत्तं पिधित्था ।
तुम लोग नगरी का त्याग करते हो	=	तुम्हे णयरं पजहित्था ।
मैं बोलता हूँ	=	अहं बोळ्ळामि ।
मैं हँसता हूँ	=	अहं हसेमि वा अहं हसामि ।
मैं भ्रमण करता हूँ	=	अहं भमेमि ।
मैं खाता हूँ	=	अहं जेममि ।

मैं नमस्कार करता हूँ	=	अहं नमामि ।
मैं जल पीता हूँ	=	हं जलं पिब्जेमि ।
मैं रहता हूँ	=	हं वसामि ।
मैं धान कूटता हूँ	=	हं धणं कुट्टेमि ।
मैं जल की तलाश करता हूँ	=	हं जलं गवेसामि ।
मैं पाप से घृणा करता हूँ	=	हं पावं गरहेमि ।
मैं वस्त्र धारण करता हूँ	=	हं वत्थं धारेमि ।
मैं पुस्तक पढ़ता हूँ	=	हं पोत्थयं पढामि ।
मैं नगर को देखता हूँ	=	हं णयरं पेच्छामि ।
मैं उसको धिक्कारता हूँ	=	हं तं धिक्कारेमि ।
हम लोग पढ़ते हैं	=	अम्हे पढामो ।
हम लोग भ्रमण करते हैं	=	अम्हे भमामो ।
हम लोग कहते हैं	=	अम्हे भणामो ।
हम लोग डरते हैं	=	अम्हे बीहामो ।
हम लोग आस्वादन करते हैं	=	अम्हे पच्चोगिलिमु ।
हम लोग उसको जानते हैं	=	अम्हे तं जाणिम ।
मैं तुमको जानता हूँ	=	हं तुमं जाणेमि ।
हम लोग कपड़े धोते हैं	=	अम्हे वत्थपक्खालणं करामो ।
हम लोग विद्यालय में जाते हैं	=	अम्हे विज्जालयम्मि गच्छामो ।
यहीं पर हम लोग रहते हैं	=	एत्थमेव अम्हे णिवसामो ।
इस समय हम लोग जाते हैं	=	इयाणि अम्हे गच्छामो ।
निश्चय ही हम लोग पढ़ते हैं	=	णणमेव अम्हे पढामो ।
हम लोग अन्य लोगों का अनु- करण करते हैं	=	अम्हे अण्णा अणुहरामो ।
हम लोग पत्र लिखते हैं	=	अम्हे पत्तं लिखाभो ।
हम लोग भोजन करते हैं	=	अम्हे भोयणं करामो ।
हम लोग देवता को नमस्कार करते हैं	=	अम्हे देवं णमामो ।
हम लोग राजा से धन माँगते हैं	=	अम्हे राइणो धनं मग्गामो ।
हम लोग दिह्ली जाते हैं	=	अम्हे दिह्ली णयरं गच्छामो ।
वह तुमको धन देता है	=	सो तुज्झ धणं देइ ।
हम सब यह कार्य करते हैं	=	अम्हे इदं कज्जं करामो ।
तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते	=	तुम्हे कहं ण पढिस्था ।

हम लोग मन लगाकर पढ़ते हैं	=	अम्हे मणेण पढामो ।
मैं वाराणसी में पढ़ता हूँ	=	हं वाराणसि पढामो ।
हम लोग यह जानना चाहते हैं	=	अम्हे इदं जाणिउं इच्छामो ।
क्या तुम यहाँ ठहरना चाहते हो	=	अवि तुमं एत्थ ठाउं इच्छसि ।
आप लोग क्या लेना चाहते हैं	=	भवन्ता किं गेण्हिउं इच्छन्ति ।
हम लोग नदी तैर सकते हैं	=	अम्हे नइं तरिउं सक्केमो ।
उसे कोई नहीं मार सकता	=	ण कोवि तं हणिउं समत्थो ।

शब्दकोष:

ओष्ठ = उट्टो	हाथी का बच्चा = कलहो
झोपड़ी = उडवं	समूह = कलावो
मकड़ी = उन्ननाहो	कुत्ता = कविलो
दुपट्टा = उत्तरिउजं	गाल = कवोलो
पानी = उदयं	मास खानेवाला राक्षस = कव्वायो
निर्माल्य = उम्मालं	कृष्णपक्ष = कसणपक्खो
पानी की तरंग = उल्लोलो	काला = कसिणो
कपड़े की चाँदनी = उल्लोओ	शरीर = कायो
झरना = ओज्जरं	वलरहित, निर्वल = अबलो, निव्वलो
कपट = कइअवं	आग्रह = अभिणिवेसो
कैलास पर्वत = कइलासो	अमृत = अमयो
चन्द्र = कइ	अहीर = अहिरो
कठोर = कक्कसो	धनी = इव्वो, घणी
कल्लुआ = कच्छहो, कमढो	चाबुक = कसो
कामदेव = कंदप्पो	कहार = काहारो
कपूर = कप्पूरो	गेंद = किटुओ
नख = करस्हो	जुआरी = कितवो
तलवार = करवालं	संसर्ग = संसग्ग
उंट = करहो	उत्सुकता = कुऊहलं
हाथी = करि, करेणु	कुत्ता = कुक्कुरो
हथिनी = करिणी, करेणुआ	निहृञ्ज = कुटंगो
कदम्ब का वृक्ष = कलंबो	कुदारी = कुदालो
गौरैया पक्षी = कलविको	वृद्ध = बुद्धो
बड़ा = कलसो	खाली करना = खिलीकरणं

क्षीर-दूध = खीरं
 वामन = खुञ्जो
 खलासी = खुल्लासयो
 ऐरावत हाथी = गइंदो
 गाँठ = गंठि
 पाकिटभार = छेत्रो
 ग्रन्थ = गंथो
 गधा = गइहो
 गर्भ = गढभो

रोग = गयो
 गरिष्ठ = गरिट्ठो
 गवैया = गाइरो
 घर = गेहं
 ग्वाला = गोवालो
 घर = घरो
 चतुर = चउरो
 यक्ष = जक्खो

धातुरूपाः

खींचता है = करिसइ
 रूठता है = रूसइ
 चुनता है = चिणइ
 फोड़ता है = फुडइ
 बन्द होता है = निमीलइ
 घूमता है = अट्टइ
 सकता है = सकइ
 क्रोध करता है = कुप्पइ
 सम्पन्न होता है = संपज्जइ
 खिन्न होता है = खिज्जइ
 वरसता है = वरिसइ
 सरकता है = सरइ
 पकड़ता है = धरइ
 मरता है = मरइ
 तैरता है = तरइ
 सींचता है = सिंचइ
 चुराता है = मुसइ
 रोकता है = रुणइ
 उल्लंघन करता है = अइइ
 अतिक्रमण करता है = अइकमइ
 जाता है, गमन करता है = अइगच्छइ
 स्वीकार करता है = अंगीकरइ

पूजता है = अंचइ, अच्चइ
 आक्रमण करता है = अक्कमइ
 गाली देता है = अक्कोसइ
 फेंकता है = अक्खिवइ
 शोभता है, योग्य होता है = आछइ
 प्रशंसा करता है = अच्चीकरइ
 मार्जन करता है, साफ सुथरा-
 करता है = पमज्जइ
 प्रमाणित करता है = पमाइ
 प्रार्थना करता है = पत्थइ
 थकता है = थक्कइ
 पैदा करता है = अज्जइ
 दया करता है = अणुकंपइ
 खींचता है = अणुकड्ठइ
 नकल करता है = अणुकरइ
 भक्षण करता है = अणुगिलइ
 कृपा करता है = अणुगइ
 सेवा करता है = अणुचरइ
 बैठता है = अच्छइ
 फड़कना है = फुरइ ।
 बांधता है = वंधइ
 पोषण करता है = विदइ

भयभीत होता है = बीड़इ
 भूंकता है = बुकइ
 विरोध करता है = बाहइ
 फिसलता है = फेल्लुसइ
 छूता है = फरिसइ
 फटता है = फटइ
 उल्ललता है = फंफइ
 पुष्ट होता है = पोसइ
 रुई धुनता है = पिजइ
 पालन करता है = पालइ
 आरम्भ करता है = आरंभइ, पारंभइ

प्रकट करता है = पांगडइ
 पहुँचता है = पहुच्चइ
 भागता है = पलायइ
 पहिरता है = परिहइ
 स्तुति करता है = शुइ
 लपेटता है = परिआलइ
 मुरझाता है = पमिलायइ
 भूल जाता है = पम्हअइ
 विछाता है = पत्थरइ
 प्रतिघात करता है = पडिहणइ
 गीला करता है = थिमइ

Translate into Prakrit पाइयभासाए अणुवायं कुण्णन्तु

यह उसका घर है। उसके यहाँ चावल नहीं है। उनके घर में कौन रहता है। उनका पत्र कब आया है। वह कहाँ रहता है। उसका स्वभाव कैसा है। वह क्या कार्य करता है। उसका घर कहाँ पर है। उनके कितने पुत्र हैं। उनके घर में तुम कब जाते हो। मैं पटना जाता हूँ। तुम वाराणसी जाते हो। उस राजा के राजपुत्र हैं। उसके यहाँ मैं रहता हूँ। मेरा उसके साथ अच्छा सम्बन्ध है। रामदास उसका छोटा भाई है। मोहन उसका बड़ा भाई है। मेरा घर कानपुर है। तुम्हारा घर पटना है। वाराणसी में मेरा भाई रहता है। तुम्हारी परीक्षा कब है। हम लोग सब बातों को जानते हैं। वह जल पीता है। मैं दूध पीता हूँ। उनकी लड़की जैन वाला-विश्राम में पढ़ती है। मैं पुस्तक लिखता हूँ। उनका अध्ययन अच्छा है। वह अध्यापक है। भारतमाता सबकी पूज्य है। मैं दूसरों के साथ रहता हूँ। उसकी तीन कन्याएँ हैं।

यह देव की वंदना करता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। हम लोग नाटक देखते हैं। वह इनसे धन लेता है। इसके द्वारा कार्य होता है। उसकी लड़की आटा पीसती है। मेरा लड़का लिखता है। तुम लोग पुस्तक लेते हो। तुम लोग ध्यान देते हो। हम लोग भी काम करते हैं। मेरा साथी पढ़ता है। उन पर उनका कर्ज है। उस नगर की अवस्था अच्छी नहीं है। अरे मित्र देखो। वे लोग घर में रहते हैं। तुम लोग झोपड़ी में रहते हो। तुम लोग घोलते हो। हम लोग परिश्रम करते हैं। वे तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। वह हमारा मित्र है। तुम समय पर काम करते हो। तुम इसी तरह कहते हो।

तुम पेड़ के नीचे रहते हो। हम लोग यहीं पर रहते हैं। मैं राम को देखता हूँ। मैं दीपावली पर घर आया हूँ। तुम चलते हो। तुम लोग उत्तर से आते हो। हम लोग नौकर को भेजते हैं। तुम्हारा दुपट्टा अच्छा है। तुम झरना देखते हो। तुम कपड़े की चाँदनी लगाते हो। तुम वन्दर नचाते हो। तुम निकुञ्ज में रहते हो। तुम्हारा कपटाचार अच्छा नहीं है। तुम्हारा हाथी जाता है। तुम्हारे खेत में कदम्ब का पेड़ है। तुमने गौरैया पक्षी पाला है। तुम गरिष्ठ भोजन करते हो। हम लोगों के घर में यक्ष रहता है। वह बूढ़ा आदमी तुम्हारी प्रशंसा करता है। वह काला आदमी ग्रन्थ लिखता है। वह कर्पूर जैसा सफेद है। वह कछुआ भी तुम्हारे साथ चलता है। मैं कृष्णपक्ष में पढ़ता हूँ। तुम प्रतिदिन पढ़ते हो। वह गवैया मेरा भाई है। तुम्हारी वाणी कर्कश है। तुम्हारी चादर मे गांठ है। वह पाकिटमार तुम्हारा धन लेता है। तुम्हारा पुत्र निर्बल है। मेरा भाई दूध पीता है। उसके यहाँ गधा रहता है।

Exercise अभ्यासो

Translate into Hindi हिन्दी भासाए अणुवायं कुणन्तु

तत्थ य वाराणसी णाम णयरी । तत्थ एगो रिद्धि-धणसमिद्धो णरिंदो वसइ । तया एगेण मन्तिणा भणियं । हत्थिणाउरे सूरनामा रायपुत्रो परिवसइ । सो वरो मोयणं कुणन्तो उट्ठिउं लग्गो । तया रण्णी दासि पुच्छइ । तया महिसी कुंभगरिं नियसहि पुच्छइ, पहाणो नरिदं पुच्छइ—“एत्थ को मञ्चुं पाविओ” । सच्चं कहेसु एअस्स कारणं । एगसरिसी अवत्था कस्स होइ । तेण मए कहियं एगा थाली नाथि । तओ किकरेण सव्वाओ गणिआओ । सव्वेसु धम्मेषु जत्थ पाणाइवाओ न विज्जइ, सो धम्मो सोहणो होइ । विसया न उवसमन्ते । पच्चूसे सो उज्जाणं जाइ । बुद्धतणे वि मूढाणं नराणं णाणं न होइ । तस्स उज्जाणे पुप्फाणि सन्ति । अत्रि कुसलं सिधुणाहस्स । जं देवो आणवेदि । कस्स णट्टणं होइ । अअं अवसरो अम्हाणं पओअ-विण्णाणं दंसिटु । मोहणो मिच्छा तं कुञ्जइ । तुमं इदं जाणासि ण वा । पावाणं कम्माणं खयाए सो काउस्सगं करइ । मज्जमि मंसम्मि य पसत्ता मणुसा निरयं वच्चन्ति । परोवयारो पुण्णाय, पावाय अन्नस्स पीलणं । किं वि अच्छारिअं सुणाट्ट भावो । मूढो हं तत्तो कत्थ गच्छामि, कहिं चिट्ठमि, कस्स कहेमि, कस्स रूसेमि । कासी-नथरी-नरेसो एसो द्ढभुयवलो नाम । वरसु इमं जइ गंगं महसि द्ढट्ठुं । जीवा पावेहि कज्जेहि निरयंसि गच्छन्ति । चंदेसु निम्मलयरा तित्थयरा हुंति । जरिसो जणो होइ तस्स मित्तो वि तारिसो विज्जइ । मइरामउम्मत्ती नच्चट्ट, गायइ, पइसइ, पणमइ, परिचयइ वत्थं वि । तत्थ

य अन्नया कयाइ नडो आगओ । सो य तस्स पुत्तो नडसंसग्गीए नडो जाओ । नंदपुरम्मि वसुभूई नाम वंभणो परिवसइ । सो अज्जावओ अत्थि । सा मम मोत्तुं कत्थ गया । तुमं एयस्स परिक्खणं करेज्जासि । अहं नयरं गच्छामि चंदग्गहणं भविस्सइ । एवं वइत्ता गओ सो । न य करे घयतं-दुलाइं अत्थि । तइयाए धूयाए पुणो भणियं । तओ तस्स जामाउयस्स समीवं गंतूण मारुए भणियं । सो जंपइ—अम्ह वि एस कुलधम्मो । तस्स सुहा महित्ता लीलानिलओ । तेसि य तिन्नि धूया जाया । ता गउरव-पयं न हौंति । भो वयस्स पेक्ख । सो अट्ठवरिसो जाओ । एत्थंतरे तत्थागयं मुणियुयलं । इमो बालओ एयस्स वरस्स सामी अत्थि । जं तुमं भणसि तं हं करेमि । सो धीवरो दीणारं लहित्ता चित्तेइ ।

तइओ पवाढओ Lesson 3

इकारान्त और उकारान्त शब्दों के रूप और प्रयोग

६. इकारान्त और उकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों में प्रथमा के एकवचन और बहुवचन में, तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के बहुवचन में अन्त के इकार और उकार को दीर्घ हो जाता है।

१०. प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में ओ और णो आदेश होता है।

११. इकारान्त और उकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों में तृतीया विभक्ति के एकवचन में णा आदेश होता है।

पुँल्लिङ्ग इकारान्त हरि शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	हरी	हरओ, हरिणो
ची०	हरि	हरिणो, हरी
त०	हरिणा	हरीहि
च०	हरिणो, हरिस्म	हरीण, हरीणं
पं०	हरिणो, हरित्तो	हरीहितो, हरीसुंतो
छ०	हरिणो, हरिस्स	हरीण, हरीणं
स०	हरिस्मि, हरिसि	हरीसु, हरीसुं
स०	हरी	हरओ, हरिणो

पुँल्लिङ्ग इकारान्त णरवइ-नरपति शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	णरवई	णरवओ, णरवइणो
ची०	णरवईं	णरवइणो, णरवईं
त०	णरवइणा	णरवईंहि
च०	णरवइणो, णरवइस्रा	णरवईंण, णरवईंणं
पं०	णरवइणो, णरवइत्तो	णरवईंहितो, णरवईंसुंतो
छ०	णरवइणो, णरवइस्स	णरवईंण, णरवईंणं
स०	णरवइस्मि, णरवइंसि	णरवईंसु-सुं

पुँल्लिङ्ग इकारान्त इसी-रिसी (ऋषि) शब्द

	एकवचन	बहुवचन
प०	इसी	इसओ, इसिणो
वी०	इसि	इसिणो, इसी
त०	इसिणा	इसीहिं
च०	इसिणो, इसिस्स	इसीण-णं
प०	इसिणो, इसित्तो	इसीहितो, इसीसुंतो
छ०	इसिणो, इसिस्स	इसीण-णं
स०	इसिम्मि, इसिसि	इसीसु-सुं

पुँल्लिङ्ग इकारान्त अग्नि (अग्नि) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	अग्नी	अग्गओ, अग्गिणो
वी०	अग्नि	अग्गिणो, अग्गी
त०	अग्गिणा	अग्गीहिं
च०	अग्गिणो, अग्गिस्स	अग्गीण-ण
प०	अग्गिणो, अग्गित्तो	अग्गीहितो, अग्गिसुंतो
छ०	अग्गिणो, अग्गिस्स	अग्गीण-णं
स०	अग्गिम्मि, अग्गिसि	अग्गीसु, अग्गीसुं

इसी प्रकार मुणि (मुनि), वोहि (वोधि), संधि, रासि (राशि), रधि, कड (कवि), कवि (कपि), अरि, तिमि; समाहि (समाधि), निहि (निधि), विहि (विधि), दंडि (दण्डिन्), करि (करिन्), तवस्सि (तपस्विन्), पाणि (प्राणिन्), पहि (प्रधी), सुहि (सुधी) आदि शब्दों के रूप होते हैं ।

पुँल्लिङ्ग उकारान्त भाणु (भानु) शब्द

	एकवचन	बहुवचन
प०	भाणू	भाणुणो, भाणुओ
वी०	भाणु	भाणुणो, भाणू
त०	भाणुणा	भाणूहिं
च०	भाणुणो, भाणुम्म	भाणूण-णं
प०	भाणुणो, भाणुत्तां	भाणूहितो, भाणूसुंतो
छ०	भाणुणो, भाणुस्स	भाणूण-णं
स०	भाणुम्मि, भाणुत्ति	भाणूसु, भाणूसुं

पुँल्लिङ्ग उकारान्त वाउ (वायु) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	वाऊ	वाउणो, वाउओ
वी०	वारं	वाउणो, वाऊ
त०	वाउणा	वाऊहिं
च०	वाउणो, वाउस्स	वाऊण-णं
पं०	वाउणो, वाउत्तो	वाऊहितो, वाऊसुंतो
छ०	वाउणो, वाउस्स	वाऊण-वाऊणं
स०	वाउम्मि, वाउंसि	वाऊसु, वाऊसुं

इसी प्रकार जउ (यदु), धम्मण्णु (धर्मज्ञ), सव्वण्णु (सर्वज्ञ), दइवण्णु (दैवज्ञ), गउ (गो), गुरु, साहु (साधु), वउ (वपुष्), मेरु, कारु, धणु (धनुष्), सिन्धु, केउ (केतु), विज्जु (विद्युत्), राहु, संकु (शङ्कु), उच्छु (इच्छु), पवासु (प्रवासिन्), वेलु (वेणु), सेउ (सेतु), मच्चु (मृत्यु), खलपु (खलपू), गोत्तभु (गोत्रभू), सरभु (शरभू), अभिभु (अभिभू) और सयंभु (स्वयंभू) आदि शब्दों के रूप होते हैं । प्राकृत में खलपू, गोत्तभू, सरभू, अभिभू और सयंभू शब्द विकल्प से ह्रस्व उकारान्त होते हैं । अतः इन शब्दों के रूप वाउ के समान बनते हैं ।

१२. ईकारान्त और ऊकारान्त शब्दों के रूप इकारान्त और उकारान्त शब्दों के समान होते हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने दीर्घ—ईकार और उकार के लिए ह्रस्व—इकार और उकार का नियमन किया है ।

पुँल्लिङ्ग दीर्घ ईकारान्त पही (प्रधी) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	पही	पहओ, पहिणो
वी०	पहिं	पहिणो, पही
त०	पहिणा	पहीहिं
च०	पहिणो, पहिस्स	पहीण-णं
पं०	पहिणो, पहिन्तो	पहीहितो, पहीसुंतो
छ०	पहिणो, पहिस्स	पहीण-णं
स०	पहिम्मि, पहिस्सि	पहीसु-सुं

पुँल्लिङ्ग दीर्घ ईकारान्त गामणी (ग्रामणी)

	एकवचन	बहुवचन
प०	गामणी	गामणओ, गामणिणो
वी०	गामणि	गामणिणो, गामणी
त०	गामणिणा	गामणीहिं
च०	गामणिणो, गामणिस्स	गामणीण-णं
पं०	गामणिणो, गामणित्तो	गामणीहितो, गामणीसुंतो
ल०	गामणिणो, गामणिस्स	गामणीण-णं
स०	गामणिम्मि, गामणिसि	गामणीसु-सुं

पुँल्लिङ्ग दीर्घ ऊकारान्त खलपू शब्द

	एकवचन	बहुवचन
प०	खलपू	खलपवो, खलपओ, खलपुणो
वी०	खलपुं	खलपुणो, खलपू
त०	खलपुणा	खलपूहि
च०	खलपुणो, खलपुस्स	खलपूण-णं
पं०	खलपुणो, खलपुत्तो	खलपूहितो, खलपूसुंतो
ल०	खलपुणो, खलपुस्स	खलपूण-णं
स०	खलपुम्मि, खलपुंसि	खलपूसु-सुं

दीर्घ ऊकारान्त सयंभू (स्वयम्भू-विधाता) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	सयंभू	सयंभओ, सयंभुणो
वी०	सयंभुं	सयंभू, सयंभुणो
त०	सयंभुणा	सयंभूहि
च०	सयंभुणो, सयंभुस्स	सयंभूण-णं
पं०	सयंभुणो, सयंभुत्तो	सयंभूहितो, सयंभूसुंतो
ल०	सयंभुणो, सयंभुस्स	सयंभूण-णं
स०	सयंभुम्मि, सयंभुंसि	सयंभूसु-सुं

प्रयोगवाक्य

हरि पढ़ता है = हरी पढ़इ ।

हरि का घर पटना में है = हरिणो गिहं पढलिउत्ते अत्थि ।

हरि से धन माँगता है = हरित्तो धणं मग्गइ ।

हरि को धन देता है = हरिणो धणं देइ ।

मोहन हरि को गाली देता है = मोहनो हरि अकोसइ ।

वह हरि की तलवार को फेंकता है = सो हरिणो करवालं अक्खिबइ ।

तुम हरि के कमरे को साफ करते हो = तुम हरिणो कक्खं पमज्जसि ।

मैं हरि से प्रार्थना करता हूँ = अहं हरिणो पत्थेमि या हं हरि पत्थेमि ।

तुम लोग पहाड़ से गिरते हो = तुम्ह गिरिणो पडित्था ।

तुम पहाड़ पर क्यों रहते हो = तुमं गिरिम्मि कहां णिवससि ।

वह पहाड़ पर कहाँ रहता है = सो गिरिम्मि कत्थ णिवसइ ।

वे पहाड़ से पत्थर लाते हैं = ते गिरित्तो पाहणं नेत्ति ।

राजा की सेना पहाड़ पर चढ़ती है = णरवइणो सेणा गिरि आरोहइ ।

राजा के कर्मचारी बाजार जाते हैं = णरवइणो मिच्चा हट्ठे गच्छन्ति ।

वे लोग पहाड़ पर रहते हैं = ते जणा गिरि णिवसन्ति ।

हम लोग हरि की प्रशंसा करते हैं = अम्ह हरि अच्ची करेमि ।

वे लोग पहाड़ पर पहुँचते हो = ते जणा गिरि पहुच्चन्ति ।

मुनि लोग पहाड़ पर तपस्या करते हैं = मुणिणो गिरिम्मि तवं करेन्ति ।

ऋषि तुम्हारे घर भोजन करते हैं = इसिणो तुज्झ घरे भोयणं करेन्ति ।

वह ऋषियों से पुस्तक मागता है = सो इसीहितो पोत्थय मग्गइ ।

वे लोग घर में अग्नि जलाते हैं = ते जणा गिहे अग्गिं पज्जलन्ति ।

अग्नि से स्फुल्लिङ्ग निकलते हैं = अग्गित्तो फुल्लिगा निकसन्ति ।

वे लोग सूर्य को देखते हैं = ते जणा सुज्जं पेच्छन्ति ।

हवा चलती है = वाऊ वहइ ।

हम लोग ऋषियों की प्रशंसा करते हैं = अम्ह इसीण पसंसणं करिमो ।

हम लोग ऋषियों के लिए आसन विछाते हैं = अम्ह इसीणं आसणं पत्थरिमो ।

बुद्धिमान् व्यक्ति पाव से भागते हैं = पहिणो पावत्तो पलायन्ति ।

तुम लोग पहाड़ से फिसलने हो = तुमं गिरित्तो फेल्लुसित्था ।

मैं मुनियों की पूजा करता हूँ = हं मुणिगो अंचेमि, अच्चेमि वा ।

मैं प्रमाणित करता हूँ = हं पमामि ।

वे लोग मुनियों की स्तुति करते हैं = ते मुणिगो थुवन्ति ।

वायु मे चलना संभव नहीं है = वाउम्मि गमणं संहवं एत्थि ।
 तुम लोग ऋषियों को भूल जाते हो = तुम्ह इसिणो पम्हइत्था ।
 वे लोग मुनियों की सेवा करते है = ते मुणिणो अणुचरन्ति ।
 वे लोग धनुष खींचते हैं = ते धणुं अणुकडढन्ति ।
 ऋषि लोग प्राणियों पर दया करते हैं = इसिणो जीवेसु दया कुणन्ति ।
 मृत्यु को जानकर वह दुःखी होता है = मच्चुं णात्वा सो दुही होइ ।
 विधाता सृष्टि का पालन करता है = सयंभू सिद्धिं पालइ ।
 मैं शीघ्र भूलता हूँ = हं सिग्घं पम्हएमि ।
 उस नगर में ऋषि रहते हैं = तम्मि णथरे इसिणो णिवसन्ति ।
 वे सर्वज्ञ की स्तुति करते हैं = ते सब्बणुं पत्थेति ।
 हम लोग बाध बांधते हैं = अम्हे बांधं वंधिमो ।
 उन ऋषियों के फूल मुरझाते हैं = ताणं इणीणं फुरझाणि पमिलायन्ति ।
 तुम गुरु के पास से पुस्तक लाते हो = तुमं गुरुणो समीवत्तो पोत्थयं नेसि ।
 किस ऋषि ने यह काम किया है = केण इसिणा इदं कज्जं कयं ।
 कौन व्यक्ति मुनियों के पास पढ़ता है = को पुरिसो मुणिणो समीवं पढइ ।
 ऋषि लोग ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं = इसिणो गंथाणं सब्बायं कुणन्ति ।

किन के द्वारा यह कार्य हुआ है = केहि इदं कज्जं कयं ।
 गाँव का मुखिया तुम्हारी निन्दा करता है = गामणी तुम्हं पगंथइ ।
 प्रवासी अपने गाँव को जाता है = पवासु णियगामं गच्छइ ।
 वे लोग गन्ना खाते हैं = ते जणा उच्छुणो खादन्ति ।
 मृत्यु को कौन चाहता है = मच्चुं को अहिलसइ ।
 राम समुद्र पर पुल बांधना है = रामो समुदोवरि सेठं वंधइ ।
 सर्वज्ञ की सभी लोग स्तुति करते हैं = सब्बणुं सब्बे थुवन्ति ।
 कृतज्ञ व्यक्ति की हम लोग प्रशंसा करते हैं = अम्ह कयणुं पसंसिमो ।
 कृतज्ञ का व्यवहार अच्छा होता है = कयणुणो व्यवहारं वरं होइ ।
 हम लोग सर्वज्ञ को नमस्कार करते हैं = अम्हे सब्बणुणो नमामो ।
 तुम सूर्य को देखते हो = तुमं भाणुं पेच्छसि ।

उदाहरण वाक्य

तत्थ वन्नु नाम सत्थवाटो = वहाँ वसु नामक सार्थवाह था ।
 तस्स सुन्दरी नाम भारिया = उनकी सुन्दरी नाम की स्त्री थी ।

नहि मरुत्थलीए कप्पपायवो उट्ठेइ = मरुभूमि में कल्पवृक्ष नहीं उत्पन्न होता है ।

भिक्षुगस्स भिक्षुं देहि = भिक्षुक को भिक्षा दो ।

वेसालिए नयरीए जिणदत्तो सेट्ठी = वैशाली नगरी में जिनदत्त सेठ रहता था ।

एयदा गंधहत्थी पाणिए पविट्ठो = एक समय गंधहाथी पानी में प्रविष्ट हुआ ।

न जाणइ सो तस्स विसेसं = वह उसकी विशेषताओं को नहीं जानता है ।

कयउण्णो एसो जीवो = यह जीव पुण्यात्मा है ।

जो एरिसे कुले उववन्नो = जो ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ है ।

अण्णं चितइ हियए = हृदय में अन्य सोचता है ।

रयणीए तीए सह पसुत्तो = रात्रि में उसके साथ सोया ।

तत्थ बलो नाम राया, रई से देवी = वहाँ बल नाम का राजा था और रति नाम की उसकी पत्नी थी ।

तीसे धूया सूरसेणा = उनकी पुत्री शूरसेना थी ।

रूवेण जोव्वणेण य उक्किट्ठा = रूप और यौवन में उत्कृष्ट थी ।

जहाविहीए वंदिऊण गच्छन्ति इसिणो = यथाविधि वंदना करके ऋषि जाते हैं ।

गाओ पुत्तलाहो गामाणिणो = गाँव के मुखिया को पुत्रलाभ हुआ ।

पडिबुद्धा पाणिणो इसि-उवएसेण = ऋषि उपदेश से प्राणी प्रतिबुद्ध हुए ।

सुमरियं पुव्वभवकयं पहिणा = राहगीर ने पूर्वभवकृतकर्म का स्मरण किया ।

लच्छी निय-इच्छाए गच्छइ = लक्ष्मी अपनी इच्छा से जाती है ।

संभाए नईतडत्थिए नियपासादे गओ = सन्ध्या समय नदी किनारे स्थित अपने भवन में गया ।

सहसा अविआरिअं कज्जं कयं = सहसा बिना विचारे कर्म किया है ।

ते अडविं गच्छन्ति = वे वन में जाते हैं ।

पुण्णप्पहावेण तस्स असी न चलइ = पुण्य के प्रभाव से उसकी तलवार नहीं चलती है ।

तस्स गामणिणो एगो कोढिय पुत्तो अत्थि = उस गाँव के मुखिया का एक कोढ़ी पुत्र था ।

सो किवणसेट्ठी तं भूमिघरे रक्खइ = वह कृपण सेठ उसे तलघर में रखता है ।

जं भाधि तं अन्नहा न होइ = जो दोनहार है, वह अन्यथा नहीं होती

कमेण निगामे सव्वे पहिणो आगच्छन्ति = क्रम से अपने ग्राम में पथिक आते हैं ।

कुलबहूणं एसो च्चिअ सामी = कुलबन्धुओं के लिए यही स्वामी है ।

नरिंदो नियबंधुणा गच्छइ = राजा अपने भाई के साथ जाता है ।

जिणदासो आगच्च गामिणं पणमइ = जिनदास आकर गाँवके मुखिया को प्रणाम करता है ।

तुं अम्हे किं परिजाणासि = क्या तुम हमको जानते हो ।

गिरित्तो वाहि खन्धावारो अत्थि = पहाड़ से बाहर स्कन्धावार है ।

शब्दकोष

अक्खि = नेत्र, आँख

अग्नि = अग्नि

कइ = कवि

केसरि = सिंह

कन्ति = कान्तिमान्

खत्ति = क्षत्रिय

गिरि = पर्वत

गंठि = गाँठ

चक्खट्टि = चक्रवर्ती

जोगि = योगी

धणि = धनवान्, धनिक

मणि = रत्न

मंति = मन्त्री

मुणि = मुनि

मुरारि = कृष्ण

रम्मि = रज्जू, किरण

वणस्सइ = वनस्पति

वादि = व्याधि, पीडा

विहि = विधि, ब्रह्मा

निवइ. निव = राजा, नृपति

निहि = निधि, भण्टार

पइ = पति, स्वामी, मालिक

परमेहि = परमेष्ठी, उच्च अधिकारी

पंखि = पक्षी

फणि = सोंप

भाइ = भाई

भिक्खारि = भिखारी, भीख माँगने-वाला

वेरि = शत्रु

ससि = चन्द्रमा

संति = शान्ति

सामि = स्वामी

सारहि = सारथी,

सेट्टि = सेठ, धनी

हत्थि = हाथी

हरि = विष्णु, कृष्ण, इन्द्र

अग्गणि = नेता, अग्रेसर

गामणि = मुखिया

सुगन्धि = सुगन्धवाला

सुरहि = सुगन्धि

सुलच्छि = लक्ष्मीवान्

मणंसि = मनस्वी

दुहि = दुःखी

वावारि = व्यापारी

सुहि = सुखी

उवहि = उपाधि, माया

ओहि = अवधि, सयादा
 कुच्छि = कुक्षि, उदर, पेट
 नाणि = ज्ञानी, ज्ञानवान्
 विहवि = समृद्धिवाली
 सूरि = आचार्य
 सेणावइ = सेनापति
 रिसि = मुनि, ऋषि
 जइ = यति, साधु, भिन्न
 भत्ति = भक्ति, सेवा
 मइ = मति
 नरवइ = नरपति, राजा
 दंडि = दण्डा धारण करने वाला
 अरि = शत्रु
 समाहि = समाधि
 करि = हाथी
 तवस्सि = तपस्वी
 पाणि = प्राणवान्
 रवि = सूर्य
 रासि = राशि
 पहि = रास्तागीर
 पहि = बुद्धिमान
 आसु = आसू
 गुरु = बड़ा, पूज्य
 चक्खु = आँख
 जण्हु = घुटने
 जंतु = प्राणी
 जंबु = जामुन फल
 जियसत्तु = जितशत्रु राजा
 जामाउ = जामाता, दामाद
 तंतु = तंतु, धागा
 तरु = वृक्ष
 धणु = धनुष
 पसु = पशु

इन्द्रधणु = इन्द्रधनुष
 विटु = विन्द, वृद्ध
 महु = मधु
 उडु = एक विमान का नाम
 कंचु = कञ्चुक, चोली
 कडु = कडुआ, तिक्तरस
 करेणु = हाथी
 कुन्थु = तीर्थकर का नाम
 केउ = केतु, ध्वजा
 गउ = वैल, वृषभ, साँड़
 गरु = बड़ा
 चउ = चतुर
 चट्टु = लकड़ी का पात्र विशेष
 चरु = पात्रविशेष
 छेतु = काटनेवाला
 हेउ = हेतु, कारण
 तणु = पतला, कृश, शरीर
 तेउ = अग्नि, तेज
 थाणु = महादेव, शिव
 दुप्पिउ = दुष्टपिता
 पंगु = लंगड़ा
 पडु = पट्ट, चतुर
 कयणु = कृतज्ञ
 दिग्घाउ = दीर्घायु
 परिफुड = फोड़नेवाला, भेदक
 पहु = प्रभु, स्वामी, परमेश्वर
 पाउ = गुदा, भात, ऊख
 पाणु = प्राण-वायु, श्वासोच्छ्वास
 पिउ = पिता
 पीलु = वृक्ष विशेष
 पुरु = प्रचुर, प्रभूत, एक राजा का नाम
 फरसु = कुठार, कल्हाड़ा

भिड = एक ऋषि का नाम
 मग्नु = पक्षिविशेष, मार्ग
 मच्चु = मृत्यु
 मणु = प्रजापति, मुनिविशेष
 मन्नु = क्रोध
 मरु = वायु, निर्जल प्रदेश
 मेरु = पर्वत विशेष
 रहु = रघु—सूर्यवंश का राजा
 रिड = शत्रु
 रुरु = मृगविशेष
 वाड = वायु, पवन
 विड = विद्वान्, पंडित
 विच्छु = विच्छू, जन्तुविशेष
 विज्जु = विजली, विद्युत्

विन्हु = विष्णु,
 विण्हु = विष्णु
 विभु = स्वामी, परमेश्वर
 विहु = चन्द्र, ब्रह्मा
 वेलु = चोर
 सत्तु = शत्रु, सत्त
 साहु = साधु
 हिगु = हींग
 हिन्दु = हिन्दू
 विआलिड = बाण
 दाड = देनेवाला
 भत्तु = स्वामी
 साड = स्वादिष्ट
 चारु = सुन्दर

धातुकोष

सुणइ = सुनता है
 रोवइ, रुवइ = रोता है
 दरिसइ = बतलाता है, दिखाता है
 दिक्खइ = देखता है
 दमइ = निग्रह करता है
 तसइ = टसता है, त्रास पाता है
 तावइ = गर्म करता है
 ताडइ = ताड़ना करता है
 इच्छइ = इच्छा करता है
 वट्टइ = बढ़ता है
 अत्थइ = बैठता है
 वसइ = जाता है
 सिज्जइ = खिन्न होता है
 वेडइ = वेष्टित करता है
 रन्धइ = रोकता है
 नमइ, नवइ = भुङ्कता है
 ओमीलइ = मुद्रित होता है, बन्द
 होता है

ओयत्तइ = उलटता है
 कंडइ = धान का छिलका अलग
 करता है
 कड्ढइ = खींचता है
 कणइ = आवाज करता है
 कमइ = संगत होता है, युक्त होता है
 कम्मइ = हजामत बनाता है, क्षौर
 कर्म करता है।
 कलहइ = झगड़ा करता है
 उम्मुंचइ = परित्याग करता है
 वल्लवइ = बकवाद करता है
 जवइ = व्यवस्था करता है
 जाइ = जाता है, गमन करता है
 जागरइ = जागता है, नींद छोड़ता है
 जामइ = साफ करता है
 जीवइ = जीता है
 जुड्छइ = घृणा करता है

जुञ्झइ = युद्ध करता है लड़ाई
 करता है
 जोअइ = प्रकाशित करता है
 मग्गइ = दूढ़ता है
 नस्सइ = नष्ट होता है
 तुट्टइ = टूटता है
 सिव्वइ = सीता है
 जिणइ = जीतता है
 लुणइ = काटता है
 वरइ = वरण करता है
 सरइ = खिसकता है ।
 जरइ = जीर्ण होना, पुराना होना
 ओगाहइ = अवगाहन करता है
 ओगिण्हइ = अनुज्ञापूर्वक ग्रहण
 करता है
 ओग्गहइ = ग्रहण करता है
 ओइंधइ = छोड़ देता है
 ओंगणइ = अव्यक्त ध्वनि करता है
 ओणंदइ = अभिनन्दन करता है
 ओणमइ = नीचे नमता है
 ओणल्लइ = नीचे लटकता है

ओभासेइ = चमकता है, प्रकाशित
 होता है
 कज्जलावेइ = दूबता है
 कढइ = उत्रालता है, तपाता है
 कप्पइ = समर्थ होता है, कल्पना
 करता है
 कमइ = चलता है, उलंघन करता है
 कम्मवइ = उपभोग करता है
 उल्लसइ = विकसित होता है
 उव्मुअइ = उत्पन्न होता है
 जलइ = जलता है
 जवइ = जाप करता है, मन ही मन
 देवता का स्मरण करता है
 जाणइ = जानता है
 जिवइ = सूघता है
 जिणइ = जीतता है, वश करता है
 जुंजइ = जोड़ता है, प्रयुक्त करता है
 जूरइ = खेद करता है, क्रोध करता है
 भंखइ = विलाप करता है, उलाहना
 देता है

अवभासो Exercise

Translate into Prakrit पाइयभासाए अणुवायं कुणन्तु

अग्नि जलती है । सिंह वन में गरजता है । कवि काव्य लिखता है ।
 चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जाता है । योगी पहाड़ पर ध्यान करते हैं ।
 वनस्पतियों पहाड़ों पर होती हैं । उसके शरीर में पीड़ा है । उसके घर में
 निधि है । मेरा स्वामी अच्छा व्यक्ति है । ब्रह्मा की सृष्टि सदा चलती
 रहती है । भिखारी भोजन मागकर पेट भरता है । शत्रु आक्रमण करते हैं ।
 चन्द्रमा आकाश में प्रकाशित होता है । सारथी रथ चलाता है । सेठ के
 पास हाथी हैं । विष्णु रक्षा करता है । जिनेन्द्र इन्द्रियों को जीतते हैं ।
 सेनापति सेना का संचालन करता है । तपस्वी गुफा में तप करते हैं ।
 उच्चाधिकारी पटना में रहते हैं । पक्षी आकाश में उड़ता है । भाई अपना

हिस्सा लेता है। राहगीर अपने साथ भोजन रखता है। तुम्हारी भक्ति सफल होती है। ज्ञानी कभी कष्ट नहीं पाता। सदाचारी सर्वदा आचार का पालन करता है। प्राणियों की रक्षा हम सदा करते हैं। व्यापारी व्यापार में बहुत धन कमाते हैं। गाँव का मुखिया अच्छा प्रबन्ध करता है। नेता सदा सम्मान पाते हैं। क्षत्रिय वीर होते हैं। वे सदा युद्धभूमि में वीरता दिखलाते हैं। हमारी इच्छा पढ़कर लिखने की है। मणि की चमक अच्छी होती है। उसकी आँख में रोग है। मनस्वी व्यक्ति कर्मठ होते हैं। उनका काम कभी भी समाप्त नहीं होता है। हमारे नगर के व्यापारी सुखी हैं।

उनकी आँखों से आँसू निकलते हैं। जामुन के फल काले होते हैं। मथुरा में जितशत्रु राजा राज्य करता है। मृग को मारने के लिए वह वाण चलाता है। उसके रथ पर हनुमानजी की ध्वजा है। महादेव को हमलोग प्रणाम करते हैं। इसका शरीर दुबला है। दुष्ट पिता अपने बच्चों को अधिक पीटता है। लगड़ा आदमी कष्ट पाता है। जीवन में कृतज्ञ होना आवश्यक है। देनेवाला धन दान करता है। रघु का राज्य अयोध्या में था। परशुराम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। विच्छू का विष चढ़ता है। शीतल वायु चल रही है। हींग की गन्ध तेज है। मृत्यु अनिवार्य होती है। प्रभु की लीला विचित्र होती है। सर्वज्ञ समस्त बातों को जानते हैं। हिन्दुओं के लिए गया पवित्र तीर्थ है। पावापुरी में दीपावली के दिन मेला लगता है। मेरु पर्वत पर कल्पवृक्ष है। उसका दामाद जैन कालेज में पढ़ता है। हाथी तालाब में कूदता है। उसका क्रोध बढ़ता है। प्राणिहिंसा में अधर्म होता है। सदाचार अमूल्य सम्पत्ति है। अध्ययन करने से विवेक की प्राप्ति होती है। मन्दिर पर ध्वजा लटकती है।

Translate into Hindi हिन्दीभाषाम् अणुवायं कुणन्तु

एणं चंपानयरीए नायनिउगो विक्कमो नाम राया रउं कुणेइ ।
 उउवणे दिउगा तस्म लीलवणं कश्चाए सह पाणिगहणं करं । एवं तेत्ति आण-
 देण दिवमा गच्छति । एणं सोउग हरिसिओ चित्तेण । न एस्स तुमिणओ
 अण्णत्ता परिणमइ. उउवण्णिओ (जगाया गया) पाहाउयनूरेणं (प्रात-
 फालीन गयों से) । कस्स दि नररे एगेण नरिदेण गियगयरे आएमो
 दिण्णो । नाममउक्के एगो देवालओ अत्थि । पुरीए माहगा वा वडन्ता ग
 न्तिया वा तुहा व वा नयव्यासिणो जे लोगा सन्ति तेहि देगए
 पविंसिअ देव वंदित्ता गंतव्वं । एगो उंभवारो तमाएसं तुणइ । अण्णं तं

महारायं न जाणिमो । अहं संबंधत्तणेण पुच्छामि । तथा सो जिणदासो तं
इसिं वंदइ । ते जणा भाणु पेच्छन्ति । अज्ज अम्हाणं दिवसो सहसो,
जं णिउपायदंसणं जायं । तथा सवंधू नरिंदो सीहासणाओ उत्थाय पिउस्स
पाए पडिओ । मुणि-आअमण-समाचारं लोयमुहाओ जागिऊण (जानकर)
सिग्घं तत्थ गच्छंति जणा । नरिंदो वि तस्स मुणिणो सव्वमवराहं खमेइ ।
इसिणो जणा मण्णन्ति । आजीवणं सो भाणुं अंचइ । तस्स सेट्ठिणो एए
पुत्ता संति । दिण्णा य तेहि किकराण आणत्ती जहा, एयं आरोह वारुणि ।
आणिय तेहि ।

ते सिग्घं इसिं पियरं च रहं समारोवेऊण (बैठाकर) वणं गच्छंति ।
न सोहणं कयं जं तुममेत्थमागओ । रायगिहे नयरे चत्तारि वयंसा वाणियगा
सहवदिया । ते भद्वाहुस्स अंतिए धम्मं सुच्चा पव्वइया । सो तं खुड्डुगं
पुत्तनेहेण न कचाइ भिक्खाए हिंडावेइ । माया वि पुत्तपउत्ति अयाणंती
अइमोहेण उम्मत्तिया जाया । पावकम्मो अहं न तरामि संजमं काळं, जइ
परमणसणं करेसि । अन्नं इमं सरीरं, अन्नो जीवोत्ति एव कयबुद्धी इसिणो
होन्ति । ते सरीरम्मि ममत्तं छिदंति । एत्थ एगो साहू पाहुणगो (अतिथि)
आयाइ । राया तस्स मूलमागओ । तत्थ वदिया गुरू, निसुओ धम्मो ।
ताहे सीहगुहाओ साहू आगओ चत्तारि मासे उववासं कुणइ । पुच्छिओ
तेहि साहूण सुहविहाराइपउत्ती । तेसिं तं वयणं सोऊण नट्ठा वाणमंतरी ।
सव्वे संजमे तत्रे चरणे उज्जुत्ता हवंति । ते न जाणंति—कयरेण मग्गेण
नीयाओ । ते साहुं पुच्छंति । तओ ते रोसेण निरवराइं दीवायणरिसि
पहरंति । पायतले मम्मपएसे विद्धो जणहणो वेगेणं । किमम्हाणं वाहुवलं
पि णत्थि । रयणीथ बहुसंधयारा अत्थि । कूरसत्ता परिभमंति समंतओ ।

अन्य स्वरान्त एवं व्यञ्जनान्त पुँल्लिङ्ग शब्द तथा उनके प्रयोग

१३. संस्कृत के ऋकारान्त शब्द प्राकृत में प्रायः अकारान्त अथवा
उकारान्त हो जाते हैं । यहाँ प्रमुख शब्दरूप दिये जाते हैं :—

ऋकारान्त कर्तृ शब्द—कत्तार और कत्तु

	एकवचन	बहुवचन
प०	कत्ता, कत्तारो	कत्तारा, कत्तओ, कत्तुणो
वी०	कत्तारं	कत्तारा, कत्तुणो
त०	कत्तारेण, कत्तुणा	कत्तारेहि, कत्तित्त

	एकवचन	बहुवचन
च०	कत्तारस्स, कत्तुणो	कत्ताराणं, कत्तूण
पं०	कत्तारत्तो, कत्ताराओ, कत्तुणो	कत्ताराहितो, कत्तारासुंतो
छ०	कत्तारस्स, कत्तुणो	कत्ताराणं, कत्तूण
स०	कत्तारे, कत्तारम्मि, कत्तुम्मि	कत्तारेसु, कत्तूसु

मत्तु—मत्तार, मत्तर, मत्तु शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन:
प०	मत्ता, मत्तारो, मत्तरो।	मत्तुणो, मत्तरा, मत्तओ, मत्तू
वी०	मत्तारं, मत्तरं	मत्तारे, मत्तुणो
त०	मत्तरेण, मत्तुणा, मत्तारेण	मत्तारेहि, मत्तरेहि, मत्तूहि
च०	मत्तारस्स, मत्तुणो	मत्तूण, मत्तराण
पं	मत्तरत्तो, मत्तराओ, मत्तुणो	मत्ताराहितो, मत्तारासुंतो
छ०	मत्तरस्स, मत्तुणो	मत्तराण, मत्ताराण
स०	मत्तरे, मत्तरम्मि	मत्तरेसु, मत्तारेसु

भात्तु—भायर, भाउ शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	भाया, भायरो	भायारा, भाउणो
वी०	भायरं	भायरा, भाउणो
त०	भायरेण, भाउणा	भायरेहि, भाऊहि
च०	भायराय, भायरस्स, भाउणो	भायराणं, भाऊण
पं०	भायरत्तो, भायराओ, भाउणो	भायरेहितो, भायरेसुंतो
छ०	भायरस्स, भाउणो, भाउस्स	भायराणं, भाऊण
स०	भायरे, भायरम्मि, भाउम्मि	भायरेसु, भाऊसु

पित्तु—पिउ, पिअर शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	पिअरो, पिआ	पिअरा, पिउणो
वी०	पिअरं	पिअरे, पिउणो
त०	पिअरेण, पिउणा	पिअरेहि, पिऊहि
च०	पिअरम्म, पिउणो, पिउस्स	पिअराण, पिउण
पं०	पिअराओ, पिउणो, पिअरत्तो	पिअराहितो, पिअरासुंतो
छ०	पिअरस्स, पिउणो, पिउस्स	पिअराण, पिउण
स०	पिअरम्मि, पिअरम्मि, पिउम्मि	पिअरेसु, पिऊसु

दातृ—दाउ, दायार शब्द—दाता-देनेवाले के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	दायारो, दाउणा	दायारा, दउणो
वी०	दायारं	दायारे, दाउणो
त०	दायारेण, दाउणा	दायरेहि, दाऊहि
च०	दायारस्स, दाउणो	दायाराण, दाऊण
प०	दायाराओ, दाउणो	दायाराहितो, दायारेसुंतो
छ०	दायारस्स, दाउणो	दायाराण, दाऊण
स०	दायारंसि, दायारम्मि, दाउम्मि	दायारेसु, दाऊसु

१४. संस्कृत के ऐकारान्त और औकारान्त शब्द प्राकृत में अकारान्त हो जाते हैं और रूप भी अकारान्त शब्दों के समान होते हैं ।

सुरै (सुरेअ) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	सुरेओ	सुरेआ
वी०	सुरेअं	सुरेआ, सुरेए
त०	सुरेण	सुरेएहि
च०	सुरेअस्स, सुरेआय	सुरेआणं
प०	सुरेअत्तो, सुरेआओ	सुरेआहितो, सुरेआसुंतो
छ०	सुरेअस्स	सुरेआण
स०	सुरेअंसि, सुरेअम्मि	सुरेएसु

गलौ—गिलोअ—चन्द्रमा के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	गिलोओ	गिलोआ
वी०	गिलोअं	गिलोए, गिलोआ
त०	गिलोएण	गिलोएहि
च०	गिलोअस्स, गिलोआय	गिलोआणं
प०	गिलोअत्तो, गिलोआओ	गिलोआहितो, गिलोआसुंतो
छ०	गिलोअस्स	गिलोआणं
स०	गिलोअंसि, गिलोअम्मि	गिलोएसु

व्यञ्जनान्त पुँल्लिङ्ग शब्द

१५. प्राकृत में व्यञ्जनान्त या हलन्त शब्द नहीं होते। कुछ हलन्त शब्दों के अन्त्य व्यञ्जनों का लोप होता है और कुछ हलन्त शब्द अजन्त—स्वरान्त के रूप में परिणत हो जाते हैं।

अप्पाण, अत्ताण, अप्प और अत्त—आत्मन् शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	अप्पाणो, अप्पा, अत्तो	अप्पाणो, अत्ताणो
वी०	अप्पाणं, अत्ताणं, अत्तं	” ”
त०	अप्पणिआ, अप्पणा, अप्पाणेण	अप्पाणेहि, अप्पेहि, अत्ताणेहि
च०	अप्पाणस्स, अप्पणो, अत्तणो	अप्पाणाणं, अत्ताणाणं
प०	अप्पाणत्तो, अप्पाणाओ	अप्पाणाहितो, अप्पाणासुंतो
छ०	अप्पाणस्स, अप्पणो, अत्तणो	अप्पाणाण, अत्ताणाणं
स०	अप्पाणम्मि, अत्ताणम्मि	अप्पाणेसु, अत्ताणेसु

राय—राजन् शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	राया	रायणो, राइणो
वी०	रायं, राइणं	” ”
त०	राइणा, राएण, रण्णा	राएहिं, राईहि
च०	रण्णो, राइणो, रायस्स	राईण, रायाणं
प०	रण्णो, राइणं, रायत्तो	रायाहितो, रायासुंतो, राइहितो
छ०	रण्णो, राइणो, रायस्स	राईण, रायाणं
स०	रायम्मि, राइम्मि	राईसु, राएसु

महव, महवाण—मघवन्—इन्द्र शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	महवो	महवा
बी०	महवं	महवा, महवे
त०	महवेण	महवेहि
च०	महवणो, महवस्स	महवाणं
प०	महवणो, महवत्तो	महवाहितो, महवासुंतो
छ०	महवणो, महवस्सो	महवाणं
स०	महवे, महवम्मि	महवेसु

मुद्ध, मुद्धाण (मुग्ध) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	मुद्धा, मुद्धो	मुद्धा, मुद्धे
वी०	मुद्धं	मुद्धे, मुद्धा
त०	मुद्धणा, मुद्धेण	मुद्धेहि
च०	मुद्धणो, मुद्धस्स	मुद्धाणं
पं०	मुद्धत्तो, मुद्धाओ	मुद्धाहितो, मुद्धासुंतो
छ०	मुद्धणो, मुद्धस्स	मुद्धाणं
स०	मुद्धम्मि, मुद्धे	मुद्धेसु

जम्मो (जन्मन्) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	जम्मो	जम्मा
वी०	जम्मं	जम्मै, जम्मा
त०	जम्मेण	जम्मैहि
च०	जम्माय, जम्मस्स	जम्माणं
पं०	जम्मत्तो, जम्माओ	जम्माहितो, जम्मासुंतो
छ०	जम्मस्स	जम्माणं
स०	जम्मै, जम्मम्मि	जम्मैसु

चन्दमो—चन्द्रमस् शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	चन्दमो	चन्द्रमा
वी०	चन्दमं	चन्द्रमा, चन्द्रमे
त०	चन्दमेण	चन्द्रमेहि
च०	चन्दमाय, चन्दमस्स	चन्द्रमाणं
पं०	चन्दमत्तो, चन्दमाओ	चन्द्रमाहितो, चन्द्रमासुंतो
छ०	चन्दमस्स	चन्द्रमाणं
स०	चन्दमे, चन्दमम्मि	चन्द्रमेसु

हसन्तो, हसमाणो—हसत् शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	हसन्तो, हसमाणो	हसन्ता, हसमाणा
वी०	हसन्तं, हसमाणं	हसन्ते, हसमाणे
त०	हसन्तेण, हसमाणेण	हसन्तेहि, हसमाणेहि
च०	हसन्तस्स, हसमाणस्स	हसन्ताणं, हसमाणाण
पं०	हसन्तत्तो, हसमाणत्तो	हसमाणाहितो, हसन्ताहितो
छ०	हसन्तस्स, हसमाणस्स	हसन्ताणं, हसमाणाण
स०	हसन्तम्मि, हसमाणम्मि	हसन्तेसु, हसमाणेसु

भगवन्तो—भगवत् शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	भगवन्तो	भगवन्ता
वी०	भगवन्तं	भगवन्ते
त०	भगवन्तेण	भगवन्तेहि
च०	भगवन्तस्स	भगवन्ताणं
पं०	भगवन्तत्तो, भगवन्ताओ	भगवन्ताहितो, भगवन्तासुंतो
छ०	भगवन्तस्स	भगवन्ताणं
स०	भगवन्तम्मि	भगवन्तेसु

प्रयोगवाक्य

मेरा भाई जैन कालेज में पढ़ता है = मज्झ भायरो जेणमहाविज्जालये पढइ ।

भाई का पुत्र बहुत रोता है = भाउणो पुत्तो बहु रोवइ ।

पिता उसके व्यवहार से खिन्न होता है = पिआ तस्स व्यवहारेण खिज्जइ ।

राम पिता से धन लेता है = रामो पिउणो धणं गेण्हइ ।

पह अपने पिता के साथ भगड़ता है = सो णिय पिउणा सह कलहइ ।

भाई के साथ उनका झगड़ा है = भायरेण सह तस्स कलहो अत्थि ।

मैं अपने पिता की सेवा करता हूँ = अहं णियपिअरं सेवामि ।

तुम उसके भाई को जानते हो = तुमं तस्स भायणं जानासि ।

दाता की सदा श्रेष्ठि होती है = दायारस्स सव्वथा इड्ढी होइ ।

वे लोग दाता के धन से जीवित हैं = ते दायारस्स धण्णेण जीवन्ति ।

दाता के यहाँ धन की कमी नहीं रहती = दायारस्स गिहे धणस्स
अप्पता ण वट्टइ ।

उसका भाई धान पर से छिलका हटाता है = तस्स भायारो धण्णे कंडइ ।

चन्द्रमा से अमृत भरता है = गिलोअत्तो सुहा णिस्सरइ ।

झगड़ा कर वे लोग भाई का त्याग करते हैं = ते कलहित्ता भायरं उम्मंचइ ।

नलिन भाई का कहना मानता है = नलिनो भायरस्स आणं मण्णइ ।

वे अपने पिता का बहुत सम्मान करते हैं = ते णिय पिअरस्स सम्माणं
करेंति ।

हम अपने दाता के प्रति श्रद्धा करते हैं = अम्हे णिय दायरं पइ
सदहामो ।

वे अपने मालिक को मानते हैं = ते णिय भत्तरं मण्णंति ।

नारी के लिए पति ही सब कुछ है = महिलाए भत्ता एव सव्यस्सं अत्थि ।

पिता की निन्दा करनेवाला नरक जाता है = पिउणो णिन्दओ णिरयं
गच्छइ ।

मैं भाई के साथ युद्ध करता हूँ = अहं भायरेण सह जुञ्जेमि ।

मेरा भाई कुल को प्रकाशित करता है = मज्झ भायरो कुलं जोअइ ।

तुम्हारा पिता घर की व्यवस्था करता है = तुज्झ पिआ घरं जवइ ।

नलिन पिता के साथ घूमता है = नलिनो पिअरेण सह भमइ ।

नलिन भाई का आदर करता है = नलिनो भायरस्स सम्माणं करेइ ।

उसका पिता तुम्हारे घर आता है = तस्स पिआ तुज्झ घर आगच्छइ ।

हम अपने घर में दीपक जलाते हैं = अम्हे णिवघरम्मि दीवा जोअमो ।

तुम्हारे पिता सदा झख मारते हैं = तुज्झ पिआ सव्वया झंखइ ।

सभी लोग आत्मा की उन्नति करते हैं = सव्वे जणा अप्पणो उण्णइं
करेंति ।

आत्मा के समान अन्य कोई मित्र नहीं है = अत्तणो समं अण्णमित्तं
णत्थि ।

वे आत्मा का ध्यान करते हैं = ते अत्तणं ज्ञाअन्ति ।

तुम आत्मा की शक्ति का विकास करते हो = तुमं अत्तणो सत्ति विअससि ।

मैं आत्मा की आवाज को सुनता हूँ = अहं अत्तणो सहं सुणेमि ।

मैं आत्मा की चिन्ता करता हूँ = अहं अत्तणो चिंतं करेमि ।

वे आत्मा के द्वारा इन्द्रियों को जीतते हैं = ते अप्पाणेण इंद्रियाणि
जिणंति ।

आत्मा से कर्मबन्धन अलग होता है = अप्पाणत्तो कम्मबंधणं पिधं हवइ ।

आत्मा का ध्यान ही सबसे बड़ा ध्यान है = अत्तणो ज्ञाणं सव्वाहियं
भाणं अत्थि ।

वे लोग एकान्त में आत्मा का जाप करते हैं = ते एअन्ते अप्पाणं जवंति ।
वह अपनी आत्मा पर ही क्रोध करता है = सो णिय अप्पम्मि एव
कोवं करेइ ।

वह अपनी आत्मा के कर्मों का उपभोग करता है = सो णिय अत्तणो
कम्मं उवभुंजह ।

वे अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं = ते णिय अप्पाणं उद्धरंति ।

राजा का भवन ऊंचा है = राइणो पासोदो उत्तुंगो अत्थि ।

राजा के कर्मचारी सावधान हैं = राइणां कम्मअरा सावहाणा सन्ति ।

राजा का विचार बहुत अच्छा है = रण्णो वियारो उत्तमो अत्थि ।

राजा का प्रधान मन्त्री चतुर है = रण्णो पहाणो णिउणो अत्थि ।

राजा के ऊपर सभी का ध्यान है = रायोवरि सव्वाणं ज्ञाण अत्थि ।

वहाँ एक राजा रहता था = एगं राया तत्थ णिवसइ ।

उसके दरवार में एक कवि है = तस्स रायसहाए एगो कइ अत्थि ।

वह बहुत ही गरीब है = सो अईव दरिदो अत्थि ।

वह नित्य राजा को कविता सुनाता है = सो णिच्चं राइणं कव्वं सावइ ।

राजा प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देता है = राया पसण्णो होइउं तस्स
धणं देइ ।

राजा के पास एक घांड़ा है = राइणो एगो घोडओ अत्थि ।

राजा घोड़े को प्यार करता है = राया घोडओं पीइं करेइ ।

आप कविता बनाते हैं = भवन्तो कव्वं रयइ ।

आपसे मेरा पुराना पहिचान है = भवन्तेण सह अम्हाणं पुरायणो
परियओ अत्थि ।

पुण्यवान् के घर सभी पहुँचते हैं = पुण्णमन्ताणं गिहं सव्वे जणा
पहुच्चंति ।

धनवान् की सभी प्रशंसा करते हैं = धणमन्ताण सव्वं पसंसंति ।

आपलोग क्या मरुवाद करते हैं = भवन्तो कि उल्लावइ ।

आज हम आपका स्वागत करते हैं = अज्ज अम्हे भवन्ताणं अहिणं-
दण करिमो ।

हमते हुए लोगों को हम जानते हैं = हसमाणं जाणाणं अम्हे जाणिमो ।

चन्द्रमा की चौदनी टिटकी है = चन्द्रमस्त जोण्हा विकीण्णा अत्थि ।

रत्नज्य दश सर्वत्र व्याप्त है = ताणं जसो सव्वत्थ वित्थिणो अत्थि ।

शब्दकोष

जुओ, जुवाणो = युवक
 बम्हो, बम्हाणो = ब्राह्मण, ब्रह्मा
 अद्धो, अद्धाणो = मार्ग
 उच्छो, उच्छाणो = वैल
 गावो, गावाणो = पत्थर, पापाण
 पुसो, पुसाणो = सूयं
 तक्खो, तक्खाणो = बढई
 सुकम्मो, सुकम्माणो = अच्छा कर्म
 करने वाला
 सो, साणो = कुत्ता
 नम्मो = नर्म
 मम्मो = मर्म
 कम्मो = कर्म
 अहो = अर्हन्
 पम्हो = अक्षिलोम, आंख के बाल
 उप्पलो = उत्पल, कमल
 कुम्पलो = कुड्मल, कौपल
 किण्हो = कृष्ण
 खग्गो = खड्ग, तलवार
 थंभो, खम्भो = स्तम्भ
 चेइओ, चइत्तो = मन्दिर
 जम्मो = जन्म
 छिहो = छिद्र
 जसो = यश
 चिइच्छओ = चिकित्सक
 छप्पओ = पट्पद्, मौंरा
 जुग्गो, जुम्भो = युग्म
 णडालो, णिडालो = कपार, ललाट
 तूह, तित्थो = तीर्थ
 दुआरो, दुवारो, दारो = द्वार
 देवउलो = देवकुल
 निग्गहो = निग्रह, दमन, नाश

सण्हो, रोहो = प्यार
 पउमरहो = पद्मरथ
 भवन्तो = आप
 पक्खो = पक्ष
 परिमाणो = माप
 पुव्वण्हो = पूर्वाह्न
 पोक्खरो = पुष्कर
 वोरो = वेर, बदर
 मज्जारो, मज्जरो = विलाव, विल्ली
 मज्झो = मध्य
 मरगयो = मरकत
 मरहट्ठो = महाराष्ट्र
 मसाणो = श्मशान्
 मोग्गरो = मुद्गर
 रयण-दिओ = रत्नदीप
 लग्गो = लग्न
 वक्कलो = वलकल
 वग्घो = व्याघ्र
 वच्छो, रुक्खो = वृक्ष
 वरिसो = वर्ष
 विग्घो = विघ्न
 विज्जो, विउसो = विद्वान्
 विप्पओ = विप्लव, उथल-पुथल
 वीरियो = वीर्य, शक्ति
 वेज्जो = वैद्य
 सव्वज्जो = सर्वज्ञ
 सिप्पी = शिल्पी
 सिलोओ = श्लोक
 सुदरिसणो, सुदंसणो = सुदशन, देखने
 लायक
 मुट्ठो = सौराष्ट्र, गुजरात
 सेज्जा = शय्या

सुन्दरं, सुन्दरिअं = सौन्दर्ये
सोरिय = शौर्य
उत्तिमो = उत्तम

आसत्तो = आसक्त
परिट्ठिअो = परिस्थित

अवभासो Exercise

Translate into Hindi हिन्दीभासाए अणुदायं करेन्तु

भो कुमार. पुच्छामि अहं भवन्तं, किमेत्थ जीवलोए सुपुरिसेण मित्तवच्छलेण होयव्वं किं वा नहि । कुमारेण भणियं । भो साहु पुच्छियं, साहेमि भवओ । एत्थ खलु तिविहो मित्तो हवइ । तं जहा-अहमो, मज्झिमो, उत्तिमो त्ति । ता अलमिमीए अडपरमत्थचिन्ताए । एत्थन्तरम्मि समागओ महुसमओ, वियम्भिया वणसिरी । तओ राया जाव धम्मं सुणित्ता कीरवत्तंतं पुच्छइ । राइणा तीए संमुहं भणिअं । एवं रायभणिअं सुणित्ता संवेग-भाविअ-मणा भणइ । रायावि खणेण अदिस्सो होइ । अप्पाणं जो जाणइ, सो सव्वं जाणइ । अत्थि कामरूवविसए मयणउरं नाम नयरं । तत्थ पज्जुन्नाहिहाणो राया । रई नाम से भारिया । अत्थि खलु केइ चत्तारि पुरिसा । राइणा चिन्तियं । भोयनरिदस्स अवन्तीनयरीए देवसम्मो विणहु-सम्मो अ नाम माहणा दुण्णि भायरा विउसवरा संति । लच्छी-सरस्सईण एगत्थठाणाभावाओ ते विउसा अईव निद्धणा संति । रायपासाए पच्छणं पवेसिआ । पल्लंगसमीवम्मि एगो मक्कडो हत्थे असि घेत्तण सावहाणो नरिदं रक्खइ । ताहे पल्लंगुवरि एगो सप्पो मंदं मंदं संचरमाणो निग्गओ । तस्स छाया नरिदोवरि पडिया, तं दट्ठूण मक्कडो सप्पवुद्धीए नरिदं पहरिउं लग्गो । तथा ते विउसा तारिसं असमंजसं दट्ठूण सिग्घयरं सक्कडं निग्ग-हिउं लग्गा । मक्कडो वि असि घेत्तण तेहि सह जोदुं पउत्तो ।

तओ नरिदो चित्तेइ—'सुक्कयो मक्कडो अत्थि, अरणेण अप्पणो रक्खा किल अप्पवहाउ होइ । जइ चोरिक्कथं एए पंडिया मज्झ मदिरे न प्रागच्छंता, तथा हं एएण कविणा अवस्सं हओ होंतो । ऊओ अए विउसा सप्पारहिा चेष' । तओ विउसे कंइ—'तुन्हाणं जं इट्ठं, तं मग्गेह, एवं णट्ठिा पणुभं ताणं दाविउण विमज्झिया । पच्छा राइणा मक्कडाओ अप्प-रक्कडं पउत्तं ति ।

हे महाशय ! अज भीमनेणभाया विजयट्ठकं गणइ । धम्मपुत्तो भीमनेण घोलाडिउण पुच्छइ—हे भार ! अज जो अउव्वो देमो जेय विजिणे ?

सीलवई दासीहत्थेण रहे चडंतं तं पाडेइ । पुणरवि चाडिउं आगच्छइ,
 एवं पुणरवि दासी धक्काए तं पाडेइ । सो स्यंतो तस्थ ठिओ । जो सहसा
 अविआरिअं कज्जं करेइ, सो पच्छातावं करइ । भोयणावसरे सो अप्पाणं
 विम्हरइ । राइणो सहाए अणेया णरा गिवसन्ति । ते परोपरं कलंहति ।
 खत्तियउत्तो सम्माणिओ, पाहुडं तस्स दिण्णं ।

Translate into Prakrit पाइअभासाए अणुवायं कुणन्तु

भाई का लड़का पटना जाता है । पिता के घर में हरिमोहन रहता है ।
 राजा भाई को बहुत मानता है । मेरे पिता स्कूल में अध्यापक है ।
 सिहपुरी मे मेरे पिता का मन्दिर है । धर्मशाला में मेरा भाई ठहरता है ।
 मैं गया मे अपने भाई के साथ रहता हूँ । वे लोग पिता का बहुत सम्मान
 करते है । हम लोग पिता का इलाज पटना मे कराते हैं । आरा मे मेरा
 भाई रहता है । दिलीप का यश सर्वत्र व्याप्त है । धन से ही बड़े-बड़े काम
 सम्पन्न होते हैं । दाता को सभी आशीर्वाद देते हैं । धन की शोभा दान
 से होती है । मैं अपनी पुस्तक पिता को देता हूँ । पिता की कलम अच्छी
 नहीं है । यज्ञदत्त का पिता दरिद्र है और धर्मदत्त का पिता धनी है ।
 इन्द्र असुरों को मारता है ।

मैं अपनी आत्मा का चिन्तन करता हूँ । तुम्हारी आत्मा पाप से डरती
 है । तुम आत्मा का आदेश मानते हो । हम अपनी आत्मा की अन्तर्ध्वनि
 को पहचानते हैं । हम लोग आत्मा मे विचरण करते हैं । सभी प्राणियों की
 आत्माएँ समान हैं । आत्मापराधरूपी वृक्ष के पुण्य और पाप दोनों फल
 हैं । आत्मा का ध्यान सभी योगी करते हैं । आत्मादेश को हम सभी
 स्वीकार करते हैं ।

राजा की सेना आक्रमण करती है । सेनापति राजा की आज्ञा का
 पालन करता है । विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी राजा है । उसके दरवार
 मे बड़े-बड़े कवि रहते हैं । उज्जैनी मे विक्रमादित्य रहता था । काशीराज
 बड़े विद्वान् है । राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं । राजाओं के
 दान से समाज के अनेक कार्य सम्पन्न होते हैं । इन्द्र जल का देवता है ।
 मूर्ख का बल सदा मूर्खता से प्रकट होता है । मूर्ख व्यक्ति दूसरों को
 कष्ट पहुँचाता है । उस मूर्ख के पास बहुत सी गायें हैं । इन्द्र गायों की
 रक्षा करता है ।

वह जन्म से अन्धा है। उसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है। चन्द्रमा से अमृत निकलता है। चाँदनी रात बहुत प्यारी होती है। चन्द्रमा की किरणें शीतल होती हैं। उसका मुख चन्द्रमा के समान है। चन्द्रमा आताप को शान्त करता है। चन्द्रमा को लोग कलंकी कहते हैं।

हँसती हुई लड़की घर जाती है। तुमने उस हँसते हुए लड़के को पीटा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका निवास कहाँ है। आपके पड़ोस से कौन-कौन रहते हैं। आपको मेरा कहना मानना चाहिए। हम लोग आपके अनुचर हैं। आपका प्रताप कौन नहीं जानता है। आपको किसने यह पुस्तक दी है। चन्द्रमा से तुमको शिक्षा मिलती है। तालाब से जल बहुत है। हमारे गाँव में आपका खेत है।



सीलवई दासीहत्थेण रहे चडंतं तं पाडेइ । पुणरवि चाडिउं आगच्छइ,
 एवं पुणरवि दासी धक्काए तं पाडेइ । सो रुयंतो तत्थ ठिओ । जो सहसा
 अविआरिअ कज्जं करेइ, सो पच्छातावं करइ । भोयणावसरे सो अप्पाणं
 विम्हरइ । राइणो सहाए अणेया णरा गिवसन्ति । ते परोप्परं कलंहति ।
 खत्तियउत्तो सम्माणिओ, पाहुडं तस्स दिण्णं ।

Translate into Prakrit पाइअभासाए अणुवायं कुणन्तु

भाई का लड़का पटना जाता है । पिता के घर मे हरिमोहन रहता है ।
 राजा भाई को बहुत मानता है । मेरे पिता स्कूल में अध्यापक है ।
 सिंहपुरी में मेरे पिता का मन्दिर है । धर्मशाला में मेरा भाई ठहरता है ।
 मैं गया मे अपने भाई के साथ रहता हूँ । वे लोग पिता का बहुत सम्मान
 करते हैं । हम लोग पिता का इलाज पटना मे कराते हैं । आरा मे मेरा
 भाई रहता है । दिलीप का यश सर्वत्र व्याप्त है । धन से ही बड़े-बड़े काम
 सम्पन्न होते हैं । दाता को सभी आशीर्वाद देते हैं । धन की शोभा दान
 से होती है । मैं अपनी पुस्तक पिता को देता हूँ । पिता की कलम अच्छी
 नहीं है । यज्ञदत्त का पिता दरिद्र है और धर्मदत्त का पिता धनी है ।
 इन्द्र असुरों को मारता है ।

मैं अपनी आत्मा का चिन्तन करता हूँ । तुम्हारी आत्मा पाप से डरती
 है । तुम आत्मा का आदेश मानते हो । हम अपनी आत्मा की अन्तर्ध्वनि
 को पहचानते हैं । हम लोग आत्मा मे विचरण करते हैं । सभी प्राणियों की
 आत्माएँ समान हैं । आत्मापराधरूपी वृक्ष के पुण्य और पाप दोनों फल
 हैं । आत्मा का ध्यान सभी योगी करते हैं । आत्मादेश को हम सभी
 स्वीकार करते हैं ।

राजा की सेना आक्रमण करती है । सेनापति राजा की आज्ञा का
 पालन करता है । विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी राजा है । उसके दरवार
 मे बड़े-बड़े कवि रहते हैं । उज्जैनी मे विक्रमादित्य रहता था । काशीराज
 बड़े विद्वान है । राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं । राजाओं के
 दान से समाज के अनेक कार्य सम्पन्न होते हैं । इन्द्र जल का देवता है ।
 मूर्ख का बल सदा मूर्खता से प्रकट होता है । मूर्ख व्यक्ति दूसरों को
 कष्ट पहुँचाता है । उस मूर्ख के पास बहुत सी गायें हैं । इन्द्र गायों की
 रक्षा करता है ।

वह जन्म से अन्धा है। उसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है। चन्द्रमा से अमृत निकलता है। चाँदनी रात बहुत प्यारी होती है। चन्द्रमा की किरणें शीतल होती हैं। उसका मुख चन्द्रमा के समान है। चन्द्रमा आताप को शान्त करता है। चन्द्रमा को लोग कलंकी कहते हैं।

हँसती हुई लड़की घर जाती है। तुमने उस हँसते हुए लड़के को पीटा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका निवास कहाँ है। आपके पड़ोस में कौन-कौन रहते हैं। आपको मेरा कहना मानना चाहिए। हम लोग आपके अनुचर हैं। आपका प्रताप कौन नहीं जानता है। आपको किसने यह पुस्तक दी है। चन्द्रमा से तुमको शिक्षा मिलती है। तालाब में जल बहुत है। हमारे गाँव में आपका खेत है।



चउत्थो पवाढओ Lesson 4

स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप और प्रयोग

१६. स्त्रीलिङ्ग शब्दों से पर में आनेवाले जस् और शस् के स्थान में अर्थात् प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में उ और ओ प्रत्यय जोड़े जाते हैं और उनसे पूर्व के ह्रस्व स्वर को विकल्प से दीर्घ हो जाता है ।

१७. स्त्रीलिङ्ग में तृतीया विभक्ति एकवचन, पञ्चमी, षष्ठी और सप्तमी के एकवचन में अ, इ और ए प्रत्यय जोड़े जाते हैं ।

१८. द्वितीया विभक्ति के एकवचन में अन्तिम दीर्घ स्वर को विकल्प से ह्रस्व होता है ।

१९. स्त्रीलिङ्ग शब्दों में दीर्घ ईकारान्त शब्दों की रूपावली में प्रथमा एकवचन, प्रथमा बहुवचन और द्वितीया के बहुवचन में विकल्प से आ प्रत्यय जोड़ा जाता है ।

२०. सम्बोधन में आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों में आ के स्थान पर एत्व होता है ।

आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों में जोड़े जानेवाले विभक्ति चिह्न

	एकवचन	बहुवचन
प०	(लुक्)	उ, ओ, (लुक्)
बी०		” ” ”
त०	अ, इ, ए	हि, हि, हिं
च०	अ, इ, ए	ण, णं
पं०	अ, इ, ए, तो, ओ, उ	तो, ओ, उ, हितो, सुंतो
छ०	अ, इ, ए	ण, णं
स०	अ, इ, ए	सु, सुं
सं०	(लुक्)	उ, ओ, (लुक्)

लदा—लता शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	लदा	लदा, लदाओ, लदाउ
बी०	लदं	” ” ”

	एकवचन	बहुवचन
त०	लदाए, लदाइ, लदाअ	लदाहि-हि-हि
च०	लदाए, लदाइ, लदाअ	लदाण-णं
पं०	लदाए, लदात्तो, लदाओ	लदाहितो, लदासुंतो
छ०	लदाए, लदाइ, लदाअ	लदाण, लदाणं
स०	” ” ”	लदासु-सुं
सं०	हे लदे, हे लदा	हे लदा, हे लदाओ, हे लदाअ

मालाशब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	म ला	मालाउ, मालाओ, माला
बी०	मालं	मालाउ, मालाओ, माला
त०	मालाअ, मालाइ, मालाए	मालाहि-हि-हि
च०	मालाअ, मालाइ, मालाए	मालाण-ण
पं०	मालाअ, मालाए, मालत्तो, मालओ	मालाहितो, मालासुंतो
छ०	मालाअ, मालाइ, मालाए	मालाण-ण
स०	” ” ”	मालासु-सुं
सं०	मालं, माला	मालाओ, मालाउ, माला

छिहा-स्पृहा-अभिलाषा के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	छिहा	छिहाउ, छिहाओ, छिहा
बी०	छिहं	” ”
त०	छिहाअ, छिहाइ, छिहाए	छिहाहि-हि-हि
च०	” ” ”	छिहाण-ण
पं०	छिहाअ, छिहाए, छिहात्तो, छिहाओ	छिहाहितो, छिहासुंतो
छ०	छिहाअ, छिहाए, छिहाइ	छिहाण-णं
स०	” ” ”	छिहासु-सुं
सं०	छिहे, छिहा	छिहाउ, छिहाओ, छिहा

हलिदा—हरिद्रा (हल्दी) के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	हलिदा	हलिदाउ, हलिदाओ, हलिदा
बी०	हलिदं	” ” ”

	एकवचन	बहुवचन
त०	हलिदाअ, हलिदाइ, हलिदाए	हलिदाहि-हि-हि
च०	” ” ”	हलिदाण-णं
पं०	” ”, हलिदत्तो, हलिदाओ	हलिदाहितो, हलिदासुंतो
छ०	हलिदाअ, हलिदाए, हलिदाइ	हलिदाण-णं
स०	” ” ”	हलिदासु-सुं
सं०	हलिदे, हलिदा	हलिदाअ, हलिदाओ, हलिदा

मट्टिआ—मृत्तिका—मिट्टी के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	मट्टिआ	मट्टिआउ, मट्टिआओ, मट्टिआ
वी०	मट्टिअं	” ” ”
त०	मट्टिआअ, मट्टिआइ, मट्टिआए	मट्टिआहि-हिं-हिं
च०	मट्टिआअ, मट्टिआइ, मट्टिआए	मट्टिआण-ण
पं०	” मट्टिअत्तो मट्टिआओ	मट्टिआहितो, मट्टिआसुंतो
छ०	मट्टिआए, मट्टिआइ, मट्टिआअ	मट्टिआण-णं
स०	” ” ”	मट्टिआसु-सुं
सं०	हे मट्टिए, मट्टिआ	हे मट्टिआओ, मट्टिआउ, मट्टिआ

इकारान्त स्त्रीलिङ्ग मइ (मति) के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	मई	मईउ, मईओ, मई
वी०	मइं	” ” ”
त०	मईअ, मईआ, मईए	मईहि-हिं-हिं
च०	” ” ”	मईण मईणं
पं०	” ”, मइत्तो, मईओ,	मईहितो, मईसुंतो
छ०	मईआ, मईए, मईइ	मईण, मईणं
स०	” ” ”	मईसु-सुं
सं०	हे मई, मइ	हे मईउ, मईओ, मई

मुत्ति (मुक्ति)—मोक्ष के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	मुत्ती	मुत्तीउ, मुत्तीओ, मुत्ती
वी०	मुत्ति	” ” ”

	एकवचन	बहुवचन
त०	मुत्तीआ, मुत्तीए, मुत्तीइ	मुत्तीहि-हिं-हिं
च०	” ” ”	मुत्तीण णं
पं०	” मुत्तितो, मुत्तीओ	मुत्तीहितो, मुत्तीसुंतो
छ०	मुत्तीए, मुत्तीइ, मुत्तीआ	मुत्तीण-णं
स०	” ” ”	मुत्तीसु-सुं
सं०	हे मुत्ती, मुत्ति	मुत्तीउ, मुत्तीओ, मुत्ती

राइ (रात्रि) के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	राई	राईओ, राईउं, राई
वी०	राईं	” ” ”
त०	राईआ, राईए, राईइ	राईहि-हिं-हिं
च०	राईआ, राईए, राईइ	राईण-णं
पं०	” ” ” राइत्तो, राईओ	राईहितो, राईसुंतो
छ०	राईअ, राईए, राईइ	राईण-णं
स०	” ” ”	राईसु-सुं

दीर्घ इकारान्त लच्छी (लक्ष्मी) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	लच्छी, लच्छीआ	लच्छीओ, लच्छीआ
वी०	लच्छि	” ”
त०	लच्छीआ, लच्छीइ, लच्छीए	लच्छीहिं, लच्छीहि
च०	” ” ”	लच्छीण-णं
पं०	” ” लच्छित्तो	लच्छीहितो, लच्छीसुंतो
छ०	लच्छीआ, लच्छीइ, लच्छीए	लच्छीण-णं
स०	” ” ”	लच्छीसु-सुं
सं०	हे लच्छि	हे लच्छीआ, लच्छीओ

रुप्पिणी (रुक्मिणी) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	रुप्पिणी	रुप्पिणीओ
वी०	रुप्पिणि	रुप्पिणीओ

	एकवचन	बहुवचन
त०	रुप्पिणीए	रुप्पिणीहि
च०	,,	रुप्पिणीण-णं
पं०	,, रुप्पिणित्तो	रुप्पिणीहितो
छ०	रुप्पिणीए	रुप्पिणीण-णं
स०	,,	रुप्पिणीसु
सं०	हे रुप्पिणि	हे रुप्पिणीओ

बहिणी—(भगिनी)—बहिन के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	बहिणी	बहिणीओ
वी०	बहिणि	,,
त०	बहिणीए	बहिणीहि
च०	बहिणीए	बहिणीण
प०	,, , बहिणित्तो	बहिणीहितो
छ०	बहिणीए	बहिणीण
स०	बहिणीए	बहिणीसु
सं०	हे बहिणि	हे बहिणीओ

उकारान्त स्त्रीलिङ्ग धेणु शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	धेरू	धेरूओ
वी०	धेणुं	,,
त०	धेरूए	धेरूहि
च०	धेरूए	धेरूण
पं०	,, धेणुत्तो	धेणूहितो
छ०	धेरूए	धेणूण-ण
स०	,,	धेणूसु
सं०	हे धेरू	धेरूओ

तणु-शरीर शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	तरू	तरूओ
वी०	तणुं	,,

	एकवचन	बहुवचन
त०	तराए	तराहि
च०	”	तराण-णं
पं०	तराए, तणुत्तो	तराहितो
छ०	तराए	तणण-णं
स०	तणए	तणसु
सं०	हे तण	तराओ

ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग बहू-बधू के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	बहू	बहूओ
वी०	बहुं	”
त०	बहूए	बहूहि
च०	बहूए	बहूण-णं
प०	बहूए, बहुत्तो	बहूहितो
छ०	बहूए	बहूण-णं
स०	बहूए	बहूसु
सं०	हे बहु	हे बहूओ

सास्र (श्वश्रू)—सास्र शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	सास्र	सास्रओ
वी०	सास्रुं	सास्रओ
त०	सास्रए	सास्रहिं
च०	सास्रए	सास्रण-णं
पं०	सास्रए, सास्रुत्तो	सास्रुहितो
छ०	सास्रए	सास्रण-णं
स०	सास्रए	सास्रसु

ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग माआ (मावृ)=माता शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	माआ	माआओ, माआउ
पी०	माआं	” ”

	एकवचन	बहुवचन
त०	माआए, माआइ	माआहि-हिं-हिं
च०	„ „	माआ-णं
पं०	माआए, माअत्तो	माआहितो, माआसुंतो
छ०	माआए, माआइ	माआण-णं
स०	माआए	माआसु-सुं
सं०	हे माआ	माआओ

ससा (स्वसृ)-बहिन शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	ससा	ससाओ, ससाउ
वी०	ससं	„ „
त०	ससाए, ससाइ	ससाहि-हिं-हिं
च०	ससाए, ससाइ	ससाण-णं
पं०	ससाए, ससात्तो	ससाहितो, ससासुंतो
छ०	ससाए	ससाण-णं
स०	ससाए	ससासु-सुं
सं०	हे ससा	हे ससाओ

नणन्दा (ननन्द)-ननद शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	नणन्दा	नणन्दाओ
वी०	नणन्दं	„
त०	नणन्दाए	नणन्दाहि
च०	नणन्दाए	नणन्दाण-णं
पं०	नणन्दाए, नणन्दत्तो	नणन्दाहितो
छ०	नणन्दाए	नणन्दाण-णं
स०	नणन्दाए	नणन्दासु
सं०	हे नणन्दा	नणन्दाओ

माउसिआ (मातृष्वसृ)-मउसी शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	माउसिआ	माउसिआओ
वी०	माउसिअं	„

	एकवचन	बहुवचन
त०	माउसिआए	माउसिआ हि
च०	माउसिआए	माउसिआणं
पं०	माउसिआए माउसिअत्ता	माउसिआहितो
घ०	माउसिआए	माउसिआण
स०	माउसिआए	माउसिआसु
सं०	हे माउसिआ	हे माउसिआओ

धूआ (दुहितृ)-बेटी शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	धूआ	धूआओ
बी०	धूआं	धूआओ
त०	धूआए	धूआहि
च०	धूआए	धूआणं
पं०	धूआए, धूआत्तो	धूआहितो
छ०	धूआए	धूआणं
स०	धूआए	धूआसु
सं०	हे धूआ	हे धूआओ

ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग गावी (गो)-गाय शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
पं०	गावी	गावीओ
बी०	गवि	गावीओ
त०	गावीए	गावीहि
च०	गावीए	गावीणं
पं०	गावीए, गावित्तो	गावीहितो
छ०	गावीए,	गावीणं
स०	गावीए	गावीसु
सं०	हे गावी	हे गावीओ

औकारान्त स्त्रीलिङ्ग नावा (नौ) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	नावा	नावाओ
बी०	नावं	नावाओ

	एकवचन	बहुवचन
त०	नावाए	नावाहि
च०	नावाए	नावाण-णं
पं०	नावाए, नावत्तो	नावाहितो
छ०	नावाए	नावाण-णं
स०	नावाए	नावासु

प्रयोगवाक्य

वह माला धारण करता है = सो मालं धारड ।

वे लताओं को काटते हैं = ते लदाओ छिन्नन्ति ।

हम लताओं से माला बनाते हैं = अम्हे लदाहि मालं णिव्वत्तिमो ।

लताएँ वृक्ष को वेष्टित करती हैं = लदाओ विच्छं वडति ।

तुम लताओं का क्या उपयोग करते हो = तुमं लदाणं कि उवओगं करेसि ।

लताओं से घर की शोभा होती है = लदाहि वरस्स सोहा हवइ ।

माली मालाएँ बनाता है = माली मालाओ रयइ ।

माली लताओं को सुन्दर बनाता है = माली लदाणं सुन्देरं करेइ ।

बालक लताओं को तोड़ता है = बालओ लदं तुट्टइ ।

मालाओं से घर सजाया जाता है = मालाहि गिहं सज्जइ ।

नेताओं के गले में मालाएँ शोभित होती हैं = नाऊणं कंठम्मि मालाओ सोहंति ।

वे हमको मालाएँ देते हैं = ते अम्हो मालाओ देंति ।

आरा के लोग नेहरूजी को मालाएँ पहनाते हैं = आरानयरस्स जना नेहरूं मालाओ परिहन्ति ।

जैन कालेज के छात्र कुलपति को माला पहनाते हैं = जेणमहाविज्जालय-स्स छत्ता कुलवइं माल परिहन्ति ।

पुष्पों से मालाएँ तैयार होती हैं = फुल्लेहि मालाओ णिम्माणं हवइ ।

मालाओं में से सुगन्ध आती है = मालाहितो सुयंधो आयड ।

मालाओं की शोभा अपूर्व होती है = मालाणं सोहा अपुव्वा हवइ ।

नागरिक लोग मालाओं का अधिक व्यवहार करते हैं = पउरजणा मालाणं अहियं ववहारं कुणन्ति

हम लोग लताओं से फूल चूनते हैं = अम्हे लदाहितो फुल्लं चिणिमो ।

फूलों से मालाएँ बनाते हैं = फुल्लेहि मालाओ रयंति ।

चसके गले में मालाएँ शोभित हैं = तस्स कंठम्मि मालाओ सोहंति ।

शकुन्तला पुष्पमाला धारण करती हैं = सउंतला पुष्पमालं धारइ ।
हम लोग लताओं की व्यवस्था करते हैं = अम्हं लदाणं पवधं करिमो ।
वह लताओं के लिए माली को ताड़ना देता है = सो लदाणं मालिं ताडइ ।
तुम लोग मालाओं के लिए झगड़ते हो = तुम्ह मालाणं जुञ्जिस्था ।
वे लड़के मालाओं को सूँघते हैं = ते वालआ मालाओ जिर्वति ।
तुम्हारे वगीचे में मालती के पुष्प हैं = तुम्हाणं वज्जाणे जाइ-पुष्पाणि सन्ति ।
हमारे यहाँ शौकीन माला पहनते हैं = अम्हाणं छइल्ला मालं धारेन्ति ।
मालाओं से वन्दनवार बनाते हैं = मालाहि वंदणवारं णिम्मइ ।
वे मालाओं की अभिलाषा करते हैं = ते मालाणं छिहा करेंति ।
हल्दी का रंग पीला होता है = हलिदाए पीअं रंगं होइ ।
दाल में हल्दी डाली जाती है = सूवम्मि हलिदा पडइ ।
हल्दी में शक्ति रहती है = हलिदासु सत्ती णिवसइ ।
हम लोग दाल में हल्दी खाते हैं = अम्हे सूवम्मि हलिदं खादेमो ।
उनकी माला में पीले पुष्प हैं = ताणं मालासु पीअं फुल्लं अत्थि ।
मिट्टी से घड़ा बनता है = मट्टिआए कलसं णिम्मइ ।
मिट्टी का उपयोग सभी करते हैं = मट्टिआए ववहारं सव्वे कुणन्ति ।
मिट्टी में अन्न पैदा होता है = मिट्टिआसु अण्णं उप्पणं हवइ ।
मिट्टी का घड़ा अच्छा होता है = मिट्टिआए घडो वरो हवइ ।
बच्चे मिट्टी में खेलते हैं = वालआ मिट्टिआए खेलन्ति ।
मिट्टी के अनेक उपयोग हैं = मिट्टिआए अणेया उवओगा संति ।
उसकी मति अच्छी है = तस्स मई उत्तमा अत्थि ।
बुद्धि से काम करने पर सफलता मिलती है = मईए कज्जकरणे सहलआ
मिलइ ।

मुक्ति के लिए सभी प्रयत्न करते हैं = मुत्तीए सव्वे पयत्तं कुणन्ति ।

वे मुक्ति चाहते हैं = ते मुत्ति इच्छन्ति ।

मुक्ति में मिद्ध रहते हैं = मुत्तीए सिद्धा णिवसन्ति ।

मुक्ति से कोई लौटता नहीं है = मुत्तित्तो को वि ण पडिवच्चइ ।

मुक्ति में परम सुख है = पुत्तीए परमं सुहं अत्थि ।

रात्रि होती है = राई हवइ ।

रात्रि में सभी सोते हैं = राईए सव्वे सुप्पन्ति ।

रात्रि में चक्रवा-चक्रवी का वियोग होता है = राईए चक्रवाय-चक्रवीईए
विओगो हवइ ।

गर्मी के दिनों में रात छोटी होती है = गिहम्मि राई लहु होइ ।

विद्यार्थी रात में पढ़ते हैं=विज्जस्थिणो राइए पढन्ति ।
 शरत् के दिनों में रातें बड़ी होती हैं=सरअदिहेसु राईओ महअरा हवन्ति ।
 रात्रि में सभी काम बन्द हो जाते हैं = रहिए सव्वे कज्जा रुन्धन्ति ।
 हम लोग रात में काम नहीं करते हैं=अम्हे राईए कज्जं ण कुणिमो ।
 देवता लोग रात्रि में संचरण करते हैं = देवा राईए संचरन्ति, विहरन्ति वा ।

हम लोग रात्रि में हल्दी नहीं खाते=अम्हे राईए हलिदं न खादिमो ।
 लक्ष्मी धनिकों के यहाँ निवास करती हैं=लच्छी धणीणं गेहे णिवसइ ।
 लक्ष्मी चंचला होती है = लच्छी चंचला हवइ ।
 लक्ष्मी से सभी काम होते हैं = लच्छीए सव्वणि कज्जाणि हवन्ति ।
 वह लक्ष्मी की पूजा करता है = सो लच्छि पुज्जइ ।
 हम लोग लक्ष्मी की उपासना करते हैं = अम्हे लच्छि उवासिमो ।
 रुक्मिणी का सभी सम्मान करते हैं = सव्वे रुपिणि सम्माणयन्ति ।
 वह रुक्मिणी से अपनी माला मांगता है=सो रुपिणीए णियमालं मग्गइ ।
 रुक्मिणी कालेज में पढ़ती है = रुपिणी विज्जालयम्मि पढइ ।
 बहिन घर का काम करती है = बहिणी घरकज्जं करइ ।
 बहिन के घर भाई जाता है = बहिणीए गिहम्मि भाया गच्छइ ।
 बहिन से वह रुपये भोगता है = बहिणीए सो रुप्याणि मग्गइ ।
 भाई बहिन को अपने घर ले जाता है = भायरो बहिणि णियघरे रोइ ।
 भाई बहन से रुपये लेता है = भाया बहिणित्तो रुप्याणि गेण्हइ ।
 हम बहन को वस्त्र देते हैं = अम्हे बहिणीए वत्थं देमो ।
 बहन की गाय दूध देती है = बहिणीए धेरू दुद्ध देइ ।
 श्याम बहिन से घृणा करता है = सामो बहिणि गरहइ ।
 बहिन भाई को प्यार करती है = बहिणी भायरं रोहं कुणइ ।
 वह अपनी गाय को छोड़ता है = सो णियधेणुं पजहइ ।
 भाई बहिन को जगाता है = भायरो बहिणि जागरइ ।
 गाय का दूध मीठा होता है = धेरूए दुद्ध महुरं हवइ ।
 हम लोग गाय का दूध पीते हैं = अम्हे धेरूए दुद्धं पिवमो ।
 गाय का बछड़ा अच्छा है = धेरूए वच्छो उत्तमो अत्थि ।
 वह शरीर की मैल को धोता है = सो तणुमल पक्खालइ ।
 शरीर के द्वारा सभी काम होते हैं = तरूए सव्वकज्जाणि हवन्ति ।
 उसका शरीर अस्वस्थ है = तस्म तरू असत्थो अत्थि ।
 उसकी वहुएँ सेवा करती हैं = तीए वहुओ सेवं कुणन्ति ।

उसकी बहू लड़ती है = तीए बहू कलहइ ।

बहू और सास का झगड़ा प्रसिद्ध है = बहू-सासूणं कलहो पसिद्धो अत्थि ।

वह सास की सेवा करती है = सा सासुं सेवइ ।

वह अपनी सास से पूछती है = सा गिय सासुं पुच्छइ ।

उसकी बहू बकवाद करती है = तीए बहू आलावं करइ ।

उसको बहू से बहुत सुख है = तीए बहुत्तो बहुसुखं अत्थि ।

बहुओं को सासुओं की सेवा करनी चाहिए = बहुओ सासूणं सेवा कायव्वा ।

माता मुझ को प्यार करती है = माआ ममं सिरोहं करइ ।

वह माता को प्रणाम करता है = सो माऊं माआए वा णमइ ।

माँ को सभी पूजते हैं = सब्बे माऊं अच्चंति ।

माता घर को साफ करती है = माआ घरं जामइ ।

माता की चरणधूलि पवित्र होती है = माआए चरणधूली पुण्णा होइ ।

वह बहिन का शब्द सुनता है = सो ससाए सहं सुणइ ।

वह पुस्तक दिखलाता है = सो पोत्थयं दरिसइ ।

माता बुरी प्रवृत्तियों का निग्रह करती है = माआ दुट्ठपउत्तीए निग्गहणं करेइ ।

वह माता के सामने विनय करता है = सो माआए संमुहे विणयं करेइ ।

उसकी नन्द विलाप करती है = तीए नणन्दा भंखइ ।

गौरी नन्द को अपने वश करती है = गौरी नणन्दाए गियाधीणं करइ ।

नन्द के घर में दस आदमी रहते हैं = नणन्दाए गिहे दह जणा णिवसन्ति ।

मौसी का प्यार उसे मिलता है = माउसिआए सिरोहं तं मिलइ ।

वह मौसी के घर जाती है = सा माउसिआए घरं गच्छइ ।

मौसी की लड़की मेरी बहन है = माउसिआए धूआ मम बहिणी अत्थि ।

तुम गाय से दूध दुहते हो = तुम धेणूए दुद्धं दुहसि ।

वह नाव से नदी पार करता है = सो नावाए नइं तरइ ।

वे लोग नाव पर चढ़ते हैं = ते जणा नावाए आरोहंति ।

लड़की के घर पिता जाता है = धूआए गिहं पिआ गच्छइ ।

पुत्रियों को वह धन देता है = सो धूआणं धणं देइ ।

पुत्रियाँ पटना में रहती हैं = धूआ पाडलिपुत्ते णिवसन्ति ।

हम लोग गायों की सेवा करते हैं = अम्हे गावीणं सेवं करिमो ।

माता कभी भी कुमाता नहीं होती = माआ कयावि कुमाआ ण होइ ।

माँ सभी को बराबर दृष्टि से देखती है = माआ सव्वाणं समदिट्ठीए पेच्छइ ।

उनके घर में सिंह गर्जता है = ताणं गिहे सीदो गज्जइ ।

नन्द ने उसका अभिनन्दन किया = नगन्दा तीए अहिणंणं कयं ।

लक्ष्मी की इच्छा सभी करते हैं = सव्वे जणा लच्छि अहिलसंति ।

लक्ष्मी धनी के घर को शोभित करती है = लच्छी धणीओ गिहं सोहइ ।

शब्दकोष

अज्जा = आर्या

आणा = आज्ञा

आसिसा = आशीष

इट्ठा = ईंट

उक्कण्ठा = उत्कंठा, इच्छा

अहिलासा = अभिलाषा

कक्कडिआ = ककड़ी

कक्खा = काख, कक्षा

कच्छा = कमर का आभूषण मेखला

कच्चरा = कचरा, एक प्रकार का खद्य

कज्जला = इस नाम की एक पुष्करिणी

कट्ठा = दिशा, कालका एक परिमाण

कडणा = घर का एक हिस्सा

कडतला = लोहे का एक प्रकार का हथियार

कडिआ = कढ़ी, खाद्यविशेष

कण्णिआ = कर्णिका, कमल का बीज, कोष

कत्ता = कौड़ी

कत्तिया = कैची

कत्थूरिया = कस्तूरी

कन्ना, कन्नगा = कन्या

कमणिया = जूता

कमला = लक्ष्मी

कम्पो = व्यापार

करंढिया = छोटा ढिन्वा

करडा = वृक्षविशेष, पक्षिविशेष

करुणा = दया

करेणुआ = हथिनी

कलंबुगा = जल में होने वाली वन-स्पति

कलसिया = छोटा घड़ा

कला = कला, समय का सूक्ष्म भाग

काइआ = शरीरसम्बन्धी क्रिया, शौच-क्रिया

काणच्छिया = कटाक्ष

कारा = कैदखाना

कासा = दुर्बल स्त्री

कासाइया = कपाय रंग से रंगी हुई साड़ी

किच्चा = जादूगरी

किड्डा = क्रीड़ा

कहा = कथा

किड्डाविया = बच्चों को खेलकूद करनेवाली दाई

किरिया = क्रिया, कृति प्रयत्न

किवा = कृपा

कीडिया = चींटी

कीला = नववधू . क्रीडा

कुडआ = तुम्बीपात्र

कुंचिया = कुञ्जी
 कुच्छा = निन्दा, जुगुप्सा
 कुट्टा = इमली
 कुलडा = व्यभिचारिणी
 केका = मयूरवाणी
 केआरिआ = घासवाली जमीन
 कूविया = छोटा कुँआ
 कोइल = कोकिल, कोकिला
 कोइला = काष्ठ का अंगार
 कोलज्जा = धान रखने का गड्ढा, खों
 कोविआ = सियारिन
 खण्डा = चीनी
 खमा = क्षमा, पृथ्वी
 खाडहिला = गिलहरी
 खुधा, लुधा = भूख
 खेड्डिया = वारी
 गंगा = गंगा नदी
 गड्डा = गड़हा, गड्ढा
 गड्डिआ = गाड़ी
 गणणा = गिनती, साका
 गलोया = गिलोय, गुडूची
 गाहा = गृहस्थ, संसारी
 गुंजालिआ = टेढ़ी कियारी या नदी
 गुहा = गुफा
 गोमदा = गली, मुहल्ला
 गोधा = गोह
 गोवालिया, गोवा = ग्वालिन
 गोसात्रिआ = वेश्या, वारागना
 घडणा = घटना, संयोग
 घटा = समूह, जत्था
 घरिल्ला = घरवाली
 घूरा = जांघ
 घोसणा = घोषणा, ऊँची आवाज

चआ = त्वचा, चमड़ी
 चडुत्तरिया = उतरचढ़
 चविडा, चपेटा-तमाचा, थप्पड़
 चप्पुडिया = चुटकी
 चरिया = आचरण, संन्यासिनी
 चवला = विजली
 चिचा = चटाई, विजोका-वृण का बना
 मनुष्य, जो पशु-पक्षी आदि को
 डराने के लिए खेतों में गाड़ा
 जाता है।
 चिता = अफसोस, चिन्ता
 चिगिच्छा = चिकित्सा
 चियगा = चिता
 चिरिका = मशक
 चूडा, चूला = चोटी, केश-शिखा
 चयणा = चेतना
 चंदिआ = चन्द्रिका
 छत्तंतिया = परिषद् विशेष
 छलणा = ठगाई, वंचना
 छायणिया = छावनी, पड़ाव
 छाया = छाया
 छालिया = बकरी
 छिक्का = छोंक
 छुरिआ = छुरी, चाकू
 छोइआ = छिलका
 जंघा = जांघ
 जउणा = यमुना
 जंभा = जंभाई
 जडा = जटा
 जरा = बुढ़ापा
 जाया = स्त्री, पत्नी
 जिब्भा, जीहा = जीभ, रसना
 जीआ = ज्या, धनुष की डोरी

जीविआ = जीविका, आजीविका
 जुण्हा = ज्योत्स्ना, चाँदनी
 जूसणा = सेवा
 भीरा = लज्जा
 झिल्लिआ = कीट विशेष
 झिल्लिरिआ = मशक
 भुंण्डा = झौंपड़ी
 टंकिया = टाँकी
 टंटा = जुआखाना
 ठवणा = स्थापना
 डगा = लाठी, यष्टि
 डिभिया = छोटी लड़की
 डोला = हिडोला, भूला
 णवा = नवोद्वा, दुलहिन
 णाला = नाडी, नस, सिरा
 णालिआ = नाल, डंडी
 णावा = नौका
 णासा = नाक
 णिहा = नींद
 णिभच्छणा = निर्भर्त्सना, तिरस्कार
 णिसा = निशा, रात्रि
 णिसज्जा = उपाश्रय
 णिसीहिआ = श्मशान भूमि
 णिसीहिआ = निशीथिका, स्वाध्यायभूमि
 णिवेसणा = सेवा
 णिहा = माया, कपट
 रोहलिआ = नवफलिका
 णोहा = पुत्रवधू, पतोहू
 तज्जणा = भर्त्सना, तर्जना
 तडिआ = विजली
 तहलिआ = गोशाला
 तारगा = तारका, नक्षत्र
 तारा = अँख की पुतली

तारिया = टिकली, टिकिया
 तालणा = ताड़ना
 तिगिच्छा = चिकित्सा
 तुलणा = तोल, वजन
 थवणिया = धरोहर, न्यास
 थेरिया = बुद्धिया
 दक्खा = द्राक्षा
 दल्लिहा = दरिद्रा, दरिद्र स्त्री
 दुल्लसिअ = नौकरानी
 दुहिआ = लड़की
 दोसा = रात्रि
 धारणा = ग्रहण करनेवाली बुद्धि,
 मकान का खंभा
 धारा = धार, अग्रभाग
 धाहा = पुकार
 धूमिआ = कुहासा
 नणंदा = ननद
 निसा = रात्रि
 पन्नासा = प्रयास
 पइण्ण = प्रतिज्ञा
 पढाया = पताका, ध्वजा
 पडिमा = प्रतिमा, मूर्ति
 पइट्ठा = प्रतिष्ठा, सम्मान
 पइहा, पइभा = प्रतिभा, बुद्धिविशेष
 पउमा = पद्मा, लक्ष्मी, लौंग
 पचचा = घास की झोपड़ी
 पजाला = अग्निशिखा
 पज्जिआ = परनानी, परदादी
 पट्टाढा = पट्टा, घोड़े की पेट्टी
 पट्टपुत्तिया = रुमाल
 पट्टाइया = छोटी पताका
 पट्टवा = तंबू, पट-मण्डप
 पट्टिच्छिआ = प्रतिहारी

पडिमोअणा = छुटकारा
 पडिया = वस्त्रविशेष
 पडिलेहा = प्रतिलेखा, निरीक्षण
 पडुत्तिया = प्रत्युक्ति, प्रत्युत्तर, जवाब
 पड्डिया = पाढी, वल्लिया
 पण्णा = प्रज्ञा, बुद्धि
 पण्हिया = एडी, लात
 परिकखा = परीक्षा, आँच
 परिकहा = परिकथा, वातचीत
 परिगण्णणा = परिकल्पना
 पल्हथिया = आसनविशेष, पालथी
 पसाहा = प्रशाखा, छोटी शाखा
 पहा = प्रभा, कान्ति, दीप्ति
 पाडिवया, पडिवया = प्रतिपदा
 पत्तिआ = पत्रिका
 पसंसा = प्रशंसा
 पाढसाला = पाठशाला
 बाला = बालिका
 बुहुक्खा = भूख
 मज्जा, भारिया = भार्या
 भाउजाया = भाभी
 मट्टिआ = मिट्टी
 माअरा = जननी
 माआ = माँ, माता
 माउसिआ = मौसी
 वाडिआ = वाटिका
 वीणा = वीणा
 सरला = सरल
 सहा = सभा
 संपया = सम्पत्
 कुल्ला = नहर
 साडिआ = साड़ी
 सिक्खा = शिक्षा

सिला = शिला
 सीआ = सीता
 सुहा = अमृत
 सोहा = शोभा
 हलिदा = हल्दी
 पिउसिआ = कृषी, पिता की बहन
 विलया = वनिता
 महिला = स्त्री
 पिआ = प्रिया
 भासा = भाषा
 मिलुगा = फटी जमीन, भूमि की रेखा
 मइरा = मदिरा
 मज्जाया = मर्यादा
 मणालिया = मृणालिका, कमल डंडी
 मत्ता = मात्रा, परिमाण
 ममया = ममता
 मरट्टा = उत्कर्ष
 मल्लिआ = मल्लिका
 मायण्हिया = मृगवृष्णिका
 मिअआ = शिकार
 मिहिआ = अल्प मेघ, मेघसमूह
 मुदिआ = द्राक्षोकी लता
 मुदा = मुधा
 मुदा = मोहर, छाप
 मुसा = मृषा, मिथ्या
 मुदा = मुग्धा, व्यर्थ
 मूसा = धातु गलाने का पात्र, छोटा
 दरवाजा
 मेहरिया = गाली देने वाली स्त्री
 मेहा = मेघा
 रयणा = रचना
 रामा = महिला
 राहिआ = राधिका

रुद्रिया = रोटी
 रेआ = धन, मोना
 रेहा = रेखा
 लंका = लका नगरी
 लंचा = घूस
 लंछणा = चिह्न
 लट्टा = धान्यविशेष
 लया = लता
 ललणा = ललना, स्त्री
 लिक्खा = यूका, जूँ
 लिच्छा = लिप्सा, लाभ की इच्छा
 लीला = क्रीड़ा, विलास
 लूआ = वातिक रोग विशेष
 वंचणा = प्रतारणा
 वदणा = प्रणाम
 वंदुरा = अस्तबल, बुढ़साल
 वक्खा = व्याख्या
 वग्गा = लगाम
 वज्जणा = वर्जना, परित्याग
 वज्जा = प्रस्ताव, अधिकार
 वड्ढिआ = डेकुंवा, कूपतुला
 वद्धणआ = भाइ
 वद्धलिया = बदली
 वसा वया = मेद, बर्षी
 वलया = समुद्रकूल
 ववत्था = व्यवस्था
 ववेक्खा = व्यपेक्षा
 वसाहा = अलंकार, आभूषण
 वसुहा = वसुधा, पृथ्वी
 वाउलिया = छोटी खाई
 वायणा = वाचना, पठन
 विटिया = गठरी, पोटली
 विचित्ता = विचित्रा

सपज्जा = सपर्या, पूजा
 सारिच्छिआ = दूर्वा, दूब
 आकिइ = आकृति, आकार
 असीइ = अस्मी, अशीति
 अच्छि = आंख, नेत्र
 अंजलि = अञ्जली
 इड्ढि = ऋद्धि
 उप्पत्ति = उत्पत्ति
 कडि = कटि, कमर
 कन्ति = काति, तेज
 कित्ति = कीर्ति, यश
 कुच्छि = कुक्षि
 कोडि = कोटि, करोड
 गइ = गति
 गँठि = ग्रन्थि, गाँठ
 गेट्ठि = गोष्ठी
 चिइ = चिता
 छड्ढि = वमन का रोग
 छिप्पी = सीप, शुक्ति
 जाइ = जाति,
 जुत्ति = युक्ति, उपाय
 जुवइ = युवति, युवा स्त्री
 दिट्ठि = दृष्टि नजर
 धिइ = धृति, धीरज
 धूलि = धूल
 नवड = नव्वे
 निहि = निधि
 निव्वुड = निवृत्ति, मोक्ष
 नीइ = नीति
 पसिद्धि = प्रसिद्धि
 पीइ = प्रीति, प्रेम
 पंति = पंक्ति,
 बुद्धि = बुद्धि

भक्ति = भक्ति
 भिउडि = भ्रुकुटि, भौंह
 भित्ति = भीत, दीवाल
 भीड़ = भीति, डर, भय
 भूमि = भूमि, पृथ्वी
 मइ = मति, बुद्धि
 माइ = माता, मातृ
 मुट्ठि = मुष्टि, मुट्ठी
 मुत्ति = मोक्ष, मुक्ति
 मुत्ति = मूर्ति
 रइ = रति, प्रेम
 राइ, रत्ति = रात्रि
 रस्सि = रश्मि, डोरी
 राइ = राजि
 विअड्डि = वेदी, हवन स्थान
 वुट्ठि, विट्ठि = वर्षा, वृष्टि
 वुड्ढि = वृद्धि, बढ़ती
 विहत्थि = वालिस्त, १२ अंगुल
 . प्रमाण
 सामिद्धि, समिद्धि = समृद्धि
 सट्ठि = साठ
 सत्तरि = सत्तर, सप्तति
 सत्ति = शक्ति
 सन्ति = शान्ति
 सुत्ति, सिप्पि = सीप
 सिद्धि = सिद्धि
 सुगन्धि = सुगन्धवाला
 इत्थी, त्थी = स्त्री
 आली, ओली = पंक्ति, सखि
 कत्तरी = कर्तरी, कैची
 कयली, केली = कदली
 कुमारी = कुमारी
 कुहाडी = कुल्हाड़ी, कुठार

कोमुई = कौमुदी, चाँदनी
 कोहली, कोहंडी = कोहड़े का पेड़
 गगरी = गागर, घड़ा
 गलोई = गिलोय, गुडूची
 गोरी = पार्वती
 चउदली = चतुर्दशी
 चुल्ली = छोटा चूल्हा
 छळी = शय्या, विछौना
 छाली = बकरी
 छाया, छाही = छाया
 फल्लरी = झालर
 डाली = डाल, शाखा
 थाली = थाली, बटलोई
 दाली = दाल, दलाहुआ चना
 दासी = दासी, नौकरानी
 धाई, धारी = धाई, धात्री
 नारी = स्त्री
 पत्ती = पत्नी
 पिच्छी, पुहवी, पुठवी = पृथ्वी
 पोफ्फली = सुपारी,
 पोट्टली = पोटरी, गठरी
 बहिणी = बहन
 बारी = पारी, नम्बर,
 भिसिणी = कमलिनी
 लच्छी = लक्ष्मी
 वाडी = वाड़ी, वाटिका
 वावी = वापी
 वेल्ली = लता
 सही = सखी
 सूई = सूची
 साही = शाखी
 हत्थोडी = हथोड़ी
 हत्थिणी = हथिनी

हरडई=हरीतकी, हरड
 हलदी = हल्दी, हरिद्रा
 एकल्ली = अकेली
 गरुई=मोटी, गुर्वी
 गामणी = गाँव का मुखिया
 बहुवी=बहुत
 सुलच्छी = सुलक्ष्मी
 हसमाणी=हसती हुई
 उच्छु, इक्खु=इच्छु, गन्ना
 कंगु=कांगो, धान्यविशेष
 तणु=शरीर
 धेणु = गाय
 पंसु=धूली
 रज्जु=रस्सी
 विज्जु=विजली
 वेणु, वेणु=वांस
 हणु=ठुड़ी, ठोड़ी, चिबुक
 बहु=ज्यादा
 गुरु = मोटा
 ईसालु = ईर्ष्या करनेवाला

लज्जालु=लज्जा करनेवाला
 रिज्जु, उज्जु=सरल
 लघु=लघु
 अब्जू=आर्या, सास
 अलाऊ, लाऊ=लौका, तुंवा
 कणेरु=हथिनी
 चमू=सेना
 कण्डू=खाज
 वहू=वधू
 सरजू=सरयू नदी
 सासू = सास
 पंगू = लंगड़ा
 कंदु=हाँड़ी
 कडच्छु=कली, चमची
 काउ=कापोत लेश्या
 काहेणु = गुंजा, लालरत्ती
 खज्जू=खुजली
 चंचू=चोंच
 जंबू = जामुन
 अणरहू = दुलहिन

धातुकोष

अइसमइ=मात करता है
 अंगीकरइ = स्वीकार करता है
 अंवाहइ=लेप करता है
 अक्रोसइ=आक्रोश करता है, गाली
 देता है
 अक्खिअइ = आक्षेप करता है
 अक्खोहइ = म्यान से तलवार
 खींचता है
 अहइ = भ्रमण करता है ।
 अहक्खइ = गिराता है
 अणइ = आवाज करता है

अणावेइ = मंगवाता है
 अणुकंपइ = दया करता है
 अणुकुणइ = अनुकरण करता है
 अणुचिट्ठइ=अनुष्ठान करता है
 उदाहइ = हाथ से खींचता है
 उदिसइ = संकल्प करता है, स्वी-
 कार करता है ।
 उहंसइ = मारता है, खाली देता है
 उहरइ = उद्धार करता है
 उप्पयइ = उड़ता है, कूदता है
 उप्पालइ = कहता है, बोलता है

उष्पायइ = उत्पन्न करता है
 उष्पासइ = हँसी करता है
 उष्फालेइ = उठाता है, उखाड़ता है
 उष्फिडइ = कुंठित होता है, मेढक
 की तरह कूदता है
 उष्फुसइ = सींचता है
 किलेसइ = क्लेश पाता है, हैरान
 होता है
 कीणइ = खरीदता है, मोल लेता है
 कुल्लइ = कूदता है
 कूडइ = झूठ ठहराता है, अन्यथा
 करता है
 खअइ, खउरइ = सम्पत्ति युक्त करता है
 खउरइ = लुब्ध होता है, कलुषित
 करता है
 खचइ = पवित्र करता है
 खणइ = खोदता है
 खअइ = नष्ट होता, क्षय होता है
 खरइ = झरता है, टपकता है
 खरडइ = लीपता है, पोतता है
 खलइ = पड़ता है, भूलता है
 खासइ = खांसता है
 खिसइ = निन्दा करता है
 खुम्मइ = भूख लगती है
 गलइ = गलता है, सड़ता है
 गसइ = खाता है, निगलता है

गाअइ = जाता है
 गालइ = छानता है
 गिज्जइ = आसक्त होता है, लंगट
 होता है
 गुंठइ = धूलिसात् करता है
 गुडइ = हाथी को फूँछों से सजाता है
 गुद्वेइ = नियन्त्रण करता है
 गुणइ = गिनता है, याद करता है
 गुप्पइ = व्याकुल होता है
 गुभइ = गूथता है, घूमता है
 गुम्मइ = मुग्ध होता है
 गोवेइ = छिपाता है, रक्षण करता है
 घत्तइ = अनुसन्धान करता है, ग्रहण
 करता है, यत्न करता है
 जारइ = त्रिप फैलता है
 घुडुकइ = गरजता है
 घुम्मइ = घूमता है
 घुरुक्कइ = घुड़कता है
 घुसलइ = हाथ मलता है
 घोदइ = पीता है
 चक्रमइ = बार-बार चलता है,
 भटकता है
 चंपइ = चाँपता है, दबाता है, चर्चा
 करता है, चढ़ता है
 चक्खइ = चखता है, स्वाद लेता है,
 कढ़ता है

अवभासो Exercise

Translate into Prakrit हिन्दीभासाए अणुवाचं कुणन्तु

सो अज्जाए आणां अणुसीलइ, करेइ वा । तस्स अहिलासा अईय दुक्करा अत्थि । कक्खाए कइ छत्ता अज्जयणं कुणंति । हं कक्कडिअं कहुं अणुभवेमि । मज्झं कडिआ ण रोयइ । सो भित्ति अणुलिपइ । जत्थ थालीओ लद्धाओ तत्थं तव ताहि सह किमवि पत्तं न वा । सो वेइ अहं तुम्हं न देमि, किन्तु बालगाणं भोगणाए देमि । अणिच्छंतो वि जिणदासो उवरोहवसेण गिण्हत्ता गामाओ वाहिरं निग्गच्छइ । विमलपुरीओ केइ कट्टिहारा कट्टुनिमित्तं रण्णे गया । तत्थ संजायवुट्ठीए कट्ठाई अलहमाणा ते कट्टिहारा चित्ति । अज्ज कि भक्खिस्सामो, कुडुंभवमि कहं पोसिस्सामो । तओ तेण सच्चं कट्टिहाराणं उत्तं—मम पासे भोगवउक्कं अत्थि, अन्नं क्विपि न । तेहि सव्वे भोगया गहीआ । भज्जा-पुत्तजुगसंजुओ जिणदासो गामंतरं निग्गओ । वीयदिणे अग्गओ गच्छंतो मज्झण्हसमए एगाए अडवीए पयाइ । वीयदिणे धम्मदाससेट्ठिघरे पच्चूसे बालगा बुभुक्खिआ संजाया । मंतिपमुहा पडरजणा अह्णिणवं णरिदं हरिसेणं णमंति । ओसहिप्पहावेण सो तम्मि णयरे महाराया जाओ । तस्स सेट्ठिस्स एगो कोटियपुत्तो अत्थि, सो जम्माओ रोगी अत्थि । तेण सो क्विणसेट्ठी तं भूमिघरे रक्खेइ । लोए कहेइ—मम पुत्तो अईव रुववंतो अत्थि । तस्सुवरि कस्सवि द्दिट्ठिदोसो ण लगेज्जा, तेण भूमिघरे ठविओ अत्थि । तस्स रुववण्णं सोच्चा पडरजणा सव्वे पसंसंति । एवं तस्स पुत्तस्स रुववत्तं सोऊण समीवणयरणिवासी रयणसेट्ठी णियकण्णा सीलवईदाणाय तं क्विणसेट्ठिं पत्थेइ । सो क्विणसेट्ठी विआरेइ—‘अहुणा कि करेमि ? कोटियपुत्तस्स मुहं कहं जणाणं दंसेमि । तेण कहिअं ‘तीए कण्णाए जीवणं अहं कयावि मल्लिण ण करिस्सामि । एआरिस—अक्किच्चकरणेण मम मोअणेच्छा वि णत्थि । कि करेमि, जं भावि तं अण्णहा ण होइ । तीए कण्णाए परिसा भवियव्वया तेण एरिसो पसंगो । उवट्ठिओ, अओ अहुणा एअस्स वयणस्स अंगीकरणं चिय वरं । घरंमि विवाहमहूसवो वि पारंभिओ । पउरा मोत्तिअज्जरण-मुह दट्ठूण पसंसं काटं लग्गा—‘धण्णो एसो सेट्ठी, जस्स एरिसो रुववंतो पुत्तो अत्थि’ । एवं मोत्तिअज्जरणस्स रुवसलाहं सुणमाणो सेट्ठी कमेण कण्णाणयरे संपत्तो । मोत्तिअज्जरण—सीलवईकण्णाणं विवाहो वि समहं

संजाओ । करमोयणसमए जामायरस्स बहुद्वं दिण्णं । एवं विवाहमहूसवे समत्ते तओ सव्वे निग्गया ।

Translate into Hindi पाइयभासाए अणुवायं हुणन्तु

उसकी सास विदुषी है । वह मेरी आज्ञा का पालन करता है । तुम भी मेरी आज्ञा मानते हो । उसका आशीर्वाद सफल होगा । मेरी उत्कंठा कथा सुनने की है । कक्षा में कितने छात्र हैं । उसको कढ़ी पसन्द है । मैं भात खाता हूँ । तुम रोटी खाते हो । कमल में भौरे रहते हैं । उसका व्यापार कैसा चलता है । वह मुझको भात करता है । चीनी मीठी होती है । मोर की ध्वनि सुनायी पड़ती है । गंगा का प्रवाह तेज है । गिलहरी पेड़ पर चढ़ती है । व्यभिचारिणी स्त्री दण्ड पाती है । मुझे भूख लगी है । वह गाड़ी से बैठता है । हथिनी नदी में पानी पीती है । वह शरीरसम्बन्धी क्रियाओं से निवृत्त होता है । उसका व्यापार अच्छा चलता है । उसका जूता पुराना है । कस्तूरी की सुगन्ध तेज होती है । उसके यहाँ लक्ष्मी का निवास है । वह अपना छोटा डिब्बा लेता है । हथिनी शहर में रहती है । छोटे घड़े में पानी भरो । कैदखाने भरो । कैदखाने में कैदी रहते हैं । सियारिन बोलती हैं । गुड़ची कड़वी होती है । गृहस्थ खेती करता है । गुफा में साधु रहते हैं । आपकी कृपा से मैं प्रसन्न हूँ । तुम किस मोहल्ले में रहते हो । जमुना में गर्मी के दिनों में पानी नहीं रहता । ग्वालिन दही मथती है । गोह दीवाल पर चढ़ती है । वेश्या नाचती है । यह संयोग ही है कि आपके दर्शन हो गये । उसकी घरवाली पढ़ती है । उसकी जाँघ में पीड़ा हो रही है । उतर-चढ़ करना ठीक नहीं है । उसको वह तमाचा लगाता है । आकाश में विजली चमकती है । वह चटाई पर सोता है । खेत में हरिणों को डराने के लिए विजोका लगाया है । मैं अपने भाई की चिकित्सा करता हूँ । पद्मिनी चिता बनाकर आग लगाती है । बंचना करना अच्छा नहीं है । उसको बहुत छोक आती है । सेना छावनी में निवास करती है । उसके पास छुरी है । गन्ने का छिलका कड़ा होता है । वह जटा बढ़ाकर योगी बनता है । उसकी जटाओं में जूँ हैं । उसे रात में नींद नहीं आती । मैं दिन में भी नींद लेता हूँ । उसकी पुत्रवधू बहुत चतुर है । जुआखाने में जुआरी लड़ते हैं । पूर्णिमा को चाँदनी चमकती है । बुढ़ापे में सभी को कष्ट होता है । उसकी जीभ तेज है । तुम्हारी आजीविका का क्या साधन है । वह मन्दिर में मूर्ति को स्थापित करता है । उपाश्रय में साधु रहते हैं । स्वाध्यायशाला में छात्र स्वाध्याय करते हैं । उसका मायाचार बहुत बुरा है । उसकी नाक पर

मक्खी बैठती है। वह नवोढ़ा सुन्दरी है। गंगा में नौकाएँ चलती हैं। गंगा के किनारे काशी और यमुना के किनारे मथुरा स्थित है। आकाश में विजली चमकती है। मेरे यहाँ उसकी धरोहर नहीं है। नौकरानी वर का काम करती है। मेरी लड़की सातवीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी धारणा शक्ति अच्छी है।

मेरी प्रतिज्ञा पक्षी है। मन्दिर के ऊपर ध्वजा फहराती है। उसकी प्रतिष्ठा सभी करते हैं। वह संन्यासी घास की झोंपड़ी में रहता है। उसकी दादी बुढ़ी है। वह रुमाल से मुँह पोंछता है। माता बच्चे को प्यार करती है। तुम्हारी मौसी कहाँ रहती है। भोजपुरीपत्रिका आरा से निकलती है। जैनसिद्धान्तभास्कर आरा का प्रसिद्ध पत्र है। वे लड़के अभी पाठशाला में पढ़ते हैं। उसकी भाभी रोती है। वे लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण है। प्रतिहारी द्वार पर रहता है। वह गणेश की मूर्ति बनाता है। वे लोग मूर्तियाँ बनाने में प्रवीण हैं। आज चारों ओर कुहासा छाया है। वाटिका में पुष्प खिलते हैं। वीणा सीधी है, राम उसको बजाता है। इस सभा में सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ है। उस पेड़ की अनेक शाखाएँ हैं। भाभी और ननद का झगड़ा इतिहास-प्रसिद्ध है। बुद्धि पढ़ने में नहीं चलती है। तंबू में सेना निवास करती है। उसकी भार्या विद्यालय में रहती है। उस भैंस की पाड़ी अभी छोटी है। दाल में हल्दी पड़ी है। आज रसोइया ने दाल में हल्दी नहीं डाली है। आरा में नहर से खेती होती है। उसके घर की शोभा मोहक है। उसकी साड़ी नीले रंग की है। रामदास शिक्षा प्राप्त करता है। शिला के ऊपर वह बैठकर तपस्या करता है। उस गाली देनेवाली के पड़ोस में मैं नहीं रहता हूँ। वह अभी सुग्धा है, कुछ भी नहीं जानती है। गर्मी में जमीन फट जाती है और उसमें दरार हो जाती है। मेरी ममता उसके ऊपर नहीं है। उसकी रचना अच्छी होती है। राधा यमुना के किनारे खेलती है। पोटली में क्या है। भगवान की पूजा में सभी संलग्न हैं। पृथ्वी पर पशु पक्षी निवास करते हैं। मेरी मोहर तुम्हारे पास है। घर की व्यवस्था का भार मेरे ऊपर है। आकाश में बदली छायी है। अस्तवल में घोड़े रहते हैं। उसकी लीला सभी कामों को खराब करती है। ललनाएँ कृष्ण की भक्ति करती हैं। विहार की सीमारेखा कर्मनाशा नदी है। वह घोड़े की लगाम को ढीला करता है। वे लोग रथ चलाते हैं। आरा के चारों ओर छोटी खाई है। उसकी लीला विचित्र है। सभा में कौन-कौन प्रस्ताव पास हुए हैं। मेरी उनसे वंदना कह देना। वगीचे में मालती की लता सुशोभित है। मैं तुम्हारी शिक्षा मानता हूँ।

वे लोग गले में माला पहिनते हैं। वह सोने को घरिया में गलाता है। सीता हनुमान को आशीर्वाद देती है। मल्लिका की गन्ध पर भौरे आते हैं। वे घूस लेते हैं और दंड पाते हैं। अमृत देवों को अमर बनाता है।

उसकी आकृति सुन्दर है। रामदास की अंजलि में क्या वस्तु है। कमल की उत्पत्ति जल में होती है। उसकी कमर से पट्टा बँधा है। उसके मुँह की कान्ति तेज है। उसका यश सर्वत्र फैलता है। कौशल्या की कोख से राम का जन्म हुआ है। नारकी नरकगति में रहते हैं। उसके पास कैची है। सीप से मोती निकलते हैं। तीन दिन से वर्षा हो रही है। उसका घर पटना में है। वेदी पर हवन-सामग्री रखी है। वह वीणा बजाने में बहुत पटु है। जननी बच्चे को प्यार करती है। वह बच्चा के पास सोती है। सोन नदी से नहरें निकली है। चतुर्दशी को वे उपवास करते हैं। वे शय्या पर सोते हैं। वृक्ष की छाया शीतल है। वे लोग सुपारी खाते हैं। कमलिनी तालाब में खिलती है। सेना पहाड़ पर रहती है। रामदयालु आदमी है। उस ईर्ष्यालु के साथ तुम क्यों रहते हो।

सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी है। हाँडी में धान रखा है। लंगड़ा आदमी आजीविका प्राप्त करता है। उसके शरीर में खुजली है। वे लोग जामुन के फल खाते हैं। गाँव का मुखिया पटना जाता है। शकुन्तला की सखी अनुमूया है। तुम अकेली जाती हो। रात हो गई है। मोटी स्त्री सदा बीमार रहती है। वह सास के पैर छूती है। पक्षी की चोंच लाल है। भिड़ों की स्त्रियाँ गुंजा पहनती हैं। उसकी ठोड़ी पर चिन्ह है। उसके घर में लक्ष्मी का निवास है। नौकरानी पानी भरती है। पृथ्वी पर सोता है। मैं लता को तोड़ता हूँ। लड़के धूलि में खेलते हैं। बकरी पानी पीती है। घास के खेत में गाय चरती है। वह पुष्पमाला धारण करती है। उसके पिता का नाम हरिचन्द्र है। मेरे भाई अजमेर में रहते हैं।

मैं अकेला ही वीणा बजाता हूँ। मूलदेव वीणा बजाने में प्रवीण है। मिट्टी के वर्तन में पानी ठंडा रहता है। तुम लोग सेना में भरती होते हो। हमको अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना है। लक्ष्मी बिजली के समान चंचल है। वह सुई से कपड़ा सीता है। मैं लताओं से पुष्प तोड़ता हूँ। वे लड़कियाँ पाठशाला में पढ़ती हैं। वे रामायण याद करती हैं। वह नन्द को साड़ी देती है। उसकी जादूगरी मेरे ऊपर नहीं चलती है। चीनी से मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। उन कन्याओं का विवाह होता है।

उस कंजूस सेठ के यहाँ हम नौकरी करते हैं। इस समय मैं क्या करूँ। तलघर में दासी रहती हूँ। उसको नजर नहीं लगती है। औपधि के प्रभाव से रोग दूर होते हैं। सभी लोग राजा को प्रणाम करते हैं। मन्त्री आदि नागरिक भी उसको प्रणाम करते हैं। उसकी कमर में मेखला शोभित है। गड्ढे में पानी भरा है। वर्षा ऋतु में छोटे-छोटे क्रीड़े उत्पन्न होते हैं।

हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द

०१. प्राकृत में हलन्त शब्दों का अभाव होने से स्त्रीलिङ्ग रूप भी आकारान्त, ईकारान्त और ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के समान ही होते हैं। उदाहरण के लिए प्रमुख स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप दिये जाते हैं।

कस्मा—कर्म के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	कस्मा	कस्माओ, कस्माउ
वी०	कस्मं	कस्माओ, कस्माउ
त०	कस्माए, कस्माइ	कस्माहि
च०	कस्माए, कस्मइ	कस्माणं
पं०	कस्माए, कस्मत्तो	कस्माहितो
छ०	कस्माए, कस्मइ	कस्माणं
स०	कस्माए, कस्माइ	कस्मासु

महिमा शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	महिमा	महिमाओ
वी०	महिमं	महिमाओ
त०	महिमाए, महिमाइ	महिमाहि
च०	महिमाए	महिमाणं
पं०	महिमाए, महिसत्तो	महिमाहितो
छ०	महिमाए, महिमाइ	महिमाणं
स०	महिमाए, महिमाइ	महिमासु

अञ्चि—कान्ति, तेज, अग्नि की ज्वाला के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	अञ्ची	अञ्चीओ
वी०	अञ्चि	अञ्चीओ
त०	अञ्चीए, अञ्चीइ	अञ्चीहिं
च०	अञ्चीए, अञ्चीइ	अञ्चीणं
पं०	अञ्चीए, अञ्चित्तो	अञ्चीहितो
छ०	अञ्चीए, अञ्चीइ	अञ्चीणं
स०	अञ्चीए	अञ्चीसु

हसई, हसन्ती, हसमाणी—शब्दरूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	हसई, हसन्ती, हसमाणी	हसन्तीओ, हसमाणीओ, हसईओ
वी०	हसइं, हसन्ति, हसमाणि	” ” ”
त०	हसन्तीए, हसईए	हसईहि, हसन्तीहि
च०	” ”	हसईणं, हसन्तीणं
पं०	हसन्तीए, हसन्तित्तो	हसईहितो, हसन्तीहितो
छ०	हसन्तीए, हसईए	हसईणं, हसन्तीणं
स०	हसन्तीए, हसईए	हसईसु, हसन्तीसु

भगवई (भगवती) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	भगवई	भगवईओ
वी०	भगवइं	भगवईओ
त०	भगवईए	भगवईहिं
च०	भगवईए	भगवईणं
पं०	भगवईए, भगवइत्तो	भगवईहितो
छ०	भगवईए	भगवईणं
स०	भगवईए	भगवईसु

तडि—विजली शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	तडी	तडीओ
वी०	तडि	तडीओ
त०	तडीए	तडीहि
च०	तडींए	तडीणं
पं०	तडीए, तडित्तो	तडीहितो
घ०	तडीए	तडीणं
स०	तडीए	तडीसु

छुहा (सुधा) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	छुहा	छुहाओ
वी०	छुहं	छुहाओ
त०	छुहाए	छुहाहि
च०	छुहाए	छुहाणं
पं०	छुहाए, छुहत्तो	छुहाहितो
छ०	छुहाए	छुहाणं
स०	छुहाए	छुहासु

विज्जु—विद्युत् शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	विज्जू	विज्जूओ
वी०	विज्जुं	विज्जूओ
त०	विज्जूण	विज्जूहि
च०	विज्जूए	विज्जूणं
पं०	विज्जूए, विज्जुत्तो	विज्जूहितो
छ०	विज्जूए	विज्जूणं
स०	विज्जूए	विज्जूसु

गरिमा = गुरुता, गौरव
 महिमा = बड़ाई
 सरिञ्चा = नदी, सरिता
 तडिआ = तडित्, विजली
 पाडिवआ, पडिवआ = प्रतिपदा
 संपया = सम्पदा
 लुहा = लुधा, भूख
 कडहा = दिशा
 गिरा = वाणी, वचन
 धुरा = धुरा, अग्रभाग
 पुरा = नगरी
 दिसा = दिशा
 अच्छरसा, अच्छरा = अप्सरा
 तिरच्छी = तिर्यञ्च स्त्री
 अच्छा = अर्चा, पूजा
 अमावासा, अमावस्सा = अमावा-
 स्या, अमावस
 अरइ = अरति, अप्रीति
 असाया = पीडा
 असायणा = आशातना, अपमान
 कयली = कदली, केला
 गरिहा = निन्दा
 तिण्हा = तृष्णा, इच्छा, पिपासा
 थुइ = स्तुति
 पुण्णिमा = पूर्णिमा
 बाहा = हाथ, बाहु
 महोसहि = महौपधि, श्रेष्ठ औपधि
 वत्ता = वार्त्ता
 विवत्ति = विपत्ति
 अउज्झा = अयोध्या
 केरिसी = कैसी
 परिसा = परिपद्, सभा
 भवन्ती = आप

अमरी = देवी
 अच्छरसा = अप्सरा
 पइट्ठा = प्रतिष्ठा
 पञ्चोणी = सम्मुख
 अणगारिया = संन्यासिनी
 उवहि = उपाधि, माया, साधन
 जरादेवी = वसुदेव की स्त्री का नाम
 दोरिआ = रस्सी, डोरी
 मित्ती = मैत्री, दोस्ती
 आगला = अर्गला
 अब्भत्थणा = अभ्यर्थना, प्रार्थना
 आदर
 अद्धमागही = अर्धमागधी भापा
 अवररा = पश्चिम दिशा
 आवया = आपत्ति, आपदा
 आहि = मानसिक पीडा
 कुच्छि = उदर
 जत्ता = यात्रा
 तिहि = तिथि
 पवित्तया = पवित्रता
 पुव्वा = पूर्वा
 महासई = महासती, शीलवती नारी
 वणप्फइ = वनस्पति
 वाधी = वावड़ी
 सासू = सास
 साविगा = श्राविका
 सिरी = श्री, लक्ष्मी
 धुत्तिमा = धूर्त्तता
 होडा = छोकरी
 सिरीमई = श्रीमती
 कुंभआरी = कुम्हारिन
 सुण्णरी = सुन्दरी
 सियाली = शृगाली, मादा सियार

णिसाअरी = राक्षसी
 सुप्पणही = शूर्पणखा
 अप्याणी = आर्या
 विउसी = विटुपी
 मच्छी = मल्ली
 सुएसी = अच्छे वालवाली
 सुदी = शूद्र की स्त्री
 पढन्ती = पढ़ती हुई
 मऊरी = मोरनी
 सीसा = शिष्या
 सेट्ठिणी = सेठानी
 चन्दमुही = चन्द्रमुखी
 कामुआ = विपयाभिलाषिणी
 अयला = अचला
 गायिआ = नायिका
 महिसी = पटरानी
 पढमा = प्रथमा
 किण्णरी = अप्सरा
 चढआ = चिड़िआ
 तुंगणासिआ = ऊँची नाकवाली स्त्री
 गणई = ज्योतिषी की स्त्री
 मुट्ठिआ = मुष्टिका, धूँसा
 णट्टई = नर्तकी
 फलिहा = परिखा, खाई
 चाउँडा = चामुण्डा
 वसही = वसति, गाँव
 गिही = आसक्ति
 पण्हा = प्रश्न
 चोरिआ = चोरी, अपहरण
 रक्खसी = राक्षसी

पुत्तवई = पुत्रवती
 लोहआरी = लुहारिन
 सूअरी = शूकरी
 वंभणी = ब्राह्मण की पत्नी
 उवज्जायाणी = अध्यापिका
 खत्तिआणी = क्षत्रिय की पत्नी
 माणुसी = मानुपी—स्त्री
 गिहवण्णी = गृहपत्नी
 धीवरी = धीवर की स्त्री
 जुवई = युवति
 माहणी = ब्राह्मणी
 सुत्तगारी = सूत्रवनाने वाली स्त्री
 वुत्तिगारी = वृत्तिलिखने वाली स्त्री
 गधिआ = गन्धीगरनी
 पीवरी = स्थूला—मोटी स्त्री
 णिउणा = चतुर स्त्री
 संखपुप्फी = शंखपुष्पी
 रुदाणी = पार्वती
 चवला = चपला-चंचला
 सुवण्णअरी = सुनारिन
 नढी = नटी, नर्तकी
 पाणिगहीदी = धर्मपत्नी
 दीहोअरी = बड़े पेटवाली
 धणवई = धनी स्त्री
 वट्टा = वात
 सण्णा = संज्ञा, नाम
 छमी = शमीवृक्ष
 अलसी = एक प्रकार का तिलहन
 पिसागी = विशाची, राक्षसी

क्रियाकोष

आदरेइ = आदर करता है,
 कीणइ = खरीदता है

जम्मइ = उत्पन्न होता है
 धुव्वइ = कंपाता है, हिलाता है

गिञ्जरइ = झरता है
 फासइ = छूता है
 फरिसइ = छूता है
 वड्डइ = बढ़ता है
 सुमरेइ = स्मरण करता है
 धुणेइ = हिलाता है
 चिणइ = इकट्ठा करता है
 थुणइ, थुणेइ = स्तुति करता है
 पुणेइ = पवित्र करता है
 सुणइ = सुनता है
 बुवेइ = बोलता है
 कहेइ = कहता है
 जाणइ = जानता है
 वीहइ = डरता है
 वसइ = रहता है
 इच्छइ = इच्छा करता है
 चितइ = चिन्ता करता है
 बुञ्जइ = समझता है
 रक्खेइ = रक्षा करता है
 लज्जइ = लज्जा करता है
 हणइ = मारता है
 हुणइ = हवन करता है
 तूसेइ, तोसइ = सन्तुष्ट करता है
 रूसइ = गुस्सा करता है
 रंजइ = आवाज करता है
 रंचइ = रुई से उसके बीज को अलग करता है
 रुहइ = उत्पन्न होता है
 रुलइ = लेटता है
 लाहइ = प्रशंसा करता है
 रुम्हइ = मलिन करता है
 रुय्यइ = रोपता है, बोता है
 रुच्चइ = पसंद करता है

रुंधइ = रोकता है
 रेल्लइ = सराबोर करता है
 रेहइ = शोभता है, चमकता है
 रोयइ = रुचि करता है, चाहता है
 रोअइ = निर्णय करता है
 रोचइ = पीसता है
 रोडइ = अटकाता है
 रोमंथइ = जुगाली करता है, चवाता है
 रोसाणइ = मार्जन करता है, शुद्ध करता है
 रोहइ = उत्पन्न होता है
 लंछइ = कलंकित करता है, तोड़ता है
 लंघइ, लंघेइ = लांघता है, अतिक्रमण करता है
 लंबेइ = सहारा लेता है
 लंभइ = प्राप्त करता है
 लग्गइ = लगता है, सम्बन्ध करता है
 लज्जइ = शरमाता है
 लज्जावइ = लजवाता है
 लठइ = स्मरण करता है, याद करता है
 लदेइ = बोझ लादता है, भार डालता है
 लहइ, लभइ = प्राप्त करता है
 लएइ = ग्रहण करता है
 ललइ = विलास करता है
 लवइ = काटता है, बोलता है
 लसइ = श्लेष करता है, चमकता है
 लहुअइ = लघु करता है
 लायइ = लगाता है, जोड़ता है
 लालइ = स्नेहपूर्वक पालन करता है
 लासइ = नचाता है
 लिअइ = लेपन करता है, लीपता है
 सुक्कइ, लिक्कइ = छिपता है, लुकता है
 लिच्छइ = प्राप्त करना चाहता है

लीलायइ = लीला करता है
 लुअइ = काटता है
 लुटइ, लुटइ = लूटता है
 लुढइ = लुढ़कना है
 लुब्भइ = लोभ करता है
 लुट्टइ = लूटता है, चोरी करता है
 लेइ = लेता है
 लोट्टइ = लोटता है
 लोवेइ = लोप करता है
 लिसइ = सोता है, शयन करता है

लिहइ = लिखता है
 लिहइ = चाटता है
 लुंचइ = बाल उखाड़ता है
 लुंपइ = लोप करता है
 लुणइ = काटता है
 लुहइ = पौछता है
 लूसइ = वध करता है
 लोअइ = देखता है
 लोटइ = कपास निकालता है
 ल्हसइ = खिसकता है, सरकता है

प्रयोगवाक्य

आकाश में विजली चमकती है = विज्जू विज्जोअइ आयासे
 अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है = अओज्झा सरयू नइतडे अत्थि
 उसकी महिमा सर्वत्र व्याप्त है = तस्स महिमा सव्वत्थ वित्थीण्णा अत्थि
 प्रतिपदा तिथि को आप क्या करते हैं = पडिवआतिहीए भवओ कि करेइ
 तुम्हारे पास बहुत सम्पत्ति है = तुम्हाणं समीवे बहुसंपया अत्थि
 उसे आज भूख लगी है = तं अज्ज छुहा वाट्टइ, लगइ वा
 गाड़ी का धुरा टूटता है = सअडस्स धुरा तुट्टइ
 स्वर्ग में अप्सराएँ रहती है = सगग्गि अच्चराओ णिवसंति
 नगरी की कान्ति फटती है = णयरीए अच्चो दीणा होइ
 हसती हुई बालिका शहर में जाती है = हसंती वाला णयरं गच्छइ
 वे वासुदेव की प्रतिष्ठा करते हैं = ते वासुदेवस्स पइठं करेति
 तुम कृष्ण की अभ्यर्थना करते हो = तुमं किसणस्स अब्भथणं करेसि
 हम पूर्णिमा को पूर्णचन्द्र को देखते हैं = अम्हे पुण्णिमाए पुण्णचन्द्रं
 पेच्छमो

उसकी बाहमे पीडा है = तस्स बाहाए पीडा अत्थि
 आपकी यात्रा सफल होती है = भवन्तीए जत्ता सहला होइ
 उसकी विपत्ति को कोई नहीं जानता है = तस्स विवत्ति को वि ण जाणइ
 वे लोग वावही में क्रीड़ा करते हैं = ते जणा वावीए कीलं कुणान्ति
 उस महासती के प्रभाव से अग्नि जल बनती है = तस्स महासईए
 पभावेण अग्गी जलं हवइ
 पार्वती की सास दिनरात काम में संलग्न रहती है = पव्वई ए सासू
 राइदिणं कज्जे संलग्गा अत्थि

उसके पेट मे दर्द है = तस्स कुच्छिए पीडा अत्थि
 सीता श्राविका के व्रत ग्रहण करती है = सीया साविगाए वियं गिण्हइ
 उसकी शोभा आज भी वर्तमान है = तस्स सोहा अञ्ज वि वट्टइ
 मेरी मुट्ठी में वह है = मञ्ज मुट्ठीआए सो वट्टइ
 उस नर्तकी का नाच अच्छा होता है = तीए नडईए उत्तमं णच्चं होइ
 उस नगर की खाई गहरी है = तस्स णयरस्स फलिहा गहीरा अत्थि
 उस वसतिका मे हम लोग रहते हैं = तीए वसदीए अम्हे णिवसामो
 नृत्य मे उसकी बहुत आसक्ति है = णच्चम्मि तस्स बहुगिदी अत्थि
 वह ऊँची नाकवाली वहाँ क्या करती है = सा तुंगणासिआ तत्थ किं
 करइ ।

चामुण्डा के मन्दिर में बहुत लोग हैं = चाउँडाए चेइए बहुजणा सन्ति
 उसकी पटरानी का क्या नाम है = तस्स महिसीए किं नाम अत्थि
 वह विषयाभिलाषिणी विषयों का चिन्तन करती है = सा कामुआ
 विसयाणं चिन्तणं करेइ
 इस अच्छे केशवाली के घर मे कौन रहता है = तीए सुएसीए वरम्मि
 को निवसइ
 वे मामी के घर जाते हैं = ते माउलाणीए गिहं गच्छन्ति
 शंखपुष्पी के फूल सफेद होते है = संखपुष्पीए फुल्लाणि सेअवर्णानि
 हवन्ति

वह तो शूर्पणखा है = सा सुप्पणही अत्थि
 तुम्हारी शिष्याएँ क्या पढ़ती हैं = तुज्ज सीसाओ कि पढंति
 चिड़िया घोंसले मे रहती है = चडआ नीडम्मि णिवसइ
 उपन्यास की नायिका चतुर है = उवणासस्स णायिआ चउरा अत्थि
 कुम्हारिन के घर वह जाती है = सा कुंभआरीए घरं गच्छइ
 अप्सराएँ देवी की स्तुति करती हैं = अच्चरआओ देइं शुणंति
 वे लोग मोरनी का नाच देखते हैं = ते मऊरीए णच्चं पेच्छन्ति
 तालाव मे अगणित मछलियाँ हैं = तढागे अगणिया मच्छीओ सन्ति
 शृगाली रात में भौंकती है = सियाली राइए वुक्कइ
 चन्द्रमुखी का बालक समझता है = चन्दमुहीए बालओ वुज्जइ
 तीर्थभूमियाँ पवित्र करती हैं = तिस्थभूमीओ पुणेति
 वे लोग धान इकट्ठा करते हैं = ते जणा धण्णं चिणंति
 अप्सराएँ समुद्र को लौंघती हैं = अच्चरआओ समुदं लंघंति

महिलएँ स्नेहपूर्वक संतान का पालन करती हैं = महिलाओ सणैहपुव्वं
सन्ताणं लालंति

वे लोग आकाश को छूते हैं = ते आयासं फरिसंति

तुम लोग उसको मारते हो = तुमं तं हणसि

बैल घर में जुगाली करते हैं = वडल्ला घरम्मि रोमंथंति

वे लोग वाराणसी जाना चाहते हैं = ते जणा वाराणसि गमित्तए इच्छंति

ब्राह्मणी शीलव्रत की रक्षा करती है = माहणी सीलवयस्स रक्खं कुणइ

वे नारियाँ अपने कार्यों के लिए लज्जित होती हैं = तीओ महिलाओ
णियकज्जस्स लज्जिया होंति ।

अवभासो Exercise

Translate into Hindi हिन्दीभाषाए अणुवायं कुणन्तु

इहेव भारहेवासे साएयं णाम णयरं । तत्थ वसू णाम सत्थवाहो । तस्स सुंदरी णाम भारिया । जं बहु जणो करेइ धम्मं सो कायव्वो । तथा रणी दासि पुच्छइ—‘को एत्थ मच्चुं पाविओ । तीए रोयमाणीए तप्परिवारो वि रोवेइ । तम्मि काले णरिद्धमज्जा किं पि कारणत्थं कुंभगारी गेहे दासि पेसेइ । तओ जणणीए पुत्तीए समीवमागन्तुं भणियं । धिरत्थु ममं, जेण मए दव्वस्स कए भाडविणासो चित्तिओ । पिअस्स हट्ठाओं नाइदूरे रुक्खस्स पच्छा अप्पाणं आवरिंअ ठविआ । कियंतकाले सो सोण्णारो हट्टं संवरिअ, मंजूसं च हत्थेण गहिऊण सो भयसंतो इओ तओ पासंतो सिग्घं गच्छंतो जाव तस्स रुक्खस्स समीवं आगओ तथा सा सहसा णीसरिऊण मउणेण तं णिबभच्छेइ ।

एगम्मि वणे वाणरो जूहवई सच्छंदपयारो परिवसइ । सो कयाइ परिणयवओ बलवता वाणरेण अभिभूओ । एवं भणंता कलुणं परुण्णा भणइ तं जणणी । तत्थेव णयरे बहस्ससई नाम माहणो, तस्स सोमिला भज्जा, तेसि पुत्तो रुद्धत्तो । सुरिद्धत्त—रुद्धत्ता वालवयंसा ।

सोहम्मदेवो चुओ माणुसं विग्गहं लहिऊण गुरुसमीवे जिणवयणं सोऊणं समणो जाओ, सो अहं । भो महाराय, सागयं ते । राइणा भणियं । अहो ते महाणुभावया । किं वा तवस्सिजणो पियं वज्जिय अण्णं भणिइं जाणइ । ण य मियङ्कविम्वाओ अंगारवुट्ठीओ पढंति । ता अलं एइणा । भयवं, कया ते पारणगं भविस्सइ । अग्गिसम्मणेण भणियं । महाराय, पञ्चहि दिणेहिं । राइणा भणियं । भयवं, जइ ते णाईव उवरोहो, ता कायव्वो

मम गेहे पारणएणं पसाओ ! अग्गिसम्मणे भणियं । महाराय, आगच्छइ ताव सो दियहो, को जाणइ अन्तरे किपि भविस्सइ । राइणा भणियं । भयवं, विघं मोत्तूण संगच्छह । अग्गिसम्मतावसेण भणियं । जइ एवं ते णिब्बन्धो, ता एवं पडिवण्णा (स्वीकृत है) ते पत्थणा ।

ता किं इयाणि पि ते ण संजायं पारणयं ति । अग्गिसम्मतावसेण भणियं 'न संजायं' । तावसेहिं भणियं । कहां न संजायं, किं न पविट्ठो तस्स राइणो गुणसेणस्स गेहं । अग्गिसम्मतावसेण भणियं 'पविट्ठो' । तावसेहि भणियं— 'ता कहां ते न संजायं' ति । तेण भणियं । बालभावाओ चेत्र मे सो राया अणवरद्धवेरिओ, खल्यारिओ अहं तेण । पुच्चि मए पुण न जाणिओ, अवगओ से इयाणि वेराणुबंधो ।

Translate into Prakrit पाइअभामाए अणुवायं कुणन्तु

आकाश मे बादल छाये हैं और विजली चमक रही है । उसने हँसते हुए माँ से कहा—'मैं आज भोजन नहीं करूँगा । मुझे जल्दी ही पुस्तक याद करनी है । अप्सराएँ इन्द्र के अखाड़े मे नाचती हैं । मेरी मित्रता उनके साथ नहीं है । जरादेयी के पुत्र का नाम जरत्कुमार है । अर्धमागधी भापा मे विपुल साहित्य है । पश्चिम दिशा मे उनका घर है । देवताओं की पूजा सुख देती हे । उसके पेट मे पीड़ा है । महासती का तेज अपूर्व होता है । शील के प्रभाव से असंभव कार्यं संभव हो जाते हैं । यात्रा के लिए वे लोग जाते हैं । उनके साथ क्या तुम भी जा रहे हो । यात्रा मे कुछ कष्ट होता है ।

सभा मे कितने सदस्य उपस्थित हैं । विदुषी महिष्ठा घर का आभूषण होती है । वह मोटी स्त्री बीमार है । सुनारिन के घर मेरी दासी जा रही है । उन चोरों ने सारा धन अपने पास रखा है । लुटेरे नगरी को लूटते हैं । नगर के चारों ओर खाई है । विल्ली रात्रि मे भ्रमण करती है । महिलाएँ पढ़ने में सबसे आगे हैं । जैनवालाविश्राम स्त्री-संस्था है । उसका प्रबन्ध प्रशंसनीय है । वहाँ अगणित छात्राएँ पढ़ती हैं ।

वह कमरे को साफ करती है । मैं भी पुस्तकों को साफ करता हूँ । सफाई से रहना जीवनोत्थान का उपाय है । मेरे घर मे चिड़ियाँ घोंसले बनाती हैं । भगाने पर भी वे कहीं नहीं जातीं । अग्नि की लपट से उसका हाथ जलता है । मैं आपकी समस्त बातों को सुनता हूँ । संसार मे परिश्रम करने से ही फल प्राप्त होता है । नलिन पढ़ने मे परिश्रम नहीं

करता है। वह पढ़ने में तेज है। उसका मन खेलने में बहुत लगता है। हम लोग भी पढ़ने में मन लगाते हैं। वचपन का परिश्रम जीवनभर काम आता है।

कुमुदचन्द्र वाराणसी में रहता है। वह सुशील बालक है, पढ़ने में मन लगाता है। उसमें विनय गुण वर्तमान है। रामबालक प्रसाद बहुत परिश्रम करते हैं। उन्होंने पढ़ने का कार्यक्रम तैयार किया है। वे लोग हम लोगों से झगड़ा करते हैं। दण्ड-विभाग का अधिकारी मेरा मित्र है। पढ़ने में उनका मित्र रहता है। मथुरा भी अयोध्या के समान तीर्थ-स्थान है। मथुरा को मधुवन या मधुपुरी भी कहते हैं। धौलपुर चम्बल नदी के तटपर स्थित है। यह प्राचीन स्थान है। मेघदूत में इसका नाम दशपुर आया है। यक्ष मेघ को मार्ग बतलाता है। विदुषी वहनें उन्नति करती हैं।

पंचमो पवाढओ Lesson 5

नपुंसकलिङ्ग शब्द और उनके प्रयोग

२२. नपुंसकलिङ्ग में स्वरान्त शब्दों में प्रथमा और द्वितीया के एक वचन में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है अर्थात् विभक्ति चिह्न अनुस्वार जोड़ा जाता है ।

२३. नपुंसकलिङ्ग में स्वरान्त शब्दों में प्रथमा और द्वितीया के बहु-वचन में ईं, ईँ और णि विभक्ति चिह्न जोड़े जाते हैं ।

२४. प्रथमा के एक वचन में इकारान्त और उकारान्त शब्दों के अन्तिम इ और उ को दीर्घ नहीं होता ।

२५. तृतीया विभक्ति से आगे के सभी रूप पुँलिङ्ग के समान ही होते हैं ।

वण—वन शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	वणं	वणाईं, वणाईँ, वणाणि
वी०	वणं	वणाईं, वणाईँ, वणाणि
त०	वणेण	वणेहिं
च०	वणस्स	वणाणं
पं०	वणत्तो, वणाओ	वणाहितो
छ०	वणस्स	वणाणं
स०	वणम्मि	वणेसु
सं०	हे वण	हे वणाईँ, वणाईँ, वणाणि

धण—धन शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	धणं	धणाईं, धणाईँ, धणाणि
वी०	धणं	धणाईं, धणाईँ, धणाणि

इसके आगे वग शब्द के समान रूप होते हैं ।

इकारान्त दहि (दधि) शब्द

	एकवचन	बहुवचन
प०	दहि	दहीइं, दहीइँ, दहीणि
वी०	दहि	दहीइं, दहीइँ, दहीणि
त०	दहिणा	दहीहि
च०	दहिणो, दहिस्स	दहीणं
पं०	दहिणो, दहित्तो	दहीहित्तो, दहीसुंतो
छ०	दहिणो, दहिस्स	दहीणं
स०	दहिम्मि	दहीसु
सं०	हे दहि	हे दहीइं, दहीइँ, दहीणि

वारि—जल शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	वारिं	वारीइं, वारीइँ, वारीणि
बी०	वारिं	वारीइं, वारीइँ, वारीणि
त०	वारिणा	वारीहि
च०	वारिणो, वारिस्स	वारीणं
पं०	वारिणो, वारित्तो	वारीहित्तो
छ०	वारिणो, वारिस्स	वारीणं
स०	वारिम्मि	वारीसु
सं०	हे वारि	वारीइं, वारीइँ, वारीणि

सुरहि—सुरभि शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	सुरहि	सुरहीइं, सुरहीइँ, सुरहीणि
वी०	सुरहि	सुरहीइं, सुरहीइँ, सुरहीणि

शेष रूप वारि शब्द के समान होते हैं ।

उकारान्त महु—मधु शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	महुं	महूइं, महूइँ, महूणि
वी०	महुं	महूइं, महूइँ, महूणि
त०	महुणा	महूहि
च०	महुणो,	महूणं

	एकवचन	बहुवचन
पं०	महुणो, महुत्तो	महूहितो, महूसुंतो
छ०	महुणो, महुस्स	महूणं
स०	महुम्मि	महूसु
सं०	हे महु	हे महूइं, महूई, महूणि

जाणु—जानु शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	जाणं	जाराइं, जाराई, जाराणि
वी०	जाणुं	जाराइं, जाराई, जाराणि

इसके आगे महु के समान रूप होते हैं ।

अंसु (अश्रु) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	अंसुं	अंसूइं, अंसूई, अंसूणि
वी०	अंसुं	अंसूइं, अंसूई, अंसूणि

इसके आगे महु के समान रूप होते हैं ।

व्यञ्जनान्त दाम—दामन् नपुंसकलिङ्ग शब्द

	एकवचन	बहुवचन
प०	दामं	दामाईं, दामाई, दामाणि
वी०	दामं	दामाईं, दामाई, दामाणि
त०	दामेण	दामेहिं
च०	दामाय, दामस्स	दामाणं
पं०	दामत्तो, दामाओ,	दामत्तो, दामाओ, दामाहितो
छ०	दामस्स	दामाणं
स०	दामम्मि	दामेसु
सं०	हे दाम	हे दामाईं, दामाई, दामाणि

नकारान्त नाम—नामन् शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	नामं	नामाईं, नामाई, नामाणि
वी०	नामं	नामाईं, नामाई, नामाणि

इससे आगे के रूप दाम के समान होते हैं ।

नकारान्त पेम्म (प्रेमन्) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	पेम्मं	पेम्मइं, पेम्माइँ, पेम्माणि
वी०	पेम्मं	पेम्मइं, पेम्माइँ, पेम्माणि

शेष शब्द रूप दाम के समान होते हैं ।

नकारान्त अह—अहन शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	अहं	अहाइं, अहाइँ, अहाणि
वी०	अहं	अहाइं, अहाइँ, अहाणि

शेष रूप दाम शब्द के समान होते हैं ।

सान्त सेय—श्रेयस् शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	सेयं	सेयाइं, सेयाइँ, सेयाणि
वी०	सेयं	सेयाइं, सेयाइँ, सेयाणि

शेष रूप वण शब्द के समान होते हैं हैं ।

सान्त वय (वयस्) शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	वयं	वयाइं, वयाइँ, वयाणि
वी०	वयं	वयाइं, वयाइँ, वयाणि

शेष शब्द रूप वण शब्द के समान होते हैं ।

वर्तमान कृदन्त हसंत, हसमाण शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	हसन्तं, हसमाणं	हसन्ताइं, हसन्ताइँ, हसन्ताणि
वी०	हसन्तं, हसमाणं	हसन्ताइं, हसमाणाइँ, हसन्ताणि

अवशिष्ट रूप वण के समान होते हैं ।

वत् प्रत्ययान्त भगवन्त—भगवत् शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	भगवन्तं	भगवन्ताइं, भगवन्ताइँ, भगवन्ताणि
वी०	भगवन्तं	” ” ”

शेष रूप वण शब्द के समान होते हैं ।

आउ, आउस—आयुष् शब्द के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प०	आउं	आऊइं, आऊइ, आऊणि
वी०	आउं	आऊइं, आऊइँ, आऊणि
त०	आउणा	आऊहि—हिँ
च०	आउणो, आउस्स	आऊणं
पं०	आउणो, आउत्तो	आऊहितो, आऊसुंतो
छ०	आउणो, आउस्स	आऊणं
स०	आउम्मि	आऊसु
सं०	हे आउ	हे आऊइं, आऊणि

शब्दकोष

अवस्माणं = अपध्यान, दुर्ध्यान
 गोविसाणं = गाय का सींग
 चिन्तणं = विचार
 जोव्वणं = यौवन
 पयं = पद, विभक्ति अन्तवाला शब्द
 भस्सं = भस्म, राख
 वागरणं, वायरणं = व्याकरण
 विमाण = विमान
 विसं = विष, जहर
 समायरणं = समाचरण
 सिल्लोगद्धं = श्लोकार्ध, आधा श्लोक
 अत्थं = अस्त, मृत्यु
 आगासं, आयासं = आकाश
 उदगं = जल
 दाहिणपासं = दक्षिण की तरफ

विसेसं = विशेष
 सवण = श्रवण
 आसणं = आसन, बैठने की वस्तु
 गाणं = गान, गीत
 चच्चरं = चौराहा, चौहद्दा
 दव्वं = द्रव्य
 भयं = भय
 वाणिज्जं = वाणिज्य, व्यापार
 समोसरणं = समवशरण
 सरं = सरोवर
 सिद्धालयं = सिद्धालय
 विसाणं = हाथी का दाँत, सींग
 विसारणं = खण्डन
 विसेसणं = विशेषण, दूसरे से
 भिन्नता बतलाने वाला गुण

विसोहणं = विशोधन, शुद्धीकरण
 विस्सं = मांस के समान गन्ध वाला
 विस्सरणं = विस्मृति
 विस्सामणं = चप्पी, अंगमर्दन,
 वैयावृत्य
 विस्सारणं = विस्तारण, फैलाव
 विहं = आकाश
 विहडणं = विघटन
 विहणणं = पिंजन
 विहम्मं = विधर्मता
 विहाणं = विधान, शास्त्रोक्त रीति,
 परित्याग
 विहूणणं = विधूनन, पंखा, दूरीकरण
 वीवाहणं = विवाह करना
 वीसन्दणं = एक प्रकार का खाद्य
 वुक्कारियं = गर्जना
 वुज्जणं = स्थगन, आच्छादन,
 ढरुना
 वुत्तं = छन्द
 वूहं = व्यूह, सैन्यरचनाविशेष
 वेअं = कर्मविशेष, वेद्य
 वेअङ्गं = भिलावा, विदग्धता
 वेअणं = वेतन, कम्प, अनुभव
 वेणइअं = वैनयिक, विनय, नम्रता
 वेणिअं = लोकापवाद
 वेत्तं = स्वच्छ वस्त्र
 वेदिसं = विदिशा की तरफ
 वेप्पुअं = वचपन
 वेफल्लं = निष्फलता
 वेमणस्सं = मनमुटाव
 वेरमं = वैराग्य, उदासीनता
 वेरमणं = विराम, निवृत्ति
 वेरुलिअं = वैदूर्य रत्न

वेलणयं = लज्जा
 वेलुगं = वेल का पेड़
 वेसण = चने का आटा
 वेसम्मं = विपमता
 वेहणं = वेधन
 वेहव्वं = वैधव्य, रँड़ापा
 वेहव्वं = विभूति, ऐश्वर्य
 वोमं = आकाश
 वोरमणं = हिंसा, प्राणिवध
 वोसिरणं = परित्याग
 वोहितं = जहाज, नौका
 संकमणं = संक्रमण, प्रवेश
 संकलं = सांकल, निगड
 संकलणं = संकलन, मिश्रता
 संकित्तणं = संकीर्तन, उच्चारण
 संकोअणं = संकोचन, संकोच
 संखं = सांख्य दर्शन
 संखाणं = गिनती, गणना
 संखेवणं = संक्षेपण, अल्प करना
 संगं = सींग, शृंग सम्बन्धी
 संगमं = संगत, मित्रता
 संगरं = युद्ध
 संगिण्हणं = आश्रयदान
 संगीअं = संगीत, गान
 सगोल्लं = समूह, संघात
 सघट्टणं = संघट्टन, संमर्दन
 संघयणं = संहनन, शरीर, अस्थि-
 रचना
 संघायणं = विनाश, हिंसा
 संचरणं = चलना, गति
 संजणणं = उत्पत्ति
 संजुअं = युद्ध, लड़ाई
 संजोअणं = संयोजन, जोड़ना

संठाणं = आकृति, आकार
 संठावणं = संस्थापन
 संडासं = सँडसी, चिमटा
 संडिब्भं = बालकों का क्रीड़ास्थान
 संतमसं = अन्धकार, अन्धेरा
 सन्तरणं = तैरता
 संतावणं = सन्ताप
 संथरण = संस्तरण, निर्वाह, विछौना
 संदंसणं = दर्शन, देखा
 संदीवणं = उत्तेजना
 संधाणं = सन्धि, सुलह, मद्य, सुरा
 संधारण = सान्त्वना, आश्वासन
 संनिब्भं = सान्निध्य, निकटता
 संनिविट्ठं = मोहल्ला
 संपयाणं = समर्पण
 संपहारणं = निश्चय
 संपाडणं = सम्पादन, निष्पादन
 सपेसणं = संप्रेषण, भेजना
 संवलं = पाथेय
 संमज्जणं = प्रमार्जन, साफकरना
 संमोहणं = मोहित करना
 संरक्खणं = संरक्षणं, समीचीनरक्षण
 संवट्ठण = जहाँ पर अनेक मार्ग
 मिलते हैं, वह स्थान ।
 सवहण = ढोना
 सविहाण = संविधान, रचना
 संवेयणं = ज्ञान
 संसण = कथन, प्रशंसा
 संसवणं = श्रवण, सुनना
 संसोहणं = विरेचन, जुलाव
 सक्कारणं = सत्कार, सम्मान
 सक्खिब्भं = गवाही
 सगहं = गाड़ी

सच्चं = सत्य
 सट्ठं = शठता
 सढयं = कुसुमा, फूल
 सणं = पाट, शण
 सत्तं = सत्त्व
 सत्थं = स्वास्थ्य, स्वस्थता
 सत्थिअं = जॉध
 हरितं = हरी घास
 सदहाणं = श्रद्धान, विश्वास
 सदालं = नूपुर
 सहं = श्राद्ध
 सप्पि = घी, घृत
 समच्चणं = पूजन
 समागमणं = समागमन
 समाएसणं = आज्ञा
 समालंभणं = अलंकरण
 समालोयणं = समालोचन, सामान्य
 अर्थ का दर्शन
 समाहाण = समाधान,
 समुक्कित्तणं = समुत्कीर्तन, उच्चारण
 समुक्खणण = उन्मूलन, उत्पादन
 समुट्ठाणं = सम्यग् उत्थान
 समुदाणं = भिक्षा
 समुद्धरण = उद्धार
 समुप्पिजसं = अयश, अपकीर्ति
 समुत्त्वण = कथन
 सरणं = स्मृति, गमन
 सस्सं = धान्यं
 सहणं = तितिक्षा, मर्पण
 साउज्जं = सहयोग
 सागय = स्वागत
 सामण्णं = श्रमणता, साधुपन
 सामत्थं = पर्यलोचन, मन्त्रणा

सायं = सुख
 सारब्जं = प्वर्ग का राज्य
 सारिक्खं = समानता
 साहसं = साहस
 सिन्दूरं = सिन्दूर
 सिक्खं = खटिया, मचिया
 सिप्पं = पलाल, पुआल, कारीगरी
 सिरं = मस्तक
 सिवं = मंगल, कल्याण
 सिहरं = शिखर
 सीउण्हं = शीतोष्ण
 सुअणं = सोना, शयन
 सुन्देरं = सौन्दर्य
 सुकयं = सकृत
 सुक्कं = चुंगी, शुक्ल
 सुचरिअं = सदाचरण
 सुत्तं = सूत्र, तागा
 सुहं = सुख
 सूलच्छं = गड्ढा, छोटा तालाव
 सेच्चं = शीतपन
 सेवणं = सीना
 सोअमल्लं = सुकुमारता
 सोइअं = चिन्ता
 सोद्धीरं = पराक्रम
 सोमाणं = मसान, मरघट
 सोवाणं = सीढ़ी, निसेनी
 सोसणं = सुखाना
 सोहग्गं = सुभगता, सौभाग्य
 हड्डं = हाड़
 हणणं = मारना
 हम्मिअं = गृह, प्रासाद
 हिजीरं = सांकल, सिकरी
 हिडणं = पर्यटन

हिडोलणं = खेत में पशु आदि को
 रोकने की आवाज
 हिमं = तुपार
 हिरणां = चांदी
 हीसमणं = हेपारव, घोड़े का शब्द
 हेअंगवीणं = नवनीत, मक्खन
 हेमं = सुवर्ण, सोना
 खोहं = मधु
 गोविल्लं = चोली, कंचुकी
 रिणं = कर्ज, ऋण
 उग्गाहणं = उगाहना, तगादा
 उच्चल्लरं = ऊसर भूमि
 उडुं = नक्षत्र
 उण्णं = ऊन
 उवजणं = मालिश
 उवट्ठाण = उपवेशन
 उवणिमंतण = निमन्त्रण
 उसीरं = उशीर, खश
 कंडं = दण्ड लाठी
 कडारं = नारियल
 करपां = इन्द्रिय, साधन
 करिल्लं = करेला
 कवडं = कपट, माया
 कविअं = लगाग्र
 कविल्लुयं = कड़ाही
 कव्वालं = कार्यालय
 कव्वं = काव्य
 कसव्वं = भाफ, वाष्प
 कसिअं = चाबुक
 काणया = जंगल
 काहलं = ढोल, वाद्यविशेष
 किट्टिसं = खली
 किविडं = खलिहान
 कुडगं = भूसा, अन्न का छिलका

कुंभंडं = कोहँडा
 कुच्च = दाढ़ी-मूँछ
 कुडीरं = भोपड़ी
 कुडुवं = परिवार
 कुल्लडं = चूल्हा

कूडं = जाल
 कोडारं = भाण्डागार
 खिच्च = खिचड़ी
 गेहं, गिहं = घर
 घडं = स्तूप, टीला

क्रियाकोष

वंचइ = ठगता है
 वंजइ = व्यक्त करता है
 वंदइ = प्रणाम करता है
 वंलइ = चाहता है, अभिलषा करता है
 वगइ = कूदता है, जाता, है वर्ग करता है
 वज्जइ = डरता है, बजता है
 वज्जरइ = कहता है, बोलता है
 वट्टइ = परोसता है, व्यवहार करता है
 वरतता है
 वड्डइ = बढ़ता है
 वड्डुवइ = बढ़ाता है, वृद्धि करता है
 वण्णइ = वर्णन करता है
 वमइ = रलटी करता है, वमन करता है
 वयइ = बोलता है, कहता है
 वरइ = सगाई करता है, सम्बन्ध करता है
 वलइ = लौटाता है, वापस करता है
 वहइ = पहुँचाता है, मारता है पीड़ा करता है
 वल्लगइ = आरोहण करता है, चढ़ता है
 ववइ = बोता है, देता है
 ववसइ = प्रतिपादन करता है, करता है, प्रयत्न करता है, निर्णय करता है
 ववहरइ = व्यापार करता है

वेहइ = मार डलता है, पीड़ा करता है
 वाइ = सूखता है, चुनता है
 वायइ = वजाता है
 वालइ = मोड़ता है, वापस लौटता है
 वावरइ = काम में लगता है
 वाहइ = वहन करता है, चलाता है
 वाहरइ = बोलता है
 विअंभइ = उत्पन्न होता है, विकसित होता है
 विअट्टइ = अप्रमाणित करता है
 विचारता है, विहरता है
 विअरइ = विहरता है, अर्पण करता है, देता है
 विअप्पइ = विचार करता है, संशय करता है
 विअलइ = मोडता है, गल जाता है, मजबूत होता है
 विअल्लइ = लुब्ध होता है
 विअसइ = विकसित होता है
 विआवइ = जन्म देता है, प्रसव करता है
 विउक्कमइ = परित्याग करता है
 विउक्कसइ = गर्व करता है, बड़ाई करता है
 विउञ्जइ = जागता है

सायं = सुख
 सारब्जं = स्वर्ग का राज्य
 सारिकखं = समानता
 साहसं = साहस
 सिन्दूरं = सिन्दूर
 सिक्कडं = खटिया, मचिया
 सिप्यं = पलाल, पुआल, कारीगरी
 सिरं = मस्तक
 सिवं = मंगल, कल्याण
 सिहरं = शिखर
 सीउण्हं = शीतोष्ण
 सुअणं = सोना, शयन
 सुन्देरं = सौन्दर्य
 सुकयं = सुकृत
 सुक्कं = चुंगी, शुक्ल
 सुचरिअं = सदाचरण
 सुत्तं = सूत्र, तागा
 सुहं = सुख
 सूलच्छं = गड्ढा, छोटा तालाब
 सेच्चं = शीतपन
 सेवणं = सीना
 सोअमल्लं = सुकुमारता
 सोइअं = चिन्ता
 सोद्धीरं = पराक्रम
 सोमाणं = मसान, मरघट
 सोवाणं = सीढ़ी, निसेनी
 सोसण = सुखाना
 सोहगं = सुभगता, सौभाग्य
 हड्डं = हाड़
 हणणं = मारना
 हम्मिअं = गृह, प्रासाद
 हिंजीरं = सांकल, सिकरी
 हिडणं = पर्यटन

हिडोलणं = खेत में पशु आदि को
 रोकने की आवाज
 हिमं = तुपार
 हिरण्णं = चांदी
 हीसमणं = हेपारव, घोड़े का शब्द
 हेअंगवीणं = नवनीत, मक्खन
 हेमं = सुवर्ण, सोना
 खोइं = मधु
 गोविल्लं = चोली, कंचुकी
 रिणं = कर्ज, ऋण
 उगाहणं = उगाहना, तगादा
 उच्चहरं = ऊसर भूमि
 उडुं = नक्षत्र
 उण्णं = ऊन
 उवज्जणं = मालिश
 उवट्ठाणं = उपवेशन
 उवणिमंतणं = निमन्त्रण
 उसीरं = उशीर, खश
 कंडं = दण्ड लाठी
 कडारं = नारियल
 करपां = इन्द्रिय, साधन
 करिल्लं = करेला
 कवडं = कपट, माया
 कविअं = लगास
 कविल्लुयं = कड़ाही
 कव्वालं = कार्यालय
 कव्वं = काव्य
 कसव्वं = भाफ, बाष्प
 कसिअं = चावुक
 काण्णं = जंगल
 काहलं = ढोल, वाद्यविशेष
 किट्टिसं = खली
 किट्टिडं = खलिढान
 कुडगं = भूसा, अन्न का छिलका

कुंभंड = कोदंडा
 कुच्च = दाढ़ी-मूंछ
 कुडीरं = भोपड़ी
 कुदुंबं = परिवार
 कुल्लडं = चूल्हा

कूडं = जाल
 कोडारं = भाण्डागार
 खिच्च = खिचड़ी
 गेहं, गिहं = घर
 घडं = स्तूप, टीला

क्रियाकोष

बंधइ = ठगता है
 वंजइ = व्यक्त करता है
 वंदइ = प्रणाम करता है
 वंछइ = चाहता है, अभिलषा करता है
 वगइ = कूदता है, जाता, है वग
 करता है
 वजइ = डरता है, बजता है
 वज्जरइ = कहता है, बोलता है
 वट्टइ = परोसता है, व्यवहार करता है
 वरतता है
 वड्डइ = बढ़ता है
 वड्डुवइ = बढ़ाता है, वृद्धि करता है
 वणइ = वर्णन करता है
 वमइ = उलटी करता है, वमन
 करता है
 वयइ = बोलता है, कहता है
 वरइ = सगाई करता है, सम्बन्ध
 करता है
 वलइ = लौटाता है, वापस करता है
 वहइ = पहुँचाता है, मारता है पीड़ा
 करता है
 वलगइ = आरोहण करता है, चढ़ता है
 ववइ = वोता है, देता है
 ववसइ = प्रतिपादन करता है, करता
 है, प्रयत्न करता है, निर्णय करता है
 ववहरइ = व्यापार करता है

वेहइ = मार डलता है, पीड़ा करता है
 वाइ = सूखता है, बुनता है
 वायइ = बजाता है
 वालइ = मोड़ता है, वापस लौटता है
 वावरइ = काम में लगता है
 वाहइ = वहन करता है, चलाता है
 वाहरइ = बोलता है
 विअंभइ = उत्पन्न होता है, विकसित
 होता है
 विअट्टइ = अप्रमाणित करता है
 विचारता है, विहरता है
 विअरइ = विहरता है, अर्पण करता
 है, देता है
 विअप्पइ = विचार करता है, सशय
 करता है
 विअलइ = मोड़ता है, गल जाता है,
 मजबूत होता है
 विअल्लइ = लुब्ध होता है
 विअसइ = विकसित होता है
 विआवइ = जन्म देता है, प्रसव
 करता है
 विउक्कमइ = परित्याग करता है
 विउक्कसइ = गर्व करता है, वड़ाई
 करता है
 विउञ्जइ = जागता है

विउसइ = विद्वान् की तरह आचरण करता है

विओजइ = अलग करता है

विघइ, विष्मइ = अलग होता है

विंटइ = वेष्टन करता है, लपेटता है

विकंथइ = प्रशंसा करता है

विकट्टइ = काटता है

विकिणह, विकइ, विककेइ = वेचता है

विकखरइ = विखरता है

विकुप्पइ = कोप करता है

विकूणइ = घृणा से मुँह मोड़ता है

विगणइ = निन्दा करता है, घृणा करता है

विगरहइ = निन्दा करता है

विगिंचइ = पृथक् करता है

विचलुट्टइ = विक्षोभ करता है, चंचल हो उठता है

विट्टालइ = अस्पृश्य करता है, उच्छिष्ट करता है

विढंवइ = तिरस्कार करता है

विढवइ = उपार्जन करता है, पैदा करता है

विणिजुजइ = जोड़ता है, कार्य में लगता है

विणिवट्टइ = निवृत्त होता है, पीछे हटता है

विणिवारइ = रोकता है, निवारण करता है

विणवइ = प्रार्थना करता है

विणसइ = स्थापना करता है

विद्धइ = छेदता है

विप्पलंभइ = ठगता है

विम्हरइ = याद करता है

विरइ = तोड़ता है, व्याकुल होता है

विरल्लइ = विस्तारता है, फैलाता है

विलसइ = मौन करता है

विवरइ = बाल सँवारता है

विसइ = हिंसा करता है

विसूरइ = खेद करता है

वेअइ = अनुभव करता है

वेढइ = लपेटता है

वेहइ = वीधता है

वोलइ = चलना है

वुड्डइ = बढ़ता है, बढ़ाता है

वेआरइ = ठगता है, प्रतारण करता है

वेल्लइ = काँपता है, क्रीड़ा करता है

वोसरइ = परित्याग करता है

विरमालइ = वाट जोहता है

विरेअइ = दस्त लेता है

विलुंपइ = अभिलाषा करता है

विवहइ = विवाह करता है

विसिसइ = विशेषण युक्त करता है

वीसुंभइ = पृथक् होता है

प्रयोगवाक्य

जल में ममलियाँ रहती हैं = वारिम्मि मच्छा णिवसंति ।

वह अपध्यान करता है = सो अवज्झाणं करेइ ।

वे लोग दक्षिण की तरफ जाते हैं = ते दाहिणपासं गच्छंति ।

हम लोग उसके आसन को पसंद करते हैं = अम्हाणं तस्स आसणं

उसका यौवन अभी भी अक्षुण्ण है = तीए जोव्वणं अहुणावि अखुण्णं
अत्थि

उसका व्याकरण ज्ञान बहुत अच्छा है = तस्स वायरणणाणं बहूत्तममं
अत्थि

मुझे श्लोकार्ध भी नहीं आता है = मह सिलोगद्धं वि ण आआइ

चौराहे पर वे लोग मिलते हैं = चच्चरम्मि ते जणा मिलन्ति

समोशरण में मनुष्य, पशु-पक्षी सभी बैठते हैं = समोसरणम्मि मणुस्स
पसू-पक्खिणो सव्वे जीवा आसंति

व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, और क्रिया का वर्णन रहता है = वागर-
णम्मि संण्णा सव्वनाम-विसेसण-किरियाणं-वण्णणं रहइ

चतुर लोग चौराहे पर घूमते हैं = विअड्डुजणा चच्चरम्मि भमन्ति

सिद्धालय में सिद्ध रहते हैं = सिद्धालमम्मि सिद्धा णिवसंति ।

सिंह-गर्जना जंगल में सुनाई पड़ती है = सिंहगज्जरां वग्गे सुणइ ।

उससे मेरा मनमुटाव है = तेहिं सह मज्झ वेमणस्सं अत्थि

मुझे पाठ तनिक भी याद नहीं है = मज्झ पाठो अप्पं वि ण विम्हरइ

विषमता हमारे देश से कब दूर होगी = वेसम्मं अम्हाणं देसत्तो कया
दूरं होज्जहिइ

उसका संगीत मुझे बहुत प्रिय है = तस्स संगीअं मज्झ बह्वापयं अत्थि

उसकी आकृति भयावह है = तस्स स्टाणं भयावहं अत्थि

उस कहानी का तुम संक्षेपण करते हो = तीए कहाए तुमं संखेवणं करेसि

अवभासो Exercise

Translate into Hindi हिन्दीभासाए अणुवायं कुणन्तु

पाइयकव्वं लोए कस्स हिययं न सुहावेइ । सो पावकम्मं ण करेइ ।
साहूणं दंसणं वि नियमा दुरियं पणासेइ । राया सुवण्णयारं कहइ ।
संपइ नरिदो सयलाए पिच्छीए चेइआइं करेइ । सो तवस्सि भिवखुं य
पीडइ । पापकम्म नेव कुज्जा न कारवेज्जा । समणोवासगो पड्डहाए महोच्छवे
सव्वे साहम्मिए भुंजावेसी । नरिदो तत्थ गिरिम्मि चेइअं णिम्मइ ।
सव्वेसि गुणाणं वह्मचेरं उत्तममत्थि । गुरवो सया अम्ह रक्खन्तु । अम्हे
धणं विटवइ ।

कण्हेण भयवं पुच्छिओ, सामि ! कत्तो मे मरणं भविस्सइ, सामिणा
कहियं, जो एस 'ते जेट्ठभाया' वसुदेवपुत्तो जरादेवीए जाओ जरकुमात्तो

नाम, इमाओ ते मच्चू, तओ जायवाण जराकुमारे सविसाया सोएण निवडिया दिट्ठी, चित्तिअं इमिणा 'अहो' कट्ठं अहं वासुदेवपुत्तो होऊण सयत्तजणमिट्ठं कणिट्ठं भायरं विणासेहामि त्ति, तओ आपुच्छिऊण जादवजणं जणहणरमवणत्थं गओ वणवासं जराकुमारो ।

अणण्या रायगिहे दूरदेसाओ समागया रयणकंबलवाणियगा । दंसिया महाजणस्स कंबलगा कि मोल्लं ति पुट्ठा महाजणेण, ते भणति एक्केक्कं लक्खमोल्लं । अइमहग्घ त्ति न गहिया केणावि । तओ गया रायकुले । पिट्ठा सेणिएण, महग्घ त्ति न गहिया रत्ता । चेल्लणा भणइ—'मम एगं गेणहसु 'राया नेच्छइ । निग्गया रायकुलाओ वाणियगा । भमंता गया भद्दागेहे । दंसिया भद्दाए वि कंबला गहिया सव्वे, मोल्लं च दिएणं । चेल्लणा कंबलकए रुट्ठा सेणियस्स । नायं रत्ता, पेसिया पुरिसा—वाहरह वाणियं । आगया, भणंति—गोभइ सेट्ठिभज्जाए भद्दाए सव्वे रयणकंबला गहिय त्ति । पेसिओ तत्थ सेणिएण पहाणपुरिसो, जहा—'कएणं मम चेल्लणाए एगं कंबलणं देहि त्ति । भणियं भद्दाए—'को देवपाएहिं सह अम्ह ववहारो, मोल्लं विणा वि कंबलो छिज्जइ । किन्तु ते सव्वे सुण्हायां पायपुंछणया कया सेज्जमारुहंतीण । बहुकालगहिया अत्थि । किन्तु तेसु किसारियाए (कीड़ों ने) कत्थइ दोरओ (तागा) पायडो कओ । तेण तेहिं न कयाडं पायपुंछणाइं । मा दोरएणं साल्भिह-भज्जाणं पाया छणिज्जिसंति । तओ तेहिं जइ देवपायाण कज्जमत्थि, ता देवो आणवेउ, जेण समापिज्जंति ।' निवेइयं रत्ता । तुट्ठो सेणिओ । अहो कयत्थो अहं, जस्स मम परिसगा वाणियगा संति ।

Translate into Prakrit पाइयभासाए अणुवायं कुणन्तु

किसी समय राजगृह में दूर देश से रत्नकंबल वेचनेवाले व्यापारी आये । उन्होंने वहाँ के महाजनों को कंबल दिखलाये । महाजन उनका मोल पूछते हैं । वे एक-एक लाख रुपया कीमत बतलाते हैं । रानी चेलना लेना चाहती है । मोल अधिक होने से राजा नहीं खरीदता है । यह आग जलती है और सोना चमकता है । मैं एक बात सोचता हूँ । वे लोग यह नहीं सोचते । किसान गुड तोलता है । लड़के कालेज में हल्ला करते हैं, पढ़ते नहीं । किसी नगर में एक कुम्हार रहता है । उसकी पत्नी की मित्रता राजा की रानी के साथ है । कुम्हारिन के घर में गधी हैं, जिसे वह बहुत प्यार करती है । मुझे पंखे की हवा अच्छी लगती है । उसको अंगमर्दन अच्छा नहीं लगता है ।

सांख्यदर्शन आत्मा का अस्तित्व मानता है। मैं गद्य का संचेपण करता हूँ। उसके पास अपार ऐश्वर्य है। मुझे वेसन की रोटी अच्छी मालूम होती है। वेल के पेड़ पर बहुत पत्ते हैं, पर फल नहीं हैं। मैं गान्धी के गुणों का निरन्तर संकीर्तन करता रहता हूँ। मैं विधर्मी के साथ भी सम्बन्ध बनाये रखता हूँ। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, पर आप मेरी बात नहीं मानते हैं। वे अपनी ही बात कहते रहते हैं।

उनका आचरण हमको भी अच्छा लगता है। यह एक लोककथा है। वसन्नपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता है। उसके पास तीन गायें हैं। कर्म एवं साधना के क्षेत्र में अन्धानुकरण करना हानिकर है। इस कथा में मानव-स्वभाव का सुन्दर विश्लेषण है। इसके पश्चात् माता पुत्री के पास पहुँचती है। संसार में परिग्रह का संचय ही पाप का कारण है। इस कथा के रचयिता आचार्य हरिभद्र हैं। कुन्दकुन्दाचार्य का लिखा हुआ समयसार ग्रन्थ है। आचार्य नेमिचन्द्र ने गोम्भटसार की रचना की है।

संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम सर्वोपरि है। उमास्वाति बहुत बड़े सूत्रकार हैं। सूत्र-ग्रन्थों की शैली संक्षिप्त होती है। मैं स्नानकर भोजन करता हूँ और तुम बिना स्नान किये ही भोजन कर लेते हो। प्रातःकाल जागना स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। हँसती हुई लड़कियाँ भूला भूलती हैं। तुम लोग माता-पिता की आज्ञा मानते हो या नहीं। मेरे भाई अजमेर में रहते हैं। वे कपड़े का व्यापार करते हैं। उनके यहाँ उत्सव होता है। मैं भी उस उत्सव में शामिल होता हूँ। आप लोग वाराणसी क्यों जा रहे हैं।

काल और क्रिया रूप

२५. काल रचना की दृष्टि से प्राकृत में वर्तमान, भूत, आज्ञा, त्रिधि, भविष्य और क्रियातिपत्ति के प्रयोग दिखलायी पड़ते हैं। सहायक क्रिया के साथ कृदन्त रूपों का व्यवहार बहुलता से उपलब्ध होता है।

२६. वर्तमान काल के दो भेद हैं—सामान्य वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान। सामान्य वर्तमान का अनुवाद वर्तमान काल के सामान्य रूपों द्वारा किया जाता है। यथा—

बालक हँसता है = बालओ हसइ ।

वे पढ़ते हैं = ते पढन्ति ।

हम लोग दौड़ते हैं = अम्हे धावन्ति ।

वे लोग छत से गिरते हैं = ते पासादओ पडन्ति ।

वह गुरु को प्रणाम करता है = सो गुरुं पणसइ ।

मैं सच बोलता हूँ = अहं सच्चं बोलामि ।

हम लोग आपको प्रणाम करते हैं = अम्हे भवन्तं पणमानो ।

तुम पुस्तक पढ़ते हो = तुमं पोत्थयं पढसि ।

आप पुस्तक लिखते हैं = भवन्तो पोत्थयं लिहइ ।

तुम लोग खेलते हो = तुम्हे खेलित्था

वे पटने में रहते हैं = ते पडलिपुत्ते वसन्ति ।

वे लोग काशी में रहते हैं = ते कासीए वसन्ति ।

वे लोग चलते हैं = ते जणा चलन्ति ।

२७. तात्कालिक वर्तमानकाल के वाक्यों का अनुवाद दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम प्रक्रिया द्वारा सामान्य वर्तमान काल के क्रिया रूपों को रखकर ही प्राकृत वाक्य लिखे जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया में मूलधातु में न्त प्रत्यय जोड़कर कर्त्ता के वचन के अनुसार अत्थि या सन्ति लगाकर अनुवाद करते हैं। प्राचीन प्राकृत में तात्कालिक वर्तमान (Present progressive tense) के प्रयोग प्रायः नहीं मिलते। सामान्य वर्तमान की क्रिया से ही वाक्यों का अनुवाद किया गया है।

हमारे विचार से तात्कालिक वर्तमान का अनुवाद 'न्त' और अत्थि के योग से ही करना उचित है। यथा—

वह जा रहा है = सो गच्छन्तो अत्थि ।

तू जा रहा है = तुमं गच्छन्तो अत्थि, सि वा ।

वे लोग पढ़ रहे हैं = ते पठन्ता सन्ति ।

तुम लोग पढ़ रहे हो = तुम्हे पठन्ता अत्थि ।

मैं पढ़ रहा हूँ = अहं पठन्तो अत्थि, हं पठन्तो म्हि वा

वह छात्रा जा रही है = सा छत्ता गच्छन्ती अत्थि ।

वे छात्राएँ पढ़ रही हैं = तीओ छत्ताओ पठन्तीओ संति ।

लड़कियाँ विद्यालय जा रही हैं = बालिआओ विज्जालयं गच्छन्तीओ संति ।

वह मनोरमा काम कर रही है = सा मनोरमा कज्जं कुणन्ती अत्थि ।

रामदास पुस्तक याद कर रहा है = रामदासो पत्थयं सुमिरन्तो अत्थि ।

वह कलम से लिख रहा है = सो कलमेन लिखन्तो अत्थि ।

सुरेन्द्र विद्यालय जा रहा है = सुरेन्द्रो विज्जालयं गच्छन्तो अत्थि ।

मैं तुम से पूछ रहा हूँ = हं तुमं पुच्छन्तो म्हि ।

वह परमात्मा का ध्यान कर रहा है = सो परमपं ज्ञाणन्तो अत्थि ।

वे रुपये एकत्र कर रहे हैं = ते रूपआणि चिक्वन्ता संति ।

वे परिश्रम से काम कर रहे हैं = ते समेण कज्जं कुणन्ता सन्ति ।

तुम क्या कर रहे हो = तुमं कि कुणन्तो अत्थि, सि वा ।

वह जंगल में घूम रहा है = सो वणम्मि अटन्तो अत्थि ।

राजकन्याएँ पूजा कर रही हैं = रायकण्णाओ पुज्जं कुणन्तीओ संति ।

वह घर जा रहा है = सो गिहं गच्छन्तो अत्थि ।

लड़के धन जमा कर रहे हैं = बालिआ धणं अज्जन्ता संति ।

ज्ञानपीठ पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है = णाणपीठो पोत्थयाइं पआसन्तो अत्थि ।

चौखम्बा भी पुस्तकें छाप रहा है = चौखम्बा वि पोत्थयाइं पआसन्तो अत्थि ।

वे लोग चौखम्बा के लिए पुस्तकें लिख रहे हैं = ते चौखम्बास्स कए पोत्थयाइं लिहन्ता सन्ति ।

स्टीमर पानी में डूब रहा है = जलयाणं जलम्मि णिमज्जन्तं अत्थि ।

ढाकिया चिट्ठियाँ ला रहा है = पत्तवाहओ पत्ताणि आणयन्तो अत्थि ।

शिक्षक बालकों को पढ़ा रहा है = सिक्खओ बालिआ पठन्तो अत्थि ।

- मुनि तीर्थयात्रा के लिए जा रहे हैं = मुनीओ तित्थजत्ताए गच्छन्ता संति ।
 बालक खेल कर रहे हैं = बालआ खेलं कुणन्तो सन्ति ।
 सेना दुर्ग में प्रवेश कर रही है = सेना दुग्गम्मि पवेसं कुण्ती अत्थि ।
 गुरु शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं = गुरु सिस्से उवएसं देंतो अत्थि ।
 वे लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं = ते सोवाणं आरोहंता सन्ति ।
 मैं पीढ़े पर बैठ रहा हूँ = हं पीढम्मि उवविसंतो अत्थि ।
 आप लोग देव को प्रणाम कर रहे हैं = भवन्ता देवं प्रणामन्ता संति ।
 वे लोग समुराल जा रहे हैं = ते समुरालयं गच्छन्ता सन्ति ।
 नागरिक लोग नृत्य देख रहे हैं = पउरा जणा णच्चं पेच्छन्ता सन्ति ।
 वे धर्मशाला में रह रहे हैं = ते धम्मसालाए वसन्ता सन्ति ।
 माली वृक्षों का सिंचन कर रहा है = माली विच्छाणं सिंचणं
 कुणन्तो अत्थि ।
 मधुमक्खियाँ मधु संचय कर रही हैं = महुमक्खियाओ महुसंचयं
 कुणन्तीओ सन्ति ।

वर्तमानकाल में कुछ धातुओं के रूप

ठा < स्था—ठहरना

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	ठाइ	ठान्ति, ठान्ते, ठाइरे
म० पु०	ठासि	ठाइत्था, ठाइ
उ० पु०	ठामि	ठामो, ठामु, ठाम

ने < नी—ले जाना

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	नेइ	नेन्ति, नेन्ते, नेइरे
म० पु०	नेसि	नेइत्था, नेह
उ० पु०	नेमि	नेमो, नेमु, नेम

पा—पीना

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	पाइ	पान्ति, पान्ते, पाइरे
म० पु०	पासि	पाइत्था, पाह
उ० पु०	पामि	पामो, पामु, पाम

ण्हा < स्ना—स्नान करना

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	ण्हाइ	ण्हान्ति, ण्हान्ते, ण्हाइरे
म० पु०	ण्हासि	ण्हाइत्था, ण्हाह
उ० पु०	ण्हामि	ण्हामो, ण्हामु, ण्हाम

कर < कृ—करना

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	करइ, करेइ, करए	करन्ति, करेन्ति, करन्ते, करिरे
म० पु०	करसि, करसे, करेसि	करित्था, करह, करेह
उ० पु०	करामि, करेमि, करमि	करिमो, करामो, करमो, करेमो, करिमु, करिम, कराम

अस्—होना

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	अत्थि	अत्थि, संति
म० पु०	अत्थि, सि	अत्थि
उ० पु०	आत्थि, म्हि	अत्थि, म्हो, म्ह

२८. वर्तमान काल में धातु का अत्थि रूप तीनों पुरुष और दोनों वचनों में बनता है ।

भूतकाल

२९. भूतकाल के परिज्ञान के लिए प्राकृत में एक ही काल का प्रयोग पाया जाता है । अनुवाद में कृदन्त पदों से विशेष सहायता ली जाती है । सभी प्रकार के अतीत प्रयोगों में सामान्य भूत के अतिरिक्त कृदन्तों का भी प्रयोग पाया जाता है ।

३०. भूतकाल के रूपों के लिए व्यञ्जनान्त धातुओं में ईअ प्रत्यय सभी पुरुषों और सभी वचनों में जोड़ा जाता है । स्वरान्त धातुओं में तीनों पुरुष और दोनों वचनों में सी, ही और हीअ प्रत्यय जोड़कर रूप बनाये जाते हैं ।

व्यञ्जनान्त हस धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हसीअ	हसीअ
म० पु०	हसीअ	हसीअ
उ० पु०	हसीअ	हसीअ

स्वरान्त हो धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	होसी, होही, होहीअ	होसी, होही, होहीअ
म० पु०	होसी, होही, होहीअ	होसी, होही, होहीअ
उ० पु०	होसी, होही, होहीअ	होसी, होही, होहीअ

ठा < स्था—ठहरना धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	ठासी, ठाही, ठाहीअ	ठासी, ठाही, ठाहीअ
म० पु०	” ” ”	” ” ”
उ० पु०	” ” ”	” ” ”

झा < ध्यै—ध्यान करना

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	झासी, झाही, झाहीअ	झासी, झाही, झाहीअ
म० पु०	झासी, झाही, झाहीअ	झासी, झाही, झाहीअ
उ० पु०	झासी, झाही, झाहीअ	झासी, झाही, झाहीअ

ने < नी—ले जाना

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	नेसी, नेही, नेहीअ	नेसी, नेही, नेहीअ
म० पु०	नेही, नेही, नेहीअ	नेसी, नेही, नेहीअ
उ० पु०	नेसी, नेही, नेहीअ	नेसी, नेही, नेहीअ

अस् धातु का तीनों पुरुषों में एकवचन में आसि और बहुवचन में अहेसि रूप बनता है। कुछ वैयाकरणों के अनुसार तीनों पुरुषों के एकवचन और बहुवचन का रूप आसि ही है।

प्रयोगवाक्य

- तुम पटना गये थे = तुमं पाडलिपुत्तं गच्छीअ ।
 उसने बनारस में पढ़ा था = सो वाराणसी ए पढीअ ।
 तुमने यह क्या किया = तुमं इदं किं करीअ ।
 उन लोगोंने आँखें बन्द कीं = ते जणा नेत्ताइं संमीलीअ ।
 उन लोगों ने आत्मा का ध्यान किया = ते जणा अप्पं झाहीअ ।
 मैंने प्रातःकाल में पुस्तक पढ़ी = अहं पचचूसे पोत्थयं पढीअ ।
 उसने मेरी घड़ी चुराई = सो मज्ज घडि चोरीअ ।
 किसान ने खेत सींचा = किसओ खेतं सिचीअ ।
 मैंने रोटी खायी = अहं रोटीअं खादीअ ।
 राम ने मेरे विरुद्ध शिकायत की = रामो मज्ज विवरीयं अवहीरीअ ।
 शिक्षक ने लड़के को पीटा = सिक्खओ वालअं ताडीअ ।
 उसने मधुर गीत गाया = सा महुरं गीयं गाहीअ ।
 पुलिस ने चोर को पकड़ा = पुलिसो चोरं गिण्हीअ ।
 न्यायाधीश ने फैसला सुनाया = णायाहीसो नायं सुणीअ ।
 तुम एक पुस्तक पढ़ रहे थे = तुमं एगं पोत्थयं पढीअ ।
 लड़के मैदान में खेल रहे थे = बालआ खेत्ते खेलीअ ।
 यात्री यात्रा कर रहे थे = जात्तीआ जत्तं करीअ ।
 तुम कुएँ पर स्नान कर रहे थे = तुमं कूवम्मि एहाणं करसी ।
 तुम ने रामायण पढ़ी थी = तुमं रामायणं पढीअ ।
 तुम्हारे पिता घर जा रहे थे = तुज्ज पिआ गिहं गच्छीअ ।
 रसोइया ने भोजन बनाया = पाचओ भोयणं णिम्मीअ ।
 शिक्षक लड़कों को पढ़ा रहे थे = सिक्खओ वालआ पढीअ ।
 रमिला गाना गा रही थी = उम्मिल्ल गाणं गाहीअ ।
 उसकी बेटा ने प्रवेशिका पास की = तस्स पुत्ती पवेसिअं उत्तरीअ ।
 उसने खेत से धान काटा = सो खेतओ सस्सं कट्टीअ ।
 बाग में माली ने फूल तोड़े = उज्जाणे माली फुल्लणि तुट्टीअ ।
 माता ने बालक को भात खिलाया = माया बालअं भत्तं भुंजावीअ ।
 कुन्ती ने पुत्रों को शिक्षा दी = कुन्ती बालआ सिखं देहीअ ।
 भिक्षारी ने भीख माँगी = भिक्खुओ भिक्खं मग्गीअ ।
 मझाह नदी में नाव को ले गया = केवढो न्हँए नावं नेहीअ ।
 सेवक ने आज्ञा नहीं मानी = सेवओ अप्पणं ण मण्णीअ ।

मैंने किसी की बुराई नहीं की = अहं कस्सवि अणिट्ठं ण करीअ ।
वे लोग पटने में रहते थे = ते जणा पाडलिपुत्तम्मि णिवसीअ ।

भविष्यत्काल

३१. भविष्यत्काल का व्यवहार प्राकृत में एक ही प्रकार का पाया जाता है। इसका अनुवाद भी सामान्य भविष्य के क्रियापदों द्वारा किया जाता है। इसकी रूपावली के लिए प्रथम पुरुष एकवचन में हिइ और बहुवचन में हिनित्, मध्यम पुरुष के एकवचन में हिसि और बहुवचन में हित्था एवं उत्तम पुरुष के एकवचन में स्सं, स्सामि और बहुवचन में स्सामो प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

हस धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हसिहिइ	हसिहिनित्
म० पु०	हसिहिसि	हसिहित्था
उ० पु०	हसिस्सं, हसिस्सामि	हसिस्सामो, हसिस्सामु

हो धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	होहिइ	होहिनित्
म० पु०	होहिसि	होहित्था
उ० पु०	होस्सं, होस्सामि	होस्सामो, होस्सामु

ठा धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	ठाहिइ	ठाहिनित्
म० पु०	ठाहिसि	ठाहित्था
उ० पु०	ठाहामि, ठास्सामि	ठास्सामो, ठाहामो

झा धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	झाहिइ	झाहिनित्
म० पु०	झाहिसि	झाहित्था
उ० पु०	झास्सामि	झास्सामो

ने धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	नेहिइ	नेहिन्ति
म० पु०	नेहिसि	नेहित्था
द० पु०	नेस्सामि	नेस्सामो

पा धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	पाहिय	पाहिन्ति
म० पु०	पाहिसि	पाहित्था
द० पु०	पास्सामि	पास्सामो

भष्यिकाल में सुण (श्रु) के स्थान पर सोच्छ, रुद् के स्थान पर रोच्छ, विद् के स्थान पर वेच्छ, दश् के स्थान पर दच्छ, सुच् के स्थान पर मोच्छ, वच् के स्थान पर वोच्छ, भिद् के स्थान पर भेच्छ एवं भुज् के स्थान पर भोच्छ आदेश होता है और प्रत्यय जोड़कर पूर्ववत् ही रूप बनाये जाते हैं ।

प्रयोगवाक्य

वह कल विद्यालय जायगा = सो कल्लं विज्जालयम्मि गच्छहिइ ।

वे लड़के वहाँ पर पुस्तक पढ़ेंगे = ते वालआ तत्थ पोत्थयं पढहिन्ति ।

तुम वहाँ पर प्रार्थना करोगे = तुमं तत्थ पत्थणं केरहिसि ।

हम लोग मैदान में खेलेंगे = अम्हे खेत्ते खेलस्सामो ।

शीला गया जायगी = सीला गयं गच्छहिइ ।

तुम अपनी किताब पढ़ोगे = तुमं णियपोत्थयं पढहिसि ।

वर्षा अच्छी होगी = वरसा उत्तमा होहिइ ।

खेत में धान की फसल पैदा होगी = खेत्ते सस्सं उप्पज्जहिइ ।

वह किताब की दुकान से किताब खरीदेगा = सो पोत्थयहट्ठीए पोत्थयं कीणहिइ ।

वह दस बजे रोटी खायगा = सो दमवायणे रोट्टुगं खाअहिइ ।

उसको कल पुरस्कार मिलेगा = सो पुरकारं पप्पहिइ ।

श्रीकान्त मैदान में पढ़ेगा = सिरिकांतो खेत्ते पढहिइ ।

हम लोग दिही जायेंगे = अम्हे दिहि गच्छहिस्सामो ।

मेरी बहन गाती रहेगी = मञ्ज बहिणी गायहिइ ।

तोता रामनाम कहेगा = सुगो रामनामं कहहिइ ।

जुलाई में कालेज खुलेगा = जुलाईमासम्मि विज्जालयो उघहिइ ।

खेत मे पानी बरसेगा = खेत जलं बरहिइ ।

तुम लोग रमना में खेलोगे = तुमं रमनाखेत खेलहिसि ।

तुम लोग पटना जाओगे = तुमं पाटलिपुत्तं गच्छहिसि ।।

कल पिताजी वाराणसी से आयेंगे = कलं पिआ वाराणसि
आगच्छहिइ ।

तुम कपड़ा खरीदोगे = तुमं वत्थं कीणहिसि ।

वह धनी आदमी हाथी बेचेगा = सो धणिओ हत्थि विकीणहिइ ।

तुम बाजार से कागज लाओगे = तुमं हट्टाओ कग्गलं आणेहिसि ।

तुम गाँव में सफाई करोगे = तुमं गामम्मि जामहिसि ।

हम विद्यालय का सुधार करेगे = अम्हे विज्जालयस्स सोहणं
करिस्सामो ।

वे विद्यालय के अधिकारी बनेंगे = ते विज्जालयस्स अहियारी होहिन्ति ।

वे लोग हमारे कामों से प्रसन्न होंगे = ते अम्हाणं कज्जाओ प्रसण्णा
होहिन्ति ।

हम लोग आपकी भेंट स्वीकार करेंगे = अम्हे तुम्हाणं उवहारं
पग्गहिस्सामि ।

चलने पर तुमको प्यास लगेगी = चलणम्मि तुम पिवासा लगहिसि ।

आज उपवास करने से कल भूख लगेगी = अज्ज उववासकरणेन कल्लं
लुहा लगहिइ ।

मधुमक्खी छत्ता बनायेगी = मधुमक्खी महुल्लत्तं णिम्माहिइ ।

विश्वविद्यालय में प्राकृत की पढ़ाई चलेगी = विस्सविज्जालये पाइय
अज्जयणं आरंभहिइ ।

हम लोग प्रातःकाल दाँतौन करेंगे = अम्हे पच्चूसे दंतहावणं
करिस्सामो ।

विधि और आज्ञा

३२. जब किसी क्रिया के औचित्य का भाव प्रकट करना हो अर्थात् अमुक क्रिया होनी चाहिए अथवा नहीं, तो विधिलिङ् का प्रयोग होता है। आचार-व्यवहार आदि के सम्बन्ध में शिक्षा-उपदेश देने में विधि का व्यवहार क्रिया जाता है। साधारणतः विधि के दो भेद हैं—प्रवर्तना

और निवर्तना । सत्कार्य में प्रवृत्ति को प्रवर्तना और असत्कार्य से निवृत्ति को निवर्तना कहते हैं ।

३३. इच्छा, सामर्थ्य (Ability), योग्यता (Fitness) और संभावना (Possibility) का बोध कराने के लिए विधि एवं आज्ञा का प्रयोग किया जाता है । प्राकृत में विधि और आज्ञा के रूप समान होते हैं ।

३४. विधि और आज्ञा में प्रथम पुरुष एकवचन में उ प्रत्यय और बहुवचन में न्तु प्रत्यय; मध्यम पुरुष एकवचन में हि, सु प्रत्यय और बहुवचन में ह प्रत्यय एवं उत्तम पुरुष एकवचन में मु प्रत्यय और बहुवचन में मो प्रत्यय जोड़ा जाता है ।

हस धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हसउ, हसेउ	हसन्तु, हसेन्तु
म० पु०	हसहि, हससु, हसेहि	हसह, हसेह
उ० पु०	हसिमु, हसेमु	हसिमो, हसेमो

हो धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	होउ	होन्तु
म० पु०	होहि, होसु	होह
उ० पु०	होमु	होमो

ठा धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	ठाउ	ठान्तु
म० पु०	ठाहि, ठासु	ठाह
उ० पु०	ठासु	ठामो

ज्ञा धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	ज्ञाउ	ज्ञान्तु
म० पु०	ज्ञाहि, ज्ञासु	ज्ञाह
उ० पु०	ज्ञासु	ज्ञामो

ने धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	नेउ	नेन्तु
म० पु०	नेहि, नेसु	नेह
उ० पु०	नेमु	नेमो

पा धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	पाउ	पान्तु
म० पु०	पाहि	पाह
उ० पु०	पामु	पामो

णहा धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	णहाउ	णहान्तु
म० पु०	णहाहि	णहाह
उ० पु०	णहामु	णहामो

कर धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	करउ, करेउ	करन्तु, करेन्तु
म० पु०	करहि, करसु, करेहि	करह, करेह
उ० पु०	करिमु, करामु	करिमो, करामो

पूस पुष्ट होना धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	पूसउ	पूसन्तु
म० पु०	पूसहि, पूससु	पूसह
उ० पु०	पूसिम	पूसिमो

गच्छ < गम—जाना धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	गच्छउ	गच्छन्तु
म० पु०	गच्छहि	गच्छह
उ० पु०	गच्छिमु, गच्छामु	गच्छिमो, गच्छामो

अस् धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	अत्थि	अत्थि
म० पु०	अत्थि	अत्थि
उ० पु०	अत्थि	अत्थि

प्रयोगवक्ष्य

तुम वहाँ जाओ और काम करो = तुमं तत्थ गच्छहि एवं कञ्जं करहि ।
तुम अपने मित्र के साथ स्कूल जाओ = तुमं णियमित्तेण सह विज्जालयं गच्छहि ।

तुम आचारांग पढो = तुमं आचारांगं पढहि ।

भूठे आदमी का साथ मत करो = असत्तनराणं संमगं मा करहि ।

बड़ों की निन्दा मत करो = गुरुजणाणं निदा मा करहि ।

आकाश के तारों को देखो = आयासम्मि तारागणं पेच्छहि

वे लोग नदी के तट पर घूमें = ते जणा नइतडे भमन्तु ।

तुम यहाँ से भाग कर चले जाओ = तुमं एत्थ थाणओ धवित्ता गच्छहि ।

तुम लोग इनकी रक्षा करो = तुमं इमाणं रक्खं करहि ।

वे लोग इनको रुपये दें = ते जणा इमाणं रूप्पआणि देंतु ।

वे जंगल में घूमने जाये = सो वणम्मि भमणे गच्छहि ।

तुम फौज में भरती हो जाओ = तुमं सेणाए पविट्ठो होहि ।

वे लोग आत्मा का ध्यान करें = ते जणा अप्पायां आन्तु ।

वे लोग उसके सौन्दर्य पर हँसते हैं = ते जणा तस्स सुन्देरं हसन्तु ।

तुम इस समय सुग्गे को पढाओ = तुमं इयाणीं सुअं पढहि ।

तुम गरीबों को चावल दो = तुमं दरिदाणं तंडुलं देहि ।

बच्चों को मिठाई दो = बालाणं मिट्ठाणं देहि ।

उस पुराने मकान को गिरा दो = तं जुण्णं भवनं पाडसु ।

इस काम को जल्दी कर डालो = इदं कञ्जं सिग्घं करेहि ।

वह बालिका कपड़ा को सीये = सा बालिआ वत्थं सिव्वड ।

फिसाण ईख का रस पीये = किसओ उच्छुरसं पाउ ।

जुलाहा वस्त्र को बुने = त्तुवाओ वत्थं रचउ ।

वे लोग जामुन के फल चुने = ते जणा जंयूफलाणि चिब्वन्तु ।

वे सन्दूक की चाभी दें = ते वासउस्स कुंचिअं देन्तु ।

घाव पर पट्टी बांधो = विणम्मि पट्टिअं बंधहि ।

रेड़ के पेड़ को काट डालो = एरण्डविच्छं छिन्नहि ।

हम लोग सत्य बोलें = अम्हे सच्चं बोल्लेमो ।

वे लोग पटने में ठहरें = ते जणा पाडलिपुत्तम्मि ठान्तु ।

उनको धम्मैशास्त्र पढाओ = ताणं धम्मसत्थं पढहि ।

तुम लोग इस बबूल के पेड़ को काटो = तुमं इमं बबूलविच्छं छिन्नहि

हम लोग सब अपना अपना काम करें = अम्हे गिय-णियकज्जं करेमो ।

राम खलिहान में पुआल बिछावे = रामो खले पलालं त्रिणउ ।

पाव भर दही ले लो = कुडपत्तं दहि गिण्हहि ।

तुम लोग प्रातःकाल ही स्नान करो = तुमं पच्चूसे ण्हहि ।

क्रियातिपत्ति (Conditional)

३५. पूर्व कथन में कोई हेतु निर्दिष्ट हो और दूसरे में उसका फल, तो इस प्रकार के वाक्य-खण्डों की रचना के लिए क्रियातिपत्ति का व्यवहार किया जाता है। आशय यह है कि जब परस्पर संकेतवाले दो वाक्यों का एक संकेतवाक्य बने और उसका बोध करानेवाली क्रिया कोई सांकेतिक क्रिया जब अशक्य प्रतीत हो, तब क्रियातिपत्ति का प्रयोग होता है। क्रियातिपत्ति में क्रिया की अतिपत्ति—असम्भवता की सूचना मिलती है। The Conditional is used instead of the potential, when the non-performance of an action is implied.

३६. क्रियातिपत्ति में तीनों पुरुषों के दोनों वचनों में ज्ञ, ज्ञा, न्त और माण प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

हस धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हसेज्ज, हसेज्जा, हसन्तो, हसमाणो	हसेज्ज, हसेज्जा, हसन्तो, हसमाणो
म० पु०	, " " "	, " " "
उ० पु०	, " " "	, " " "

हो धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	होज्ज, होज्जा, होन्तो, होमाणो	होज्ज, होज्जा, होन्तो, होमाणो
म० पु०	, " " "	, " " "
उ० पु०	, " " "	, " " "

ठा धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	ठाज्ज, ठाज्जा, ठान्तो, ठामाणो	ठाज्ज, ठाज्जा, ठान्तो, ठामाणो
म० पु०	” ” ” ”	” ” ” ”
उ० पु०	” ” ” ”	” ” ” ”

पा धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	पाज्ज, पाज्जा, पान्तो, पामाणो	पाज्ज, पाज्जा, पान्तो, पामाणो
म० पु०	” ” ” ”	” ” ” ”
उ० पु०	” ” ” ”	” ” ” ”

गच्छ—गम धातु के रूप

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	गच्छेज्ज, गच्छेज्जा, गच्छन्तो, गच्छमाणो	गच्छेज्ज, गच्छेज्जा, गच्छन्तो, गच्छमाणो
म० पु०	” ” ” ”	” ” ” ”
उ० पु०	” ” ” ”	” ” ” ”

प्रयोगवाक्य

यदि सड़क पर प्रकाश होता तो हम गड्ढे में न गिरते = जइ रायमग्गम्मि पयासो होज्जा, ता अम्हे खड्गम्मि ण पडेज्जा ।

यदि तू मेरे मन की अवस्था समझ पाता तो मेरा कभी उपहास न करता = जइ तुमं मज्झ मणस्स अवत्थं मुणेज्जा, ता कदापि मज्झ उवहासं ण कुणेज्जा ।

यदि मैं एक मिनट पहले आता तो गाड़ी पर सवार हो जाता = जइ हं एग छणं पुब्बं आगच्छेज्जा, ता सयटोवरि आसीणो होज्जा ।

यदि पिता जी आज जीवित होते तो उन्हें कितना सुख मिलता = जइ पिआ अज्ज जीवियो होज्जा ता तं किड सुहं मिलेज्जा ।

यदि तुम रहस्य को समझ पाओ तो सत्य के मार्ग से कदापि विचलित न हो = जइ तुमं रहस्सं जाणज्जा ता सच्चमग्गस्स कयापि विचलियं ण होज्जा ।

मेरे पास पर्याप्त धन होता तो विदेश की सैर करता = जइ मज्ज समीवे
पञ्जत्तं धणं होज्जा ता वियेसभमणं करेज्जा ।

यदि आरम्भ में ही शत्रु का दमन न किया जाता तो आज वह अदम्य
होता = जइ आरंभेव सत्तुस्स दमणं न करेज्जा, ता अज्ज सो
अनियन्तणो होज्जा ।

यदि वैद्य समय पर न पहुँचता तो बीमार मर जाता = जइ समयम्मि वेज्जो न
पहुँचेज्जा ता रोगी मरेज्जा ।

यदि पास ही तालाब न होता तो सारा गाँव जल जाता = जइ गियडम्मि
तडाओ ण होज्जा ता समग्गो गामो जलेज्जा ।

यदि यह अफवाह महाराज तक पहुँच जाय तो बुरा हो = जइ अयं जणपवायो
महारायपञ्जत्तं पहुँचेज्ज ता अणिट्ठं होज्जा ।

यदि मैं कर्म न करूँ तो लोक नष्ट हो जायँ = जइ हं कम्मं ण कुणेज्जा ता
लोकस्स विणासो होज्जा ।

यदि फिर महायुद्ध हो तो सारी मनुष्य जाति नष्ट हो जायँ = जइ पुणो महा-
जुद्धो होज्जा ता समग्गमणुसजाइए विणासो होज्जा ।

यदि तू मेरी शरण ले तो तुझे कोई कष्ट न हो = जइ तुमं ममसरणं गिण्हेज्जा
ता तुमं किमवि कट्ठं ण होज्जा ।

यदि उसे भूखा रहना पड़े तो वह सारी बातों को समझ जाय = जइ सो
बुभुक्खो णिवसेज्जा ता सो सयलं वयणं जाणेज्जा ।

यदि तुम्हारे पिता यहाँ रहते तो बहुत धन देते = जइ तुज्जं पिआ अत्थ
णिवसेज्जा ता तुज्जं सो बहुधणं देज्जा ।

ध्यान से पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे = ज्ञाणेण पढेज्जा, अण्णथा अण-
त्तीणो होज्जा ।

यदि यह चित्र मैं उसे देता तो वह बहुत खुश होता = जइ इदं चित्तं हं तस्स
देज्जा ता सो बहुप्रसण्णो होज्जा ।

शब्दकोष (भोज्य पदार्थ)

भात = भत्तं

दाल = सूवो, दाली

तरकारी = तेमणं

रोटी = रोट्टण, रोडिआ

परोठा = घयचोरी

हलुआ = मोहणभोओ

मालुपुआ = अपूवो
 पकवान = पक्कान्नं
 मिठाई = मिठान्नं
 लड्डू = लड्डुओ, मोदओ
 जिलेबी = कुंडलिणी
 घेवर = घयपूरो
 गुझिआ = संयावो
 पीठा = पिठ्ठओ
 बड़ा = बडओ
 पापड़ = पप्पडो
 वाटी = लेटी
 कढ़ी = ककथिआ
 चिचड़ा = चिविडओ
 खीर = पायसं
 चीनी = सिता या सिया सकरं
 भूरा = महुहूसो
 शहद = महु
 अमावट = आमावट्टो
 सत्तू = सत्तू
 गुड़ = गुडो
 चटनी = अवलेहो
 दूध = खीरं, पयो, दुद्धं
 दही = दहि
 घी = घयं, सप्पि, आञ्जं
 मलाई = संताणिआ
 खोआ = किलाडो
 छेना = आमिछा
 तक्र = तक्कं, मट्ठं
 मांड = मंडं
 खिचड़ी = खिच्चडिआ
 भूंजा = भिट्ठान्नं भञ्जणं

लावा = लाया
 होरहा = होलआ
 तीखुर = तवखारो
 मखाना = मखान्नं
 आटा = चुण्णं
 मैदा = समिआ
 चाशनी = सियालेहो
 शरवत = सकरोदयं

तरकारी

आलू = आलुओ
 परवल = पडोलो
 वैगन = विंताओ
 सेम = सिवी
 कोंहड़ा = अलावू
 कद्दू = अलावू, तुंबी
 तरोई = दिग्घहला, कोसातई
 भिगुनी = झिगणी
 रामतरोई = भिडा
 ककड़ी, खीरा = चिचभडं
 करेला = कारवेल्लो
 केला = कयली
 ओल = कंदो, सूरणो
 अरवी = अरलू
 मुरई = मूलिआ
 गोभी = गोजीहा
 साग = सागो, सायो
 वत्थुए का साग = वात्थुअं
 प्याज = पलांडु
 लहसुन = लसुणं
 सलगम, गाजर = गिजणं

अभ्यासो Exercise

पाइअभासाए अणुवायं कुणन्तु Translate into Prakrit

हमारे लड़के बनारस विश्वविद्यालय में विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। उनकी परीक्षा आगामी मार्च महीने में होगी। यदि वे परिश्रम करेंगे तो उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे। वे लोग करेला की तरकारी अधिक पसंद करते हैं। पर हमारा विचार आलू की तरकारी खाने का है। वे बाजार से मिठाइयों मंगते हैं, पर यह सभी के लिए संभव नहीं है। कुछ वर्ष पहले की बात है कि रामनगर में एक घटना घटी थी। हम लोग एक वारात में गये थे, वहाँ पर कढ़ी बनी थी, पर वह हमें अच्छी नहीं लगी। वधुए का साग दही के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है। लड़के खीर को बहुत पसन्द करते हैं। मैदा के बने पदार्थ अधिक नहीं खाने चाहिए, इनके सेवन से पेट की आँतें खराब हो जाती हैं। ओल की तरकारी खाने से मुँह खुजलाने लगता है। रामतरोई की तरकारी में नमक अधिक पड़ गया है। आटे की रोटियाँ दूध से खालो। सत्त खाकर गुजर-बसर कर लेना बुरा नहीं है। उन बच्चों को गुड बाँट दो, पर बीमार को छेना खिलाना हितकर होगा।

मगध विश्वविद्यालय की स्थापना सन् १९६१ में हुई है। इसके कुलपति डॉ० कालिकंकरदत्त हैं। ये इतिहास के बड़े भारी विद्वान् हैं। इनके समय में विश्वविद्यालय की उन्नति होगी। प्राकृत का अध्ययन इस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से होता है। अध्यक्ष-निर्धारण के हेतु एक समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष डॉ० हीरालाल जी हैं। ये प्राकृत के बहुत बड़े विद्वान् हैं। इन्होंने बड़े-बड़े अनेक ग्रन्थों का संपादन किया है। प्राकृत साहित्य संस्कृत साहित्य के समान ही समृद्ध है। इसमें काव्य, नाटक, छन्द, अलंकार आदि सभी प्रकार का वाङ्मय वर्तमान है। भारतीय संस्कृति और साहित्य की जानकारी के लिए प्राकृत का अध्ययन अत्यावश्यक है।

इस कक्षा में बीस छात्र पढ़ते हैं। यदि वे लोग ईमानदारी से काम करेंगे, तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। पाटलिपुत्र में चन्द्रगुप्त का राज्य वर्तमान था। उसने बीस वर्षों तक अच्छा शासन किया। करकण्डु का बहुत अच्छा शासन था। उसे गोकुलों से बहुत प्रेम था। उसके अनेक गोकुल थे। जब उसने शरत् काल में एक सुन्दर, हृष्ट-पुष्ट गाय के बछड़े

को देखा, तो उसने आदेश दिया कि इसकी माँ का दूध मत दुहना । सारा दूध इसको पिला दिया करना । बड़े होने पर भी इसको गायों का दूध पिलाना बन्द मत करना ।

हिन्दीभासाए अणुवायं कुणन्तु Translate into Hindi

तेण उक्तं—‘मम नयरे जिणदासो नाम वणिगो अत्थि, सो कइवासाओ पुव्वं एत्थ आगच्च कय-विक्रयं कुणंतो चिट्ठइ’ । नरिदो वि तस्स सेट्ठिस्स आहवत्थ जणं पेसेइ । सो जिणदासो आगच्च सबंधु नरिदं, पणमइ । नरिदो वि तं पुच्छइ—‘हे सेट्ठि । तुं अम्हे किं परिजाणासि ? सेट्ठो आह—‘अणेगवंदियपायकमलं तं महारायं को न जाणइं ? नरिदो कहेइ ‘एवं न, किन्तु अहं संबंधत्तणेण पुच्छामि । तथा सो जिणदासो सम्मं सबंधुं नरिदं पुत्तत्ताए उवलक्खेइ, किन्तु कहं कहिज्जइ ‘तुम्हे मम पुत्त’ ति । तओ सेट्ठो मोणेण थिओ । तथा सबंधू नरिदो सीहासणाओ उत्थाय पिउस्स पाए पडिओ कहेइ—‘पिअ । अम्हे एयावंतं कालं पिउमुह दंसण-परिहीणा मिब्भग्गा तुम्हाणं पाए पणमिमो, अज्ज अम्हाणं दिवसो सहलो, जं पिउपायदंसणं जायं । मायावि तं समायारं लोगमुहाओ जाणिऊण सिग्घं तत्थ आगया । सहसा आगयं मायरं दट्ठूणं ते टुण्णि वि माइपाएसु पडिआ । मायावि थण्ण झरंती अचछीहिंती हरिसेग अंसूणि मुंचंती नियपुत्ते सहसिं आलिगइ ।

कत्थ वि नयरे एणेण नरिदेण नियनयरे आएसो दिण्णो—“गाममज्जे एगो देवालओ अत्थि । पुरीए माहणा वा वइस्सा वा खत्तिया वा सुहा य वा नयरवासिणो जे लोगा संति तेहि देवालए पविसिअ देवं वंदित्ता नंतव्वं, अन्नहा तस्स व्हो भावस्सइ ।” एगो कुंभयारो तमाएसं अजा-णिऊण गहहमारुद्धिअ हत्थे लगुढं गिण्हित्ता महारायव्व गच्छइ । तेण देवा-लए सो देवो न वंदिओ । तओ रुद्धा सुहटा तं गिह्तिऊण नरिदग्गओ ठविओ नरिदेण तस्स व्हो निद्धिट्ठो । वहत्थंभे सो नीओ । मरणकाले तत्थ मरणं विणा पत्थणातिगं किज्जइ, पत्थणातिगं पूरिऊण वहिज्जइ, एवं निचमो निवेण कओ अत्थि । तदा सो कुंभारो पत्थणातिगं मग्ग ति कहिअं ।

रण्णा चित्तिअं अहं किं करेमि ? एगो थूलो, दंडोवि थूलो, एणेण पटारेण अहं नरिस्सामि । तओ ‘अजुत्तो एगो आएसो’ इअ चिदि-त्ता वंदणाएगो निगमसिओ, उवरिं दाणमहेअं तस्स अप्पित्ता तस्स बुद्धीए

संतुट्ठेण निवेण समाणं गिहे मोइओ । एवं अविआरिओ आएसो—
‘कयावि अप्पवहाए होइ ।

अन्नमि दिणे पिउप्पेरिओ सो कोढिओ पुत्तो सीलवईए समीवं
आगच्छंतो दासीए अब्बमाणिओ धक्काए नीसरणीए अहो खित्तो । तस्स
अंगाइं पि चुण्णीकयाइं, एवं जया सो आगच्छइ, तया दासी तं हिट्ठंमि
खिवई । तेण तओ एवं निरणओ कओ कया वि एत्थ न आगमि-
स्सामि, एवं दिणाणि गच्छंति । सा सीलवई कस्सावि वयणं न मन्नेइ ।

सप्तमो पवादो Lesson 7

कृदन्त रूप और उनका व्यवहार Verbal derivatives)

वर्तमान कृदन्त

३७. प्राकृत में न्त और माण वर्तमान कृदन्त हैं। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब यह भाव प्रकट करना हो कि कर्त्ता एक साथ (Simultaneously) दो क्रियाएँ करता है। जब क्रियाएँ एक के बाद दूसरी या भिन्न भिन्न काल में हों, तो न्त और माण का प्रयोग रचना में नहीं किया जाता। यथा—

वह स्नान करते हुए पढ़ता है = सो पढ़ान्तो पढइ ।

परतन्त्र मनुष्य साँस लेता हुआ जीवित नहीं होता = ससंतो न जीवइ
परायत्तो ।

प्रियंवदा सदा मुस्कराती हुई बातें करती है = प्रियंवदा सदा हसंती
बोलइ ।

वादल गरजता हुआ बरस रहा है = सेहो गज्जंतो वरसइ ।

भक्त ईश्वर का स्मरण करते हुए प्राण छोड़ता है = भक्तजणो ईसरं
सुमिरंतो पाणा मुंचइ ।

विद्वानों के सम्पर्क में आने से मूर्ख भी विद्वान् बन जाता है = विउसेहिं
ससग्गेभो मुक्खो विउसो होइ ।

आय से अधिक खर्च करने के कारण हर कोई ऋणी हो जाता है =
आयत्तो अधियं वियन्तो सव्वो जणो रिणी होइ ।

सदा दूसरों की तकल करनेवाली जातियाँ आत्मसम्मान खो बैठती
हैं = सययं पराणं अणुकुगन्तीओ जातीओ अप्पसम्माणं हान्ति ।

भीख्य मांगते हुए वह घर-घर फिरता है = भिक्खं जाअमाणो वरत्तो
घरं सो अहइ ।

पाठ पढ़ने हुए मैं सारी रात जागता रहा = पाठं पढन्तो हं सव्वं रत्ति
जग्गीअ ।

ज्या भीख्य मांगने वाले लोग भी कहीं आदर पाते हैं = किं भिक्खं
अहन्तो जणो वि कहिं सम्माणं लहइ ।

प्रतिदिन पाठ पढ़नेवाला छात्र आसानी से परीक्षा पास कर लेता है =
पददिणं पाठं अइीयमाणो छत्तो सुप्पेण परिक्खं उत्तरइ ।

राजाज्ञा को भंग करनेवालों को क्षमा नहीं किया जाता = रायसासनं
 उल्लघन्तो लोओ ण मरहइ ।
 दो लड़कियाँ हँसते-हँसते घर जाती हैं = दुण्णिण वालिआओ हसन्तीओ
 घरं गच्छन्ति ।

जब वह नहा रहा था, उसका कपड़ा वह गया = जया सो प्हान्तो
 आसी, तस्स वत्थं वहीअ ।

अपराधियों ने रोते-रोते कहा कि हमारा दोष नहीं है = अवरहिओ
 रुवन्ता कहीअ, ज अम्हाणं अवरहो एत्थि ।

मैंने उसे यहाँ खेलते खेलते देखा है = हं तं खेलन्तं पेच्छीअ ।

भूतकालिक कृदन्त (Past passive participle)

३८. भूतकाल का भाव प्रकट करने के लिए धातु में अ, द और त प्रत्यय जोड़कर बनाये गये भूतकालीन कृदन्तों का व्यवहार भूतकालिक क्रिया के समान ही किया जाता है । प्राकृत भाषा में भूतकालीन क्रिया का प्रयोग कम ही पाया जाता है और भूतकालीन कृदन्तों का प्रयोग बहुलता से होता है ।

३९. धातु मे अ, द और त प्रत्यय जोड़ने पर भूतकाल मे धातु के अन्त्य अ या इ होता है । यथा—

गम + अ = गमिओ	हस + अ = हसिअं
गम + द = गमिदो	हस + द = हसिदं
गम + त = गमितो	हस + त = हसितं
चल + अ = चलिओ	कर + अ = करिओ
चल + द = चलिदो	कर + द = करिदो
चल + त = चलितो	कर + त = करितो

४०. प्रेरणासूचक भूतकृदन्त के लिए धातु मे आवि और इ प्रत्यय जोड़ने के उपरान्त अ, द और त प्रत्यय जोड़े जाते हैं । यथा—

कर + आवि + अ = कराविअं
कर + आवि + द = कराविदं
कर + आवि + त = करावितं
कर + इ + अ = कारिअं (इ प्रत्यय होने पर उपान्त्य अ को दीर्घ होता है)
कर + इ + द = कारिदं
कर + इ + त = कारितं

४१. प्राकृत में ऐसे भी कुछ भूतकालीन कृदन्त हैं, जिनमें उपर्युक्त नियम लागू नहीं होते। ध्वनि परिवर्तन के नियमों के आधार पर ऐसे कृदन्त पद संस्कृत कृदन्तों से बनाये गये हैं।

भूतकालीन कृदन्तों के प्रयोग

देवदत्ता को माँ ने कहा, पुत्री मूलदेव को छोड़ो = भणिया देवदत्ता
जणणीए, पुत्ति परिच्चय मूलदेवं।

राजा उससे प्रसन्न हुआ, वर दिया = तुडो तीए राया, दिन्नो वरो।

वासुदेव ने भी नगरी में दूसरी बार भी घोषणा करायी = वसुदेव-
नंदणेण वि वीय-वारं पि घोसाविंयं नयरीए।

इसके पश्चात् उसने शम्बुकुमार को निवेदन किया। अनन्तर शम्बु-
कुमार वहाँ गया = तओ तेण संब-कुमारस्स निवेइयं।
तओ गओ संबकुमारो।

प्रातःकाल हम लोगों ने वाराणसी में गंगास्नान किया = अम्हेहि
वाराणसीए गंगाण्हाणं पच्चूसे करिओ।

लंका में लक्ष्मण ने अनेक योद्धाओं के साथ मेघनाद को मारा=लंकाए
लछिमणेण अणेयजुद्धाहि सह मेहणादं मरिओ।

तुम लोगों ने मेरे भाई को उसके पास जाने की आज्ञा दी = तुम्हेहिं
ममभायरं तस्स समीवे गमणस्स आणा दिण्णा।

उस धोत्री ने उस गधे को जंगल में छोड़ दिया है = तेण रयअेण सो
गद्भो वणम्मि मुक्किओ।

दो हँसती हुई लड़कियाँ स्कूल से घर गयीं = हसन्तीओ दुण्णि
वालिआओ विज्जालयत्तो घरं गमिदा।

वहाँ रहने के कारण वह नगर का सब हाल जानता है=तत्थ णिवसणेण
तेण णयरस्स सत्वं समायारं णायं।

घर के भीतर छोटी कोठरी में पहुँचकर निश्चिन्त हुआ = गिहस्स अंतो
अववरए गच्चा निच्चित्तो जाओ।

उसने कक्ष चोर ने लूट लिया. सब कुछ लेकर नंगा कर दिया = तेण
'कहियं चोरेहि लुंदिओ, सत्वं अवहरिअ नग्गो कओ।

प्रथम दिन बड़े पुत्र के घर भोजन के लिए गया = पटमदिणम्मि
जेट्ठस्स पुत्तम्स गेहे भोजणाय गओ।

एक दिन वह वन में गया, वहाँ एक विद्याधर और विद्याधरी विमान से जा रही थीं = एगग्मि दिणो सो वणम्मि गओ, तत्थ एगो विज्जाहरो विज्जाहरी अ विमाणेण गच्छन्ति ।

राजा ने भी अमंगलीय पुरुष की बात को सुना, परीक्षा के हेतु राजा ने एक समय प्रातःकाल में उसे बुलाया, उसका मुंहदेखा = नरवइणावि अमंगलियपुरिसस्स वट्ठा सुणिआ, परिकखत्थं नरिंदेण एगया पभायकाले सो आहूओ, तस्स मुहं दिट्ठं । इस अमंगलीय पुरुष का स्वरूप मैंने प्रत्यक्ष देखा है = अस्स अमंगलि-अस्स पुरिसस्स सरूवं मए पच्चक्खं दिट्ठं ।

उस समय उसको आनन्द नहीं आया, प्रमाद से नींद आ गयी = तया तस्स आणंदो न जाओ, पमाण निहं पत्तो । उस समय वहाँ एक कुत्ता आया = तया तत्थ एगो कुक्कुरो समागओ ।

विधिकृदन्त (Potential passive participle)

४२. विधिकृदन्त का प्रयोग औचित्य, आवश्यकता, सामर्थ्य, योग्यता आदि का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है अर्थात् जब यह कहना हो कि कर्त्ताको अमुक कार्य करना चाहिए अथवा कर्त्ता अमुक कार्य करने का सामर्थ्य रखता है ।

४३. विधि कृदन्त का कर्त्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में रहता है । इस कृदन्त के लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं ।

४४. धातु में अव्व, अणिज्ज और अणीअ प्रत्यय जोड़ने से विध्यर्थ कृदन्त के रूप बनते हैं ।

४५. अव्व या दव्व प्रत्यय जोड़ने पर प्रत्यय के पूर्ववर्ती अकारको इकार तथा ए आदेश होता है ।

४६. संस्कृत के 'म' प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में 'ज्ज' प्रत्यय होता है ।

यथा—

ज्ञा—जाण + अव्व = जाणिअव्वं, जाणेअव्वं

ज्ञा—जाण + अणिज्ज = जाणणिज्जं

ज्ञा—जाण + अणीअ = जाणणीअं

ज्ञा—मुण + अव्व = मुणिअव्वं, मुणेअव्वं

स्था—थक्क + अव्व = थक्किअव्वं, थक्केअव्वं

पा—पिज्ज + अव्व = पिज्जिअव्वं, पिज्जेअव्वं

- कृ—कृण + अव्व = कृणअव्वं, कृणेअव्वं
 तृ—तर + अव्व = तरिअव्वं, तरेअव्वं
 स्मृ—सुमर = सुमरिअव्वं, सुमरेअव्वं
 मुच्—मेल्ल + अव्व = मेल्लिअव्वं, मेल्लेअव्वं
 क्रुध—कुब्झ + अव्व = कुब्झिअव्वं, कुब्झेअव्वं
 लुम्—लुव्व + अव्व = लुव्विअव्वं, लुव्वेअव्वं
 नृत्—नच्च + अव्व = नच्चिअव्वं, नच्चेअव्वं
 ग्रह्—घेत् + अव्व = घेत्तव्वं
 दृश्—दट्ठ + अव्व = दट्ठव्वं
 हस्—हस + अव्व = हसिअव्वं, हसेअव्वं
 वृध्—वड्ढ + अव्व = वड्ढिअव्वं, वड्ढेअव्वं
 सद् + सट्ठ + अव्व = सट्ठिअव्वं, सट्ठेअव्वं
 सिव्—सिच्च + अव्व = सिच्चिअव्वं, सिच्चेअव्वं
 मृग्—मग्ग + अव्व = मग्गिअव्वं, मग्गेअव्वं
 इप्—इच्छ + अव्व = इच्छिअव्वं, इच्छेअव्वं
 हन् - हण + अणिज्ज = हणणिज्जं
 हन्—हण + अणीअ = हणणीअं
 हन्—हण + अव्व = हणिअव्वं, हणेअव्वं
 धृ—धुण + अव्व = धुणिअव्वं, धुणेअव्वं
 धृ—धुण + अणिज्ज = धुणणिज्जं, धुणणीअं
 भू—हुव + अव्व = हुविअव्वं, हुवेअव्वं
 भू—हुव + अणिज्ज = हुवणिज्जं
 भू—हुव + अणीअ = हुवणीअ
 हु—हुण + अव्व = हुणिअव्वं, हुणेअव्वं
 हु—हुण + अणिज्ज = हुणणिज्जं, हुणणीअं
 कृ—कर (क्काय) + अव्व = करिअव्वं, करेअव्वं, कायअव्वं
 कृ—कर + अणिज्ज = करणिज्जं,
 कृ—कर + अणीअ = करणीअं
 दृश्—देक्ख + अव्व = देक्खिअव्वं, देक्खेअव्वं
 दृश् + अणिज्ज = देक्खणिज्जं
 दृश् + अणीअ = देक्खणीअं
 गम् + तव्व = गन्तव्वं
 गम् + अणिज्ज = गमणिज्जं

गम् + अणीअ = गमणीओ

राज्—रज्ज + अव्व = रज्जिअव्वं, रज्जेअव्वं

स्पृश्—फास + अव्व = फासिअव्वं, फासेअव्वं

स्पृश्—फास + अणिज्ज = फासणिज्जं

स्पृथ्— फास + अणीअ = फासणीओ

प्रेरक विधि कृदन्त

४७. धातु में प्रेरक प्रत्यय 'आवि' जोड़ने के पश्चात् तव्व, अव्व, अणिज्ज और अणीअ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यथा—

हस् + आवि = हसावि + तव्वं = हसावितव्वं

हस् + आवि = हसावि + अव्व = हसाविअव्वं

हस् + आवि + अणिज्ज = हसावणिज्जं, हसावणीअं

गम् + आवि + तव्व = गमावितव्वं, गमाविअव्वं

कृ—कर + आवि + तव्व = कराविअव्वं, करावितव्वं, करावणिज्जं

भू—हो + आवि = हो आवि + तव्व = होआवितव्वं, होआवणिज्जं

दश्—देक्ख + आवि + तव्व = देक्खावितव्वं, देक्खाविअव्वं

ग्रह्—गिह + आवि + तव्व = गिहावितव्वं, गिहाविअव्वं

प्रयोगवाक्य

मुझे अब क्या करना चाहिए, कृपाकर बताइये = अहुणा कि कुणेअव्वं
मए, किवाए बोल्लउ

तुम्हें चाहिए कि इस बालक को, जोकि रास्ता भूल गया है, घर
पहुँचा दो = तुए मग्गभिट्ठो अयं सिसू गिहं पावावितव्वं ।
वीतराग लोगों को यश की कामना नहीं करनी चाहिए = वीयरायेहि
जणेहि जसकामना ण कुणेअव्वा ।

इस काम के लिए तुमको इतनी जिद नहीं करनी चाहिए = अस्स कज्जस्स
तुए एरिसी ईरिया (हठ) ण कुणणिज्जा ।

आप जल्दी क्यों कर रहे हैं, दिन निकलने से पहले मुझे उस महात्मा
से मिलना है = किमत्थं तुरइ, भवन्तो, सुज्जोदयओ पुव्वं सो महप्पा
मए दिट्ठव्वो ।

एक मिनट ठहरो, मुझे कपड़े बदलने हैं = छणं विलंक्खं, मए वत्थाणि
विचरिहेयाणि (बदलने हैं) ।

यह बोझ बहुत भारी है, बच्चा इसे उठा सकता है = गुरुअरो एसो भारो,
न सिसूए वोढव्वो ।

यह बात प्रकट हो चुकी है, अब किसी तरह भी छिपाई नहीं जा
सकती = पआसयं गओ अयमत्थो ऐयारणी
कहमवि गूहणिज्जो ।

शुद्ध आचारवाले अधिकारी को घूस का लोभ कदापि नहीं दिया जा
सकता = सुद्धसीलो-अहियारी ण कयापि उक्कोयाए
पलोहणिज्जो होइ ।

रात को देर तक जागना नहीं चाहिए = रत्तीए चिरं न जागरिअव्वं ।
पैदत्त चलनेवाले अब इस रास्ते से न जायँगे = पयाइहि अणेण
मग्गेण अहुणा ण गंतव्वं ।

भाषाविज्ञान जानने के लिए विद्यार्थियों को प्राकृत जरूर पढ़ना
चाहिए = भाषाविणाण जाणिडं विज्जत्थीहि पाइयभासा
अवस्सं पढिअव्वा ।

हम लोगों को अपने देश का इतिहास-भूगोल जानना चाहिये = अम्हेहि
णियदेसस्स इतिहास—भूओलो जाणेअव्वो ।

सभी को प्रातःकाल भगवान् की प्रार्थना करनी चाहिए = सव्वेहि
पच्चूसे भगवन्ताणं पत्थणा करणीआ ।

स्वच्छ भोजन और साफ पानी पीना चाहिए = सुच्छ भोयणं सुच्छ
जलं य पिब्जेअव्वं ।

किसी को भी मनुष्यमात्र से घृणा नहीं करनी चाहिए = केहि अवि
माणुसत्तो घिणा ण करणिज्जा ।

हम सब लोगोंको पढ़ने में परिश्रम करना चाहिए = अम्हेहि सव्वेहिं
पढणम्मि परिस्समो करणीओ ।

तुमको मोहन से इस कामको कराना चाहिए = तुए मोहणेण इदं
कव्वं कराविअव्वं ।

उमके द्वारा इस पुस्तक को जरूर पढ़वाना चाहिए = तेण इदं पोत्थयं
अव्वस्सं पढायितव्वं ।

जब करते समय हमें बने जरूर हँसाना चाहिए = जबकरणसमयम्मि
अग्हेहि नो अवस्सं हसाविअव्वो ।

भविष्यत्कृदन्त (Future participle)

४८. जब यह भाव प्रकट करना हो कि कोई क्रिया निकट भविष्य में होनेवाली है तो भविष्यत्कृदन्त इस्संत, इस्समाण एवं इस्सई प्रत्यय जोड़कर प्रयुक्त होते हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि कर्तृवाच्य में इस्संत प्रत्यय जोड़कर भविष्यत्कृदन्तों का प्रयोग और कर्मवाच्य में इस्समाण प्रत्यय जोड़कर भविष्यत्कृदन्तों का प्रयोग किया जाता है।

४९. प्रेरणार्थक भविष्यत्कृदन्त बनाने के लिए आवि प्रत्यय जोड़ने के पश्चात् इस्संत और इस्समाण प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यथा—

कृ—कर + इस्संत = करिस्संतो ।

कर् + इस्समाण = करिस्समाणो ।

कर् + आवि + इस्संत = कराविस्संतो (प्रेरणार्थक) ।

कर् + आवि + इस्समाण = कराविस्समाणो (प्रेरणार्थक) ।

५०. स्त्रीलिङ्ग में इस्सई प्रत्यय जोड़कर भविष्यत्कृदन्त बनाये जाते हैं।

कृ—कर् + इस्सई = करिस्सई ।

कर् + आवि + इस्सई = कराविस्सई (प्रेरणार्थक) ।

प्रयोगवाक्य

मैं सैर को जानेवाला था कि पिता ने मुझे बुला भेजा = चंक्कमाय
ययिस्संतो हं पिआ आहूओ ।

वह छुरी भौंकने वाला ही था कि किसी ने पीछे से आकर उसका
हाथ पकड़ लिया = छुरीए पहरिस्संतो अमू
केनचिअ पिट्ठत्तो आगच्च हत्थे गिहीयो ।

पिता मरने लगा तो उमने पुत्रों को बुलाकर कहा कि एकता से कल्याण
और फूट से विनाश होता है = मरिस्संतो पिश्चा
पुत्ते आहुज्ज उवाअ जं एअयत्ता कल्लाण भिदत्तो
विज्झंसो होइ ।

इंगलैण्ड जाने से पहले मित्र और सम्बन्धी उससे मिलने के लिए एकत्र
हुए = आगलभुवं पत्थिस्समाणं तं दिट्ठुं मित्ता
वांधवा य सन्निपतिया ।

अछूतों का उद्धार करना चाहते हुए महात्मा गान्धी ने उनका नया
नाम हरिजन रखा = अफासीत्थो उद्धरिस्सन्तो
महप्पा गाँधी ताणं हरिजणा इइ नवं नामं करियं ।

सम्बन्ध भूत कृदन्त (Indeclinable past participle)

५१. जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य करता है, तो पहले किये गये कार्य के लिए सम्बन्ध भूतकृदन्त का व्यवहार किया जाता है। सम्बन्ध भूतकृदन्त पूर्वकालिक क्रिया का कार्य करता है।

५२. धातु में तुं, तूण, तुआण, अ, इत्ता, इत्ताण, आय और आए प्रत्यय जोड़ने से सम्बन्धसूचक भूतकृदन्त के रूप बनते हैं।

५३ तुं, अ, इत्ता और आय प्रत्यय होने पर प्रत्यय के पूर्ववर्ती अ को विकल्प से इ और ए आदेश होते हैं।

५४. तूण, तुआण और इत्ताण प्रत्ययों में ण के स्थान पर सानुस्वार णं आदेश होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि संस्कृत के क्त्वा और ल्यप के स्थान पर प्राकृत में उक्त प्रत्यय होते हैं।

हो + तुं (उं) = होइउं, होएउं

हो + अ = होइअ, होएअ

हो + तूण (उण) = होइउण, होइउणं

हो + तुआण (उआण) = होइउआण, होएउआणं

हस + तुं (उं) = हसिउं, हसेउ

हस + तूण (उण) = हसिउण, हसिउणं, हसेउणं

हस + तुआण (उआण) = हसिउआण, हसिउआणं

भण + तुं (उं) = भणिउं, भणेउं

भण + अ = भणिअ, भणेअ

भण + तूण (उण) = भणिउण, भणिउणं

भण + तुआण (उआण) = भणिउआण, भणिउआणं

भग + इत्ता = भणित्ता, भणेत्ता

कर + इत्ता = करित्ता, करेत्ता

गम + तूण = गन्तूण

गम + इत्ता = गमित्ता, गमेत्ता

गम + इत्ताण = गमित्ताण, गमित्ताणं

गह + आय = गहाय

संपेह + आए = संपेहाए—संप्रेच्य

आण + आए = आयाए—आदाय

५५. प्रेरणार्थक बनाने के लिए प्रेरणासूचक प्रत्यय जोड़ने के अनन्तर ही सम्बन्धक भूतकृतप्रत्ययों को जोड़ा जाता है। यथा—

भण + आवि + तुं (उं) = भणाविउं, भणावेउं ।

भण + आवि + अ = भणाविअ, भणावेअ ।

भण + आवि + तूण (ऊण) = भणाविऊण, भणाविऊणं ।

भण + आवि + तुआण (उआण) = भणाविउआण, भणाविउआणं ।

भण—प्रेरणार्थक—भाण + तुं (उं) = भाणिउं, भाणेउं ।

भाण + अ = भाणिअ, भाणेअ ।

भाण + तूण (ऊण) = भाणिऊण, भाणिऊणं ।

भाण + तुआण (उआण) = भाणिउआण, भाणिउआणं ।

कर + आवि + तुं (उं) = कराविउं, करावेउं ।

कर + आवि + अ = कराविअ, करावेअ ।

कर + आवि + तूण (ऊण) = कराविऊण, कराविऊणं ।

कार + प्रेरणार्थक—कार + तुं (उं) = कारिउं, कारेउं ।

कार + तूण (ऊण) = कारिऊण, कारिऊणं ।

कार + तुआणं (उआणं) = कारिउआण, कारिउआणं, कारेउआणं ।

शुश्रूष्—सुस्सूसा + आवि + तुं (उं) = सुस्सूसाविउं, सुस्सूसावेउं ।

५६. कुछ अनियमित भूतकृदन्त भी होते हैं। इनके सम्बन्ध में कोई नियम काम नहीं करता है।

कृ—का + तुं (उं) = काउं ।

कृ—का + तूणं (ऊणं) = काऊणं ।

ग्रह्—घेत् + तुं = घेतुं ।

ग्रह्—घेत् + तूण = घेतूण, घेतूणं, घेतआण, घेतुआणं ।

त्वर—तुर + तुं (उं) = तुरिउं, तुरेउं ।

तुर + अ = तुरिअ, तुरेअ ।

तुर + तूण (ऊण) = तुरिऊण, तुरिऊणं ।

ध्वनिपरिवर्तन के आधार पर निष्पन्न कृदन्त—

गच्छ < गत्वा

सुत्ता < सुप्त्वा

णच्छा, नच्छा < ज्ञात्वा

हंता < हत्वा

बुद्ध्वा < बुद्ध्वा

आयाय < आदाय

मच्छा, मत्ता < मत्वा

प्रयोगवाक्य

वह मेरा काम करके घर गया है = सो मज्झं कज्जं काउण गिहं गच्छीअ ।

तुम खाकर विद्यालय जाओ, यही आदेश है = तुम भोयणं काउण विज्जालयं गच्छसु, इदमेव आएसं अत्थि ।

पुराना पाठ याद करके ही आगे का पाठ पढ़ो = पुरायण पाठं सुमिरिउण अग्गपाढो पढसु ।

मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ = अहं भवन्तं पासिउण प्रसन्नो अत्थि ।

मैं जलपान कर वाजार जाऊँगा, यही मेरा नियम है = हं अप्पभोयणं काउण हट्ठे गच्छिस्सामि ।

इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह रह गया = एवं पयारं विस्सासं दाउण सो विरमीअ ।

भोजन करने के उपरान्त थोड़ा विश्राम करना चाहिए = भोयणं काउण अप्पविस्सामो कुणिअव्वं ।

पहाड़ पर चढ़कर हम लोग बहुत सुन्दर दृश्य देखते हैं = पव्वयम्मि आरोहिउण अम्हे बहुसुन्दरं दिस्सं पेच्छामो ।

मैं प्रतिज्ञा करके ही पढ़ता हूँ; यह आप जान लीजिये = हं पइण्णं काउणं पढामि, इदं जाणउ भवन्तो ।

दुर्मति द्वीपायन भी अत्यन्त दुष्कर बालतप का आचरण कर द्वारावती के विनाश का निदान कर मरकर अग्निकुमारों से भवनवासी देव हुआ = दीवायणो वि दुम्मई अइ-दुष्करं बाल-तवमणुचरिउण वारवई विणासे कय-नियणो मरिउण समुप्पन्नो भवणवासी देवो अग्गिकुमारेसु ।

इसके पश्चात् उस अधम अग्निङ्गमार ने छिद्र प्राप्तकर विनाश आरम्भ किया = तओ सो अग्गिङ्गमाराहमो छिदं लहिउण विणासेउमारद्धो ।

इसके पश्चात् दलदेव-वामुदेव जलती हुई द्वारावती को देखकर दिलाप करते हुए माता-पिता के नदल में पहुँचे = तण्णे दलदेव-वामुदेवा दट्ठण दज्जमाणि वारवई अव्वन्दकचरया विउणो घरमुवागया ।

शीघ्र ही रोहिणी, देवकी और पिता को रथ पर चढ़ाकर वहाँ से चले-
सिग्धं च रोहिणि देवङ्गं पियरं च रहं समारोवेऽण
तत्थत्तो गच्छीअ ।

यादव वहाँ जाकर भगवान की वंदना कर अपने-अपने स्थान पर
वैठ गये = जायवा तत्थ गंतूण भयवंतं वंदिऽण
नियएसु ठाणेषु सन्निविट्ठा ।

हेत्वर्थ कृदन्त (Infinitive of purpose)

५७. जब यह भाव व्यक्त करना हो कि कर्ता कोई कार्य करना चाहता
है तो अभीष्ट क्रिया सूचक धातु में हेत्वर्थ कृन् प्रत्यय जोड़कर वाक्य बनाये
जाते हैं । अभिप्राय यह है कि जब दोनों क्रियाओं का एक कर्ता हो तो
निमित्तार्थबोधक धातु के आगे तुं, दु, और तुए प्रत्यय जोड़े जाते हैं ।
हेत्वर्थ कृन् प्रत्यय जोड़ने पर पूर्ववर्ती अ को इ और ए हो जाता है ।

५८. प्रेरणार्थक हेत्वर्थ कृदन्त बनाने के लिए प्रेरणार्थक आवि और
अ प्रत्यय जोड़कर हेत्वर्थ कृत प्रत्ययों को जोड़ा जाता है; पर अ प्रत्यय
जोड़ने पर उपान्त्य अ को आ हो जाता है ।

भण + तुं (उं) = भणितुं, भणोउं, भणोतुं, भणोदुं, भणितुं ।

हस + तुं (उं) = हसितुं, हसेउं, हसितुं, हसेतुं, हसितुं, हसेदुं ।

भू—हो + अ + तु (उं) = होइउं, होएउं, होइतुं, होएतुं ।

कृ—कर + तए = करेत्तए

सिञ्ज + तए = सिञ्जित्तए, सिञ्जेत्तए

उववज्ज + तए = उववज्जित्तए, उववज्जेत्तए

विहर + तए = विहरित्तए, विहरेत्तए

पास + तए = पासित्तए, पासेत्तए

गम + तए = गमित्तए

दा—दल्, दल + तए = दल इत्तए, दलेत्तए

ध्वनि परिवर्तन से निष्पन्न हेत्वर्थ कृदन्त

का + तुं (उं) = काउं

ग्रह—घेन् + तुं = घेतुं

तुर + तुं = तुरिउं, तुरेउं

दृग् + तुं = दृङ्गुं, दृङ्कुं

भुज् + तुं = भोतुं

मुच् + तुं = मोतुं

रुद् + तुं = रोतुं

वच + तुं ॥ वात्तं

प्रयोग-वाक्य

अनन्तर बलदेव को देखकर रथकार स्वामी ने विचार किया = तओ बलदेवं दट्ठूण रहयार सामिणा चितियं ।

मुनि ने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से शुद्ध जानकर प्रहण किया = मुणिणा दव्व-खेत्त-काल-भावपरिसुद्धं ति नारुण पडिग्राहियं ।

अनन्तर देव ने सिद्धार्थ को कल्याण करने के लिए प्रयास किया = तओ देवेण सिद्धत्थस्स कल्लाणकाञं पयण्णो कयो ।

वतलाहये कि अब आप क्या पढ़ना चाहते हैं = कहउ, जं अहुणा भवन्तो कि पढिडं इच्छइ ।

ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जो बुरा करनेवाले का भी भला करना चाहते हैं = विरला ते ये अवयारीणं अवि उवकाउं इच्छन्ति ।

मैं इस कठिन कार्य को करने का यत्न करूँगा = हं इदं दुक्करं कज्जं संवाविउं पयणं करिहामि ।

मैं जो पहले कहने लगा था, उसे छोड़कर दूर चला गया हूँ = पढमं जं कहिडं पवत्तो हं तं परिच्चय्य दूरमइक्कतो अत्थि ।

क्या सच तुम्हारे घर खाने को अन्न नहीं है = किण्णु तुम्हाणं गिहं खादिउं अन्नमवि णत्थि ।

इस उत्तर से हमें सन्तोष हो गया । आगे कुछ पूछना नहीं है = संनुट्ठा अम्हे एत्तेण उत्तरेण । अओ परं णत्थि किमवि पुच्छिउं ।

मुझ में एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं है = णत्थि मे मर्का उट्ठं पद्मवि गमित्तए ।

मंगल के समय में तुम्हारा रोना ठीक नहीं है = ण उच्चिउं मे संगळ्ळान्ते रोविउं ।

अरे भारतवासियो ! यह समय जागने का और देशमें मैं लगने का है = अरे भारतवासीओ ! काओ अउं जगिउं देस-सेवाए चाप्पाणं वावत्तिणए ।

यह समय आपस में मगड़ने का नहीं है = नायं समयो परोपरं विवट्ठिणए ।

अब आप क्या करना चाहते हैं, नारु-मारु कहिये = अहुणा म...
कि काउं इच्छइ, ति सुवट्ठं कहिउ ।

बलहेव सहित द्वीपायन मुनि से प्रार्थना करने के लिए गये = गओ
बलदेव-सहिओ अणुणेउं दीवायण-मुणि ।

उनको लेकर पवित्र हो स्वप्न-शास्त्र के जाननेवाले के यहाँ गये = ताइं
घेत्तुं तुइ-भूओ गओ सुविण-सत्थ-पाढयस्य रोह ।

अपने को प्रकट करने का यही समय है = अवसरो अयं अप्पाणं
पयासिउं ।

वह विपत्ति देखना सह नहीं सकता है = सो विपत्तिं अवल्लोयिउं न
सक्कइ ।

इस काम को तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है = इदं कञ्जं
तुए विणा को अण्णो काउं सक्कइ ।



अभ्यासो Exercise

हिन्दीभाषाए अणुवायं कुणन्तु Translate into Hindi

ते दट्ठूण उत्तिओ कुमारो कुंजराओ सह पियाए, वंदिया विणाएणं । जाव पायविहारेण थोवंतरं गच्छइ ताव पेच्छइ—एगे उड्डुजारू—अहोसिरे झाणकोट्ठोवगए धम्मसुक्काइं ज्ञायंते, एगे वायणं पडिच्छंते पुव्वगयस्स, एगे सज्झायंते अरवल्लियवयण पट्टईए । ते वि वंदिया परमभत्तीए । जाव थोवंतरं गच्छइ ताव पेच्छइ—एगे वागरणं परुवेंते, एगे जोइसमहिज्जंते, अन्ने अट्ठंगरूहानिमित्तमणुसीलयंते । तेवि वदिया । कोऊहलखित्तमणो जाव थोवंतरं गच्छइ, पिच्छइ—अण्यविण्यपरियरियं धम्मघोसाभिहाणं सूरि रत्तासोयतले पुढविसिलावट्टए निविट्ठं धम्म देसयंतं । तं दट्ठूण हरिसिओ कुमारो । तियाहिणीकाऊण वदिय उवविट्ठो सुद्धधरणीए सपरियणो नाइदूरमणासओ कुमारो । भगवयावि आसीसप्पयाएण समासासिय पत्थावया देसणा । तओ संसयवुच्छेयगीं वाणीं समायन्निऊण भणियं कुमारो—‘भयवं’ मम असेसरायधूयाओ वरिज्जंतीओ विचित्तु-वेयकारिणीओ अहेसि ।

अत्थि कत्थवि विसए एगम्मि नयरे एगे चाउव्वेदो माहणा । छत्तेहि भणइ—‘वेयंतं अहं वक्खाणैहि’ । सो य परिक्वानिमित्तं भणइ—‘तत्थ विहाणमत्थि’ । छत्ता भणति—‘केरिसं’ । सो भणइ—कालचउदसीए सेतो छालगो मारेयव्वो, जत्थ न कोइ पासइ । ताहे तस्स मंसं तेहिं संक्रियं भुंजियव्वं । तमो वेयंतं सुणणजोगो होइ ।’ तओ तं सोऊण एगे छत्तो गहिऊण सेयच्छालगं कालचउदसीरत्तीए गओ मुण्णरत्थाए । मारिओ छालगो । त गहाय आगओ । नायमुवज्जाएण—अजोगो न क्विचि वि परिणयमेयस्स । न वक्खाणियं तस्स वेयरहस्सं । वीओ वितहेय गओ मुण्णरत्थाए चितेइ एत्थ तारगा पेच्छंति । तओ गओ देवकुले, चितेइ एत्थ देवो पेच्छइ । गओ मुण्णगारे, तत्थ मि चितेइ—ताव अहं, एमो छगलगो, अइमंयनाणी य पेच्छंति । जत्थ न कोइ पासइ तत्थ मारेयव्वो’ ति इति उवज्जायवदणं । या एव भावत्थो एसो न मारेय व्वो ति ।

पवं एत्थ मि इविदपट्ट अणुक्कादागं ति अणुक्काकरणं ते य इविदिया सत्थे मि संनारिणो जीवा ।

नाओ मए एत्थ नापत्थो । न जस्सए रेण वि क्विचि दावच्चं ति उच्च-वागनावाओ भणियं ताएण—अतो देवाणुदिपेण सुवट्ट बुच्चियं, सुवट्ट ।

अष्टमो पवादओ Lesson 8

वाच्य Voice

५६. प्राकृत में संस्कृत के समान तीनों वाच्य के रूप होते हैं। कर्तृ-वाच्य में कर्त्ता को प्रथमा विभक्ति और कर्म को द्वितीया विभक्ति होती है तथा क्रियापद कर्त्ता के अनुसार होता है। यथा—

बालक पुस्तक पढ़ता है = सिसू पोत्थयं पढइ ।

तुम घर जाओ = तुमं गिहं गच्छहि ।

मैं घर गया था = हं गिहं गच्छीअ ।

तुम घर गये थे = तुमं गिहं गच्छीअ ।

६०. कर्मवाच्य के कर्त्ताकारक में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार रहता है। यथा—

मैं घट बनाता हूँ = मए घटो करीअए ।

मैं गाँव जाता हूँ = मए गामो गच्छीअए ।

तुम राम को देखते हो = तुए रामो पेच्छीअए ।

वे लोग काम करते हैं = तेहि कज्जं करीअए ।

उन्होंने हमें देखा = तेण अम्हे दिट्ठा ।

तुम्हारे द्वारा वह देखा गया है = तुए सो देखिखज्जइ ।

राम आत्मा का ध्यान करता है = रामेण अप्पाणो झाइज्जइ ।

कुम्हार घड़ा बनाता है = कुंभारेण घटो कुणीअइ ।

मोहन महादेव की पूजा करता है = मोहणेण महादेवो अच्चीज्जइ ।

६१. भाववाच्य के कर्त्ताकारक में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म नहीं रहता और क्रियापद सदा प्रथम पुरुष और एकवचन में रहता है। यथा—

तू, मैं देवदत्त या अन्य लोग हँसते हैं = तुए, भए, देवदत्तेणं, अप्पणेहिं वा हसिज्जइ ।

बालक रात में जागता है = बालेण रत्तीए जग्गिज्जइ ।

६२. धातुओं के कर्मणि और भावि रूपों में वर्तमानकाल और विधि एवं आज्ञार्थ में धातु प्रत्ययों के पूर्व ईअ और इज्ज विकरण जोड़े जाते हैं।

पर यह नियम उन्हीं धातुओं के लिए है, जिन धातुओं के स्थान पर आदेश—धात्वादेश नहीं होता है। भविष्यत्काल और क्रियातिपत्ति के रूप कर्त्तरि के समान होते हैं।

कर्मणि और भावि के कुछ आवश्यक रूप

हस (हँसना) वर्तमान

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हसीअइ, हसीअए हसिज्जइ हसिज्जए	हसीअन्ति, हसिज्जन्ति
म० पु०	हसीअसि, हसिज्जसि	हसीइत्था, हसिज्जित्था
उ० पु०	हसीअमि, हसिज्जमि	हसीअमो, हसिज्जमो

भूतकाल

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हसीअईअ, हसिज्जोअ	हसीअईअ, हसिज्जोअ
म० पु०	” ”	” ”
उ० पु०	” ”	” ”

विधि एवं आज्ञार्थ

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हसीअठ, हसिज्जउ	हसीअन्तु, हसिज्जन्तु
म० पु०	हसीअहि, हसिज्जहि	हसिज्जह
उ० पु०	हसीअमु, हसिज्जमु	हसीअमो, हसिज्जमो

भविष्यत्काल और क्रियातिपत्ति के रूप कर्त्तरि के समान होते हैं।

हो < भू कर्मणि और भावि—वर्तमानकाल

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	होईअइ. होइज्जइ	होईअन्ति, होइज्जन्ति
म० पु०	होईअसि. होइज्जसि	होईइत्था, होइज्जित्था
उ० पु०	होईअमि. होइज्जमि	होईआमो, होइज्जिमो

भूतकाल

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	होईअसी, होइज्जसी, होईअहीअ	होईअसी, होइज्जसी, होईअहीअ
म० पु०	,, ,, ,,	,, ,, ,
उ० पु०	,, ,, ,,	,, ,, ,

विधि एवं आज्ञार्थ

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	होईअउ, होइज्जउ	होईअन्तु, होइज्जन्तु
म० पु०	होईअहि, होइज्जहि	होईअह, होइज्जह
उ० पु०	होईअमु, होइज्जमु	होईअमो, होइज्जिमो

भविष्यत्काल और क्रियातिपत्ति के रूप कर्त्तरि के समान होते हैं ।

प्रेरणार्थक क्रिया (Causative Verbs)

६३. प्रेरणार्थक क्रिया—क्रिया का वह विकृतरूप है, जिससे यह बोध होता है कि क्रिया के व्यापार में कर्त्ता स्वतन्त्र नहीं है, बल्कि उस पर किसी की प्रेरणा है। साधारण धातु में जो कर्त्ता रहता है, वह प्रेरणार्थक में स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है।

६४. प्राकृत में प्रेरणार्थक बनाने के लिए अ, ए, आव और आवे प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

६५. अ और ए प्रत्यय के रहने पर उपान्त्य अ को दीर्घ हो जाता है। यथा—

कृ—कर् + अ = कार, कर् + आव = कराव

कर् + ए = कारे, कर् + आवे = करावे

६६. मूल धातु के उपान्त्य में इ स्वर हो तो ए और उ स्वर हो तो ओ हो जाता, है। यथा—

विस् = अ = वेस, विस् + ए = वेसे

विस् + आव = वेसाव, विस् + आवे = वेसावे

६७. उपान्त्य में दीर्घ स्वर रहने पर धातु में प्रेरणार्थक प्रत्यय जुड़ जाते हैं और उपान्त्य को एकार या ओकार नहीं होता। यथा—

चूस् + अ = चूस, चूस् + ए = चूसे

चूस् + आव = चूसाव, चूस् + आवे = चूसावे

प्रेरणार्थक क्रिया के रूप

हस—हसाता है—वर्तमान

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हासइ, हसावइ, हासेइ, हसावेइ	हासन्ति, हासेन्ति, हसावन्ति, हसावेन्ति
म० पु०	हाससि, हासेसि, हसावसि, हसावेसि	हासह, हासेह, हसावह, हसावेह
उ० पु०	हासमि, हासेमि, हसावमि हसावेमि	हासमो, हासेमो, हसावमो, हसावेमो

भूतकाल

एकवचन और बहुवचन

प्र०, म०, उ० पु०	हासीअ, हासेईअ, हसावीअ, हसावेईअ
------------------	--------------------------------

भविष्यत्काल

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हासिहिइ, हासेहिइ, हमाविहिइ, हसावेहिइ	हासिहन्ति, हासेहन्ति, हसावहन्ति, हसावेहन्ति
म० पु०	हासिहिमि, हासेहिसि, हमाविहिसि, हसावेहिसि	हासिहित्था, हासेहित्था, हसाविहित्था,
उ० पु०	हासिस्सं, हासेस्सं, हसाविस्सं, हसावेस्सं	हासिस्सामो, हासेस्सामो, हसाविस्सामो

विधि एवं आज्ञार्थ

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हामइ, हासेइ, हमावइ, हसावेइ	हामन्तु, हासेन्तु, हसावन्तु, हसावेन्तु
म० पु०	हामस, हासेसु, हमावसु, हसावेसु	हामह, हासेह, हसावह, हसावेह
उ० पु०	हाममि, हासेमि, हमावमि, हसावेमि	हाममो, हासेमो, हसावमो, हसावेमो

क्रियातिपत्ति

एकवचन और बहुवचन

प्र०, म०, उ० पु०

हासेज्ज, हासेज्जा, हसावेज्ज, हसावेज्जा, हासन्तो,
हासेन्तो, हासवन्तो, हसावेन्तो, हासमाणो, हासेमाणो,
हसावमाणो, हसावेमाणो ।

कर < कृ (कराना) वर्तमान

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु०

कारइ, कारेइ, करावइ

कारन्ति, कारेन्ति, करावन्ति

म० पु०

कारसि, कारेसि, करावसि

कारह, कारित्था, कारेइत्था

उ० पु०

कारमि, कारेमि, करावमि

कारमो, कारेमो, कराचमो,

करावेमो

भूतकाल

एकवचन और बहुवचन

प्र०, म०, उ० पु०

कारीअ, कारेईअ, करावीअ, कारईअ

भविष्यत्काल

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु०

कारिहिइ, कारेहिइ,

कारिहिनति, कारेहिनति,

काराविहिइ

कराविहिनति

म० पु०

कारिहिसि, कारेहिसि,

कारिहित्था, कारेहित्था,

कराविहिसि

करावहित्था

उ० पु०

कारिस्सं, कारेस्सं,

कारिस्सामो, कारावेस्सामो,

कराविस्सं

कराविस्सामो

विधि एवं आज्ञा

एकवचन

बहुवचन

प्र० पु०

कारउ, कारेउ, करावउ

कारन्तु, कारेन्तु, करावन्तु

म० पु०

कारसु, कारेसु, करावसु

कारह, कारेह, करावह

उ० पु०

कारमु, कारेमु, करावमु

कारमो, कारेमो, करावमो

क्रियातिपत्ति

एकवचन और बहुवचन

प्र०, म०, उ० पु० कारेज्ज, करेज्जा, करावेज्ज, करावेज्जा, कारन्तो,
कारेन्तो, करावन्तो, करावेन्तो, कारमाणो, कारेमाणो,
करावमाणो

कर्मणि और भावि के प्रेरक रूप

६८. प्रेरणार्थक धातु मे भावि और कर्मणि के रूप बनाने के लिए मूल धातु मे आवि प्रत्यय जोड़ने के उपरान्त कर्मणि और भावि के प्रत्यय ईअ, और इज्ज जोड़ने चाहिए ।

६९. मूल धातु मे उपान्त्य अ के स्थान पर आ कर देने के अनन्तर इस अंग मे ईअ या इज्ज जोड़ देने से प्रेरक कर्मणि और भावि के रूप होते हैं । कर + आवि + ईअ + इ = करावीअइ = कराया जाता है ।

प्रेरक भावि और कर्मणि—हास, हसावि —वर्तमान

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हासीअइ, हासिज्जइ	हासीअन्ति, हासिज्जन्ति
म० पु०	हासीअसि, हासीज्जसि	हासीइत्था, हासिज्जित्था
उ० पु०	हासीअमि, हासिज्जमि	हासीअमो, हासिज्जिमो

भविष्यत्काल

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हासिहिइ, हमाविहिइ	हासिहिनति, हसाविहिनति
म० पु०	हासिहिसि, हसाविसि	हासिहित्था, हसाविहित्था
उ० पु०	हासिहिसामि, हसाविस्सामि	हासिस्सामो, हस्साविस्सामो

भूतकाल

एकवचन और बहुवचन

प्र०, म०, उ० पु० हासीअ. हमासीअ. हासीअइ, हासिज्जीअ

विधि एवं आत्थार्थ

	एकवचन	बहुवचन
प्र० पु०	हासीअइ. हासिज्जइ	हासीअन्हु. हासिज्जन्हु
म० पु०	हासीअसि. हासिज्जसि	हासीअत्त. हासिज्जत्त
उ० पु०	हासीअमि. हासिज्जमि	हासीअत्तो. हासिज्जत्तो

क्रियातिपत्ति

सभी पुरुष और सभी वचनों में

हासेज्ज, हासेज्जा, हसाविज्ज, हसाविज्जा, हासन्तो, हासेन्तो, हासमाणो
पिवास < पा (पिलाना, पिलवाना)

खाम, खवामि < क्षम—क्षमा करना ।

करा, करावि < कृ—करवाना ।

हो, होआवि < भू—होना ।

ने, नेआवि < नी—छिपाना, ग्रहण करवाना ।

ज्ञा, ज्ञाआवि < ध्यै—ध्यान कराना ।

जुगुच्छ < गुप्—घृणा कराना ।

उपयोगी शब्दकोष

मसाला = वेसवारो

जीरा = जीरओ

हल्दी = हलद्दा, हलद्दी

धनिया = धाण्या

तेजपात = तेअपत्तं

डाल = साहा

ढंढल = बुन्तो

लवंग = लवंगो

दालचीनी = गुडत्तओ

छोटी इलायची = एला

बड़ी इलायची = थूलेला

हींग = हिंगू

उदरख = आद्दत्रं

रस = रसो

सौंठ = सुंठी

पीपल = पिप्पली

स्याह जीरा = किसणजीरओ

शीतलचीनी = कंकोल

जायफल = जाइफलं

जावित्री = जाइपत्ती

कत्था = खदिरसारो

अनाज = अन्नं, सस्सं

धान = धाण्यं

जौ = जवो

चना = चणओ

मूंग = मुग्गो

वाजडा = बज्जरी

उड़द = मासो

कुल्थी = कुल्थो, कुलमासो

तिल = तिलो

आम = सहआरफलं, अबं

कटहल = पत्तसो

नाशपाती = अमियफलं

अनार = दाडिमो

केला = कयली

वेल = वेलो

अमरूद = पेरुओ

खजूर = खज्जुरो

नारियल = नारिफलं

अखरोट = अक्खोटो

मुनक्का = पथिया
 बहेड़ा = बहेडओ
 नमक = लोण
 पीपल = अस्सत्थो
 वरगद् = बडो
 सहजन = सोहांजन
 चन्दन = चंदनविच्छो
 कनेर = कण्णिआरो
 कचनार = कंचणारो
 मिरचा = रत्तमरियं
 मौफ = सयपुप्फा
 अजवायन = जवाणिआ
 मेथी = मेहिआ
 राई = रायिका
 कपूर = कप्पूरो
 पुदीना = पुदिनो
 साडीधान = साली
 चावल = तडुलो
 गेहूँ = गोहूमो
 अरहर = आढकी
 मसूर = मसूरो
 साँवो = सामाओ
 सरसो = सस्सपो

तीसी = अतसी
 ज्वार = तुवरो
 जामुन = जंबूफलं
 सेव = सीवफलं
 नारंगी = नारंगं
 पपीता = महूरेंडो
 वैर = बदरीफलं
 कथवेल = कवित्थो
 डमली = चिचा
 डक्षु = उच्छु
 वादाम = वादामो
 किशमिग = महुरसा
 दाख = दक्खा
 मूसल = मूसलं
 हरड़ = हरडई
 सखुआ = सालविच्छो
 बबुल = बबुलो
 अशोक = असोयो
 रीठा = अरिट्टो
 पौधा = लहुपादवो
 वांस = वंसो

वस्त्राभूषण

कपडा = वस्त्रं. वसनं
 कोरा कपडा = अणादयं वस्त्रं
 घोया कपडा. घोती = धौनवस्त्रं
 नुनी कपडा = वस्त्रानं
 कनी कपडा = रोमज. ओण्णयं
 बुध्वा कपडा = नोमं
 रोमनी कपडा = रोमियं
 पोपी = पणि, प
 दुपडा = उदरीयं
 शरडा = शरुड

कमीज = कमणीयो, कंचुयं
 टोपी = सिरत्थं
 नाड़ी = ताटी
 चोली = कंचुई
 नीलिया गमछा = अगपोठन्तो, पुंछणी
 घेदा = लशाटिया
 मेहदी = मेहदी
 चन्दन = उद्वड्डणं
 मदायर = लाळा
 माला = माला

कंगना = कंकण
 पहुँची = कड़ओ
 कुण्डल = कुंडल
 हाथ का कड़ा = बाला
 पाँव का कड़ा = हंसओ

विछिया = गूँडरो, रोडरो
 करधनी = रसणा, मेहला
 बाजू = केयूरो
 सेन्दुर = सेंदूरो

पुष्प, सुगन्धित द्रव्य और औषधियाँ

कमल = पोमं, कमलं
 गुलाब = पाडलो
 बेला = मल्लिआ
 चमेली = जाई, मालई
 चम्पा = चंपा, चंपओ
 जूही = जूहिआ
 गेंदा = गणेशओ
 ओड़हुल = जवा
 मौलसिरी = बउलो
 केवड़ा = केतई, केअई
 खस = उसीरो
 केसर = कुंकुमं
 कस्तूरी = कत्थूरिआ
 इत्र = पुष्पसारो
 पीपल = पिप्पलो

अजमोद = अजमोदा
 गुरच = गुड्डई,
 चिरैता = कैराअं
 अड्डसा = बासओ
 असगन्ध = अससगन्धा
 कत्था = खदिरो
 जमालगोटा = जयपालओ
 इसफगोल = सीयबीयं
 सोहागा = टंकण
 गेरू = गैरिअं
 खड़िया मिट्टी = खडी
 चूना = चुण्णं
 गुलाबजल = पाडलजलं
 केवड़ाजल = कअईजलं

अस्त्र

हथियार = अत्थं, सत्थं, आउहं
 तलवार = असी, तरवारी
 ढाल = फलओ
 वर्र्छी = सत्लं
 भाला = कुन्तो

लाठी = लगुडो, दंडो
 गुप्ती = करवालिया
 बन्दूक = नालीअं
 कैची = कहणी

सम्बन्धी

पिता = विआ, जणओ
 माँ = माया, जणणी
 भाई = भाया
 बहन = बहिणी

बेटी = पुत्ती, तणया, दुहिआ
 स्त्री = मज्जा, भारिया, जामया, दारा
 पति = भत्ता, सामी, पई
 चाचा = पियज्ज

दादी = पिआमही
 फूफो = पिउचा, पिउसिआ
 प्रेयसी = पीअसी
 भतीजा = भाउणिज्जो
 मामा = माचलो
 भगिना = भाइणिज्जो, भाइणेओ
 ससुर = ससुरो
 सास = सस्सू
 ननद = णणंदा
 भौजाई = भाउजाया
 देवर = देवरा
 पुत्रवधू = पुत्रवहू
 पोता = पोत्तो, णत्तुणिओ

नाना = मायामहो
 नानी = मायामही
 नानी = णत्तिओ
 साला = सालो
 फुफेरा भाई = पिउसिआणेयो
 मौसेरा भाई = माउसिआणेयो
 मौसी = माउसिआ
 बड़ा भाई = अगओ
 छोटा भाई = अणुओ
 जमाई = जामाया
 साहू = सालिवोडो
 पौत्र की पत्नी = णत्तुइणी

वृत्तिजीवी

किसान = किसओ, किसाणो
 नाई = णाविओ
 धोधी = रजओ
 तेली = तेलिओ
 कुम्हार = कुंभआरो, कुलालो
 चट्टई = रहयारो, चट्टई
 चटाई बनानेवाला = वरुडो
 लुहार = लोहयारो
 सुनार = सुवण्यारो
 मोची = चर्मचारो
 जुलाहा = कोलिओ, पटचारो
 दर्जा = सूइयारो, सोचिओ
 पनोली = तापोन्निओ
 धनिया = धरिओ
 मूआ = पीरों, पिआहो
 मोगा = मोरों
 छेरा = छेरओ
 मरेरिआ = मरेरओ, मरेरओ

कलवार = कलालो
 कारीगर = सिप्पी
 राज = धवई
 गन्धी = गन्धिओ
 हलवाई = मोदइआं, कांदाविओ
 चौकीदार = पहरी, दारवालो
 नौकर = सेवओ, भिच्चो
 मजदूर = समियो
 कसाई = मासिओ
 व्याध = वाहो
 रमोइआ = पाचओ, मूदो
 जामूम = चरो.
 गर्बिया = गावओ
 दजानेवाला = चाचओ
 नाचनेवाला = णचओ
 वालीगर = इंदजनिओ
 वैप = वैजो
 दाहू = दाहू

पशु-पक्षी

सिंह = सीहो, केहरी
 बाघ = साद्दूलो, बाघो
 भालू = भल्लुओ, रिच्छो
 चीता = चित्तओ
 वन्दर = वानरो, मकडो
 हाथी = हत्थी, करी, गयो
 घोड़ा = अस्सो, वोडओ
 कौआ = काओ, वायसो
 कोयल = कोइल, परहुतो
 भैंसा = महिसो
 बैल = वसहो
 गाय = धेणु, गो
 चील = चिल्लो
 उल्लू = उल्लूओ
 गीदड = सियारो
 हरिण = गिओ
 भेडा = मेसो
 बकरा = अजो, छगलो
 नीलगाय = गवयो
 उदविडाल = उदविडालो
 लोमडी = खिखिरो
 घड़ियाल = मगरो, नको
 गोह = गोहा
 बत्तक = बत्तओ
 मुर्गा = कुक्कुडो

भेड़िया = कोओ, विओ
 गेड़ा = गंडओ
 सूअर = सूअरो, वराहो
 विडाल = मज्जारो, विडालो
 मूसा = मूसिओ, आखू
 गरुड़ = गरुडो, वेणतेयो
 गीध = गिहो
 ऊँट = कमेलो
 गधा = गद्मो, रासहो
 बाज = सेण
 कवूतर = कवोओ
 बगुला = बओ
 कुत्ता = कुक्कुरो, सारमेयो
 खरगोश = ससो
 सुग्गा = सुओ, कीरो
 मैना = सारिआ
 तीतर = तित्तिरो
 खज्जन = खँजनो
 वटेर = लावओ
 पपीहा = चायओ
 सारस = सारसो
 चकवा = चक्कवाओ
 हंसो = हंसो
 मोर = मोरो
 चमगादर = जउआ

सरीसृप और कीड़े-ककोड़े

साँप = सप्पो, भुयंगो
 विच्छू = विच्छिओ, अली
 गिरागिट = सरहो
 मच्छली = मच्छो
 मकड़ा = मकडो, ल्या
 गिलहरी = चमरपुच्छो
 मच्छर = भसओ

खटमल = मक्कुणो
 जू = लिक्खा
 चींटी = पिपीलिआ
 कछुआ = फच्छवी, कुम्मो
 मेढक = भेओ, ददुरो
 घोंघा = संवूओ
 जौक = जलइआ

कीड़ा = कीटो
पतिङ्गा = सलहो
मक्खी = मच्छिआ

मधुमक्खी = महुमक्खिआ
भौरा = छप्पद, भमरो

शरीर के अंगदि

सिर = मत्थओ, सिरं
अँख = णयणं, नेतं, अछि, चक्खु
कान = कण्णो, सोत्तं
नाक = णासिआ, णासा
कपार = कवालो, भालो
कन्धा = अंसो
काँख = कक्खो
हाथ = करो, पाणी, हत्थो
स्तन = थणो
हथेली = करयलं
नाम्बून = नहो
सुट्टी = सुट्टिआ, सुट्टी
पेट = उयरं
पीठ = पिट्ठं
छाती = उर्रो, वच्छं
पमली = पारसं
फलेजा = द्विचयं
नाभि = णाढी
कमर = कटी
पूतर = निचंघो
जोप = जेपा, जठा

मुँह = वयणं, मुहं
जीभ = जीहा, रसणा
दाँत = दसणो, दतो
ओठ = अहरो, ओट्टो
गाल = कवोलो, गल्लो
वाँह = भुओ, वाह
केहुनी = कहेणी
एंगली = अँगुली
घुटना = जाणु
टाँग = टँगो,
पैर = चरणो. पाओ
एँडी पाव्ही
घुट्टी = घुट्टिआ
केश = कंसो, कयो, बालो
भौं = भौं
दाढ़ी-मूछ = तमस्सु
हड्डी = अत्थि
माम = ममं
चर्वी = मेदो, वसा
शोणित = रत्तं, रट्टिरं
पीय = मिलेओ, प्यं

निवास-स्थानादि

पट्टी = भूमि
मिठी = मिट्टिआ
हाट = हाट, हाट्ट, मल्लि
गार = गार
नदी = नदी
पानी = पानी

मनान = गिहं, भवण, घरं
रत्त. टापर = छट्ट
सपण = सपणो
ईट = इट्टिआ
मिण्णी = मिण्णी, वाचणं
दरवाजा = दार

अटारी = अट्टं
 जंगल = वणं, काण्णं
 गाँव = गामो
 छोटी वस्तो = वसही, पल्ली
 बाजार = आवणो, हट्टो
 सड़क = रायमगो
 पहाड़ = पठ्वओ, गिरी
 राजमहल = सोहो, पासाओ
 किला = दुग्गं
 दीवाल = भित्ती
 घास = तिणं
 दहलीज = देहली
 ओसारा = उवसालं
 किवार = कवाहं
 ऊखल = उलूखल
 मूसल = मूसलं
 सूप = सुप्पं
 चालनी = चालनी
 तवा = कंदू
 कड़ाही = कडाहो
 वर्तन = पात्तं, भायणं
 बोरा = पसेवो
 थाली = थालिआ
 लोटा = जलपत्त
 गिलास = लहुपत्तं
 विछावन = आत्थरणं
 रसोईघर = महाणसं
 कठौता = कक्करी
 मशहरी = मसहरी
 ट्रंक = पेडिआ
 खूटी = णायदंयो
 छाता = छत्तं
 खडाऊँ = काट्टपाउआ

कंधी = कंकतिआ, पसाहणी
 पीढा = पीढं, आसणं
 झाडू = सम्माज्जणी
 ताली = तालिआ, करयलभुणी
 चुटकी = छोडिआ
 छींक = छिक्का
 दाद = ददुदु
 मालिश = मद्दणं
 ढकार = आज्जमाणं
 थूक = थुक्को
 कूड़ा-कचड़ा = अवक्करो
 मलमूत्र = पुरिसं
 गोंद = णिय्यासो
 घडा = घडो, कलसो
 गगरी = गगरी
 वटलोई = थाली
 कल्लुल = दव्वी
 लोढा = पेसणं
 हाँडी = हडिआ
 टोकरी = कंडोलो, पिडो
 ढकना = पिहाणं
 चमचा = चमओ
 चौकी = चरक्किआ
 सेज = सज्जा
 चूल्हा = चुल्ली
 तोशक = उसीरो
 तकिया = उवहाणं
 सन्दूक = वासओ, मंजूसा
 पंखा = विजणं
 सीक = सिक्कं
 जूता = उवाणओ
 आइना = दप्पणो, पुउरो
 दीपक = दीवओ

वत्ती = वत्तिआ, वत्ती
 भूख = छुहा
 प्यास = तिसा, पिवासा
 नींद = निदा
 हिचकी = द्विक्का
 खुजलाहट = कण्हू

जम्हाई = जिभा, जिभिआ
 दवाना = अंगमदणं
 विष्टा = गूहं, मलं
 पसीना = सेओ, घम्मो
 दाँत मॉजना = दंतहावणं
 लेई = विलेवी

क्रिया-कोष (गत्यर्थक) वर्तमानार्थक

जाता है = गच्छइ, वज्जइ; याइ
 आता है = आगच्छइ, आयाइ
 घूमता है = भमइ
 टहलना = विचरइ
 पैदल चलता है = परिक्रमइ
 सरकता है = परिल्हसइ
 दौड़ता है = धावइ
 सरकता है = सरइ, सप्पइ
 खेलता है = खेवळइ, कीडइ
 तरता है = तरइ
 घुमता है = पविसइ
 निकलता है = णीसरइ

भागता है = पलायइ
 लौटता है = णिवट्टइ
 भ्रमण करता है = परीइ
 पार पहुँचता है = पारइ
 चलता है = चलइ
 कूदता है = कूदइ
 उड़ता है = उड्डइ
 नाचता है = णचइ
 फिसलता है = खलइ
 चूता है = चिवइ, णिट्टअइ
 भेजता है = पेसइ
 सम्मुख आता है = समेइ

भोजनार्थक

प्याता है = प्यादइ, भुंजइ, प्याअइ
 पीता है = पिळइ, पिपइ
 चूमता है = चुम्मइ
 चरसता है = आनाअइ, पओगिलइ,
 साअइ

आचमन करता है = आचमइ
 चबाता है = चव्वइ
 निगलता है = गिलइ
 चाटता है = लिहइ

ज्ञानार्थक

समझता है = ज्ञाणइ, अंगमदणइ
 देखता है = पेणइ, सामसइ, पामइ
 समझता है = णिणइ, णिमइ
 सोचता है = च मससइ, मसइ
 सुनाता है = सुणइ
 समझता है = ज्ञाणइ

सुनता है = सुणइ, आदणणइ
 कृता है = कालइ
 मनास लेता है = मसइ
 देखता है, निरीक्षण करता है = पेणइ
 सुनाता है = सुणइ

शब्दार्थक

कहता है = कहइ, सहइ, भणइ
पञ्जरइ

बोलता है = वोल्इ, भासइ बुवइ

चिल्लाता है = कोसइ, कंदइ

रोता है = कंदइ, रुवइ, रोदइ

खिलखिलाता है = अट्टहासं करेइ

झगड़ा करता है = कलहइ

गरजता है = गज्जइ, थणइ

घोपणा करता है = घोसइ

ललकारता है = आवाहइ, हुकारइ

गूंजता है = गुंजइ

रटता है = रडइ

स्तुति करता है = थवइ, थुणइ

तड़फड़ाता है = तडफ्फडइ

गाता है = गाअइ

ध्यान करता है = भाअइ

हँसता है = हसइ

विलाप करता है = विलवइ

बात-चीत करता है = संभासइ

बहस करता है = विवअइ

शब्द करता है = सदइ

वर्णन करता है = वण्णइ

जवाब देता है = उत्तरं देइ

पढ़ता है = पठइ

भजन करता है = भजइ

चपदेश देता है = देसइ

दुःख कहता है = णिठ्वरइ

भावार्थक

होता है = होइ, हवइ

प्रसन्न होता है = पसीदइ, तोसइ

तृप्त करता है = तिप्पइ

दुःखी होता है = खेअइ, सीअइ

विलाप करता है संताप्त होता है =

झंखइ

घबड़ाता है = खोभइ, आउछी होइ

डरता है = बीहइ

भूंकता है = बुक्कइ

लज्जा करता है = लज्जइ

थकता है = थक्कइ

शोभता है = सोहइ

रहता है = वसइ

सुस्त होता है = गिलाइ, गिलायइ

पुष्ट होता है = पुसइ

मरता है = मरइ

क्षमा करता है = खमइ

प्रशंसा करता है = पसंसइ, पकत्थइ

डाह करता है = वेसइ

भय से व्याकुल होता है = धवक्कइ

म्लान होता है = मिलाइ

डरता है = तसइ

ताड़ता है = ताडइ

पीड़ा करता है = तुआइ

क्रोधित होता है = कुप्पइ, कुम्भइ

घृणा करता है = भुणइ

घमंड करता है = मज्जइ

पोषण करता है = विहइ

जानता है = बुक्कइ

सहता है = सहइ

चमकता है = रायइ, दिप्पइ, दीवइ

विराजता है = विरायइ

मूर्च्छित होता है = मुच्छइ

गिनता है = गणइ

जीता है = जीवइ
 दया करता है = दयइ
 स्वीकार करता है = अंगीकरेइ

निन्दा करता है = निन्दइ
 सन्तुष्ट होता है = संतुसइ
 धिक्कारता है = धिक्कारइ

हस्तक्रियार्थक

करता है = करेइ, करइ
 देता है = देइ
 लेता है = लेणइ
 पकड़ता है = धरइ
 फेंकता है = म्विचइ
 चुकनी करता है = चुण्णइ
 कूटता है = कुट्टइ, कंडइ
 पीटता है = ताटइ, पट्टइ
 बंधता है = बंधइ
 लीरता है = लिखइ
 मँवांता है = भूसइ, सज्जइ, मँडइ
 रंगता है = रंजइ
 बनाता है = रचइ, गिमइ
 लोड़ता है = चचइ

तोड़ता है = तुट्टइ, तुडइ
 काटता है = कट्टइ, छिदइ
 जोड़ता है = जोजइ
 टुकड़ा करता है = खंडइ
 पीसता है = पीसइ
 मारता है = हणइ
 थप्पड मारता है = चवेढं देइ
 रगड़ता है = घरसइ
 बुहारता है = सम्माज्जयइ
 लिखता है = लिखइ
 गुथता है = गुंथइ, गुंफइ
 पकाता है = पचइ
 चुनता है = चिणइ
 चित्र बनाता है = चित्तेइ

विविध क्रियाएँ

स्वीयता है = कीणइ
 चेंचना है = चिकीणइ
 पसला करता है = तणुअइ
 समेटता है = सक्केर, संकलर
 उल्टाता है = धरइ
 लौटना है = लणइ
 धरता है = धरइ
 दिखता है = धरइ
 धरता है = धरइ
 रोणता है = रोणइ
 मनाता है = मणइ
 गताइ जाता है = गणइ
 सुनिश्च होना है = सुणइ

सूचना करता है = सूअइ
 पूछता है = पुच्छइ
 माँगता है = चाचइ
 भूकता है = धुणइ
 नफता है = सफइ
 समाप्त करता है = समापइ
 टोपता है = उडइ
 टकता है = धावइ
 धिता करता है = धितइ
 धता है = धणइ, लडइ
 पीरता है = धिणइ
 मायावान होता है = वेणइ
 बराहना देना है = ब्राहइ

शब्दार्थक

कहता है = कहइ, सहइ, भणइ
 पञ्जरइ
 बोलता है = बोलइ, भासइ बुवइ
 चिल्लाता है = कोसइ, कंदइ
 रोता है = कंदइ, रुवइ, रोदइ
 खिलखिलाता है = अट्टहासं करेइ
 झगड़ा करता है = कलहइ
 गरजता है = गज्जइ, थणइ
 घोपणा करता है = घोसइ
 ललकारता है = आवाहइ, हुक्कारइ
 गूंजता है = गुंजइ
 रटता है = रडइ
 स्तुति करता है = थवइ, थुणइ
 तड़फड़ाता है = तडप्फडइ

गाता है = गाअइ
 ध्यान करता है = भाअइ
 हँसता है = हसइ
 विलाप करता है = वित्तवइ
 बात-चीत करता है = संभासइ
 बहस करता है = विवअइ
 शब्द करता है = सदइ
 वर्णन करता है = वण्णइ
 जवाब देता है = उत्तरं देइ
 पढ़ता है = पढइ
 भजन करता है = भजइ
 उपदेश देता है = देसइ
 दुःख कहता है = णिव्वरइ

भावार्थक

होता है = होइ, हवइ
 प्रसन्न होता है = पसीदइ, तोसइ
 तृप्त करता है = तिप्पइ
 दुःखी होता है = खेअइ, सीअइ
 विलाप करता है संताप्त होता है =
 झंखइ
 घबड़ाता है = खोभइ, आउली होइ
 डरता है = वीहइ
 भूंकता है = बुक्कइ
 लज्जा करता है = लज्जइ
 थकता है = थक्कइ
 शोभता है = सोहइ
 रहता है = वसइ
 सुस्त होता है = गिलाइ, गिलायइ
 पुष्ट होता है = पुसइ
 मरता है = मरइ
 क्षमा करता है = खमइ

प्रशंसा करता है = पसंसइ, पकत्थइ
 डाह करता है = वेसइ
 भय से व्याकुल होता है = धवक्कइ
 म्लान होता है = मिलाइ
 डरता है = तसइ
 ताड़ता है = ताडइ
 पीड़ा करता है = तुआइ
 क्रोधित होता है = कुप्पइ, कुम्भइ
 घृणा करता है = भुणइ
 घमंड करता है = मज्जइ
 पोषण करता है = विहइ
 जानता है = बुज्झइ
 सहता है = सहइ
 चमकता है = रायइ, दिप्पइ, दीवइ
 विराजता है = विरायइ
 मूर्च्छित होता है = मुच्छइ
 गिनता है = गणइ

जीता है = जीवइ
 दया करता है = दयइ
 स्वीकार करता है = अंगीकरेइ

निन्दा करता है = निन्दइ
 सन्तुष्ट होता है = संतुसइ
 धिक्कारता है = धिक्कारइ

हस्तक्रियार्थक

करता है = करेइ, करइ
 देता है = देइ
 लेता है = गेणहइ
 पकड़ता है = धरइ
 फेंकता है = खिवइ
 बुकनी करता है = चुण्णइ
 कूटता है = कुट्टइ, कंडइ
 पीटता है = ताडइ, पट्टइ
 बंधता है = बंधइ
 लीपता है = लिपइ
 सँवारता है = भूसइ, सज्जइ, मँडइ
 रंगता है = रजइ
 बनाता है = रचइ, गिम्मइ
 छोड़ता है = चयइ

तोड़ता है = तुट्टइ, तुडइ
 काटता है = कट्टइ, छिंदइ
 जोड़ता है = जोजइ
 टुकड़ा करता है = खंडइ
 पीसता है = पीसइ
 मारता है = हणइ
 थप्पड़ मारता है = चवेढं देइ
 रगड़ता है = घरसइ
 बुहारता है = सम्माज्जयइ
 लिखता है = लिखइ
 गूथता है = गुंथइ, गुंफइ
 पकाता है = पचइ
 चुनता है = चिणइ
 चित्र बनाता है = चित्तेइ

विविध क्रियाएँ

खरीदता है = कीणइ
 बेचता है = विकीणइ
 पतला करता है = तणुअइ
 समेटता है = संकलेइ, संकलइ
 जलाता है = दहइ
 डॉटता है = तज्जइ
 दुहना है = दुहइ
 हिलता है = कंपइ
 चरता है = चरइ
 रोकता है = रुंधइ
 रुचता है = रुच्चइ
 कटाक्ष करता है = कवखइ
 सुगन्धित होता है = सुरहइ

सूचना करता है = सूअइ
 पूछता है = पुच्छइ
 माँगता है = याचइ
 थूकता है = थुकइ
 सकता है = सकइ
 समाप्त करता है = समापइ
 छोड़ता है = जहइ
 ढकता है = घायइ
 चिंता करता है = चितइ
 पाता है = लभइ, लहइ
 छींकता है = छिक्कइ
 सावधान होता है = चेअइ
 उलाहना देता है = झंखइ

पूजा करता है = अञ्जइ, पूजइ
 आशीर्वाद देता है = आसीसं देइ
 सीखता है = सीखइ
 ठहरता है = ठाइ
 जलाता है = डइइ
 खुजलाता है = कंङ्खअइ
 तोलता है तोलइ
 नापता है = मापइ
 फैलता है = तणइ
 जलता है = जलइ
 डसता है = दंसइ
 बचाता है = रक्खइ, पाइ
 तर्क करता है = तक्कइ
 सींचता है = तलहट्टइ
 फूलता है = पुफइ
 मलता है = मदइ
 फलता है = फलइ
 सोता है = सुआइ
 सेवा करता है = सुस्सुसइ, सेवइ

चूमता है = चुंवइ
 बढ़ता है = वडुइ
 कोशिश करता है = चेठुइ
 चाहता है = इच्छइ, कामइ, छंदइ
 शुरू करता है = आरभइ
 जीतता है = जयइ
 ठगता है = छलइ
 झरता है = चुअइ
 हारता है = पराजयइ
 जागता है = जगइ
 नहाता है = णहाइ
 प्रेरणा करता है = चोझइ
 धोता है = छालइ
 भूलता है = विसमरइ
 शाप देता है = सवइ
 प्रणाम करता है = पणमइ, नमइ
 स्थापन करता है = ठवइ
 भेंट करता है = दुक्कइ
 छिपना है = लुक्कइ

प्रयोगवाक्य

दाल में नमक ज्यादा है = दालीए लोणं अहियं अत्थि ।
 पीपल के पेड़ की छाया घनी है = अस्सत्थस्स रक्खस्स गहणछाया
 अत्थि ।
 हींग डालने से दाल का स्वाद अच्छा होता है = हिंग्पट्टणेण दालीए
 सायो उत्तमो होइ ।
 उसके पावों में मेहंदी लगी है = तस्स पायम्मि मेहदी लग्गा अत्थि ।
 वह रेशमी वस्त्र पहने हुए था = सो कोसेयं परिहाणन्तो अत्थि ।
 उसने ही मुझ से यह काम कराया है = तेणेव इदं कज्जं मए कारेज्जात्थि ।
 उसने मुझसे राम को क्षमा करवाया = तेण मए रामो खमावीक्ख ।
 उसने मुझे रुपये दिलवाये हैं = तेण मज्झ रुवगं दाआवीअइ ।
 उसके पास बन्दूक है = तस्स गिहे नालीअं अत्थि ।
 चौकीदार पहरे पर सावधान है = पहरी दाररक्खणे सावहाणो अत्थि ।

बाजाबजानेवाला चला गया = वायओ गओ ।

वाजीगर अपने खेत दिखलायेगा = इंदजालिओ णियेन्दजालं
पेच्छहिइ ।

नाचनेवाला यहाँ आया है = णच्चओ अत्थ आगओ अत्थि ।

चैद्य बुलाकर उसकी दवा कराओ = वेज्जो हक्किता चिगिच्छा करेउ ।

उसकी भौजाई अच्छे स्वभाव की है = तस्स भाउजाया सेट्टसहाओ
अत्थि ।

रसोइया खाना बना रहा है = पाचओ भोयणं णिम्मंतो अत्थि ।

मेरी नानी बीमार हैं = मज्झ मायामही रोगिआ अत्थि ।

उसकी ननद कल वाराणसी से आई है = तीए णणंदा कल्लं वाराणसीए
आगआ अत्थि ।

उसकी मौसी गाना गा रही है = तस्स माउसिआ गायणं गायन्तो अत्थि ।

वे दर्जा कपड़ा सी रहे हैं = ते सूचिआ वत्थं सिठ्वन्तो सन्ति ।

वे लड़के तेजी से आगे बढ़ रहे हैं = ते बालभा वेगेण अगो बड्ढन्ति ।

उन्होंने कल छीका था = तेहिं कल्लं छिक्कीअईअ ।

मैं उनके द्वारा तंग हुआ हूँ = तेहिं हं अच्चासामीअंमि ।

वह गठरी बांधता है = सो गट्टरं बंधइ

वे लोग जीवों पर दया करते हैं = ते जीवा दयंति ।

हम लोग पाप करने वालों से धृणा करते हैं = अम्हे पाविणो भुणामो ।

तुम इस कार्य को क्यों स्वीकार करते हो = तुम्हे इदं कज्जं कंहं अंगी-
करित्था ।

नहीं पढ़ने पर मैंने बच्चों को चाँटा मारा = अपढणम्मि हं सिंसुं
चविडं देईअ ।

वह लड़की कमरे को सजाती है = सा बालिआ कक्खं सज्जइ ।

वह घर की छत को लीपती है = सा पासादं लिपइ ।

वे लोग कपड़ा रंगते हैं = ते वत्थं रंजंति ।

वे लोग पढ़ना आरम्भ करते हैं = ते जणा पढणं आरंभंति ।

पाइअमामाए अणुवायं कुणन्तु Translate into Prakrit

पटना नगर में एक राजा रहता था । उसकी पत्नी का नाम माया-
देवी था । उनकी तीन सन्तानें थीं । सबसे बड़ा लड़का कालेज में पढता
था । दूसरा लड़का नवीं श्रेणी का छात्र था । कन्या कुसुमलता मोहिनी देवी
स्कूल में पढती है । जब परीक्षा हुई तो सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए ।

आरा छोटा सा नगर है। यहाँ चार कालेज और नौ हाई स्कूल हैं। जैनसिद्धान्त भवन एक बहुत बड़ा ग्रन्थागार है। इसमें हस्तलिखित ग्रन्थ बहुत ज्यादा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस नगर का महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए यहाँ के छात्र गया जाते हैं। गया भी हिन्दुओं का प्राचीन तीर्थस्थान है। पितृपक्ष में यहाँ मेला लगता है। फल्गू नदी का तट प्रातःकाल सुन्दर मालूम पड़ता है।

राजगिर एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ प्राचीन समय में विम्बसार राज्य करता था। इस राजा का दूसरा नाम श्रेणिक भी है। श्रेणिक बहुत ही प्रतापी और प्रभावशाली राजा था। इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु अपने पिता से नाराज हो गया था। यही कारण है कि उसने अपने पिता को कारागृह में बन्द कर दिया था। राजगिर में गर्म पानी के झरने हैं। मलमास में यहाँ भी मेला लगता है। भगवान् महावीर का सबसे पहला उपदेश यहाँ के विपुलाचल पर हुआ था।

नालन्दा के विश्वविद्यालय को हम सभी जानते हैं। यहाँ दस हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। आरम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना कोई भी छात्र प्रवेश नहीं पा सकता था। प्रधानाचार्य को पीठाध्यक्ष भी कहा जाता था। आज भी नालन्दा में पालिशोध-संस्थान है। इस संस्थान के निर्देशक बहुत बड़े विद्वान् हैं। विदेश से भी विद्यार्थी आकर यहाँ अध्ययन करते हैं। पालिभाषा में प्राचीन संस्कृति निहित है।

वैशाली गणतन्त्र का सर्वप्रथम नगर है। लिच्छवि राजाओं ने यहाँ पर प्रजातन्त्र की नींव डाली थी। यहाँ पर भगवान् महावीर का जन्म हुआ है। आज भी चैत्रशुक्ला त्रयोदशी के दिन मेला लगता है। इस मेले में लगभग एक लाख मनुष्य एकत्र होते हैं। हाल ही में विहार सरकार ने यहाँ प्राकृत-शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की है। प्राकृत भाषा का साहित्य विशाल और महत्त्वपूर्ण है। महाकाव्य, खण्डकाव्य, सट्टक, स्तोत्र गुण और परिमाण की दृष्टि से वेजोड़ है। भाषाविज्ञान और संस्कृति की दृष्टि से भी इस भाषा का महत्त्व बहुत अधिक है।

नवमो पवादओ Lesson 9

विशेषण, संख्यावाचक शब्द, कारक, समास, एवं तद्धित

७० जो लिङ्ग और वचन विशेष्य का होता है, वही लिङ्ग और वचन विशेषण का भी होता है। यथा—

सुन्दरो पुरिसो, सुन्दरी नारी, सुन्दरं फलं इत्यादि।

७१. विशेषण पाँच प्रकार के होते हैं—गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, तुलनात्मक और कृदन्त विशेषण। गुणवाचक विशेषण द्वारा विशेष्य की गुणसम्बन्धी विशेषता बतलायी जाती है। इस विशेषण के लिंग, वचन और विभक्तियाँ विशेष्य के अनुसार ही होती हैं। यथा—

काला कुत्ता जाता है = किसणो कुक्कुरो धावइ।

काले कुत्ते दौड़ते हैं = किसणा कुक्कुरा धावन्ति।

अच्छा लड़का पढ़ता है = उत्तमो बालओ पठइ।

अच्छे लड़के पढ़ते हैं = उत्तमा बालआ पठति।

अच्छे लड़के के द्वारा पढ़ा गया = उत्तमेण बालेण पठिओ।

अच्छे लड़के को पढ़ना पसन्द है = उत्तमस्स बालस्स पठणं रुचए।

७२. विशेष्य के पूर्व में आने से सर्वनाम भी विशेषण बन जाते हैं। इनके भी लिङ्ग, वचन और विभक्ति विशेष्य के अनुसार ही होती हैं यथा—

यह लड़का घर जाता है = अयं बालो गिहं गच्छइ।

यह लड़की घर जाती है = इमा बाला गिहं गच्छइ

यह फूल अच्छा है = इदं पुष्पं उत्तमं अत्थि।

वह हाथी पानी पीता है = सो गयो जलं पिबइ।

वे मित्र पढ़ते हैं = ताडं मित्ताणि पठन्ति।

वह गाय दूध देती है = सा धेणू दुद्धं देइ।

वह फल मीठा है = एअं फलं महुरं अत्थि।

वह रानी काम करती है = एसा रणी कज्जं करेइ।

ये वर्तन गन्दे हैं = एआणि भण्ढाणि मलिणाणि संति।

उस स्त्री का लड़का जाता है = अमूए इत्थीए बालओ गच्छइ।

उस आदमी का काम होता है = अमुणो पुरिसस्स कज्जं हवइ।

इन लड़कों को पुरस्कार दो = एताणं बालाणं पुरस्कारं देउ ।

इन लड़कियों को पुरस्कार दो = एईणं बालिआणं पुरस्कारं देउ ।

ये लताएँ अच्छी लगती हैं = एईआ लया उत्तमा लगन्ति ।

ये वृक्ष अच्छे हैं = एए विच्छा उत्तमा संति ।

उस स्थान से लड़के जाते हैं = तम्हा थाएत्तो बालआ गच्छन्ति ।

७३. हिन्दी में संख्यावाचक विशेषण दोनों लिङ्गों में प्रायः समान होते हैं, किन्तु प्राकृत में लिङ्गभेद से इनके रूपों में अन्तर हो जाता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि एक शब्द को छोड़ सभी संख्यावाची शब्द प्राकृत में भी तीनों लिङ्गों के समान होते हैं। यथा—

एक लड़का पढ़ता है = एगो बालओ पढइ ।

एक लड़की पढ़ती है = एगा बालिआ पढइ ।

यह एक पुस्तक है = इदं एगं पोत्थयं अत्थि ।

इस जंगल में एक सिंह रहता है = अस्सि बगो एगो सीहो णिवसइ ।

उस खेत में दो बकरियाँ चरती हैं—तम्मि खेत्ते दुण्णि अजा चरन्ति ।

उस ग्राम में तीन वैद्य रहते हैं—तम्मि गामम्मि तिण्णि वेज्जा णिवसन्ति ।

संख्यावाचक शब्दों के रूप

७४. संख्यावाचक शब्दों में अट्ठारस (अष्टादश) संख्यावाचक शब्द तक षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में ण्ह और ण्हं प्रत्यय जुड़ते हैं।

पुँलिङ्ग—एक—इक, एक, एग, एअ

	एकवचन	बहुवचन
प०	एगो, एओ, एको, इको	एगो, एए, एक्के
बी०	एगं, एअं, एक्कं	एगो, एगा, एए, एआ

शेष रूप सब्ब शब्द के समान होते हैं।

स्त्रीलिङ्ग एगा, एआ, एका—एक

	एकवचन	बहुवचन
प०	एगा, एआ, एका	एगाओ, एआओ, एकाओ
बी०	एगं, एअं, एक्कं	” ” ”

शेष रूप सब्बा के समान होते हैं।

नपुंसक लिङ्ग—एग, एअ, एक (एक)

	एकवचन	बहुवचन
प०	एगं, एअं, एककं	एगाणि, एआणि, एकाणि
बी०	एगं, एअं, एककं	,, ,, ,,

शेष शब्द पुल्लिङ्ग के समान ही होते हैं ।

उभ, उह (उभ) शब्द तीनों लिङ्गों में समान

	बहुवचन
प०	उभं
बी०	उभे, उभा
त०	उभेहि, उभेहि
च०	उभण्हं
पं०	उभाहिन्तो, उभासुंतो
छ०	उभण्हं
घ०	उभेसु

दु, दो, वे (द्वि) तीनों लिङ्गों में

	बहुवचन
प०	दुवे, दोणिण, विणिण
बी०	,, ,, ,,
त०	दोहि-हिं-, वेहि-हि
च०	दोण्ह, दोण्हं, दुण्हं, वेण्ह
पं०	दुत्तो, दोसुन्तो, दो हिन्तो, वे सुत्तो
घ०	दोण्ह, वेण्ह, दोण्हं
स०	दोसु, वेसु

ति (त्रि) तीनों लिङ्गों में

	बहुवचन
प०	तिणिण
बी०	तिणिण
त०	तीहि, तीहि
च०	तीण्ह, तीण्हं
पं०	तीहिन्तो
छ०	तीण्हं
स०	तीसु

चउ (चतुर) तीनों लिङ्गों में

	बहुवचन
प०	चत्तारो, चउरो, चत्तारि
वी०	चत्तारो, चउरो, चत्तारि
त०	चऊहि, चऊहि चऊहि
च० छ०	चउण्हं
पं०	चउत्तो, चउहितो, चउसुन्तो
स०	चऊसु

सत्त (सप्तन्) शब्द

	बहुवचन
प०	सत्त
वी०	सत्त
त०	सत्तहि-हि-हि
च० छ०	सत्तण्ह, सत्तण्हं
पं०	सत्तओ, सत्तहितो सत्तसुन्तो
स०	सत्तसु

पंच (पञ्चन्) तीनों लिङ्गों में

	बहुवचन
प०	पंच
वी०	पंच
त०	पंचहि-हि
च० छ०	पंचण्ह, पंचण्हं
पं०	पंचाहितो, पंचासुन्तो
स०	पंचसु

छ (षष्) तीनों लिङ्गों में

	बहुवचन
प०	छ
वी०	छ
त०	छहि
च० छ०	छण्हं
पं०	छहितो, छसुन्तो
स०	छसु

अट्ठ (अष्टन्) तीनों लिङ्गों में

	बहुवचन
प०	अट्ठ
वी०	अट्ठ
त०	अट्ठहि-हि-हि
च० छ०	अट्ठण्ह
पं०	अट्ठाहितो, अट्ठासुन्तो
स०	अट्ठसु

णव (नवन्) तीनों लिङ्गों में

दह, दस (दशन्)

	बहुवचन
प०	णव
बी०	णव
त०	णवहि
च० छ०	णवण्हं
पं०	णवाहिनतो, णवासुन्तो
स०	णवसु

	बहुवचन
प०	दह, दस
बी०	दह, दस
त०	दहहि, दसहि
च० उ०	दहण्हं, दसण्हं
पं०	दहासुन्तो, दसाहिनतो, दहाहिनतो
स०	दहसु, दससु

इसी प्रकार एगारह, बारह, तेरह, चउदह, पण्णारह, सोलह, सत्तरह और अट्ठारह शब्दों के रूप होते हैं ।

कइ (कति) शब्द—तीनों लिङ्गों में

	बहुवचन
प०	कइ
बी०	कइ
त०	कइहि
च० छ०	कइण्हं, कइण्हं
पं०	कइहिनतो, कइसुन्तो
स०	कइसु

वीसा (विंशति) तीनों लिङ्गों में

	एकवचन	बहुवचन
प०	वीसा	वीसाओ
बी०	वीसं	वीसाओ
त०	वीसाअ, वीसाए	वीसाहि
च० छ०	वीसाअं, वीसाए	वीसाण-णं
पं०	वीसत्तो, वीसाए	वीसाहिनतो, वीसासुन्तो
स०	वीसाइ	वीसासु
सं०	हे वीसा	हे वीसाओ

इसी प्रकार एगूणवीसा, एगवीसा, दुवीसा, तेवीसा, चउवीसा, पण्णवीसा, छउवीसा, सत्तवीसा, अट्ठावीसा, एगूणतीसा, तीसा, एगतीसा,

दुतीसा, तेतीसा, चउतीसा, पण्णतीसा, छत्तीसा, सत्ततीसा, अडतीसा, एगूगचत्तालीसा, चत्तालीसा, एगचत्तालीसा, वायाला, तेआलीसा, चउआलीसा, पण्णचत्तालीसा छवत्तालीसा, सत्तचत्तालीसा, अडवालीसा, एगूणवन्ना, पन्नासा, एगावन्ना, दोवन्ना, तेवन्ना, चउवन्ना, पण्णवन्ना, छपन्ना, ससावन्ना, अट्ठावण्णा शब्दों के रूप होते हैं ।

सट्ठि (पट्ठि) तीनों लिङ्गों में

	एकवचन	बहुवचन
प०	सट्ठी	सट्ठीओ
वी०	सट्ठि	सट्ठीओ
त०	सट्ठीअ, सट्ठीए	सट्ठीहि
च० छ०	सट्ठीअ, सट्ठीए	सट्ठीण
पं०	सट्ठित्तो, सट्ठीए	सट्ठीहिन्तो, सट्ठीसुन्तो
स०	सट्ठीए, सट्ठीअ	सट्ठीसु
सं०	हे सट्ठि, सट्ठी	हे सट्ठीओ

इसी प्रकार एगूणसट्ठि, एगसट्ठि, दोसट्ठि, तेसट्ठि, चउसट्ठि, पणसट्ठि, छसट्ठि, सत्तसट्ठि, अडसट्ठि, एगूणसत्तरि, सत्तरि, एकसत्तरि, दोसत्तरि, तेसत्तरि, चउसत्तरि, पणसत्तरि, छस्सत्तरि, सत्तसयरि, अडसयरि, एगूणासीइ, असीइ, एगासीइ, दोसीइ, तेसीइ, चउरासीइ, पणसीइ, छासीइ, सत्तासीइ, अठासीइ, नवासीइ, एगूणनवइ, णवइ, एगणवइ, दोणवइ, तेणवइ, चउणवइ, पंचणवइ, छण्णवइ, सत्तणवइ, अट्ठाणवइ, एवं नवणवइ शब्दों के रूप होते हैं ।

नपुंसकलिङ्ग सय (शत)

	एकवचन	बहुवचन
प०	सयं	सयाइं, सयाणि
वी०	सयं	सयाइं, सयाणि

शेष शब्द अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के समान होते हैं ।

दुसय, तिसय (तीन सौ), चत्तारि सयाइं (चार सौ), पणसय, छसय, सत्तसय, अट्ठसय, नवसय, सहस्स, दससहस्स, अयुअ, लक्ख, दहलक्ख, पयुअ, आदि शब्दों के रूप भी सय के समान नपुंसक लिङ्ग में ही होते हैं । कोडि, कोडाकोडि, सयकोडि, दहकोडि के रूप स्त्रीलिङ्ग में होते हैं ।

अपूर्णसंख्यावाचक विशेषण

चतुर्थांश = पायो
 आधा = अर्द्धं, अर्द्धं
 डेढ़ = सद्धं, सद्धं
 साढ़ेतीन = अद्धतइय, अर्द्धाइय
 साढ़े पाँच = अद्धपंचमो
 साढ़े सात = अद्धसत्तमं, अद्धसत्तमो
 साढ़े नौ = अद्धनवमो

पौना = पाओणं, पाउणं
 सवा = सवायो, सवायं
 ढाई = दिवड्डो
 साढ़े चार = अद्धुड्डो, अर्द्धुड्डो
 साढ़े छः = अद्धछट्ठो
 साढ़े आठ = अद्धट्ठयो
 साढ़े दस = अद्धदसमो

क्रमवाचक विशेषण

पहला = पढमं, पढमिल्लं
 दूसरा = वीओ, दुइयो
 तीसरा = तइओ, तच्चो
 चौथा = चरत्थो
 पाँचवा = पंचमो
 ग्यारहवाँ = एकारमो
 बारहवाँ = बारसमो
 तेरहवाँ = तेरसमो
 चोदहवाँ = चरदसमो
 पन्द्रहवाँ = पण्णरसमो
 इक्कीसवाँ = एकवीसइमो
 तेईसवाँ = तेवीसइमो
 पच्चीसवाँ = पंचवीसइमो
 सत्ताईसवाँ = सत्तावीसइमो
 उन्तीसवाँ = एगूणतीस इमो
 इकतीसवाँ = एकतीसइमो
 तेंतीसवाँ = तेत्तीसइमो
 पैतीसवाँ = पंचतीसाइमो
 सैंतीसवाँ = सत्ततीस इमो
 उनचालीसवाँ = एगूणचालीसइमो
 इकतालीसवाँ = एगचत्ताल
 तेतालीसवाँ = तेयालीसइमो

पैतालीसवाँ = पणयाल
 सैंतालीसवाँ = सत्तचत्ताल
 उनंचासवाँ = एगूणपन्नास
 इक्यानवाँ = एगावन्नमो
 छठा = सट्ठो
 सातवाँ = सत्तयो
 आठवाँ = अट्ठयो
 नौवाँ = नवमो
 दसवाँ = दहमो, दसमो
 सोलहवाँ = सोलसमो
 सत्रहवाँ = सत्तरसमो
 अठारहवाँ = अट्ठारसमो
 उन्नीसवाँ = एगूणवीसइमो
 वीसवाँ = वीसइमो
 बाईसवाँ = बावीसइमो
 चौबीसवाँ = चरवीसइमो
 छव्वीसवाँ = छव्वीसइमो
 अट्ठाईसवाँ = अट्ठावीसइमो
 तीसवाँ = तीसइमो
 वत्तीसवाँ = वत्तीसइमो
 चौतीसवाँ = चउतीसइमो
 छत्तीसवाँ = छत्तीसइमो

अडतीसवाँ = अडतीसइमो
 चालीसवाँ = चत्तालीसमो
 व्यालीसवाँ = वायालीसइमो
 चवालीसवाँ = चउचत्तालीसइमो
 छियालीसवाँ = छायालीसइमो
 अडतालीसवाँ = अट्टचत्ताल.
 अडयालीस

पचासवाँ = पन्नासवो
 वावनवाँ = वावण्णो
 त्रेपनवाँ = तिपंचासइमो
 चउनवाँ = चउपण्णइमो
 पचपनवाँ = पंचावनन
 साठवाँ = सट्ठिमो
 वासठवाँ = वासट्ठो
 चौसठवाँ = चउसट्ठिमो
 छयासठवाँ = छासट्ठो
 अडसठवाँ = अडसट्ठिमो
 सत्तरवाँ = सत्तरिअमो
 बहत्तरवाँ = बावत्तरो
 चौहत्तरवाँ = चउहत्तरो
 छिहत्तरवाँ = छहत्तरो
 अठहत्तरवाँ = अट्ठहत्तरो
 अस्सीवाँ = असीइमो
 व्यासीवाँ = वासीइमो
 चौरासीवाँ = चउरासीइमो
 छियासीवाँ = छासीइमो
 अट्ठासीवाँ = अट्ठासीयमो
 नव्वेवाँ = नवइयमो
 वानवेवाँ = वाणउयो
 चौरानवेवाँ = चउणउयो
 छियानवेवाँ = छन्नउयो
 अट्टानवेवाँ = अट्टाणउयो
 सौवाँ = समयमो

एकवर = एगहुत्तं
 तीनवार = तिकखुत्तो
 पाँचवार = पंचक्खुत्तो
 हजारवार = सहस्सहुत्तं, सहस्स-
 क्खुत्तो
 सत्तावनवाँ = सत्तावण्णो
 अट्टावनवाँ = अट्टावण्णो
 उनसठवाँ = एगूणसट्ठो
 इकसठवाँ = एगसट्ठो
 त्रैसठवाँ = तिसट्ठो
 पेसठवाँ = पंचसट्ठो
 छडसठवाँ = सत्तसट्ठो
 उनहत्तरवाँ = एगूण सत्तरो
 एकहत्तरवाँ = एकसत्तरो
 तिहत्तरवाँ = तिहत्तरो
 पचहत्तरवाँ = पंचहत्तरो
 सत्तहत्तरवाँ = सत्तहत्तरो
 उन्यासीवाँ = एगूणासीयमो
 इक्यासीवाँ = एगासीइमो
 चासीवाँ = तेयासीइमो
 पिच्चासीवाँ = पंचासीइमो
 सत्तासीवाँ = सत्तासीइमो
 नवासीवाँ = एगूणनउमो
 इक्क्यानवेवाँ = एक्काणउयो
 तिरानवेवाँ = तेणउयो
 पंचानवेवाँ = पंचाणउयो
 सत्तानवेवाँ = सत्ताणउयो
 निन्ग्यानवेवाँ = नवणवइयो
 एकसौ एकवाँ = एक्कोत्तरसयो
 दोवार = दुवखुत्तो
 चारवार = चउक्खुत्तो
 सौवार = सयहुत्तं, सयक्खुत्तो
 अनन्तवार = अणंनहुत्तो, अणंतक्खुत्तो

प्रकारवाचक विशेषण

एक प्रकार = एगहा

दो प्रकार = दुहा, दुविहा

चार प्रकार = चउहा, चउद्धा, चउविह

बहुत प्रकार = बहुहा, बहुविह

सैकड़ों प्रकार = सयहा, सयविह

नाना प्रकार = णाणाविह

तीन प्रकार = तिहा, तिविह

एक प्रकार = एगविह

आठप्रकार = अट्ठहा, अट्ठविह

दस प्रकार = दसहा, दसविह

हजार प्रकार = सहस्सहा, सहस्सविह

अनेक प्रकार = अणोयविह

७५. प्राकृत में एक से श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ का भाव बतलाने के लिए अर, अम, ईअस और इट्ठ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इस प्रकार के विशेषण उत्कर्ष बतलाने या तुलना के लिए प्रयुक्त होते हैं। तुलनात्मक विशेषणों की निम्न तालिका है।

तिक्ख	तिक्खअर	तिक्खअम
उज्जल	उज्जलअर	उज्जलअम
पग्गाहिय	पग्गाहियअर	पग्गाहियअम
थोव	थोवअर	थोवअम
अप्प	अप्पअर	अप्पअम
अहिअ	अहिअअर	अहिअअम
पिअ	पिअअर	पिअअम
हसु	हसुआ	हसुअम
अप्प	कणीअस	कणिट्ठ, कणिट्ठग
बहु	भूयस	भूयिट्ठ
पावी	पावीयस	पाविट्ठ
गुरु	गरीयस	गरिट्ठ
जेट्ठ	जेट्ठयर	जेट्ठयम
विउल	विउलअर	विउलअम
धणो	धणिअर	धणिअम
महा	महाअर, महत्तर	महाअम, महत्तम
बुड्ढ	जायस	जेट्ठ, बुड्ढअम
थूल	थूलअर	थूलअम
बहुल	वंहीअस	वहिट्ठ
दीहर	दीहरअर	दीहरअम

अंतिम	नेदीअस	नेदिट्ठ
दूर	दवीअस	दविट्ठ
विउस	विउसअर	विउसअम
मिउ	मिउअर	मिउअम
धम्मी	धम्मीअस	धम्मिट्ठ
खुद्द	खुद्दअर	खुद्दअम
मइम	मईअस	मइट्ठ

प्रयोगवाक्य

मैं हिसाब मे उससे ज्यादा पक्का हूँ = अहं गणियम्मि तम्हा पडुअरो अत्थि ।

तुम मुझसे छोटे हो = तुमं ममत्तो कणीअसो अत्थि ।

वह लड़की उससे आठ वषे छोटी है = सा वाला तम्हा अट्ठवरिसा कणीअसी अत्थि ।

छोटा लड़का सबसे ज्यादा प्यारा होता है = कणिट्ठो पुत्तो पिअअमो होइ ।

नदियों में गंगा श्रेष्ठ है = नईसुं गंगा सेठ्ठअमा अत्थि ।

पहाड़ों मे हिमालय सबसे ऊंचा है = गिरीसु हिमालयो उच्चअमो अत्थि ।

इस गाम में वह सबसे बूढ़ा है = अस्सिं गामम्मि सो बुड्ढअमो अत्थि ।

यह बोझा दोनों मे ज्यादा भारी है = अयं भारो दोसुं गुरुअरो अत्थि ।

मेरा घर उस जगह से अधिक दूर है = मम गिहो तम्हा थाणत्तो दूर-अमं अत्थि ।

सबसे नजदीक गाँव को चलो = नेदिट्ठं गामं चलउ ।

गंगा यमुना से अधिक बड़ी है = गंगा जमुणात्तो दीहरअरा अत्थि ।

उसकी लड़की सबसे दुलारी है = तस्स कण्णा किसअमा अत्थि ।

अजगर सब साँपों मे बड़ा होता है = अजगरो सप्पेसु दीहरअमो अत्थि ।

मोहन सोहन से पढ़ने में तेज है = मोहनो सोहनत्तो पढणम्मि तिक्ख-अरो अत्थि ।

यह रास्ता सबसे ज्यादा अच्छा है = अयं मग्गो साहिट्ठो अत्थि ।

इस तालाब में सबसे ज्यादा पानी है = अस्सिं तढायम्मि भूइट्ठं जलं अत्थि ।

पशुओं में सिंह सबसे बलवान है = पसूसु सीहो बलिठ्ठअमो अत्थि ।
 चीनी से मधु ज्यादा मीठा होता है = सक्करत्तो महु मिठ्ठअरो अत्थि ।
 हीरा सबसे ज्यादा कीमती चीज है = हीरत्थो सव्वेसु मुल्लअमो अत्थि ।
 चाँदी से सोना भारी होता है = सुवण्णो रययत्तो भारअरो अत्थि ।
 सब इन्द्रियों में आँखें कोमल होती हैं = सव्वेसु इंदियेसु नेत्रं मिउअरं
 अत्थि ।

बिल्ली के नाखून ज्यादा तेज होते हैं = त्रिडालस्स णहा तिक्खअमा सन्ति ।
 सब जानवरों में गधा बेवकूफ होता है = सव्वजन्तूसु गद्दभो मुक्ख-
 अरो अत्थि ।

तुम सबसे ज्यादा होशियार हो = तुमं मइठ्ठो अत्थि ।

तुम परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाते हो = तुमं परीक्खाए अहिय-
 अमा अंका आनेसि ।

पशुओं में शृगाल सबसे ज्यादा धूर्त होता है = पसुणं सियारो धुत्त-
 अमो होइ ।

याचक रुई से भी हल्का होता है = याचओ तूलत्तो वि हल्लुअरो होइ ।
 मनुष्य में नाई धूर्त होता है = नाराणं णाविओ धुत्तो होइ ।
 वह मेरा छोटा भाई है = सो मम कण्णिट्ठो भाया अत्थि ।
 उसके पुत्रों में गोपाल बड़ा है = तस्स पुत्ताणं गोवालो एव जेट्ठो
 अत्थि ।

सतियों में सीता श्रेष्ठ है = सईसु सीया सेट्ठा अत्थि ।

पाप का रास्ता प्रिय होता है = पावस्स मग्गो पेयसो होइ ।

पुण्य का मार्ग कल्याण का होता है = पुण्णस्स मग्गो सेयसो होइ ।

कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है = कवीसु कालिदासो सेट्ठो अत्थि ।

नगरियों में वाराणसी नगरी श्रेष्ठ है = नयरीसु वाराणसी सेट्ठा अत्थि ।

जयपुर नगर सबसे श्रेष्ठ है = जयपुरो नयरो सेट्ठअमो अत्थि ।

वह इस नगरी में सबसे बड़ा विद्वान् है = सो अस्सि नयरीए त्रिउस-
 अमो अत्थि ।

पोखरे में बहुत मछलियाँ हैं = तडागे बहुमच्छा सन्ति ।

इस गाँव में बहुत आदमी हैं = अस्सि गामम्मि बहुजणा सन्ति ।

उसके बदन पर तीन गहने हैं = तस्स सरीरे तिण्णि अहूसणानि सन्ति ।

उस थाली में दो दो लड्डू हैं = तीए थालीए दुण्णि मोदयाणि संति ।

उस मकान में तीन नौकर हैं = तस्सि गिहे तिण्णि सेवआ सन्ति ।

उस लता में बीस फूल हैं = तीए लताए बीसा पुप्फाणि संति ।

दो स्त्रियाँ नदी मे नहाती हैं = नईसु दुण्णि महिलाओ प्हान्ति ।
 इस प्रान्त में तीन नदियाँ हैं = अस्सि पदेसे तिण्णि नइओ सन्ति ।
 उस जेल में चार चोर हैं = अस्सि कारायारे चत्तारि चोरा संति ।
 गोशाला में पाँच गायें हैं = गोसालयम्मि पंच गावीओ संति ।
 इस गाड़ी मे चार पहिये हैं = अस्सि सयडम्मि चत्तारि चक्काणि संति ।
 पका आम मीठा होता है = पक्कं अंवं महुंरं होइ ।
 चार वेद होते हैं = चत्तारि वेदा होन्ति ।
 पाँच पितर होते हैं = पंच पियरा हवन्ति ।
 सात द्वीप होते हैं = सत्त दीवा हवन्ति ।
 ग्यारह रुद्र होते हैं = एगारह रुदा हवन्ति ।
 सूर्य की बारह कलाएँ होती हैं = सुज्जस्स दुवारस कला हवन्ति ।
 इस पंक्ति में तेरह ब्राह्मण हैं = इमीए पंत्तीए तेरह वंभणा सन्ति ।
 इस विश्व में चौदह भुवन हैं = अस्सि जयम्मि चउदह भुवणाणि सन्ति ।
 एक पक्ष में पन्द्रह तिथियाँ होती हैं = एयस्सि पक्खे पण्णरह तिथीओ हवन्ति ।

यह सोलह वर्ष का बालक है = अयं सोलहण्हं वरिसाणं बालओ अत्थि ।
 यह सत्रह वर्ष की कन्या है = इमा कण्णा सत्तरहण्हं वरिसाणं अत्थि ।
 अठारह पुराण प्रसिद्ध हैं = अट्ठारह पुराणा पसिद्धा सन्ति ।
 साठ बालक प्रथमा में पढ़ते हैं = सट्ठी बालआ पढमाए पढन्ति ।
 पचास व्यक्ति गाँव में रहते हैं = पण्णासा जणा गामम्मि णिवसन्ति ।
 पैंतालीस आदमी जा रहे हैं = पण्णचत्तालीसा जणा गच्छन्ता सन्ति ।
 कक्षा में उसका दूसरा स्थान है = कछाए तस्स दुइयं थारणं अत्थि ।
 मैंने दो बार इस काम को किया है = हं दुक्खुत्तो इदं कज्जं करीअ ।
 सत्तानवेवाँ आदमी कब आयेगा = सत्ताणउयो जणो कया आगमिस्सइ ।
 तीन तरह से मैंने उसे समझाया है = तिविहं हं तं मुणावीअ ।
 हजार बार कहने पर भी वह नहीं माना = सहस्सहुत्तं कहणेणावि सो ण अंगीकरीअ ।

यह एकहत्तरवाँ आदमी किस काम में आयेगा = अयं एगसत्तरो जणो कस्सि कज्जे आइस्सइ ।

सौ बार मैं आपका कहना मानता हूँ = सयहुत्तं हं भवन्तस्स कहणं अंगीकरेमि ।

चार दिन से वे क्या कर रहे हैं = आचत्तारि दिवसत्तो ते किं कुणन्तो सन्ति ।

७६. वर्तमान कृदन्त भी विशेषण का कार्य करते हैं। संस्कृत में जो कार्य शतृ और शानच् प्रत्यय से लिया जाता है, वही प्राकृत में न्त और माण प्रत्यय जोड़ कर लिया जाता है। यथा—

दौड़ता हुआ बालक घर गया = धावन्तो बालओ गिहं गओ।

बोलते हुए तोता उड़ना है = बोलन्तो सुगो उड्डेइ।

पढ़ता हुआ छात्र घर गया = पठन्तो छत्रो गिहं गओ।

रोता हुआ बच्चा = रुदन्तो सिसू।

नाचते हुए दो मोर दिखलायी पड़े = एचन्ता दुण्णि मोरा अवलोइया।

चलती हुई गाड़ी आवाज करती है = चलन्तो सघडो सद करेइ।

गिरते हुए पत्ते शब्द करते हैं = पडन्ताणि पत्ताणि सदं करेन्ति।

रोती हुई लडकी माँ के पास जाती है = रुव्वन्ती बालिआ मायरस्स समीवे गच्छइ।

हँसती हुई स्त्री बोलती है = हसन्ती नारी वोल्लइ।

वहती हुई नदी समुद्र में मिलती है = वहन्ती नई समुद्दे मिलइ।

भागता हुआ चोर पकड़ा गया = पालयमाणो चोरो गेण्हिज्जसो।

लजाती हुई स्त्रियाँ छिपती हैं = लज्जमाणा नारीओ तिरोहन्ति।

जाड़े से काँपता हुआ बुड्ढा आग तापता है = सीयेण कंपमाणो बुड्ढो अग्गि सेवइ।

बाध गरजता हुआ दौड़ता है = गज्जन्तो वाघो धावइ।

वह लजाती हुई यहाँ आती है = सा लज्जमाणा एत्थ आगच्छइ।

वह पीढ़े पर बैठा हुआ है = सो पीढे आसीणो अत्थि।

मरीज चारपाई पर सोया हुआ है = रोगी खइए सयाणो अत्थि।

वह रोते-रोते पूछता है = सो रुव्वन्तो पुच्छइ।

मैंने जाते-जाते कहा = अहं गच्छन्तो कहीअ।

विभक्ति (Case-endings)

७७. अनुक्तकर्म को बतलाने के लिए कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा—

हरि का भजन करता है = हरि भजइ

गाँव जाता है = गामं गच्छइ

वेद पढ़ता है = वेयं पठइ

पुस्तक पढ़ता है = पोत्थयं पठइ

धन इकट्ठा करता है = अत्थं चिन्वइ

७८. सप्तमी और प्रथमा विभक्ति के स्थान पर क्वचिन् द्वितीया विभक्ति होती है। यथा—

रात्रि में विजली का प्रकाश फैलना है = विज्जुज्जोयं भरइ रत्ति ।

चौबीस जिनवर भी = चउवीसं पि जिणवरा ।

७९. संस्कृत के समान प्राकृत में भी द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादान आदि कारकों में द्वितीया विभक्ति होती है। यथा—

वच्चे से रास्ता पृछता है = माणवअं पहं पुच्छइ ।

वृक्ष के फलों को इकट्ठा करता है = रुक्खं ओचिव्वइ फलानि ।

वच्चे से धर्म कहता है = माणवअं धम्मं सासइ ।

८०. शी, स्थो और आस् धातुओं के पूर्व यदि अधि (अहि) उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। यथा—

हरि वैकुण्ठ में रहते हैं = अहिच्छिइ वइवंठं हरी ।

८१. अहि और नि उपसर्ग उव एक साथ विश (विस) धातु के पहले आते हैं, तो विश के आधार को कर्म कारक होता है। यथा—

सन्मार्ग में रहता है = अहिनिसइ सम्मगं ।

८२. यदि वस् धातु के पूर्व उव, अनु, अहि और आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार को कर्मकारक होता है। यथा—

हरि वैकुण्ठ में निवास करते हैं = हरी वइवंठं उववसइ, अहिवसइ, आवसइ वा ।

८३. अहिओ—चारों ओर, परिओ—सब ओर, समया—समीप, निकहा—निकट, हा, पडि, धिअ, सव्वओ और उवरि-व्वरि शब्दों की जिनमें सन्निकटता पायी जाय, उनमें द्वितीया विभक्ति होती है। यथा—

कृष्ण के चारों ओर बालक हैं = अहिओ किसणं वालआ सन्ति ।

कृष्ण के सब ओर ग्वाले हैं = परिओ किसणं गोवा सन्ति ।

गाँव के पास नदी है = गामं समया नई अत्थि ।

समुद्र के निकट लंका है = समुदं निकहा लंका अत्थि ।

राजा के चारों ओर नौकर हैं = परिजणो रायाणं अहिओ चिट्ठइ ।

८४. अणु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यथा—

नदी पर सेना रहती है = णइ अणुवसिआ सेणा ।

मोहन के पीछे-पीछे हरि जाता है = मोहणं अणुगच्छइ हरी ।

८५. जब अंगुलि निर्देश करना हो, इत्थंभूत—ये इस प्रकार के हैं—
यह बतलाना हो, भाग—यह उनके हिस्से में पड़ा या पड़ता है, यह प्रकट
करना हो अथवा पुनरुक्ति दिखलानी हो तो पडि, परि और अणु के योग
में द्वितीया विभक्ति होती है। यथा—

वृक्ष पर विजली चमकती है = वच्छं पडि विञ्जुअइ विञ्जू ।

विष्णु के ये भक्त हैं = भक्तो विसणुं पडि अणु वा ।

लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में पड़ी या पड़े = लच्छी हरिं पडि अणु वा ।

प्रत्येक वृक्ष को सींचता है = वच्छं वच्छं पडि सिचइ ।

कृष्ण सब देवताओं की अपेक्षा पूज्य है = अइ देवा किसणो ।

८६. प्रकृति—स्वभावादि अर्थों में तृतीया विभक्ति होती है। यथा—

वह स्वभाव से मधुर है = सो पइए मधुरो अत्थि ।

राम गोत्रसे गर्ग हैं = रामो गोत्तेण गगो अत्थि ।

यह भीठे रसवाला है = इदं रसेण महुर अत्थि ।

वह सुखपूर्वक जाता है = सो सुहेण गच्छइ ।

८७ दिवधातु के योग में विकल्प से द्वितीया विभक्ति भी होती है ।

यथा—

वह पार्शों से खेलता है = सो अच्छेहिं अच्छा वा दीव्वइ ।

८८ फलप्राप्ति या कार्य सिद्धि को बतलाने के लिए तृतीया विभक्ति
होती है। यथा—

वारह वर्षों में व्याकरण पढ़ा जाता है = दुवालसवरसेहिं वाअरणं
सुणइ ।

८९. सह, साअं, समं और सद्धं के योग में तृतीया विभक्ति होती है ।

यथा—

पुत्र के साथ पिता आया = पुत्तेण सहाअओ पिआ ।

राम के साथ लक्ष्मण भी जाता है = लक्खणो रामेण साअं गच्छइ ।

देवदत्त यज्ञदत्त के साथ नहाता है = देवदत्तो जग्गदत्तेण समं णहाइ ।

९०. पिहं, विना, नाना शब्दों के साथ तृतीया, द्वितीया या पञ्चमी
विभक्ति होती है। यथा—

रामके विना रहना संभव नहीं है = रामं, रामेण, रामत्तो विना निवसणं
ण सकइ । -

जल से पृथक् कमल नहीं रह सकता = जलं, जलेण, जलत्तो वा पिहं
कमलं चिट्ठुं ण सकइ ।

मोहन के बिना उसका रहना संभव नहीं = मोहणेण बिना तस्स
णिवसणं ण सक्कइ ।

९१. जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार मालूम हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। यथा—

वह पैर का लंगड़ा है = सो पायेण खंजो अत्थि ।

वह कान का बहिरा है = सो कण्णेण बहिरो अत्थि ।

तुम आंख के काने हो = तुमं नेत्तेण काणो अत्थि ।

९२ जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है या होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यथा—

दण्डे से घड़ा उत्पन्न हुआ = दंडेण घटो जाओ ।

पुण्य के कारण हरि दिखलायी पड़े = पुण्णेण दिट्ठो हरी ।

अध्ययन के प्रयोजन से रहता है = अज्झणेण वसइ ।

९३. जो जिस प्रकार से जाना जाय, उसके लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। यथा—

जटाओं से तपस्वी जान पड़ता है = जडाहि तावसो पडिभाइ ।

वह गमन में राम के सदृश है = गमणेण रामं अणुहरइ सो ।

९४. कार्य, अर्थ, प्रयोजन, गुण तथा इसी प्रकार उपयोग या प्रयोजन प्रकट करनेवाले शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। यथा—

उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, जो न विद्वान् है और न धर्मात्मा = को अत्थो पुत्तेण जो ण विउसो ण धम्मओ ।

धनी लोगों का कार्य तिनके से भी हो जाता है = तियेण कज्जं हवइ ईसराणं ।

९६. आर्ष प्रयोगों में सप्तमी के स्थान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। यथा—

उस समय में = तेणं कालेणं, तेणं समएणं ।

९७. दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

ब्राह्मणों को गाय देता है = विप्पाय या विप्पस्म गावं देइ ।

श्रमणों को भोजन देता है = समणाणं भोयणं देइ ।

अतः इसको भिक्षा देकर अपने को निष्पाप करता हूँ = ता करेमि
एयस्स भिक्खादारोण विगय-कलुससम्पाणं ।

९८. रोअ-रुच् धातु तथा रुच् के समान अर्थवाली अन्य धातुओं के योग में प्रसन्न होनेवाला सम्प्रदान कहलाता है और सम्प्रदान को चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

बालकको लड्डू अच्छे लगते हैं = बालअस्स मोअआ रोअन्ते।

मुझे तुम्हारा विचार अच्छा लगता है = मम तव वियारो रोयइ।

उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती = तस्स वाया मज्झं न रोयइ।

९९. सलाह (श्लाघ), हुण, चिट्ठ (स्था) और सव-शप् धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

गोपी कामदेव के वश से श्रीकृष्ण के अर्थ अपनी श्लाघा करती है, स्थित होकर कृष्ण को अपना अभिप्राय बताती है तथा कृष्ण के लिए अपना उपालम्भ करती है = गोवी समरत्तो किसणाय किसणस्स वा सलाहइ, चिट्ठइ, सवइ वा।

१००. धर, उधार लेना—कर्ज लेना धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं = भत्ताय, भत्तस्स वा धरइ
मोम्खं हरी।

श्याम ने अश्वपति से एक सौ कर्ज लिए = सामो अस्सपइणो सइं
धरइ।

१०१. सिंह-पृह धातु के योग में जिसे चाहा जाय, वह सम्प्रदान संज्ञक होता है और सम्प्रदान को चतुर्थी विभक्ति में रखते हैं। यथा—

फूलों की चाहना करता है = पुप्फाणं सिंहइ।

१०२. कुञ्ज, दोह, ईस तथा असूअ धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थवाली धातुओं के योग में जिनके ऊपर क्रोधादि क्रिये जाते हैं, उनको चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

हरि के ऊपर क्रोध करते हैं, द्रोह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं = हरिणो कुञ्जइ, दोहइ, ईसइ, असूअइ वा।

१०३. निश्चितकाल के लिए वेतन इत्यादि पर किसी को रखा जाना परिक्रयण कहलाता है, उस परिक्रयण में जो करण होता है, उसको विकल्प से चतुर्थी विभक्ति में रखा जाता है। यथा—

सौ रुपये के वेतन पर रखा गया = सयेण सयस्स वा परिकीणइ।

१०४. जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाय, उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

मुक्ति के लिए हरि को भजता है = मुक्तिणो हरि भजइ ।

भक्ति ज्ञान के लिए होती है = भक्ती णाणाय कप्पइ, संपज्जइ, जाअइ वा ।

१०५. हित और सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

ब्राह्मण के लिए हितकर या सुखकर = वंभणस्स हिअं सुहं वा ।

१०६. नमो, सुत्थि, सुहा, सुआहा और अलं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

हरि को नमस्कार हो = हरिणो नमो ।

प्रजा का कल्याण हो = पआणं सुत्थि ।

पितरों को समर्पित है = पिअराण सुहा ।

मल्ल दूसरे मल्ल के लिए पर्याप्त है = अलं मल्लो मल्लस्स ।

१०७. जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है, तो उसे पञ्चमी विभक्ति में रखा जाता है। यथा—

दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है = धवन्तो अस्सत्तो पडइ ।

१०८. दुगुञ्छ, विराम और पमाय तथा इनके समानार्थक शब्दों के साथ पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा—

पाप से घृणा करता है या दूर होता है = पावत्तो दुगुञ्छइ, विरमइ वा ।

१०९. जिसके कारण डर मालूम हो अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो, उस कारण को पञ्चमी विभक्ति होती है। यथा—

राम कलह से डरता है = रामो कलहत्तो वीहइ ।

वहाँ साँप का भय है = तत्थ सप्पओ भयं अत्थि ।

वह चोर से डरता है = सो चोरओ वीहइ ।

११०. 'भी' धातु के योग में पञ्चमी के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति भी पायी जाती है। यथा—

दुष्टों से कौन नहीं डरता है = दुट्ठाणं को न वीहइ ।

१११. पञ्चमी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति भी देखी जाती है। यथा—

चोर से डरता है = चोरस्स वीहइ ।

११२. परापूर्वक जि धातु के योग में जो असक्त होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है और पञ्चमी विभक्ति हो जाती है। यथा—

अध्ययन से हारता है = अज्ज्ञयणत्तो पराजयइ ।

११३ जन धातु के कर्त्ता का आदि कारण अपादान होता है । यथा—

काम से क्रोध उत्पन्न होता है = कामत्तो कोहो अहिजाअइ ।

क्रोध से मोह उत्पन्न होता है = कोहत्तो मोहो अहिजाअइ ।

हिमालय से गंगा निकलती है = हिमवत्तो गंगा पत्रहइ ।

११४. स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध मे पष्ठी विभक्ति होती है । यथा --

कौए के अंगों की प्रशंसा करता है = काअस्स अंगाणि पसंसेइ ।

उसे बुझाने के लिए माधवी नाम की दासी को भेजा = तस्स वाहरणत्थं
माह्वी अहिहाणा चेडी पेसिया ।

माता को याद करता है = माआए सुमरइ ।

११५. हेतु शब्द के योग में भी जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है, वह और हउ (हेतु) शब्द दोनों ही पष्ठी मे रखे जाते हैं । यथा—

अन्न-प्राप्ति के प्रयोजन से रहता है = अन्नस्स हेउस्स वसइ ।

११६. अधिकरण तथा दूर एवं अन्तिक अर्थवाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है । यथा—

चटाई पर कौआ है = कडे आसइ कागो

गाँव से दूर अथवा निकट से = गामस्य दूरे अन्तिए वा ।

११७. सामी, ईसा, अहिवइ, दायाद, साखी, पडिहू और पसूअ इन सात शब्दों के योग मे पष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं । यथा—

गायों का स्वामी = गवाणं गोसु वा सामी ।

गायों से उत्पन्न = गवाणं गवासु वा पसूओ ।

व्यवहार मे जामिन = ववहारस्स ववहारे वा पडिभू ।

११८ यदि वस्तु का अपने समुदाय की अन्य वस्तुओं मे से किसी विशेषण द्वारा वैशिष्ट्यनिर्देश किया जाय तो समुदायवाचक शब्द सप्तमी अथवा पष्ठी विभक्ति मे रखा जाता है । यथा—

कवियों मे हरिचन्द्र सबसे बड़े कवि हैं = रुईसु कईणं वा हरिचन्द्रो
सेट्ठो ।

गायों मे काली गाय अधिक दूध देनेवाली है = गवाणं गवासु वा
कसिणा बहुक्खीरा ।

विद्याधियों मे गोविन्द तेज है = छत्ताण छत्तेसु वा गोइन्दो पट्ट ।

११९. मध्य अर्थ, बतलाने के लिए सप्तमी विभक्ति होती है। यथा—
इसके बीच में यह तपोवन में पहुँचा=एत्थंतरग्मि पत्तो एसो तवोवणं ।
बिना जानी हुई वस्तु के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए=अन्नाय
सरुवे अ वत्थुग्मि न किज्जइ पडिवन्धो ।

समास (Compound)

१२०. समास करने पर पूर्वपदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है और जो अन्त में पद रहता है, उसी में वचन के अनुसार विभक्तियाँ आती हैं। समस्यन्त पदों का प्रयोग करने से रचना में सौन्दर्य आ जाता है। यथा—

राजा का पुत्र जाता है = रायपुत्तो गच्छइ ।

भोजन के पश्चात् वे लज्ज पढ़ते हैं = अणुभोयणं ते पढन्ति ।

घर घर में दीपावली मनायी जा रही है = पइघरं दीवावली संपज्जइ ।

छत्र सहित राजा सिंहासन पर बैठा है=छत्तं रायो सीहासने इवविसइ ।

बादल के समान काले वर्ण की वस्तु दिखलाई पड़ती है = घणसामं
वत्थु पासामि हं ।

पुण्य और पाप बन्धन के कारण हैं=पुण्यपावाइं बंधस्स कारणानि संति ।

उत्कृष्ट पुण्यशाली व्यक्ति कहाँ जाता है = पपुण्णो जणो कत्थ गच्छइ ।

पुत्र सहित वह यहाँ आया है = सपुत्तो एत्थ सो आयओ अत्थि ।

रास्ते का अतिक्रमण कर रथ गिरता है = अइमग्गो रहो पडइ ।

समास के मूल चार भेद हैं—अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और
द्वन्द्व ।

१२१. जिसमें पूर्वपद के अर्थ की प्रधानता होती है, वही अव्ययीभाव होता है। यथा—

हरिग्मि इइ = अइहरि

सिद्धिगिरिणो समीवं = उवसिद्धगिरि

भद्राणं समिद्धि = सुभदं

हिमस्स अणओ = अइहिमं

दिणं दिणं पइ = पइदिणं

सत्ति अणइक्कमिऊण = जहासत्ति

गुरुणो समीवं = उवगुरु

भोयणस्स पच्छा = अणुभोयणं

मच्छिआणं अहाओ = णिम्मच्छिअं

नयरं नयरंति = पइनयरं

घरे घरे पइ = पइघरं

चक्रेण जुगव = सचक्कं

१२२ जिसमें उत्तरपद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा—

राइणो पुरिसो = रायपुरिसो
 उत्तरं गामस्स = उत्तरगामो
 किसण सिओ = किसणसिओ
 जिणेण सरिसो = जिणसरिसो
 आयारेण निउणो = आयारनिउणो
 कलसाय सुवण्णं = कलससुवण्णं
 भूयाणं वली = भूयवली
 बहुजणस्स हिओ = बहुजणहिओ
 दंसणाय भट्टो = दंसणभट्टो
 थेणाओ भीओ = थेणभीओ
 विज्जाए ठाण = विज्जाठाणं
 कलासु कुसलो = कलाकुसलो
 इंदियं अतीतो = इंदियातीतो
 सुहं पत्तो = सुहपत्तो
 दिवं गओ = दिवगओ
 दयाए जुत्तो = दयाजुत्तो
 गुडेनमिस्सं = गुडमिस्सं
 लोयाय हिओ = लोयहिओ
 वंभणाय हिअं = वंभयहिअं
 संसाराओ भीओ = संसारभीओ
 वाघ ओभय = वाघीभयं
 देवस्स मंदिरं = देवमन्दिरं
 देवस्स पुज्जओ = देवपुज्जओ
 जिणेसु उत्तमो = जिणोत्तमो
 नरेसु सेट्ठो = नरसेट्ठो

न लोगो = अलोगो
 न देवो = अदेवो
 पगतो आयरियो = पायरिओ
 कुंभं करइ त्ति = कुंभआरो
 रत्तो अ एसो घडो = रत्तघडो
 महंतो सो वीरो = महावीरो
 वीरो अ एसो जिणिन्दो = वीरजिणेन्दो
 सीअं च तं उण्हं य = सीउण्हं
 वणो इव सामो = घणसामो
 संजमो एव घणं = संजमघणं
 नवण्हं तत्ताणं समाहारो = नवतत्तं
 नाणम्मि उज्जओ = नाणोज्जओ
 न इट्ठं = अणिट्ठं
 न सच्चं = असच्चं
 उगओ वेळं = उव्वेळो
 अइक्कंतो पल्लंको = अइपल्लंको
 सुंदरा य एसा पडिमा = सुन्दरपडिमा
 कण्हो य सो पक्खो = कण्हपक्खो
 कुमारी अ सा गन्धिणी = कुमार-
 गन्धिणी
 चंदो इव मुहं = चन्दमुहं
 मुहं चंदोव्व = मुहचंदो
 चउण्हं कसायाण समूहो = चउक्कसायं
 तिण्हं लोगाणं समूहो = तिलोयं

१२३. जब समास मे आये हुए दो या अधिक पद किसी अन्य शब्द के विशेषण हों तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं । यथा—

पीअं अंबरं जस्स सो = पीआंबरो
 आरूढो वाणरो जं रुक्ख सो = अरूढ-
 वाणरो रुक्खो
 नट्टो मोहो जाओ सो = नट्टमोहो
 महंता वाहुणो जस्स सो = महावाहु

चंदो इव मुहं जाए = चंदमुहीकन्ना
 नत्थि पुत्रो जस्स सो = अपुत्रो
 नत्थि उज्जमो जस्स सो = अणुज्जमो
 पुरिसो
 विगयं रुवं जत्तो सो = विरुवो जणो

मियनयणाइं इव नयणाणि जाए सा =
 मियनयणा
 चरणं चेअ धणं जाणं = चरणधणा
 साहवो
 पुण्णेण सह = सपुण्णो लोथो
 फलेण सह = सफलं
 चेल्लेण सह = सचेलं ण्हाणं
 पणि पुण्णं जस्स सो = पपुण्णो जणो
 विगओ धवो जाए सा = विहवा
 अबगतं रूवं जस्स सो = अवरूवो
 जिओ कामोजेण सो = जिअरामो
 भट्ठो आयरो जाओ सो = भट्ठायारो
 आसा अंवरं जेसिं ते = आसंवरा
 नीलो कठो जस्स सो = नीलकंठो मोरो
 धुओ सव्वो किलेसो जस्स सो =
 धुअसव्वकिलेसो जिणा

नस्थि नाहो जस्स सो = अणाहो
 निग्गआ दया जस्स सो = निहयोजणो
 विगओ रसो जत्तो तं = विरसं भोयणं
 गजाणण इव आणणो जस्स सो =
 अजणो
 सीसेण सह = ससीसो आयरिओ
 कम्मणा सह = सकम्मो नरो
 मूलेण सह = समूलं
 कलत्तेण सह = सकलत्तो नरो
 निग्गया लज्जा जस्स सो = निहज्जो
 अइक्कंतो मग्गो जेण सो = अइमग्गो
 रहो
 परिअअं जलं जाए सा = परिजल्ला
 परिहा

१२४. दो या दो से अधिक संज्ञाएँ एक साथ रखी गई हों और उन्हें य शब्द के द्वारा जाड़ा गया हो तो वह द्वन्द्व समास कहलाता है। यथा—

पुण्णं य पावं य = पुण्णपावाइं
 अजिओ य संतीअ = अजियसंतिणो
 उसहो य वीरो य = उसहवीरा
 देवा य दाणवा य गधव्वा य = देव-
 दाणवगंधव्वा
 वाणरो य मोरो य हंसो य = वानर
 मोरहंसा
 देवा य देवीओ य = देवदेवीओ
 सुह य दुक्खं य = सुहदुक्खाइं
 जिणेअ जिणोअ जिणोअ त्ति = जिणा

माआ य पिआ य = पिअरा
 असण य पाणं य एएसिं समाहारो =
 असणपाण
 तवो य संजमो य एएसिं समाहारो =
 तवसंजम
 नाणं य दंसणं य चरित्तं य एएसिं
 समाहारो = नाणदंसणचरित्तं
 नेत्तं अ नेत्तं य त्ति = नेत्ताइं
 सासू य ससुरो अ त्ति = ससुरा

तद्धित (Nominal Affixes)

१२५ भाववाचक अव्ययसंज्ञा एवं सामान्यवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए तद्धित का व्यवहार किया जाता है। यथा—

शिब का लड़का पढ़ना है = सेवो पढड।

वासुदेव का पुत्र पटना में रहता है = वासुदेवो पाडलिपुत्तस्मि णिवसइ ।

नड का लड़का घर जाता है = नाडाययो वरं गच्छइ ।

यह ग्रामीण चतुर है = गामिल्लो चउरो अत्थि ।

यह वृक्ष के नीचे पैदा हुआ व्यक्ति हे = एसो तरुल्लो जणो अत्थि ।

जटाधारी व्यक्ति कहाँ जाता है = जडालो जणो कत्थ गच्छइ ?

चाँदनी रात अच्छी लगती है = जोण्हाली रत्ती रुच्चइ ।

घमंडी उन्नति नहीं कर सकता है = गव्विरो उण्णत्ति ण लहइ ।

धनवान् की प्रतिष्ठा सर्वत्र होती हे = धणमन्तस्स सव्वत्थ पइट्ठा होइ ।

मुझे कडुआ तेल अच्छा लगता है = मज्झ कडुएल्लं रोयइ ।

नया आदमी कैसा काम करता है = नवल्लो जणो केरिसं कज्जं करेइ ?

वह अकेला क्या करेगा = सो एकल्लो किं करिस्सइ ?

यह अपना आदमी है = अयं अप्पणयं अत्थि ।

यह दूसरे की पुस्तक है = इदं परक्कं पोत्थयं अत्थि ।

यह मेरी घड़ी है = इमा मईया घडिआ अत्थि ।

वह सर्वथा ऐसा करता है = सो सव्वहा एरिसं करेइ ।

जितना उसने दिया है = जेत्तिलं तेण दत्तो अत्थि ।

इतना अधिक संचय ठीक नहीं है = एत्तिअं अहियं संचयं वरं णत्थि ।

कितने रूपयो को आवश्यकता है = केत्तिअ रुबगाण आवस्सकया अत्थि ?

एक समय इस नगर में श्रेणिक रहता था = एकसिअं अस्सि णयरे सेणियो णिवसीअ ।

जितना तुम्हें चाहिए, उतना मिल जायगा = जित्तिअं तुए आवस्सया- तित्तियं मिलस्सइ ।

मथुरा के समान पटना में भवन हैं = महुरव्व पाडलिपुत्ते पासाया सन्ति ।

तुम्हारी स्थूलता बढ़ रही है = तुम्हाणं पीणिमा बड्डइ ।

सौवार मैंने उससे कहा हे = सयहुत्तं मए तं भणियं ।

ईर्ष्यालु व्यक्ति दुःख पाता है = ईसालू जणो कट्ठं अणुहवइ ।

वह विचारवान् व्यक्ति है = सो वियारुल्लो जणो अत्थि ।

केर

अम्ह + केर = अम्ह्वेरं—हमारा ।

तुम्ह + केर = तुम्ह्वेरं, तुम्ह्वेरो—तुम्हारा ।

पर + केर = परकेरं—दूसरे का ।

राय + केर = रायकेरं—राजा का ।

एच्चय

तुम्ह + एच्चय = तुम्हेच्चय—तुम्हारा ।

अम्ह + एच्चय = अम्हेच्चय—हमारा ।

अ—अपत्यार्थक

सिव + अ = सेवो—शिवका लड़का ।

दस रह + अ = दासरही—दशरथ का पुत्र ।

वसुदेव + अ = वासुदेवो—वसुदेव का पुत्र ।

आयण—अपत्यार्थक

नड + आयण = नाडायणो = नडका पुत्र ।

नर + आयण = नारायण = नर का पुत्र

इल्ल और उल्ल—भावार्थक—

गाम + इल्ल = गामिल्लं—ग्राम में उत्पन्न हुआ, ग्रामीण ।

पुर + इल्ल = पुरिल्लं = नगर में उत्पन्न हुआ—नागरिक ।

हेट्ट + इल्ल = हेट्टिल्लं—नीचे उत्पन्न हुआ ।

उवरि + इल्ल = उवरिल्लं—ऊपर में उत्पन्न हुआ ।

अप्प + उल्ल = अप्पुल्लं—आत्मा में उत्पन्न हुआ ।

तरु + उल्ल = तरुल्लं—वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुआ ।

नयर + उल्ल = नयरुल्लं—नगर में उत्पन्न हुआ ।

इमा—भाववाचक

पीण + इमा = पीणिमा—स्थूलता ।

पुण्फ + इमा = पुण्फिया—पुष्प का भाव ।

त्तण—भाववाचक

मणुअ + त्तण = मणुअत्तणं—मनुष्यता ।

पीण + त्तण = पीणत्तणं—स्थूलता ।

हुत्तं—बार अर्थ सूत्रक

एय + हुत्तं = एयहुत्तं—एक बार ।

दु + हुत्तं = दुहुत्तं—दो बार ।

ति + हुत्तं = तिहुत्तं—तीन बार ।

सय + हुत्तं = सयहुत्तं—सौ बार ।

सहस्स + हुत्तं = सहस्सहुत्तं—हजार बार ।

आल-वाला अर्थसूचक

रस + आल = रसालो—रसवाला ।

जडा + आल = जडालो—जटावाला ।

जोणहा + आल = जोणहालो—चाँदनी वाला ।

सद्द + आल = सद्दालो—शब्दवाला ।

आलु—वाला अर्थसूचक

ईसा + आलु = ईसालू—ईर्ष्यावाला ।

दया + आलु = दयालू—दया करने वाला ।

नेह + आलु = नेहालू—स्नेह करनेवाला ।

लज्जा + आलु = लज्जालू—लज्जावाला ।

वाला अर्थसूचक इल्ल और उल्ल प्रत्यय

सोह + इल्ल = सोहिल्लो—शोभावाला ।

छाया + इल्ल = छाइल्लो—छायावाला ।

घाम + इल्ल = घामिल्लो—घामवाला ।

वियार + उल्ल = वियारुल्लो—विचारवाला ।

मं स + उल्ल = मंसुल्लो—दाढ़ीवाला ।

दप्प + उल्ल = दप्पुल्लो—दर्पवाला ।

वाला अर्थसूचक मण, मंत और वंत प्रत्यय

धण + मण = धणमाणो—धनवाला ।

सोहा + मण = सोहामणो—शोभावाला ।

वीहा + मण = वीहामणो—भयवाला ।

हनु + मंत = हणुमंतो—हनुवाला ।

सिरि + मंत = सिरीमंतो—श्रीवाला—धनवाला ।

पुण्ण + मंत = पुण्णमंतो—पुण्यवाला ।

धण + वंत = धणवंतो—धनवाला ।

भत्ति + वंत = भत्तिवंतो—भक्तिवाला ।

पंचमी के अर्थबोधक तो और दो प्रत्यय

- सव्व + तो = सव्वत्तो, सव्वदो, सव्वओ—सव्व ओर से ।
 एक + तो = एकत्तो, एकदो, एकओ = एक ओर से ।
 अन्न + तो = अन्नत्तो, अन्नदो, अन्नओ—अन्य ओर से ।
 कु + तो = कुत्तो, कुदो, कुओ—कहाँ से, किस ओर से ।
 ज + तो = जत्तो, जदो, जओ—जहाँ से, जिस ओर से ।
 त + तो = तत्तो, तदो, तओ—वहाँ से, उस ओर से ।
 इ + तो = इत्तो, इदो, इओ—यहाँ से, इस ओर ।

सप्तमी के अर्थबोधक हि, ह और त्थ प्रत्यय

- ज + हि = जहि, जह, जत्थ—जहाँ पर ।
 त + हि = तहि, तह, तत्थ—वहाँ पर ।
 क + हि = कहि, कह, कत्थ—कहाँ पर ।
 अन्न + हि = अन्नहि, अन्नह, अन्नत्थ—अन्य स्थान पर ।

परिमाणार्थक इत्तिअ प्रत्यय

- ज + इत्तिअ = जित्तिअं—जितना; जेत्तिअं ।
 त + इत्तिअ = तित्तिअं—तितना; तेत्तिअं ।
 एतद् + इ = इत्तिअ = इत्तिअ—इतना; एत्तिअं ।
 के + इत्तिअं = कित्तिअ—कितना; केत्तिअं

कालबोधक सि, सिअं और इआ प्रत्यय

- एक + सि = एकसि—एक समय में ।
 एक + सिअं = एकसिअं— " "
 एक + इआ = एकइआ— " "

स्वार्थिक ल, लो, अ, इल्ल, उल्ल प्रत्यय

- विञ्जु + ल = विञ्जुला ।
 पत्त + ल = पत्तलं ।
 पीअ + ल = पीअलं ।
 अन्ध + ल = अंधलो ।
 नव + लो = नवल्लो ।
 एक + लो = एकल्लो ।

चन्द + अ = चंदओ ।
 बहुअ + अ = बहुअअं ।
 पिअ + उल्ल = पिउल्लो ।
 पल्लव + इल्ल = पल्लविल्लो
 पुरा + इल्ल = पुरिल्लो ।

शब्दकोष (अव्यय)

अतिशय = अइ
 अतीव = अईव
 आगे = अगओ
 आपस मे = अणमणं
 पश्चात् = अणतरं
 भीतर = अंतो
 अन्यथा = अणहा
 दूसरे दिन = अपरञ्जु
 जिस प्रकार = अहा
 इस समय सम्प्रति = संपइ
 किल = दूर
 अन्यथा = इहरा
 थोड़ा = ईसि
 ऊपर = उवरि
 एक प्रकार = एगउं
 यहाँ = एथ
 कहाँ-से = कओ
 कल = कल्लं
 कहाँ = कहि, कहि
 निरन्तर = अभिक्खं
 अवश्य = अवस्स
 अनेक वार = असईं
 अथवा = अहवा, अहव
 नीचे = अहे
 बलात्कार = आहच्च
 इस समय = श्याणि, दाणि, दाणि

यहीं = इइ
 ऊँचे = उच्चअ
 ऊपर = उप्पि, उवरि
 इतना = पयावया
 इस तरह = एवमेव
 कैसे = कहं, कह
 समय से = कालओ
 कब = काहे
 जो = जइ
 जहाँ = जत्थ
 जिस प्रकार से = जहेव
 जब तक = जाव
 जैसे तैसे = जहतहा, जह जहा
 परन्तु, केवल = एवर
 तब = तए
 वहाँ = तत्थ
 उस तरह = तहा, तह
 वहाँ = तहि
 थोड़ा = दर
 निश्चय = धुवं
 उलटा = पच्चुअ
 पीछे = पच्छा
 और भी = चिअ, चेअ
 क्योंकि = जओ
 जो = जं
 झटिति, जल्दी = झत्ति

उदाहरण, जैसे = तं जहा
 इसको आदिकर = तप्पभिइं
 रात दिन = दिवारत्तं
 दो प्रकार = दुहओ
 समान = पडिख्वं
 विमुख = परंमुहं
 प्रायः = पायो, पाओ
 आगे, सम्मुख = पुरत्था
 अलग = पुहं, पिहं
 पीछे = मगतो
 झूठ = मुसा
 वीता हुआ कल = य्हो
 एक बार = सइ
 शीघ्र = सज्जो
 सदा = सया
 कथञ्चित् = मिय
 परसों = परसवे
 परलोक में = पेच्च
 थोड़ा = मणयं
 बार-बार = मुहु
 व्यर्थ = मोदुल्ला
 व्याप्त = वीसुं
 नहीं तो = णो चेअ
 अपूर्व = ओसिअं
 छोटा = खुडुओ
 खेल = खेह्ढं
 गायिका = गत्तडी
 लतागृह = कुडज्जो
 गोष्ठी = गोट्ठी, घडिओ
 गायन = घाअणो
 चौक = चउक्कं
 चोर = छेणो

दीप = जोडक्खो
 परिधान = णिअद्धणं
 शय्या = तल्लं, तलं
 कलहकारिणी = दुम्मङ्गी
 खिड़की = पासावा
 दूती = पेसणआली, मदोली
 बैल = वइह्लो
 मनस्वी = माणंसी
 विवाह = वारिज्जो
 कुटुम्बी = वावढी
 स्तन = सिहिण
 इस समय, अब = अहुणा
 बाहर = बहिं, वाहिर
 न पुनः = नउणा
 निमित्त = कए, कएण
 तथापि = तहवि
 कोई-केनचित् = केणइ
 यथाशक्ति = जहासत्ति
 महावर = वल्लविअ
 वरामदा = वरण्डो
 वनराजि = वणइ
 विलासी = वेह्लह्लो
 केश = वेह्लरीओ
 गली = वीली, संकरो
 लज्जा = हीरण
 उसके बाद = तओ
 अन्यत्र = अन्नहि
 प्रायः = पाओ, पाएणं, पायसो
 धीरे-धीरे = सणियं
 पूर्ण, पर्याप्त = अलं
 शीघ्र = खिण्णं
 उसके समान = तारिस

Translate into Prakrit पाइयभासाए अणुवायं कुणन्तु

एक किसान के तीन लड़के थे। वे रोज आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे। बेचारा किसान तरह-तरह से उन्हें समझा बुझाकर हार गया; किन्तु उन्होंने नहीं समझा। तब उस किसान ने एक लकड़ी का गट्टर मँगवाया और लड़कों के सामने ला रखा। उसने प्रत्येक लड़के से कहा, इस गट्टर को तोड़ डालो। बारी-बारी से तीनों लड़कों ने कोशिश की, पर व्यर्थ हुई। तब बूढ़े किसान ने कहा—‘अच्छा, अब एक-एक लकड़ी को अलग-अलग कर तोड़ डालो’। यह सुनते ही लड़कों ने लकड़ियों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। किसान ने कहा, देखो! यदि तुम लोग मिलजुल कर रहोगे तो गट्टर की भाँति सबल बने रहोगे, पर यदि आपस में बँटे रहोगे, तो कष्ट होते देर न लगेगी।

ईश्वरचन्द्र बड़े ही दयालु प्रकृति के थे। कोई भी भिल्लुक उनके द्वार से निराश होकर नहीं लौटता था। एक दिन उन्होंने देखा, एक फटे-पुराने कपड़े पहने हुई बुढ़िया सड़क के किनारे बैठी है। भूख-प्यास के मारे उसका कंठ सूख गया है और उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं रह गयी है। यह देखकर विद्यासागर का हृदय दया से पिघल गया और उन्होंने मिठाई खरीदकर बुढ़िया को भरपेट खिला दी। एक बार विद्यासागर रेल में सफर कर रहे थे। एक स्टेशन पर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध गाड़ी पर चढ़ना चाहता है, किन्तु बार-बार प्रयत्न करने पर भी उससे अपना सामान गाड़ी पर नहीं चढ़ाया जाता। इतने में घंटी बज गयी।

Translate into Prakrit

Exercise 1

पटना नगर में एक राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम मायादेवी था। उनकी तीन सन्तानें थीं। सबसे बड़ा लड़का कॉलेज में पढ़ता था। दूसरा लड़का नवीं श्रेणी का छात्र था। कन्या कुसुमलता मोहनी देवी स्कूल में पढ़ती थी। जब परीक्षा हुई तो सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए।

Or

There lived a king in Patna City. The name of his wife was Mayadevi. He had three children. The elder son was reading in the college. The second son was the student of class IX. The daughter Kusumlata read in Mohinidevi School. When the examination was held they all passed in first division.

Exercise 2

आरा छोटा-सा नगर है। यहाँ चार कॉलेज और नौ हाई स्कूल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए यहाँ के छात्र गया जाते हैं। गया भी हिन्दुओं के लिए प्रमुख तीर्थस्थान है। पितृपक्ष में यहाँ मेला लगता है। दूर-दूर के यात्री यहाँ पिण्डदान के लिए आते हैं। फल्गू नदी का तट प्रातःकाल में सुन्दर मालूम पड़ता है।

Or

Arrah is a small town. There are four colleges and nine high schools. In the field of education it has got an important place. Students of this place go to Gaya for Post-Graduate studies. Gaya is also an ancient place of pilgrimage. Here a fair is held in *Pitripaksha*. Pilgrims from the different places come for *Pind-dan* (पिण्डदान). The bank of Falgu river looks very nice in dawn.

Exercise 3

राजगिरि एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ प्राचीन समय में विम्बिसार राज्य करता था। इस राजा का दूसरा नाम श्रेणिक भी है। श्रेणिक बहुत ही प्रतापी और प्रभावशाली राजा था। इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु अपने पिता से नाराज हो गया।

यही कारण था कि उसने अपने पिता को कारागार में बन्द कर दिया था। राजगिर में गर्म पानी के भरने भी हैं।

Or

Rajgir is a historical town. In ancient time Bimbisar ruled here. His another name is Shrenika also. Shrenika was a mighty and impressive king. The name of his son was Ajata-shatru Ajatahatru became displeased with his father. This was the reason why he had imprisoned his father. There are also so many geysers in Rajgir.

Exercise 4

नालन्दा के विश्वविद्यालय को हम सभी जानते हैं। यहाँ दस हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना कोई भी विद्यार्थी प्रवेश नहीं पाता था। प्रधान आचार्य को पीठाध्यक्ष भी कहा जाता था। आज भी नालन्दा में पालिशोध-संस्थान है। इस संस्थान के निर्देशक भी बहुत बड़े विद्वान् हैं। विदेश के विद्यार्थी भी यहाँ आकर पालि-त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं।

Or

The University of Nalanda is well-known to us. About ten thousand students read here. No student was admitted without passing the examination. The Principal was called Vice-Chancellor Even at present, there is a Pali-Research Institute. The director of this Institute is also a great scholar. The students of foreign-countries also come here to study the Pali-Tripitakas.

Exercise 5

वैशाली गणतन्त्र का सर्वप्रथम नगर है। लिच्छवि राजाओं ने यहाँ पर प्रजातन्त्र की नींव डाली थी। यही पर भगवान् महावीर का जन्म हुआ था। आज भी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन मेला लगता है। इस मेले के अवसर पर लगभग एक लाख मनुष्य एकत्र होते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने यहाँ प्राकृत-शोध-प्रतिष्ठान की स्थापना की है।

Or

Vaishali is the first and foremost town of the republic

Lichhivi Kings had established here the democratic Government. Lord Mahabir was born here. Now-a-days a fair is also held in Chaitra Sukla Trayodasi. On the occasion of this fair about one lac people gather here. Recently the Bihar Government has established here a Prakrit Research Institute.

Exercise 6

अभी हाल में गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। इसके उपकुलपति डा० कालिकिकर दत्त हैं। ये इतिहास के बहुत बड़े विद्वान् हैं। इनके निर्देशन में विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन की पूर्ण व्यवस्था है। वस्तुतः वर्तमान उपकुलपति प्राचीन पीठाध्यक्ष मालूम पड़ते हैं।

Or

Recently the University of Magadh has been founded at Gaya. The Vice-Chancellor of Magadh University is Dr. Kali Kinkar Dutta. He is a great historian. In his direction the teaching of Sanskrit literature is fully organised in this University. Of course, the present Vice-Chancellor seems to be an ancient Pithadhyaksha.

Exercise 7

एक मधुमक्खी पानी में गिर पड़ी। एक बत्तख पेड़ पर बैठा था और उसने मधुमक्खी को देखा। उसने एक पत्ता गिरा दिया। मधुमक्खी तैर कर उस पर आई और उसने अपने को बचाया। अन्य किसी समय पुनः बत्तख पेड़ पर बैठा था। एक खिलाड़ी ने बत्तख को देखा और उसे बाण का लक्ष्य बनाना चाहा। लेकिन छोटी मधुमक्खी ने उसे काट लिया और बत्तख के जीवन को बचाया।

Or

A bee had fallen into the water. A dove was sitting on a tree and saw the little bee. It threw down a leaf. The bee swam on it and saved itself. Another time the dove was again sitting on the tree. A sportsman saw the dove and aimed his arrow at him. But the little bee stung the sportsman and saved the dove's life.

Exercise 8

एक बड़ई किसी नदी के किनारे खड़ा होकर रो रहा था; क्योंकि

उसकी कुल्हाड़ी अचानक पानी में गिर गई थी। जलदेवी ने उस पर दया दिखाई और जल से एक सोने की कुल्हाड़ी लाकर उससे पूछा—‘क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है?’ उसने सत्य बोलते हुए कहा—‘नहीं यह हमारी नहीं है। तदुपरान्त देवी ने एक चाँदी की कुल्हाड़ी दिखाई, लेकिन उसने उसे भी अस्वीकार कर दिया। अन्त में देवी ने उसे अन्य कुल्हाड़ियों के साथ उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी दी। उसे लेकर वह मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक चला गया।

Or

A woodcutter stood weeping on the bank of a river, because his axe had fallen into the water by chance. The goddess of the river took pity on him and bringing out of the water a golden axe, asked him it was his. He spoke the truth that it was not his. The goddess then showed a silver axe and again the man would not accept it. At last she gave him his own axe and also the other two. The man received them and departed happily.

Exercsie 9

रानी ने सुग्गे से पूछा—यह सर्पों को विषरहित, देवताओं को शक्तिहीन तथा सिंहों को गतिहीन बनाता है और तो भी बच्चे इसे अपने हाथों में रखते हैं। यह क्या है? सुग्गे ने तुरत उत्तर दिया—‘एक चित्रकार की तूलिका।’ इस प्रकार रानी ने समझ लिया कि यह चालाक सुग्गा मेरे पति विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। एक दिन विक्रम की आत्मा सुग्गे के शरीर को छोड़कर छिपकली के शरीर में प्रवेश कर गई। रानी जब सुग्गे के मृतक शरीर को देखती है तब वह विलाप करती हुई उसी के साथ जल जाना चाहती है। रानी को बचाने के लिए वह राजा पुनः सुग्गे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसी समय विक्रम की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करती है और रानी के सम्मुख विक्रम प्रकट हो जाता है।

Or

The queen asks the parrot, “It makes snakes poisonless, the Gods powerless, lions motionless and yet children hold it in their hands. What is it?” The parrot answers at once, “A painter’s brush.” In this way the queen comes to know that the wise parrot is none other than real king Vikrama, her

husband. One day Vikrama's soul leaves the body of the parrot and enters into the body of a lizard. When the queen sees the dead body of the bird, she begins to lament and wishes to burn herself with it. In order to save the queen the false king enters into the body of the parrot. That very moment the soul of Vikrama enters his own body and appears before the queen.

Exercise 10

प्राचीन समय में भारत के उत्तरी भाग में महाराज शुद्धोदन अपनी पत्नी माया देवी के साथ रहते थे। उन्हें एक सुन्दर बालक हुआ जिसका नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। पिता ने उसे अत्यन्त सावधानी से पाला। उन्होंने राज्य में एक ही साथ सभी बुद्धिमानों को एक युवक राजकुमार के योग्य शिक्षा देने के लिए बुलाया। राजकुमार शीघ्र ही अच्छे विद्वान् हो गये—इसलिए उनके शिक्षक उन्हें अधिक नहीं पढ़ा सके। यद्यपि वे पुस्तकी विद्या तथा बहुत प्रकार के शस्त्रों के चलाने में दक्ष थे, फिर भी उन्होने घमंड कभी नहीं किया। अपितु अपने शिक्षकों के साथ आदर का व्यवहार किया और अपने साथियों के साथ नम्रता तथा प्रेम का बर्ताव किया।

Or

Long long ago, in the north of India, there lived a king named Shuddhodana and his queen was Maya. A beautiful son was born to them; they named him Sidhartha. He was very carefully brought up by his father, who called together all the wisest men in the kingdom to teach him all that a young prince should know. Prince Sidhartha soon grew very learned, so that his teachers could teach him no more. Though he was learned in books and skilled in the use of all kinds of weapons, he never grew vain or proud, but always treated his teachers with reverence and his companions with gentleness and affection.

Exercise 11

एक कुत्ता अपने मुँह में एक मांस का टुकड़ा लिए एक भरने से होकर गुजरा। वहाँ उसने स्वच्छ जल में अपने प्रतिबिम्ब को देखा। उसने दूसरा कुत्ता समझकर मांस के टुकड़े को छीनना चाहा। ज्योंही

वह उसपर झपटा उसका अपना टुकड़ा भी मुँह से गिर पड़ा और जल में डूब गया। इस प्रकार कुत्ते ने अपना सब कुछ खो दिया।

Or

A dog was carrying a piece of meat in his mouth and crossed with it through a stream. There he saw his image in the clear water. He thought this was another dog and wished to snatch the piece of meat from him. As he snatched at it, his own fell out of his own mouth and sank into the water. Thus the dog lost everything.

Exercise 12

एक समय एक बहुत बड़ा विद्वान् किन्तु गरीब आदमी एक राजा के घर उसके साथ खाने के लिए गया। फटे वस्त्रों से सज्जित होने के कारण राजा ने एक भी स्वागत का शब्द नहीं कहा। पंडित ने शीघ्र ही इसे समझ लिया कि इस तरह के व्यवहार का कारण मेरे ये वस्त्र ही हैं और दूसरे दिन वह अच्छे वस्त्रों से भूषित होकर उसी सज्जन के घर गया। राजा ने उसका स्वागत किया तथा आदर किया। वह उन्हें भोजन-गृह में ले गया। भोजन करने के पहले ही, अतिथि ने अपने ऊपर के वस्त्रों को पृथ्वी पर फैला दिया और तीन मुट्ठी भात उन पर फेंक दिया। जब ब्राह्मण से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तब उसने उत्तर दिया—कल मैं आपके पास गन्दे वस्त्रों में आया था। आपने मुझे कुछ शब्दों के योग्य भी न समझा। लेकिन आज इन वस्त्रों के कारण ही आपने मुझे आदर दिया है।

Or

Once a very learned but very poor man went to the house of a lord to dine with him. As he was clad in rugged garments, the rich man did not even offer him a word of welcome. The Pandit easily guessed that his clothes were the cause of such treatment and the next day he went to the house of the same gentleman well-dressed. The lord welcomed and duly honoured him. He took him to the dining hall. Before beginning to eat, however, the guest spread out his upper cloth on the ground and threw two or three handfuls of rice on the cloth. When the Brahmin was asked why he did so, he replied yesterday I came to you, clothed in dirty garments. You did

not consider me worthy of even a few words. But today it is only by virtue of this cloth, that you have treated me well.

Exercise 13

एक वृद्ध मनुष्य अपने उद्यान में आम्रवृक्षों के रोपने में अत्यन्त परिश्रम कर रहा था। एक युवक मनुष्य ने उन्हें देखकर हँसी उड़ायी और कहा—“आपके ये प्रयत्न अत्यन्त निरर्थक हैं। आप अत्यन्त वृद्ध हैं और वस्तुतः इन वृक्षों के फलों का स्वाद लेने के लिए आप जीवित नहीं रहेंगे।” वृद्ध मनुष्य ने शान्तिपूर्वक अपनी आँखें उठायीं और युवक पुरुष की ओर देखते हुए कहा—‘प्यारे बच्चे ! तुमने यथोचित प्रश्न किया है। मेरे जन्म लेने के पूर्व ही किसी ने इन विशाल वृक्षों को उद्यान में रोपा था और मैं उनके मधुर फलों को खा रहा हूँ। अब मैं इन वृक्षों को रोपता हूँ ताकि तुम्हारे जैसे नवयुवक लोग मेरी मृत्यु के बाद खा सकें।’ इसे सुनकर वह लड़का लज्जित हुआ और उसने वृद्ध मनुष्य के अच्छे विचारों की प्रशंसा की।

Or

An old man was taking great efforts in planting mango trees in his garden. A young man who saw him ridiculed and said. “How vain are these efforts of yours? You are very old and certainly will not live to taste the fruits of these trees.” The old man calmly raised his eyes and looking up at the young man said, “Dear lad, you have put a proper question. Some one, before I was born had planted these fruit trees in the garden and I am eating their sweet fruits. I now plant these trees so that young men like you may eat my fruit, when I am dead.” On hearing this the boy was ashamed of rudness and praised the good sense of the old man.

Exercise 14

एक बार एक राजा अपना कारावास देखने गया। उसने वहाँ के सभी कैदियों को देखना चाहा। कारावास का अधिकारी सभी कैदियों को एक-एक करके राजा के सामने लाया। राजा ने सबों से अपने दोष को कहने के लिए कहा, जिसके कारण उन्हें कारावास का दण्ड मिला था। सबों ने कहा कि हम निर्दोष थे। राजा ने पुनः उन लोगों को कारावास में भेज दिया। अन्त में एक योग्य मनुष्य आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने वही प्रश्न उससे भी किया। उसने

उत्तर दिया—मैंने अपने गाँव में एक धनी मनुष्य की कीमती अँगूठी चुरा ली है। इसलिए मैं इस दण्ड के योग्य हूँ। राजा उसकी दोष स्वीकृति पर प्रसन्न हो गया और मुक्ति के लिए आज्ञा देते हुए कहा—इसने चोरी की, इसलिये यह दण्डित हुआ। अब यह सत्य बोलता है, अतएव यह पुरस्कार के योग्य है।

Or

Once a king went to inspect his prison-house. He wished to see all the prisoners there. The guardian of the prison brought the prisoners one by one before the king. He asked each one of them to narrate the crime for which he was punished with imprisonment. Everyone of them said that he was innocent. The king put them back in prison. At last a young man came and stood before the king. The king put the same question to him. He replied, "I stole the valuable ring of a richman in my village. I, therefore, deserve this punishment." The king was pleased with his confession of his crime. He ordered his release saying. "He committed a theft, so he was punished. Now he speaks the truth and so deserves a reward.

Exercise 15

राजा पिगल अत्यन्त दुष्ट था। जब उसकी मृत्यु हुई तो सम्पूर्ण शहर आनन्दित हुआ। उसके द्वारपाल को छोड़कर कोई नहीं रोया। बोधिसत्व ने उससे पूछा—'तुम क्यों रोते हो?' उसने कहा—'मैं महापिगल के मर जाने से नहीं रोता हूँ। प्रत्येक समय वह महल से आया और गया उसने मेरे माथे पर आठ बार गदा से प्रहार किया। अभी भी मैं डरता हूँ जबकि वह इस समय दूसरे संसार में है कि वह यमराज के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा तो वह पुनः उसे पृथ्वी पर भेज देगा। तब पुनः मैं आठ बार मार खाऊँगा। इसीलिए मैं रो रहा हूँ।'

Or

King Mahapingal was very wicked. When he died, the whole city rejoiced. Only his doorkeeper wept. The Bodhisattva asked him, "Why do you weep?" He replied, "I am not weeping because Mahapingal is dead. Every time he came from the palace and went in, he gave me eight blows on

the head with club. Now I fear when he is in the other world, he will do the same to Yama and Yama will send him back to earth. Then I will get my eight blows again. Therefore I am weeping.'

Exercise 16

भद्रा एक राजकीय कोपाध्यक्ष की लड़की थी। एक दिन उसने मृत्यु के लिए ले जाये जाते हुए चोर को देखा और वह उसके प्रेम में फँस गयी। घूस के सहारे उसके पिता ने उस चोर को छोड़ा लिया और उसके साथ इसकी शादी कर दी। लेकिन वह चोर केवल उम लड़की के आभूषणों की चाह में रहता था। एक दिन वह उसके आभूषणों को चुराने के लिए उसे एकान्त स्थान में ले गया। किसी प्रकार वह उसके विचारों को जान गयी और आलिंगन के बहाने उसने उसे चोटी पर से ढकेल दिया। इस दुस्साहस के बाद वह पिता के घर नहीं लौटना चाही और भिक्षुणी बन गयी।

Or

Bhadda was the daughter of a royal Treasurer. One day she saw a robber who was being led to his death and she fell in love with him. By means of bribery, the father released the robber and married him to his daughter. But the robber cared only for the girl's jewels. He took her to a lonely spot in order to rob her. However, she perceived his intention, and pretending to embrace him, she pushed him over a cliff. After this adventure, she did not want to return to her father's house but became a nun.

Exercise 17

एक बालिका ने भगवान् बुद्ध के चरणों को चन्दनतैल से अभिषिक्त किया। इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण शहर चन्दन की गंध से भर गया। इस रहस्य से वह बालिका अत्यन्त खुश हुई और भगवान् बुद्ध के चरणों में गिरकर आगत जन्म में, 'प्रत्येकबुद्ध' होने के लिये प्रार्थना करने लगी। बुद्ध हँसे और उन्होंने भविष्यवाणी की—'तुम गन्धमादन नामक प्रत्येकबुद्ध होओगी।'

Or

A poor girl anointed the feet of Buddha with sandalwood oil. In consequence of this, the whole town was filled with

the perfume of sandalwood. The girl delighted with the miracle, fell at the feet of Buddha and prayed that she might become a Pratyeka-Buddha in a future birth. Buddha smiled and prophesied that she will one day be a Pratyeka-Buddha named Gandhamadana.

Exercise 18

एक सौदागर को चार पुत्रवधुएँ थीं। उन सबों को जाँचने के लिये उसने प्रत्येक को चावल के पाँच दाने दिए और सुरक्षित रखने को कहा। पहली पुत्रवधू दानों को फेंककर सोचने लगी—धान्यागार में तो बहुत से अन्न हैं ही—इसके बदले मैं उन्हें दूसरा अन्न दे दूँगी। दूसरी ने भी ऐसा ही किया। तीसरी ने उन्हें आभूषणों की छोटी पेटी में सुरक्षित रख दिया। लेकिन चौथी ने उन दानों को रोप दिया और अन्न उपजाया। पाँच वर्ष के बाद उसने चावलों का विशाल भण्डार इकट्ठा कर लिया। सौदागर जब लौटा तो उसने चौथी पुत्रवधू को गृह की स्वामिनी बना दिया।

Or

A merchant had four daughters-in-law. In order to test them, he gives each of them five grains of rice and orders them to preserve them. The first daughter-in-law throws the grains away and thinks—"There are plenty of grains in the granary. I shall give him other instead." The second thinks in the same way. The third preserves them carefully in her jewel-casket. But the fourth one plants the grains and reaps. At the end of five years she accumulates a large store of rice. The merchant returns and makes the fourth daughter-in-law the head of the household.

Exercise 19

दो गरीब भाई एक स्वर्ण-पिण्ड लेकर यात्रा से लौटे। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे को मारकर अपने लिये सोने को रख लेने का विचार किया। वे दोनों किसी प्रकार अपने बुरे विचारों के लिए लज्जित हुए और दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की। तब उन लोगों ने उस स्वर्ण-पिण्ड को एक नदी में फेंक दिया। उसको एक मछली निगल गयी। वह मछली दो भाइयों की बहिन के द्वारा लायी गयी और दासी ने

उसके पेट में स्वर्ण पिण्ड को देखा । दासी और उस स्त्री के बीच कलह प्रारम्भ हो गया और इसी सिलसिले में उस स्त्री की मृत्यु हो गयी ।

Or

Two poor brothers returned from a journey with a lump of gold. On the way each of them thought of killing the other and keep the gold for himself. They however, become ashamed of their intentions and confess to each other. Then they throw the lump of gold in the river. It is swallowed by a fish. The fish is bought by the sister of the two brothers, and the maidservant finds the lump in its stomach. A quarrel arises between the maidservant and the woman, in courses of which the woman loses her life.

Exercise 20

एक राजा ने एकबार स्वप्न में देखा कि मेरे सभी दाँत गिर गये हैं । इसे अपशकुन जानकर उसने एक ज्योतिषी को बुलाया और स्वप्न की व्याख्या पूछी । उसने कहा, 'इसका अर्थ बड़ा बुरा है । आपके सभी होनहार लड़के आपकी मृत्यु के पहले ही मर जायेंगे ।' यह सुनकर राजा क्रुद्ध हो गया और ज्योतिषी को कैद में बन्द कर देने को कहा । उसने पुनः दूसरे ज्योतिषी को बुलाया और स्वप्न का अर्थ पूछा । वह बड़ा होशियार था । उसने बड़े आनन्द से उसका उत्तर दिया । 'महानुभाव ! स्वप्न बड़ा अच्छा है ! इसका अर्थ है कि आप अपने सभी सम्बन्धियों की मृत्यु के अन्तर भी जीवित रहेंगे । राजा उसके उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ज्योतिषी को बहुमूल्य उपहार दिये ।

Or

A king saw in a dream that all his teeth had fallen out. Thinking it to be an ill omen he called an astrologer and asked him the interpretation of his dream. He said, "The meaning is inauspicious. All your majesty's children would die before you." The king was enraged and ordered the astrologer to be thrown in a cellar. He then sent for another and asked him the meaning of his dream. He was clever and answered with a countenance full of joy, "My Lord, the dream is very auspicious. It means that your majesty would

survive all your relatives." The king was greatly pleased with this answer and gave the astrologer many rich presents.

Exercise 21

सभी गुणों से विभूषित सर्वशक्तिमान् राजा विक्रम ने किसी साधु से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की ऐन्द्रजालिक कला सीखी। उसी समय एक ब्राह्मण ने भी उसके साथ वह कला सीखी। विक्रम ने अपने शरीर को छोड़कर एक हाथी के शरीर में प्रवेश किया। इसी समय उस ब्राह्मण ने भी महाराज विक्रम के मृत शरीर में प्रवेश किया। जब राजा की आत्मा ने इसे जान लिया तब वह हाथी के शरीर को छोड़कर सुग्गे के शरीर में प्रवेश कर गयी। तत्पश्चात् वह सुग्गा एक शिकारी के द्वारा पकड़ा गया और एक रानी के हाथ बेच दिया गया। वह सुग्गा रानी का परम प्रिय बन गया और रानी से बातें भी करने लगा।

Or

The mighty King Vikrama, who is endowed with all the virtues, learns from a sage the magic art of penetrating into another body. At the same time with him a Brahmin learns the same art. Vikrama abandons his own body and enters the body of an elephant. At that very moment the Brahmin enters the body of King Vikrama. When the soul of the King Vikrama knows this he abandons the body of the elephant and enters the body of a dead parrot. He is caught by a hunter and is sold to a queen. The parrot becomes the queen's favourite and converses with her.

Exercise 22

एक वृद्ध आदमी को छः पुत्र थे। वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। वृद्धे आदमी ने हर प्रकार उनके बीच पारस्परिक स्नेह उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ हुए। अन्ततः एक दिन उसने सबों को अपने समक्ष बुलवाया। उसने उन्हें छड़ियों का एक बंडल दिया और वारी-वारी से उसे तोड़ने का आदेश दिया। क्रमानुसार प्रत्येक ने पूरे बल के साथ प्रयत्न किया, किन्तु कार्य सिद्ध न हुआ। तदन्तर पिता ने बंडल को खोल देने की आज्ञा दी। उसमें से प्रत्येक को एक छड़ी देकर उसने अपने पुत्रों को उसे

दो भागों में तोड़ने का आदेश दिया। बिना किसी प्रयास के प्रत्येक ने छड़ी तोड़ दी। तब पिता ने लड़कों को संबोधित किया—ओ, मेरे पुत्रो! एकता की शक्ति का अवलोकन करो। यदि तुम लोग मित्रता के बन्धन में एक रहोगे, तो कोई भी तुम्हें हानि पहुँचाने में समर्थ न होगा, लेकिन अगर तुम एक दूसरे से घृणा करोगे और आपस में कलह करोगे तो तुम लोग आसानी से अपने शत्रुओं के शिकार हो जाओगे।

Or

An old man had six sons. They always quarreled with one another. The old man tried by all means to create mutual affection among them; but all his efforts were in vain. At last one day, he summoned them all before him. He gave them a bundle of sticks and ordered them, one by one, to break it. Each in turn tried with his full strength but to no purpose. Then the father ordered the bundle to be disunited. Giving a single stick to each of them, he ordered his sons to break it into two. Each son broke the stick without any effort. Then the father addressed the boys, 'Oh, my sons! hold the power of unity. If you stand united by bonds of friendship, no one will be able to hurt you; but if you hate one another and are disunited you will easily become a victim to your enemies.'

Exercise 23

एक कुत्ता जिसने अपने आश्रयदाता की अनेक वर्षों तक सेवा की, बूढ़ा और कृश हो गया। एक दिन कुछ चोर उस आदमी के घर में घुसे और उसकी सारी सम्पत्ति के साथ भाग निकले। कुत्ता अधिक वृद्धावस्था से तेज नहीं दौड़ सका, और चोरों को नहीं पकड़ सका। कृशकाय होने से वह न जोर से भूँक सका और न मालिक को जगा सका। वह आदमी प्रातः उठा और उसने अपनी सारी सम्पत्ति गायब पायी। क्रोध के आवेश में उसने कुत्ते से कहा—“दुष्ट जीव मैंने अपनी सारी सम्पत्ति खो दी, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य नहीं किया है। तुम ^{bel} ^{trolog} ⁱⁿ वैसे खिलाने-पिलाने का कोई लाभ नहीं है। मैं तत्क्षण तुम्हें ⁱⁿ छड़ी से पीटकर मार डालूँगा।” कुत्ते ने दयनीय होकर उत्तर दिया—“मालिक जब मैं युवक था मैंने भलीभाँति लम्बी अवधि तक

आपकी सेवा की। मैं वृद्ध हो गया हूँ। कैसे इसे दूर कर सकता हूँ। मेरी युवावस्था के दिनों की सेवा का स्मरण कर आपको मेरी वृद्धावस्था में मेरे प्रति दयालु होना चाहिए। क्या आप अपने पुत्रों से आशा नहीं रखते कि जब आप वृद्धे होंगे और कुछ भी नहीं कमा सकेंगे, तब वे आपको आश्रय देंगे ?” इन शब्दों को सुनकर वह आदमी अपनी ही अकृतज्ञता पर लब्धित हुआ और तबसे कुत्ते के प्रति दयार्द्र बना रहा।

Or

A dog which served its master faithfully for many years, became very old and feeble. One day some thieves entered the house of the man and ran away with all his property. The dog being too old, could not run quickly and catch the thief. Being too weak, it could not bark loudly, and wake up the master. The man woke up next morning and found all his wealth lost. In a fit of anger he said to the dog, “You mean creature, I have lost all my wealth because you have not done your duty. There is no use in feeding you any longer. I will presently kill you by striking you with this stick.” The dog answered piteously, “Master, I served you well and long when I was young. Now I have gone old. How can I avoid it ? Recollecting the services of my younger days, you must be kind to me in my old age. Do you not expect your sons to protect you, when you grow old and can not earn anything ?” On hearing these words the man was ashamed of his own ingratitude and was ever after kind to the dog.

Exercise 24

एक समय हस्तिनापुर में विलास नाम का धोबी रहता था। उसका गधा बड़ा कमजोर हो गया। इसे पुनः मजबूत बनाने के लिए धोबी ने गधे को बाघ की खाल से ढँककर दूसरे के खेत में छोड़ दिया। गधे ने स्वतंत्र होकर खूब खाया और मोटा हो गया। इसे वास्तविक बाघ समझकर खेत के मालिक लोग डर से भाग खड़े हुए। लेकिन इस पशु की स्वाभाविक प्रकृति के बारे में एक आदमी को संदेह हो गया। वह अपने को गधे की खाल से ढँककर अपने खेत की ओर गया। बाघ की खाल से ढँके गधे ने उसे देखकर समझा

कि यह हमारा दूसरा साथी है और रेंकना शुरू किया तथा उसके समीप गया। खेत के सभी रखवालों ने उस जानवर को गधा समझकर शीघ्र ही मार डाला।

Or

Once there lived at Hastinapur a washerman named Vilasa. His ass became very weak. To make it strong again the washerman covered the ass with a tiger's hide and let it into the corn-field of others. The ass ate freely and became fat. Taking it to be really a tiger, the owners of the field ran away in fright. But one intelligent man became doubtful about the true nature of the animal. He covered himself with an ass's hide and went about his field. The ass in the tiger's hide thinking that there was a fellow ass in the field began to bray and ran towards him. All the keepers of the field thus understood the animal to be a donkey and immediately killed it.

Exercise 25

एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो प्रतिदिन सोने का एक अण्डा दिया करती थी। वह लालची मनुष्य इससे सन्तुष्ट नहीं था। एक दिन उसने सोचा “यह मुर्गी मुझे प्रतीदिन एक ही अण्डा देती है। इसके पेट में सोने के ऐसे बहुत से अण्डे होंगे। यदि मैं सबों को एक ही समय पाऊँ तो मैं धनी हो सकता हूँ। अतएव उसने मुर्गी को मार कर उसके पेट को छुरी से काट दिया। लेकिन उसके पेट में एक अण्डा भी नहीं मिला। इस प्रकार जो वह सोने का अण्डा प्रतिदिन पाता था, समाप्त हो गया। साथ ही वह मुर्गी भी समाप्त हो गई। किसान ने अपनी मूर्खता पर खेद प्रकट किया और पश्चान्ताप में डूब गया। वस्तुतः असन्तोष और लालच सब दुःखों की जड़ है।

Or

A farmer had a hen which laid a golden egg every day. The greedy man was not contented with this. One day he thought within himself—“This hen gives me only one egg every day. Surely there must be many such golden eggs in its belly. If I can get them all at one time, I can become very

rich." So he killed the hen and cut its belly with a knife; but alas ! he found no egg there. Thus the golden egg that he got every day and the hen that laid were both lost for ever. The farmer bemoaned his foolishness and was immersed in repentance. Really discontent and greed are the root of all misery.

Exercise 26

गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल बट वृक्ष था। उसकी डालियों पर अपना-अपना घोंसला बनाकर अनेक पक्षी आरामपूर्वक रहते थे। एक बार वर्षा ऋतु में एक बन्दरों का झुण्ड आया और वृक्ष के नीचे ठहरा। जोरों की वर्षा हो रही थी और शीत के मारे बन्दर लोग काँप रहे थे। वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों में से एक ने दया प्रकट करते हुए कहा—“भाइयो ! मैं अपने घोंसले में आराम से रहता हूँ। तुम्हें मनुष्यों की तरह हाथ पैर हैं, अपने लिए तुम हम लोगों से अच्छा घर बना सकते हो। बिना घर के तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो ?” उस पक्षी की राय सुनकर बन्दर बड़े क्रुद्ध हो गये। वृक्ष पर चढ़कर उन लोगों ने पक्षियों के घोंसलों को नष्ट कर दिया।

Or

On the bank of the river Godavari there was a huge banyan tree. Several birds were living comfortably there, having built their nest on its branches. Once in the rainy season a group of monkeys came and took shelter at the foot of the tree. The rains were pouring heavily and the monkeys were shivering with cold. One of the birds living in the tree took pity on them and said “Brothers ! we live comfortably in our nests. You have hands and feet like men and you can build for yourselves home better than ours. Why then do you suffer without a home ?” The monkeys grew furious at the birds on hearing their advice. They climbed the tree and destroyed the nests of the birds.

Exercise 27

परशुराम को सुधा नाम की एक बहन थी। वह अपने भाई से छोटी थी, किन्तु चालाक थी। वह प्रतिदिन स्कूल जाती और अपना पाठ याद करती थी। किन्तु परशुराम आलसी और मगड़ालू था। एक

१३ प्रा० प्र०

दिन उसने भूमि पर पड़े एक गेंद को देखा और लेने की इच्छा की। लेकिन सुधा ने कहा—‘यदि इस गेंद को हमलोग लेंगे तो लोग हमें चोर कहेंगे।’ उनके पिता ने अचानक सुधा की बात सुन ली और उसे बहुत से उपहार दिये।

Or

Parsuram had a sister called Sudha. She was younger than her brother but was cleverer. She went to school every day and learnt her lesson. But Parsuram was lazy and quarrelsome. One day he saw a ball lying on the ground and wanted To Take it. But Sudha said, “If we take this ball, people will call us thieves.” Their father heard these words of Sudha accidentally and gave her many presents.

Exercise 28

प्राचीन काल में एक साधु अपनी पत्नी के साथ एक जंगल में रहते थे। वे दोनों कालक्रम से अन्धे और कमजोर हो गये। सिन्धु नाम का एक छोटा लड़का ही उन लोगों की खुशी का एकमात्र साधन था। वह लड़का कर्तव्य-परायण, स्नेही और दयालु था। वह आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ माता-पिता की सेवा करता था। वह फलों को लाने के लिए जंगलों में घूमता था। वह पानी लाता और उनके लिए सदा भोजन बनाता था। माता-पिता अपने पुत्र को इतना प्यार करते थे कि उसका नाम सदा उनके होठों पर रहता था।

Or

In days gone by there lived in a forest a sage and his wife. They were blind and weak with age. Their only joy was a little boy named Sindhu. A dutiful, loving and kind son he was. He looked after his parents, attending to their wants. He wandered about the woods to gather fruits for his parents. He brought them water and cooked their food. The parents loved their child so well that his name was ever on their lips.

Exercise 29

एक बार एक भूखे भेड़िये ने एक मेमने का पीछा किया। वह मेमना अपने को बचाने के लिए भागकर एक मन्दिर में घुस गया। पुरोहितों के भय के कारण भेड़िया मन्दिर में नहीं जा सका। मन्दिर

के सामने खड़ा होकर उसने मेमने को बुलाया और बड़े करुण स्वर में कहा—शीघ्र चले आओ। हम दोनो मित्रवत् जंगल में चलें, नही तो पुरोहित पकड़ लेंगे और बलि दे देंगे। मेमने ने उत्तर दिया—तुम्हारे द्वारा खाये जाने की अपेक्षा मन्दिर में बलि हो जाना श्रेयस्कर है। इस मन्दिर से मैं बाहर कभी नहीं आऊँगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद भेड़िया निराश लौट गया।

Or

A hungry wolf once pursued a lamb. The lamb quickly fled and entered into a temple for refuge. The wolf could not enter into the temple as she was afraid of the priests. Standing in front of the temple the wolf called out to the lamb and said in a sympathetic voice, "Come out soon and we will go out as friends into the forests; or else the priests will catch you as an offering in sacrifice." The lamb replied—'It would be better to be sacrificed in the temple than to be eaten by you. I will never come out of this temple.' The wolf after waiting for some time went away disappointed.

Exercise 30

पंचाल नरेश के तीन पुत्र थे। वृद्ध हो जाने पर उन्होंने अपना राज्य अत्यन्त योग्य पुत्र को देना चाहा। उन्होंने सबों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक से पूछा—'आपके जीवन में क्या लक्ष्य है?' सबसे बड़े पुत्र ने कहा—'पूज्य पिता जी! मैं वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ तथा अपने को ईश्वर की पूजा में लगाना चाहता हूँ।' दूसरे पुत्र ने कहा—'मुझे पवित्र ब्राह्मणों के साथ यात्रा करने की इच्छा है।' पिता ने दोनों को प्रचुर धन देकर उन्हें बाहर भेज दिया। अन्तिम पुत्र जब बुलाया गया तब उसने पिता को नमस्कार कर कहा—'पूज्य पिताजी मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और क्षत्रिय के समान रहना चाहता हूँ। मैं आपके राज्य को प्राप्त कर अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। पिता ने प्रसन्न होकर कहा—'मेरे प्यारे! मेरा राज्य तुम्हारा ही होगा।'

Or

The King of Panchala had three sons. When he grew old he wanted to give his kingdom to the most deserving son. He called them all to him and asked each of them, in turn,

what his ambition in life was. The eldest son said, "Revered father! I desire to study the Vedas and the Shastras and devote myself to worship of God. The second told his father that his desire was to go on a pilgrimage with pious-Brahmins. The father gave them both plenty of money and sent them away. The last son, when called forth bowed before his father and said, "Dear father! I am born a Kshatriya and want to live like a Kashatriya. I want to inherit your throne and many more kingdoms." The father was pleased and said, 'My darling! My kingdom shall be thine.'

Exercise 31

राजा भीम ने दमयन्ती के स्वयंवर की घोषणा की तथा सभी देशों के राजकुमारों को आमंत्रित किया। दमयन्ती की सुन्दरता को सुनकर प्रधान देवों ने भी उससे विवाह करना चाहा और उन लोगों ने भी स्वयंवर में भाग लिया। उन लोगों ने दमयन्ती के पास अपनी अभिलाषा को कहने के लिए एक दूत को भी भेजा। वे समझ गये कि दमयन्ती का हृदय नल पर अनुरक्त हो गया है और इसलिए ये चार देवता ठीक नल के रूप में स्वयंवर में प्रकट हुए। दमयन्ती पांच नलों को देखकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो गयी और वास्तविक नल को नहीं चुन सकी। उसने देवों की प्रार्थना की,—“मैंने नल के गुणों को सुना है तथा मैंने उन्हें अपने पति के रूप में वरण किया है। सत्य के लिए, देवता लोग अपने स्वरूप को ग्रहण कर लें और मेरे लिये उन्हें प्रत्यक्ष करें।” उसकी वृद्ध धारणा देखकर उन्होंने अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया। तब दमयन्ती ने नल के गले में माला डाल दी। देवताओं ने प्रसन्न होकर वर-वधू को अनेक वरदान दिये।

Or

King Bhima announced the Svayamvara of Damayanti and he invited the princes of all the countries. Hearing the beauty of Damayanti even the principal gods desired to marry her and they attended the Svayamvara. They sent also a messenger to Damayanti conveying their wish. They understood that Damayanti's heart was set on Nala and so the four gods appeared exactly like Nala at the Svayamvara.

Damayanti seeing five Nalas was perplexed and could not choose the real Nala. She then prayed to the gods, "Ever since I heard virtues of Nala have chosen him as my lord. For the sake of truth, let the gods assume their own forms and reveal him to me." Seeing her fixed resolve, they assumed their real form. Damayanti then threw the garland round Nala's neck. The gods pleased with the couple, granted them many boons.

Exercise 32

ग्रीष्म ऋतु में किसी दिन एक यात्री जंगल से होकर जा रहा था। जब अपराह्न काल हुआ, तब उसे प्यास लग गयी। सभी जलाशयों और नदियों के सूख जाने के कारण वह अपनी प्यास को बुझाने के लिए कहीं भी पानी नहीं पा सका। अन्त में वह नारियल वृक्ष के नीचे आया। इस पर कई कोमल नारियल लगे थे। किन्तु वृक्ष के अधिक लम्बे होने के कारण नारियल के फल तक उसकी पहुँच नहीं थी। वृक्ष पर अनेक बन्दरों को बैठा हुआ देखकर उस चतुर यात्री ने एक उपाय सोचा। उसने भूमि पर से कुछ पत्थरों को लेकर लगातार बन्दरों के ऊपर फेंका। इसके बाद बन्दरों ने भी जिनकी आदत दूसरों का अनुकरण करना है। नारियल (फल) को तोड़ कर यात्री को मारने के लिए फेंका। उसने उन नारियलों को बड़े आनन्द से चुन लिया (तथा) उसके मधुर जल से प्यास बुझाकर वह अपने पथ पर चल पड़ा। सहज बुद्धि मनुष्य का परम साथी है।

Or

On a certain day in summer, a traveller was walking through a forest. When it became noon, he grew very thirsty. As all the pools and rivers were dry, he could get no water anywhere to quench his thirst. At last he came to the foot of a coconut tree. There were many tender coconuts on it; but the tree was very tall and coconuts were beyond his reach. Seeing many monkeys sitting on the tree, the wise traveller hit upon a plan. He took a few stones from the ground and threw them repeatedly at the monkeys. Thereupon the monkeys, whose habit is to imitate other, plucked the coconuts and threw them at the traveller to hit him. He

picked up those coconuts with great joy, quenched his thirst with sweet water in them and went on his way. Common sense is the best companion for man.

Exercise 33

एक समय दुष्यन्त नाम का राजा रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। उसने एक मृग का पीछा किया और अन्ततोगत्वा वह कण्व के आश्रम में पहुँच गया। ऋषि तीर्थ करने के लिए बाहर चले गये थे। कण्व की कन्या शकुन्तला ने राजा का स्वागत किया। वह अत्यन्त सुन्दरी थी। दुष्यन्त ने उससे अपनी रानी बनने के लिए निवेदन किया और गन्धर्व रीति से उसके साथ विवाह कर लिया। तत्पश्चात् वह अपनी राजधानी को लौट गया। कुछ महीनों के बाद उसको एक पुत्र हुआ जो चक्रवर्ती के सभी चिह्नों से युक्त था। जब शकुन्तला पुत्र-सहित दुष्यन्त के पास गयी तो उसने साक्षात्कार तक के ज्ञान को अस्वीकृत कर दिया। तब एक स्वर्गीय ध्वनि यह कहते हुए सुनाई पड़ी—“ओ राजन्, शकुन्तला तुम्हारी पत्नी है।” इसके बाद उसने उसे स्वीकार किया और उसे अपनी प्रथम रानी बनाया।

Or

Once upon a time there lived a king, called Dushyanta. One day he went out on a hunt. He pursued a deer and at last he reached the hermitage of Kanva. But the sage had gone out on a pilgrimage. The king was received by Sakuntala, the daughter of the sage. She was very beautiful. Dushyanta requested her to become his queen and married her according to the Gandharva form of marriage. He then returned to his capital. After some months, she gave birth to a son who had all the marks of royalty. When Sakuntala stood before Dushyanta with the boy, he he denied all knowledge of having even seen her. Then a heavenly voice was heard saying “O King! Sakuntala is your wife.” He thereupon accepted her and made her his first queen.

Exercise 34

एक समय विन्ध्यपर्वत बहुत ऊपर की ओर उठ रहा था और उसने सूर्य का पथ रोक दिया। दक्षिण में सूर्य का प्रकाश न

देखकर इन्द्र तथा दूसरे देवों ने कैलास स्थित अगस्त्य के समीप पहुँच कर विन्ध्यपर्वत के दर्प को कम करने का निवेदन किया। महर्षि अगस्त्य उन लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर दक्षिण की ओर आये और उन्होंने जोर से विन्ध्य को पुकारा। महर्षि को देखकर घमण्डी विन्ध्य अपने उपदेश के स्वागत में झुक गया और उसने कहा—अपने विनीत सेवक को आशीष दें। इसके बाद महर्षि ने कहा—जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम इसी तरह अपना मस्तक झुकाये रहो। लेकिन आज तक महर्षि अगस्त्य नहीं लौटे और पर्वत भी अपने उपदेश के आज्ञापालन में बढ़ने से रुक गया। इस प्रकार देवताओं की आकांक्षा पूर्ण हो गयी।

Or

Once the Vindhya Mountain was rising higher and higher and it obstructed the path of the sun. Indra and other gods, seeing that there was no sunlight in the South, approached Agastya who was then in Kailasa and requested him to subdue the pride of the Vindhya Mountain. The holy Agastya acceded to their request, came towards the South and called aloud to the Vindhya. The proud Vindhya seeing the sage, bowed down out of reverence for its preceptor and said—“Bless your humble servant.” Thereupon the sage replied—“Remain thus with your head low until I come to you again.” But Agastya has not returned up to this day and the mountain also, in obedience to his preceptor’s command, has ceased to grow. The wishes of the gods were thus fulfilled.

Exercise 35

राजा जनक मिथिला के शासक थे। जब वे यज्ञ के लिए पवित्र भूमि को हल से जोत रहे थे, उन्होंने एक अपूर्व सुन्दर सन्तान पायी। जनक ने उसका नाम सीता रखा तथा अपनी कन्या की भाँति उसका पालन किया। उसके घर में शिव का एक विशाल धनुष था। वह इतना बड़ा और भारी था कि कोई इसे हटा भी नहीं सका। राजा ने सभी देशों के राजकुमारों को स्वयंवर में आमंत्रित कर घोषणा की—“जो राजकुमार इन धनुष को तोड़ देगा उसे ही मैं सीता को विवाह में दे दूंगा।” अनेक विख्यात राजकुमार वहाँ एकत्र हुए लेकिन कोई भी धनुष को उसके स्थान से ढिगा नहीं सका। अन्त में विश्वामित्र के

साथ राम अपने भाई लक्ष्मण सहित जनक के मण्डप में पहुँचे । ऋषि की आज्ञा से राम ने धनुष को उठाकर उसे मध्य भाग से तोड़ दिया । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, जनक ने अपनी कन्या सीता से राम का विवाह कर दिया ।

Or

King Janak ruled at Mithila. While he was ploughing the sacred ground for a sacrifice, he found a child of celestial beauty lying there. Janak called her Sita, and brought her up as his own daughter. He had in his home a mighty bow belonging to Shiva. It was so huge and heavy that no one could even move it. King Janak invited all the princes of the land to a Svayamvara and proclaimed—"I will give Sita in marriage to the hero who will bend this Shiva's bow." Numberless princes of great fame were assembled there but not one of them could even move the bow from its place. At last prince Ram and his brother Lakshman came to Janaka's hall, following the sage Vishva-mitra. With the permission of the sage, Ram took up the bow, bent it very easily and broke it in the middle. According to his word, Janak gave his daughter, Sita, in marriage to Ram.



प्राकृत-प्रबोध

भाग २

अह पेच्छिऊण एयं परिओसविसट्टलोयणजुण्ण ।
 भणियं नरसिंहेणं का एसा देवया एत्थ ॥ ११ ॥
 हसिऊण तेहिं भणियं न देवया किंतु माणुसी एसा ।
 तो कुमरेण वुत्तं - न एरिसी माणुसी होइ ॥ १२ ॥
 अह माणुसी वि जइ होज्ज एरिसी ता कुणंति जं कट्ठं ।
 के वि हु सग्गनिमित्तं तेसिं सव्वं पि तं विहलं ॥ १३ ॥
 ता तुम्ह नूणमेयं अणुत्तरंचित्तकम्म चउरत्तं ।
 इय मज्झ फुरइ चित्ते, तो भणियं कुसलनिउणेहिं ॥ १४ ॥
 अम्हाणमिहं न किचि वि चित्तकरं चित्त-कम्म-चउरत्तं ।
 दट्ठुं पि पडिच्छंदं न जेहिं सम्मं इमा लिहिया ॥ १५ ॥
 एकस्स पयावइणो वन्नसु विन्नाण - कोसलं एत्थ ।
 जेण पडिच्छंदयमंतरेण बाला विणिम्मत्रिया ॥ १६ ॥
 इय तव्वयण सोउं वियसियमुइपंकएण कुमरेण ।
 भणियं - कहेइ भदा ! का एसा कस्स वा धूया ॥ १७ ॥

तेहिं भणियं—कुमार ! सुण । अत्थि कणगउरनयरे कणगद्धओ राया,
 कणगावली से भज्जा ; ताण कणगवई नाम धूया ।

पसरंतेण समंता कणगुज्जल कायकंतिपडलेण ।
 कणयाभरणाइं पिव जा दीसइ दिसापुरंधीणं ॥ १८ ॥

सा य रुवाइसएण मुणीण वि मणहारिणी, कलाकुसलत्तणेण असरिसी
 अन्नकन्नयाणं, पत्तज्जोव्वणा समागया पित्थपायपणामत्थमत्थाणमंडवे ।
 आयन्नियं तोए बंदिणा कीरतं कुमार । तुइ गुणकित्तणं । तप्पमिइं च
 परिचत्तसेसवावारा अट्टाणदिअसुअहुंकारा कठलोलंतपचमुगारा गरुयप-
 सरंत नीसासा कुमारगुणसंकहामेत्तपत्तआसासा संजाया सा । सुणियमिणं
 से सहीहितो रत्ता । कि इमीए ठाणे अणुराओ ; कुमारस्स वि केरिसं इमं
 पइ चित्तं त्ति जाणणत्थं, कुमारस्स पडिच्छंदयं आणेउं, इमं कणगवई-
 पडिच्छंदयं च दंसिउं पेसिया इत्थ अम्हे । कुमार ! नगरुज्जाणे राहावेहेण
 धणुव्वेयमवभसंतो पुरपरिसरे विविहतुरंगवगवग्गणविणोयमणुहवंतो सीह-
 दुवारे वारणारोहकीलं कुणतो य दिट्ठो तुमं । तओ सरीरसुन्देरदलियकं-
 दप्पदप्पस्स कुमारस्स अहो अविकलं कलाकोसल्लं ति पत्ता विम्हया अम्हे ।
 इमं च सोऊण मयणसरगोयरं गओ कुमारो । तहा वि नियमागारं गूहंतेण
 तेण भणियं-भण भो मइसार ! कि पि समस्सापयं ! पहसियमुहेण जंपियं
 मइसारेण—‘करि सफल उं अप्पाणु’ । सिग्घमेव भणियं कुमारेण—

पट्टिविज्रवि दय देव गुरु देवि सुपत्तिहि दाणु ।

विरइवि दीणजणुद्धरणु करि सफलउं अप्पाणु ॥ १६ ॥

कुसलेण वुत्तं—अहो कुमारस्स कळ्ळकरणसत्ती ! कुमारेण जपियं—
बुद्धिसार ! तुमं पढसु । तेण पढियं—‘इहु भल्लिम पज्जंतु’ ।

कुमारेण भणियं—

‘पुत्त जु रंजइ जणयमणु थी आराहइ कंतु ।

भिच्चु पसन्नु करइ पहु इहु भल्लिम पज्जंतु ॥’ २० ॥

अहो अइसओ त्ति भणियं निउणेण—कुमार ! मए वि समस्सा चितिया
अत्थि तं पूरेसु । कुमारेण वुत्तं—पढसु । पढिया निउणेण—

‘मरगयवन्नह पियह उरि पिय चंपय-पहद्देह’ ।

तक्कालमेव कुमारेण भणियं—

‘कसवट्टइ दिन्निय सहइ नाइ सुवन्नइ रेह ॥’ २१ ॥

निउणेण भणियं—जं चेव चितियं उत्तरद्धं मए तं चेव कुमारस्स
वि फुरियं । अहो बुद्धिपगरिसो । कुसलेण वुत्तं—ममावि समस्सं पूरेसु ।
पढिया तेण—

‘चूडउ चुन्नी होइसइ मुद्धि कवोलि निहित्तु ।’

कुमारेण भणियं—

‘सासानलिण भल्लक्कियउ वाहसल्लिसंसित्तु ॥’ २२ ॥

कुसलेण वुत्तं—अहो अच्छरियं । पच्छक्खसरस्सई कुमारो । भणिओ
कुमारेण कुबेरो नाम भंडागारिओ—भो एयाणं देहि दीणार-लक्खं कुबेरेण
वुत्तं—जं देवो आणवेइ त्ति । चितियं च—अहो मुद्धया कुमारस्स जं
अलक्खं दाणमेव नत्थि । नूणं न याणइ लक्ख परिमाणमिमो । ता तं
संपाडेमि एएसि कुमारपुरओ चेव जेण लक्खो महापमाणो त्ति मुण्डण
न पुणो थेवकज्जे एवमाणवइ त्ति । तओ तेण तत्थेव आणाविओ दीणार-
लक्खो, पुंजिओ कुमार पुरओ । भणियं कुमारेण—भो कुबेर ! किमेयं त्ति ?
तेण वुत्तं—देव ! एस सो दीणारलक्खो, जो पसाईकओ कुमारेण एएसि
कुसल निउणाणं । कुमारेण चितियं—हंत ! किमेयं संपयं सपयाण दंसणं,
नूणं पभूओ खु लक्खो एयस्स पढिहाइ । ता मं सुहित्तणेण किर पढि-
वोहिउण एयस्स दंसणेण नियत्तेइ इमाओ अपरिमियमहादाणाओ, नेच्छइ
य मळ्ळ संपया परिवभंसं त्ति । अहो मूटया कुबेरस्स । एगंतवज्जे-
अणाणुगामिए सहजीवेण साहारणे अग्गिटफराईणं, पयाणमित्तफने,

परमत्थओ आवयाकारए अत्थे त्रि पडिवंधो । ता पडिवोहेमि एयं । तओ भणियं—अज्ज कुवेर ! क्खिसेसो लक्खो ? कुवेरेण भणियं—देव एसो । कुमारेण वुत्तं—भो किं दोणहं एगमित्तेण, कित्तिओ वा एगलक्खो ? न खलु एएण इत्थं पि जम्मे एए चित्तदारया परिमिणात्रि वएण सुहिणो भवंति । न य असंपयाणेण अपरिञ्चसो संपयाए । अवि य खीणे य पुन्त संभारे नियमा विणस्सइ ।

तहा—

अणुदियहं दिंतस्स त्रि भिज्जंति न सायरस्स रयणाई ।

पुअक्खएण भिज्जइ ता रिद्धी न उण चाएण ॥ २३ ॥

अदिज्जमाणा त्रि अन्नेसि, अपरिभुज्जमाणा त्रि अत्तणा, गोविज्जमाणा त्रि पच्छन्ने, रत्तिखज्जमाणा त्रि पयत्तेण, असंसयं नस्सइ एसा । कि वा दाणभोग रहियाए अवित्तिकम्मयरमेत्ताए संपयाए त्ति वा वीयं पि लक्खं देहि । कुवेरेण वुत्तं—जं देवो आणवेइ । अहो उदारया कुमारस्स त्ति विम्हिहा कुसल निउणा । चित्तवट्ठियं पुणो पुणो पिच्छंतेण पडियं कुमारेण—

मयणधरिणी नूणं दासीदसं पि न पावए ।

तिणयण-पिया पत्ता लोए तणं व लहुत्तणं ॥

सल्लिनिहिणो धूया धूलीसमा वि न सोहए ।

अमर महिला हीलाठाणं इमीए पुरो भवे ॥ २४ ॥

चित्तियं कुसलनिउणेहिं—कयत्था कणगवई कुमारी जा कुमारेण एवं चहुमण्णिज्जइ । संपत्तमग्हाण समीहिअं । एत्थंतरे मज्जणसमउ त्ति उट्ठिओ कुमारो । गया नियावासं कुसलनिगुणा । एवं कुमार सेवा परा ठिया कित्तियं पि कालं । कुमाररूवं आलिहिउण चित्तवट्ठए पत्ता कणगपुरं । दंसिओ कुमारपडिच्छंदां कणगद्वयस्स । कहिओ कुमारवुत्तंतो । भणियं रत्ता-ठाणे अणुराओ कुमारीए । इमं पइ अणुरत्तो य कुमारो । तओ चउरंग बलकलिया पेसिया कणगवई ।

पत्ता मायंदीए इंदीवरलोनया पसत्थदियो ।

परिणीया कुमरेणं एसा लच्छि व्व कणहेण ॥ २५ ॥

अह नरचंदो राया रज्जम्मि निवेसिउण नरसिंहं ।

पव्वज्जं पडिवन्नो मुणिचंद मुणीसर समीवे ॥ २६ ॥

ता नरसिंहो राया अणुरायपरव्वसो विसयगिद्धो ।

चिट्ठइ पेसंतो च्चिय कणगवईए वयणकमलं ॥ २७ ॥

सो नट्टगीयवाइत्तचित्तकम्माइणा विणोएण ।
 तीए च्चिअ अक्खित्तो तणं व रज्जं पि मन्नेइ ॥ २८ ॥
 करि तुरयकोसचितं न कुणइ, न महायणं पलोएइ ।
 नियदेसं पि न रक्खइ पच्चंतनिवेहि भज्जंतं ॥ २९ ॥
 तो गुत्तिएण सूरेण मंतिउं सह पहाणपुरेसेहिं ।
 गहिउं रज्जं निस्सारिओ य एसो पियासहिओ ॥ ३० ॥
 सो भमइ महीवलयं छुहापिवासाइदुहभरक्कंतो ।
 कामाउराणमहवा कित्तियमेयं मणुस्साणं ॥ ३१ ॥
 अह काणणम्मि एकम्मि मग्गखिन्नस्स वीसमतस्स ।
 दइउच्छंग निवेसियसिरस्स तस्सागया निहा ॥ ३२ ॥
 एत्थंतरम्मि हरिया कणगवई खेयरेण केणावि ।
 हा नाह । रक्ख रक्ख त्ति करुणसहं विलवमाणी ॥ ३३ ॥
 रत्ता वि विबुद्धेणं कड्ढियखग्गेण जंपिओ खयरो ।
 सुत्तस्स मे पिययमं तुमं हरंतो न लज्जेसि ॥ ३४ ॥
 ता मुंच पियं मह होसु संमुहो जइ तुमं मणुस्तोसि ।
 जेण तुह सिक्खमिमिणा करेमि तिक्खग्ग खग्गेण ॥ ३५ ॥
 इय तस्स भणंतस्स वि खरोएण खयरो अदंसणं पत्तो ।
 तत्तो विसण्णचित्तो नरसिंहो विलवए एवं ॥ ३६ ॥
 हा ! कमल विउलनयणे । मयंक वयणे ! सुहामहुरवयणे ।
 तुमए त्रिणा विणासो सुहस्स मह संपयं जाओ ॥ ३७ ॥
 अमओवमेण तुह दंसणेण परिओसमुव्वहंतस्स ।
 मह न मणुव्वेगकरं रज्जपरिउभंसदुक्खं पि ॥ ३८ ॥
 करि तुरय रह समिद्धं रज्जं हरिउण किं न तुट्ठोसि ।
 जं हचविहि ! हरसि तुमं मह हिययासासणं दइयं ॥ ३९ ॥
 वसणम्मि ऊसवम्मि यं अभिअहियया हवंति सप्पुरिसा ।
 इय चित्तिउण एसो नरसिंहो धरइ धीरत्तं ॥ ४० ॥
 अज्जिइंदियत्तणेणं भंसं रज्जस्स अहमिणं पत्तो ।
 तत्तो त्रिवज्जइस्सं अओ परं रमणि संभोगं ॥ ४१ ॥
 जा पुण वि रज्जलाभो न होइ इय नियमणम्मि संठविइं ।
 नो बट्टविह देसेनुं परिउभमंतो गमइ कालं ॥ ४२ ॥
 अह सिरिउरम्मि नयरे वीसंतो नयर देवचाययणे ।
 सो तत्थ निव दइयं दट्ठं परिओसमावओ ॥ ४३ ॥

जंपइ तुमं पिययमे कहमिह पत्ता अणअभवुट्टि व्व ।
 सा भणइ खेयरेण नीयाऽहं तेण नियनयरे ॥ ४४ ॥
 अणुरायपरवसेणं बहुसो अब्भव्थिया य भोगत्थं ।
 नय मन्निओमए सो जणयसुयाए व्व दहवयणो ॥ ४५ ॥
 तत्तो विलक्खचित्तेण तेण इह आणिरुण मुक्काऽहं ।
 रत्ता भणिसं—को कुणइ परिभवं सीलवंतीणं ॥ ४६ ॥
 अह वल्लहं पि मित्ताविरुण नहलच्चिसंगमं सुगो ।
 हय दिव्वनिओगेणं गमिओ अत्थ गिरिसिहरवणं ॥ ४७ ॥
 तो पयडिडं पवत्ता पढमं संज्झा सुनिव्वरं रायं ।
 खुद्दमहित व्व पच्छा संजाया तक्खणं विराया ॥ ४८ ॥
 रयणीए पत्थिवो तत्थ पत्थरे विहियसत्थरे सुत्तो ।
 एसा वि य सुत्ता तस्सं चेव आसन्नदेसम्मि ॥ ४९ ॥
 तम्मि समयम्मि वट्टह हेमंतो कामवसियरणमंतो ।
 अग्घवियतेल्लकुंकुम कामिणी थण जलण पावरणो ॥ ५० ॥
 अह जंपिय इमीए-नाह ! दढं पीडियम्मि सीएण ।
 नियपडपेरंतेणं पावरिया तो इमा रत्ता ॥ ५१ ॥
 सा पाणिपल्लवेहि आढता फरिसिडं सिवस्स तणुं ।
 तह पीडिडं पवत्ता थणकलसभरेण वच्छयल ॥ ५२ ॥
 तो रत्ता पडिसिद्धा सा जंपइ-नाह ! किं निवारेसि ।
 विरहानलसंतत्तं चिराड मं किं न निव्वहसि ॥ ५३ ॥
 सो भणइ—रज्ज लभं जाव मए वज्जिओ जुवइसंगो ।
 सा वि विलक्खा तं भेसिडं कुणइ अत्तणो वुड्ढि ॥ ५४ ॥
 तं दट्ठुं वड्ढंति दइयाविसरिसवियारजुत्तं च ।
 मज्झ पिया कणगवई न इमं त्ति विणिच्चिञ्चयं रत्ता ॥ ५५ ॥
 हियडा संकुट्टि मिरिय जिव इंदियपसरु निवारी ।
 जित्तिड पुज्जइ पंगुरणु तित्तिड पाठ पसारि ॥ ५६ ॥
 एअं पि तए न सुअं आ पावे ! फिट्ठसु त्ति वित्तेण ।
 हणिरुण मत्थए सा हत्थेण गलत्थिया दूरं ॥ ५७ ॥

तओ देवयारुवं पयडिऊण भणिओ तीए राया—भद, अहं नयर-
 देवया । तुह रूवखित्तचित्ताए चित्तियं मए—मयणो व्व मणहरो किं
 एस एगागि त्ति जाणिया य ते भज्जा खेयरेण अवहरिया । ता तीए रूवं
 काऊण भोगत्थमव्वत्थिओ तुमं । सत्तसारत्तणेण तुमए न खंडिओ नियमो ।
 पच्छा तुह भेसणत्थ वड्ढिडं पवत्ता । तहावि खोहिडं न सक्किओ तुमं ।

ता महासत्त । तुह तुट्टाऽहं । किं पि पत्थेसु पत्थिवेणं वुत्तं—अउन्नजण-
दुल्लहं दिव्वदंसणं दितीए तुमए कि न दिन्नं । अओ परं किं पत्थेमि ?
अमोहं दिव्वदंसणं ति भणतीए देवयाए वट्ठं रन्नो भुआए अणप्प
माहप्पमणिसणाहं रक्खाकडयं, भणिय च—इमिणा बाहुवद्धेण न पहवंति
जक्खरक्खसाइणो ।

ता वच्च कंचणउरे तुह होहि तत्थ रज्ज सम्पत्ती ।

इय जंपिऊण पत्ता अदंसणं देवया इत्ति ॥ ५८ ॥

सो पच्चूखे चलिओ कमेण कचणउरम्मि संपत्तो ।

रज्जापयाणपडहं वज्जंतं तत्थ निसुणेइ ॥ ५९ ॥

तो विम्हिण्ण इमिणा वत्थव्वो तत्थ पुच्छिओ पुरिसो ।

कि दिज्जंतं पि इमं रज्जं न हु को त्रि गिण्हेइ ॥ ६० ॥

तेण कहियं—जो एत्थ रज्जे निवसइ सो पढमनिसाए चेव
विणस्सइ । नरसीहेण छित्तो पढहो । नीओ सो भवणं । निवेसिओ रज्जे ।
विविह विणोएहि अइक्कंतं दिणं, आगया रयणी । जग्गतस्स भयं
नत्थि त्ति पल्लकं मुत्तण दीवच्छायाए गहियखगो जग्गतो ठिओ राया
मज्जरत्ते पत्तो रक्खसो । दिन्नो तेण खग्गाओ पल्लके जाव न कोइ
विणासिओ, ताव जोइया दिसाओ । दिट्ठो राया । रज्जावुत्तं—को तुमं
जो सुत्तेसु पहरसि ? तेण वुत्तं—अहं रक्खसो । को पुण तुमं ? रज्जा
वुत्तं—अहं भेक्खसो ।

ता रक्खसेन हसिऊण जंपियं—भइ ! अवितहं जायं ।

जं 'हुंति रक्खसाणं पि भेक्खसा' लोयवयणमिणं ॥

अन्न च सुण नरेसर, इह नयरे आसि दुम्मई राया ।

तत्थ विमलस्स वणिणो भज्जा रइसुंदरी नाम ॥

रइसमरुव त्ति निवेण तेण अंतवरस्मि सा बूढा ।

तन्विरहे नेहवसेण भोयण चउविहं चइउं ॥

विमलो मरणो पत्तो संजाओ रक्खसो, इमा सोऽहं ।

संभरियपुव्ववेरेण दुम्मई सो मए निहओ ॥

जो को त्रि तस्स रजम्मि निवसए तं पि इत्ति निहणेमि ।

भइ ! तुमं तु परत्थीपरम्मुहो तेण तुट्टोऽहं ॥

ता कुणसु इमं रज्जं तुमंति वुत्तं तिरोहिओ रक्खो ।

कयलोयउमफारो नरसीह निवो कुणइ रज्जं ॥ ६१ ॥

अह तत्थ समोसरिओ संतिजिणो तस्स वंदणनिमित्तं ।

राया गओ जिणिदं नमिदं परिस्ताए विणिविट्ठो ॥ ६२ ॥

अह कणगवइं देवि समप्पिडं खेयरेण नरसीहो ।
 भणिओ एवं—नरनाह ! जं मए मयणवसणेण ॥ ५३ ॥
 अवहरिया तुह देवी तमहं कुलदेवयाइ सिक्खविओ ।
 तुमए कयं अजुत्तं जं आणाया इमा देवी ॥ ६४ ॥
 एयं महासइं खलु खलीकरंतो लहिस्ससि अणत्थं ।
 ता संतिसमोसरणे नेइं अप्पसु इमं तस्स ॥ ६५ ॥
 संति समोसरणठिओ तुममेत्तियकालाओ मए दिट्ठो ।
 ता खमसु मे महायस । देवी अ्वहारअवराहं ॥ ६६ ॥
 कम्माण एस दोसो न तुह त्ति खमापरो भणइ राया ।
 जम्हा चयंति वेरं विरोहिणो जिणसमोसरणे ॥ ६७ ॥
 अह भणइ संतिनाहो सव्वमिमं एस कम्मदोसो त्ति ।
 पत्तोसि रज्जविगमप्पमुहदुहं तव्वसेण जओ ॥ ६८ ॥
 तं पुण सुण पत्थिव ! इत्थ अत्थि वित्थिन्नवाविकूवसरं ।
 सीहउरं नाम पुरं तत्थ वणी गगणागो त्ति ॥ ६९ ॥
 जो वीयराय भत्तो मुणिजणपयपब्जुवासणासत्तो ।
 नीसेस दोस चत्तो गुरुसत्तो मुणियनव तत्तो ॥ ७० ॥
 तस्सासि पयइभदो वरुणो नामेण गेहकम्मयरो ।
 सो पत्तो सह इमिणा मुणीण पासे सुणइ एयं ॥ ७१ ॥
 पर दोह वट्ट वाट्ठणबंदग्गह खत्त खणणपमुहाइं ।
 पर धणलुद्धो जो कुणइ लहइ सो तिकखदुक्खाइं ॥ ७२ ॥
 वरुणो गिण्हइ नियमं जाजीवं चोरिया मए चत्ता ।
 गेह गयण सिरिए धरिणीए तेण क्हियमिणं ॥ ७३ ॥
 जुत्तं विहियं तुमए ममावि नियमो इमो त्ति भणइ सिरी ।
 इय नियमपराणं ताण नेहपवराण जंति दिणा ॥ ७४ ॥
 अह गंगणागगेहे वरुणेण सुवन्नसंकलं दिट्ठं ।
 चलियमणेणं गहिऊण अप्पियं तं नियपियाए ॥ ७५ ॥
 मुणिऊण गगणागो तं नट्ठं सोगनिव्वभरो भणइ ।
 हा निक्खिणेण केण वि हरियं मह जीवियं व इमं ॥ ७६ ॥
 तं विलवंतं दट्ठं दया-परा जंपए पिया वरुणं ।
 एयं सुवन्नसंकलमप्पसु पिय ! गंगणागस्स ॥ ७७ ॥
 एयं कयम्मि सत्थो होइ नियमपालणं च भवे ।
 वरुणेण अप्पियं तं इमस्स जाओ सो य सत्थो ॥ ७८ ॥

वरुणो क्रमेण मरिडं जाओसि तुमं नरिंद ! नरसीहो ।
 तुह पुव्वजम्मभज्जा जाया एसा उ कणगवई ॥ ७९ ॥
 जं चोरियाए नियमो गहिओ तं पावियं तए रज्जं ।
 जं संखलं तु गहियं रज्जाओ तेण चुक्कोसि ॥ ८० ॥
 जं पुण समप्पियमिणं साणुक्कोसेण गंगणागस्स ।
 तं नरसीह नराहिव ! पुणो वि पत्तोसि रज्जसिरिं ॥ ८१ ॥
 इयसोउं संभग्गिओ पुव्वभवो तो पयंपियं रज्जा ।
 देवीए य अवितहं नाह ! तए अक्खियं पयं ॥ ८२ ॥
 दोहि पि देसविरई पडिवज्जा संतिनाहपयमूले ।
 भवभयहरणो भयवं विहरिओ अन्नठाणेसु ॥ ८३ ॥
 पालियज्जिणधम्माइं दुन्नि वि समए समाहिणामरिडं ।
 सोहम्मदेवलोयं पत्ताइं क्रमेण मोक्खं च ॥ ८४ ॥

चाणक्यकथायां

गोल्लविसए चणयगामो, तत्थ चणगो माहणो सो च सावओ । तस्स घरे साहू ठिया । पुत्तो से जाओ सह ढाढाहिं । साहूणं पाएसु पाडिओ । कहियं च—राया भविस्सइ त्ति । 'या दोगइं जाइस्सइ' त्ति दंता वट्ठा । पुणो वि आयरियाण कहियं—किं किञ्जउ ? एत्ताहे वि विवंतरिओ राया भविस्सइ । उग्मुक्कवालभावेण चोदस विज्जाठाणाणि आगमियाणि—

अंगाईं चउरो वेया, मीमांसा नायवित्थरो ।

पुराणं धम्मसत्थं च ठाणा चोदस आहिया ॥ १ ॥

सिक्खा वागरणं चेत्र, निरुत्तं छंद जोइसं ।

कप्पो य अवरो होइ, छच्च अंगा विआहिया ॥ २ ॥

सो सावओ संतुटो । एगाओ दरिद्दमदमाहणकुलाओ भज्जा परिणीआ । अन्नया भाइविवाहे सा माइवरं गया । तीसे य भगिणीओ अन्नेसि खद्धादाणियाणं^१ दिन्नाओ । ताओ अलंकियभूसियाओ आग याओ । सव्वो परियाणो ताहिं समं संलवइ, आयरं च करेइ । सा एगागिणी अवगीया अच्छइ । अद्वितीयजाया । घरं आगया । दिट्ठा य ससोगा चाणक्यकेण, पुच्छिया सोगकरण । न जंपए, केवलं असुधाराहि सिचंती कवोले नीससइ दीहं । ताहे निव्वंधेण लग्गो । कहियं सगगय-वाणीए जहट्टियं । चितियं च तेण—अहो ! अवमाणणाहेउ निद्धणत्तण जेण माइघरे वि एवं परिभवो ? अहवा—

अलियं पि जणो धणइत्तमस्स सयणत्तण पयासेइ ।

परमत्थवंधकेण वि लज्जिज्जइ हीणविहवण ॥ १ ॥

तहा—

कज्जेण विणा जेहो, अत्थविहूणाण गउरवं लोए ।

पड्डिन्ने निव्वहणं, कुणन्ति जे ते जए विरला ॥ २ ॥

ता धणं उवड्जिणामि केणइ उवाएण, नंदो पाडलिपुत्ते दियाईणं धणं देई, तत्थ वच्चामि । तओ गंतूण कत्तियपुन्निमाए पुव्वन्नत्थे आसणे पढमे निसन्नो । तं च तस्स पल्लीवइ राउलस्स सया ठविज्जइ । सिद्ध-पुत्तो य नंदेण समं तत्थ आगओ भणइ—एस वंभणो नंदवंसस्स छायां अक्कमिउण ट्ठिओ । भणिओ दासीए—भयवं ! बीए आसणे निवेसाहि ।

‘एवं होउ’ विइए आसरो कुंडियं ठवेइ, एवं तइए दंडयं, चउत्थे गणेत्तियं पंचमे जन्तोवइय । ‘धट्टो’ त्ति विच्छट्टो । पदोसमावन्नो भणइ—

कोशेन भृत्यैश्च निवद्धमूलं, पुत्रैश्च मित्रैश्च विदृद्धशाखम् ।

उत्पात्य नदं परिवर्त्तयामि, महाद्रुमं वायुरिवोन्नवेगः ॥ १ ॥

निरगओ मग्गइ पुरिसं । सुयं च रोण—विंवंतरिओ राया होहामि त्ति । नंदस्स मोरपोसगा तेसि गामे गओ परिवायल्लिगेण । तेसि च मयहरधूयाए चंद्रपियणम्मि दोहत्तो । सो समुयाणितो^१ गओ । पुच्छति । सो भणइ—मम दारग देह तो णं पाएमि चंद्रं । पडिसुणति । पडमंडवो कओ, तद्विसं पुत्तिमा, मउक्के छिड्डुं कयं, मउज्जण्हगए चंदे सव्वरसाल्हि दव्वेहि संजो-उत्ता खीरस्स थाल भरियं सदाविया पेच्छइ पिवइ य । उवरि पुरिसो उच्छाडेड । अणणीए दोहले कालकमेण पुत्तो जाओ । चंद्रगुत्तो से नामं कय । सो वि ताव संवड्डुइ । चाणक्को वि धाउविलाणि मग्गइ । ‘सो य दारएहि समं रमइ । रायनीईए विभासा । चाणक्को य पडिपइ । पेच्छइ । तेण वि मग्गिओ—अम्ह वि दिज्जउ । भणइ—गावीओ लएहि । या मारिज्जा कोइ । भणइ—वीरभोज्जा पुहई । नायं—जहा विम्नाणं पि से अत्थि । पुच्छिओ—कस्म ? त्ति । दारगेहि कहियं—परिव्वायगटुत्तो एस । अह सो वरिव्वायगो, जामु जा ते रायाण करेमि । सो तेण समं पलाओ । लोगो मेलिओ ।

पाडलिपुत्त रोहियं । नंदेण भग्गो परिव्वायगो पलाणो । अस्सेहि पच्छओ लग्गा पुरिसा । चंद्रगुत्तं पडसिणीसंडे छुभेत्ता रयओ जाओ चाणक्को’ नदसतिएण जच्चवल्हीगकिसोरगएणमासवारेण पुच्छिओ—कहि चंद्रगुत्तो ? । भणइ—एस पउमसरे पविट्टो चिट्ठइ । सो आसवारेण विट्ठो । तओ रोण घोडनो चाणकस्स अण्णिओ, खडगं मुक्कं । जाव निगुटिओ, जलोयरणट्टयाए । कच्चुगं नेरुउड ताव रोण खग्गं घेत्तण दुत्ता कओ । पच्छा चंद्रगुत्तो हक्कारिय चडाविओ । पुणो पलाणो । पुच्छिओ णेण चंद्रगुत्तो जं वेळ वि सिट्टो तं वेळ कि वितयं तए ? तेण पणियं—एदि ! एवं चेर नोहण मयड, अण्णो चेर णणइ त्ति । तयो रोण जाणिय—जोगो. न एव विपरिणमड । पच्छा चंद्रगुत्तो पलाओ । चाणको त टवेत्ता भत्तमत्त अट्टगत्रो, वीहेइ—ना एत्थ गएजेजामो । उटम्मरे वहे निगवग्गम ददिकूर गहाय आगओ । तिमिओ दारगो । अग्गन्ध समुयाणितो गामे परिणमड । एगम्मि गिट्ठे थेरीए

पुत्तभंडाणं विलेवी^१ पवड्डिया^२ । एगेण हत्थो मज्जे छूढो । सो दड्ढो रोवइ । ताए भन्नइ—चाणक्कमंगल^३ । भेतुं पि न याणासि । तेण पुच्छिया भणइ—पासाणि पढमं घेप्पंति तं परिभाविय गओ हिमवंतकूढं । तत्थ पव्वयओ राया तेण समं मेत्ती कया । भणइ—नंदरज्जं समं समेण विभज्जयामो । पडिवन्नं च तेण । ओयविउमाइता । एतथ नयरं न पडइ । पविट्ठो तिरंडी वत्थूणि जोएइ । इंद कुमारियाओ दिट्ठाओ । तासि तेएण न पडइ । मायाए नीणावियाओ । गहियं नयरं । पाडलिपुत्तं तओ रोहियं ।

नंदो धम्मदारं मग्गइ । एगेण रहेण जं तरसि तं नीणेहि । दो भग्जाओ एगा कन्ना दव्वं च नीणेइ । कन्ना निग्गच्छंती पुणो पुणो चंगुत्तं पलोएइ । नंदेण भणियं—जाहि त्ति । गया । ताए विलभंतीए चंदगुत्तरहे नव आरगा भग्गा । ‘अमंगलं’ ति निवारिया तेण । तिदंडी भणइ—मा निवारेहि । नव पुरिसजुगाणि तुज्जवंसो होही । पडिवन्नं । राउलमइगया । दो भागा कयं रज्जं । तत्थ एगा विसकन्ना आसि, तत्थ पव्वयगस्स इच्छा जाया । सा तस्स दिन्ना । अग्गपरियंचणेण विसपरिगओ मरिउमारद्धो । भणइ—वयंस ! मरिज्जइ । चंदगुत्तो ‘संभामि’ ति ववसिओ । चाणक्केण भिवडी कया इमं नीति सरंतेण—

तुल्यार्थं तुल्यसामर्थ्यं, मर्मज्ञं व्यवसायिनम् ।

अर्द्धराज्यहरं भृत्यं यो न हन्यात्स हन्यते ॥ १ ॥

ठिओ चंदगुत्तो । दो वि रज्जाणि तस्स जायाणि । नंदमणुस्सा य चोरियाए जीवति । देसं अभिद्वंति । चाणक्को अन्नं उग्गतं चोरग्गाहं मग्गइ । गओ नयरवाहिरियं । दिट्ठो तत्थ नलदायो कुविदो । पुत्तयडसणामरिसिओ खणिऊण विलं जलणपज्जालणेण मूलाओ उच्छायंतो मक्कोडए । तओ ‘सोहणो एस चोरग्गाहो’ त्ति ब्राहराविओ । सम्माणिऊण य दिणं तस्साऽऽरक्खं । तेण चोरो भत्तदाणाइणाकओवयारा वीसत्था सव्वे सकुडुंवा बावाइया । जायं निक्कंटयं रज्जं । कोसनिमित्तं च चाणक्केण महिड्डियकोडुंबिएहि सद्धिं आढत्तं मज्जपाणं । वायावेइ होलं । उट्ठिऊण य तेसि उप्फेसणत्थं गाएइ इमं पणच्चंतो गीइयं—

दो मज्ज धाउरत्ताइं, कंचणकुंडिया निदंडं च ।

राया वि मे वसवत्ती, एत्थ वि ता मे होलं वाएहि ॥

१. महेरी—एक प्रकार का खाद्य ?

२. परोसा ।

३. यहाँ मंगल शब्द समानार्थवाचक है ।

इमं सोऽङ्ग अन्नो असहमाणो कस्सइ अपयडियपुव्वं नियरिद्धि
पयडंतो नच्चिचरमारद्धो । जओ—

कुवियस्स आउरस्स य, वसणं पत्तस्स रांगरत्तस्स ।
मत्तस्स मरंतस्स य, सव्भावा पायडा होंति ॥

पढियं च तेण—

गयपोययस्स मत्तस्स, उप्पइयस्स य जोयणसहस्सं ।
पए पए सयसहस्सं, एत्थ वि ता मे होलं वाएहि ॥

अन्नो भणइ—

तिल आढयस्स वुत्तस्स, निप्फन्नस्स बहुसइयस्स ।
तिले तिले सथसहस्सं, सत्थ वि ता मे होलं वाएहि ॥

अन्नो भणइ—

एवपाउसम्मि पुञ्जाए, गिरिनदियाए सिग्वेगाए ।
एगाहमहियमेत्तेण, नवणीएण पालि वंधामि ॥
—एत्थ वि ता मे होलं वाएहि ॥

अन्नो भणइ—

जच्चाण एवकिसोराण, तद्विवसेण जायमेत्ताणं ।
केसेहि नभं छाएमि एत्थ वि ता मे होलं वाएहि ॥

अन्नो भणइ—

दो मद्ध अत्थि रयणाइं, सालिपसूई य गद्भीया य ।
छिन्ना छिन्ना वि सटंति, एत्थ वि ता मे होलं वाएहि ॥

अन्नो भणइ—

सय मुक्किल निच्चसुयंधो, भज्ज अणुवयय एत्थि पवासो ।
निरिणो य दुपंचसओ, एत्थ वि ता मे होलं वाएहि ॥

एवं नाउण द्दव्वं मग्गियं जहोच्चियं । कोट्टारा भरिया सालीणं, ताओ
छिन्ना छिन्ना पुगा जाचंति । आसा एगद्विसजाया मग्गिया एगदेवसियं
नवणीयं । सुवन्नुप्पायणरथं च चागङ्गेण जंतपासयाक्या । कई भणंति—
घरदिन्नया । तओ एगो दक्खो पुरिसो सिक्ख्याविओ । दीणारथालं भरियं
सो भणइ—जइ ममं योउ जिणइ. तो थालं गित्ठउ । अह अहं जिणामि तो
एगं दीणार गित्ठामि । तम्मन्-इच्छाए पात्ता पडति । अओ न तीरए
जिणिउ । जह सो न जिणइ एवं म णुमलंभो वि ।

—उत्तराभ्ययन : सुखबोध टीका

आहीरीवंचगवणिगकहाणगं

एगम्मि नयरे एगो वाणियगो अंतरावणे ववहरइ । एगा आभारी उब्जुगा दो रूवगे घेतून कप्पासनिमित्तमुवट्टिया । कप्पासो य तथा सम-हग्घो य वट्टइ । तेण वाणियगेण सगस्स रूवगस्स दो वारे तोलेउं कप्पासो दिन्नो । सा जाणइ 'दोव्ह वि रूवगाण दिन्नो' त्ति सा पोट्टलयं वंधेउं गया । पच्छा सो वाणियगो चित्तेइ—एस रूवगो मुट्टा लट्ठो, तओ अहं एयं उव-भुंजामि । तेण तस्स रूवगस्स समियं घयं गुलो य किणिउं घरे विसज्जियं । भज्जा संलत्ता—घयपुन्ने करेज्जासि त्ति । ताए कया घयपुत्ता ।

एत्थंतरे ऊसुगो जामाउगो से सवयंसगो आगओ । सो ते य घयपूरे भुंजिउं गओ । वाणियो ण्हाओ, भोयणत्थमुवगओ । ताए साभावियं भत्तं परिवेसियं । तेण भन्नइ—किं न कया घयपूरया ? ताए भन्नइ—कया, परं जामाउगेण सवयंसेण खाइया । सो चित्तेइ—पेच्छ, जारिसं कयं मया, सा वराई आभारी वंचेउं परनिमित्तं अप्पा अपुन्नेण संजोइओ । सो य सचितो सरीर चित्ताए निग्गओ । गिम्हो य तथा वट्टइ । सो य मज्झणह्वेलाए कयसरीर-चित्तो एगस्स रुक्खस्स हेट्ठा वीसमइ । साहू य तेणोगासेण भिक्खनिमित्तं ज्ञाइ । तेण सो भन्नइ—भयवं ! एत्थ रुक्खच्छायाए वीसमह मया समाणं त्ति । साहुणा भगियं—तुरियं मए नियमकज्जेण गंतव्वं ।

वणिण भणियं—किं भयवं ! को वि परकज्जेणावि गच्छइ ? साहुणा भणियं जहा तुम विय भज्जाइनिमित्तं किलिस्ससि । स मग्गणीव सिट्ठो तेणेव एक्कवयणेण संबुद्धो भगइ—भयवं तुव्भे कत्थ अच्छह ? तेण भन्नइ—उज्जाणे । तओ तं साहुं कयपज्जित्तियं नाऊण तस्स सगासं गओ । धम्मं सोढं भणइ—पव्वयामि जाव सयणं आपुच्छामि । गओ नियमं घरं । वंधवे भज्जं च भणइ—

जहा आवणे ववहरंतस्स तुच्छो लाभगो ता दिसावाणिज्ज करेमि । दो य सत्थवाहा, तत्थेगो मुल्लभंडं दाऊण सुहेण इट्ठपुरं पावेइ, तत्थ य विठत्तं न किचि गिण्हइ, वीओ न किचि भंडमुल्लं देइ पुव्वविठत्तं च तुंपेइ, तं कयरेण सत्थेण सह वच्चामि ? सयणेण भणियं—पढमएण सह वच्चसु । तेहि सो समणुत्ताओ वंधुसंगओ गओ उज्जाण । तेहि भणइ—कयरो सत्थवाहो ? तेण भणइ—णणु परलोगसत्थवाहो एस साहू असोगच्छायाए उवविट्ठो नियण मंडेणं ववहरावेइ, एएण सह निव्वाणपट्टणं जामि त्ति । एवं सो पव्वइओ ।

सुखबोधटीका

कविलकहाणसं

अत्थि कोसंबी नाम नयरी । जियसत्तू राया । कासवो वंभणो चोद-
सविज्जाणपारगो राइणो बहुमत्था । वित्ती से उवकप्पिया । तस्स जसा
नाम भारिया ! तेषिं पुत्रो कविलो नाम कासवो तम्मि कविले खुड्डुए
चेव कालगओ । ताह तम्मि मए तं पयं राइणा अन्नस्स मरुयगस्स दिन्नं ।
सो य आसेग छत्तेण य धरिज्जमाणेण वचचइ । तं दट्ठूण जसा परुत्ता ।
कविलेण पुच्छिया । ताए सिट्ठं—जहा पिया ते एवं विहाए इड्डीए
निग्गच्छियाइओ, जेण सो विज्जासंपन्नो । सो भणइ—अहं पि अहिज्जामि ।
सा भणइ—इह तुमं मच्छरेण न कोइ सिक्खावेड, वचच सावत्थीए
नयरीए पियमित्तो इंदत्तो नाम माहणो सो तुमं सिक्खावेही । सो गओ
सावत्थी, पत्तो य तस्समीवं, निवडिओ चलणेसु । पुच्छओ—कओ
सि तुमं । तेण जहावत्तं कहियं, विणयपुव्वयं च पंजलिउडेण भणियं—
भयवं । अहं विज्जत्थी तुम्हं तायनिव्विसेसाणं पायमूलमागओ, ता
करेह मे विज्जाए अज्जावणेण पसाओ । उवज्जाएण वि पुत्तयसित्तेहमुव्वं-
तेण भणियं—वच्छ ! जुत्तो ते विज्जागहणुज्जमो, विज्जाविहीणो पुरिसो
पसुणो निव्विसेसो होइ, इहपरलोए य विज्जा कत्ताणहंऊ ।

ता अहिज्जमु विज्जं, साहीणाणि य तुह स्ववाणि विज्जासाहणाणि,
पर भोयणं मम घरे निप्परिग्गहत्तणओ नत्थि, तमंतरेण न संपज्जए
पढण । तेण भणियं—भिक्षवामित्तेण वि संपज्जइ भोयण । उवज्जाएण
भणियं—न भिक्षवावित्तीहि पटिय सक्किज्जए, ता आगच्छ पत्थेये किचि
इत्थं तुह भोयण निमित्तं । गया तं दो वि तन्निवामिणो मालिधदइत्थमस्स
सयास । कया पसत्थी । पुच्छओ इत्थेण पओयणं । उवज्जाएण
भणियं—ग्ग मे मित्तम्य पुत्तो वोलथीओ विज्जत्थी आगओ, तुज्ज भो-
यणनिग्गाए अहिज्जइ जिज्ज मस नयासे. तुज्ज मत्तं पुन्नं विज्जावग्ग-
दण्णणेण । सहरिसं च पटियन्नं तेण । सो नत्थ जिमिडं जिमिडं अहिज्जइ ।
दाभवेडी य तम्म पत्थेसेड । सो य नत्थवेण तमणमीलो. विगारवहु-
त्थाए जोव्वाणम्म तुज्जत्तयाओ कामम्म तेए अणुत्तो, ना वि य तम्मि ।
भणयो य तीए—तुम् चेम ममं पिओ, परं न तुह जिधि अत्थि । ता
मा तस्सेज्जसु. पत्तमात्तनिमित्तं अहं अन्नेहि तमं अच्छामि । पटियन्नं
तेण । अन्नेवा वासीण महे आगओ । ना य तेण मम निव्विन्ता

आहीरीवंचगवणिगकहाणगं

एगम्मि नयरे एगो वाणियगो अंतरायणे ववहरइ । एगा आभारी उज्जुगा दो रूवगे घेतूण कप्पासनिमित्तमुवट्टिया । कप्पासो य तथा सम-हग्घो य वट्टइ । तेण वाणियगेण सगस्स रूवगस्स दो वारे तोलेउं कप्पासो दिन्नो । सा जाणइ 'दोव्ह वि रूवगाण दिन्नो' ति सा पोढूलयं वंधेउं गया । पच्छा सो वाणियगो चित्तेइ—एस रूवगो मुट्टा लद्धो, तओ अहं एयं उव-भुंजामि । तेण तस्स रूवगस्स समियं घयं गुलो य किणिउं घरे विसत्तिजयं । भज्जा संलत्ता—घयपुन्ने करेज्जासि त्ति । ताए कया घयपुत्ता ।

एत्थंतरे ऊसुगो जामाउगो से सवयंसगो आगओ । सो ते य घयपूरे भुंजिउं गओ । वाणियो ण्हाओ, भोगणत्थमुवगओ । ताए साभावियं भत्तं परिवेसियं । तेण भन्नइ—किं न कया घयपूरया ? ताए भन्नइ—कया, परं जामाउगेण सवयंसेण खाइया । सो चित्तेइ—पेच्छ, जारिसं कयं मया, सा वराई आभारी वंचेउं परनिमित्तं अप्पा अपुन्नेण संजोइओ । सो य सचितो सरीर चिंताए निग्गओ । गिम्हो य तथा वट्टइ । सो य मज्झण्हवेलाए कयसरीर-चित्तो एगस्स रुक्खस्स हेट्टा वीसमइ । साहू य तेणोगासेण भिक्खनिमित्तं जाइ । तेण सो भन्नइ—भयवं ! एत्थ रुक्खच्छायाए वीसमह मया समाणं ति । साहुणा भणियं—तुरियं मए नियमकज्जेण गंतव्वं ।

वणिण्ण भणियं—किं भयवं ! को वि परकज्जेणावि गच्छइ ? साहुणा भणियं जहा तुम विय भज्जाइनिमित्तं किलिस्ससि । स मग्गणीव सिट्ठो तेणेव एकत्रयणेण संबुद्धो भणइ—भयवं तुब्भे कत्थ अच्छह ? तेण भन्नइ—उज्जाणे । तओ तं साहुं कयपज्जत्तियं नाऊण तस्स सगासं गओ । धम्मं सोउं भणइ—पव्वयामि जाव सयणं आपुच्छामि । गओ नियमं घरं । वंधवे, भज्जं च भणइ—

जहा आवणे ववहरंतस्स तुच्छो लाभगो ता दिसावाणिज्जं करेमि । दो य सत्थवाहा, तत्थेगो मुल्लभंडं दाऊण सुहेण इट्टपुरं पावेइ, तत्थ य विटत्तं न किचि गिण्हइ, वीओ न किचि भंडमुल्लं देइ पुव्वविटत्तं च लुंपेइ, तं कयरेण सत्थेण सह वच्चामि ? सयणेण भणियं—पढमएण सह वच्चसु । तेहि सो समणुत्ताओ वंधुसंगओ गओ उज्जाण । तेहि भणइ—कयरो सत्थवाहो ? तेण भणइ—णणु परलोगसत्थवाहो एस साहू असोगच्छायाए उवविट्ठो नियण मंडेणं ववहरावेइ, एएण सह निव्वाणपट्टणं जामि त्ति । एवं सो पव्वइओ ।

मुखबोधटीका

कविलकहाणगं

अत्थि कोसंबी नाम नयरी । जियसत्तू राया । कासवो वंभणो चोह-
सविज्जाणपारगो राइगो बहुमआ । वित्ती से उवकप्पिया । तस्स जसा
नाम भारिया ! तेषिं पुत्रो कविलो नाम कासवो तम्मि कविले खुड्डुए
चेव कालगओ । ताह तम्मि मए तं पयं राइणा अन्नस्स मरुयगस्स दिन्नं ।
सो य आसेण छत्तेण य धरिज्जमाणेण वच्चइ । तं दट्ठूण जसा परुत्ता ।
कविलेण पुच्छिया । ताए सिट्ठं—जहा पिया ते एवं विहाए डड्डीए
निगच्छियाइओ, जेण सो विज्जासंपन्नो । सो भणइ—अहं पि अहिज्जामि ।
सा भणइ—इह तुमं मच्छरेण न कोइ सिक्खावेइ, वच्च सावत्थीए
नयरीए पियमित्तो इंददत्तो नाम माहणो सो तुमं सिक्खावेही । सो गओ
सावत्थी, पत्तो य तस्समीवं, निवड्ढिओ चलणंसु । पुच्छिओ—कओ
सि तुमं । तेण जहावत्तं कहियं, विणयंपुव्वयं च पंजलिउडेण भणियं—
भयवं । अहं विज्जत्थी तुम्हं तायनिव्विसेसाण पायमूलमागओ, ता
करेह मे विज्जाए अज्जावणेण पसाओ । उवज्जाएण वि पुत्तयसितेहमुव्वंह-
तेण भणियं—वच्छ । जुत्तो ते विज्जागहणुज्जमो, विज्जाविहीणो पुरिसो
पसुणो निव्विसेसो होइ, इहपरलोए य विज्जा कल्लाणहेऊ ।

ता अहिज्जसु विज्जं, साहीणाणि य तुह सव्वाणि विज्जासाहणाणि,
परं भोयणं मम घरे निप्परिगहत्तणओ नत्थि, तमंतरेण न सपज्जए
पढण । तेण भणियं—भिक्षामित्तेण वि संपज्जइ भोयण । उवज्जाएण
भणियं—न भिक्षावित्तीहि पढिय सक्किज्जए, ता आगच्छ पत्थेये किचि
इव्वं तुह भोयण निमित्तं । गया ते दो वि तन्निवासिणो सालिभइइव्वस्स
सयासं । कया पसत्थी । पुच्छिओ इव्वेण पओयणं । उवज्जाएण
भणियं—एस मे मित्तस्य पुत्तो कोसंबीओ विज्जत्थी आगओ, तुज्ज भो-
यणनिस्साए अहिज्जइ विज्जं मम सयासे, तुज्ज महत्तं पुन्नं विज्जोवग्ग-
हकरणेण । सहरिसं च पडिबन्नं तेण । सो तत्थ जिमिउ जिमिउं अहिज्जइ ।
दासचेडी य तस्स परिवेसेइ । सो य सभावेण हसणसीलो, विगारवहु-
लयाए जोव्वणस्स दुज्जयत्तणओ कामस्स तीए अणुरत्तो, सा वि य तम्मि ।
भाणओ य तीए—तुमं चेव ममं पिओ, परं न तुह किचि अत्थि । ता
सा रुसेज्जसु, पोत्तमोल्लनिमित्तं अहं अन्नेहिं समं अच्छामि । पडिबन्नं
तेण । अन्नया दासीण महो आगओ । सा य तेण समं निव्विन्ना

उत्विग्गा अच्छइ । तेण पुच्छिया—कओ ते अरई ! तीए भणइ—मा
अधियं करेहि, एत्थ धणो नाम सेट्ठी, अप्पहाए चेव जो णं पढमं वड्ढावेइ
सो तस्स दो सुवन्नमासाए देइ । तत्थ तुमं गंतूण वद्धावेहि ।

‘आमं’ ति तेण भणिए तीए ‘लोभेण अन्नो गच्छिहि’ त्ति अइप्पभाए
पेसिओ । वच्चंतो य आरक्खियपुरिसेहिं गहिओ वद्धो य । तओ पभाए
पसेणइस्स सो उवणीओ । राइणा पुच्छिओ । तेण सवभावो कहिओ !
राइणा भणियं—जं मग्गसि, तं देमि । सो भणइ—चिंतितं मग्गामि ।
राइणा ‘तह’ त्ति भणिए असोगवणियाए चित्तेउमारद्धो—दोहि मासेहि
वत्थाभरणणि न भविस्संति ता सुवन्नसयं मग्गामि, तेण वि भवणजाण-
वाहणाइ न भव्विस्संति ता सहस्सं मग्गामि । इमेण वि डिभरूवाण
परिणयणाइवओ न पूरेइ लक्ख मग्गामि । एसो वि सुहिसयणवंधुसम्मा-
णदीणाणाहाइदाणविसिट्ठभोगोवभोगाण ण पज्जत्तो ता कोडिं कोडिसयं
कोडिसहस्सं वा मग्गामि । एवमाइ चितंतो सुहकम्मोदयेण तक्खणमेव
सुहपरिणाममुवगओ संवेगमावन्नो प्लग्गो परिभाविडं—‘अहो ! लोभस्स
विलसियं, दोण्हं सुवन्नमासाण कज्जोणागओ लाभमुवट्ठियं दट्ठूग कोडीहिं—
पि न उवरमइ मणोरहो, अन्न च विज्जापढणत्थं विदेसमागओ जाव
ताव अवहोरिऊण जणणि अवगणिऊण उवज्जायहियउवएसं, अवमणिऊण
कुलं, एइए इयररमणीए जाणमाणो विमोहिओ, ता अवितहमेयं ।

ताव फुरइ वेरग्गु चित्ति कुललज्ज वि तावहि,

ताव अकज्जह तणिय संक गुरुयणभय तावहि ।

ताविदियह वसाइ जसह सिरि हायइ तावहि

रमणिहि मणमोहणिहि पुरिसु वसु दोइ न जावहिं ॥ १ ॥

सो सुकयकम्मु सो निउणमइ, सिवहमग्गि सो संघडिउ ।

परमोहण ओसहिसरिसियहं, जो बालियहं पिडि नवि पडिओ ॥ २ ॥

ता अलं सुवन्नेण, अलं विसयसंगेण, अलं संसारपडिवंधेण । एवमाइ
भावेमाणो जाइं सरिऊण जाओ सयंबुद्धो । सयमेव लोयं काऊग देवया-
विदिन्नगहियायारभंडगो आगओ राइसगासं । राइणा भणियं—कि
चित्तियं ? तेण य निययमणोरह वित्थरो कहिओ । पडियं च—

जहा लाभो तहा लोभो, लाभा लोभो पवड्ढइ ।

दोमासकयं कज्जं, कोडीए वि न निर्दाठयं ॥

राया पहट्टमणो भणइ—कोडि पि देमि, गिण्हसु अज्जो । इयरेण
भणियं—पज्जत्तं अत्थेण, परिचत्तो मए घरवासो, ता तुब्भे वि—

अत्थु असारठ अत्थिरु वंधु तणु रोगकिलंतउ,

आवड जर वेरगु धरह जमु एइ तुरंतउ ।

णत्थि सोक्खु संसारि कि पि जिणधम्मि पयट्टह,

पंचहं दिवसह देसि राय ! म पाविहि वट्टह ॥

एवमाइ उवइसिऊणं धम्मलाभिऊण निग्गओ ।

—सुखबोधटीका

अरिष्टणोमि कहाणजं

एगम्मि सन्निवेशे गायाहिवस्स सुतो आसि धणनामो कुलपुत्तओ ।
माउलदुहिया धणवई तस्स भारिया । अन्नया ताइं गिम्हयाले मज्झण्हे
गयाइं पओयणवसेणमरन्नं । दिट्ठो य तत्थ पंथपरिचमट्ठो तण्हाह्नुहापरिस्स-
माइरेगेण निमीलिय लोयणो किच्छवाणो भूमितलमडगतो किससरीरो एगो
भुणी । तं च दट्ठूण 'अहो ! महातवस्सी एस कोइ इममवत्थं पत्तो' ति
संजायभत्तिकरुणेहिं सित्तो जलेण, वीइतो चेलंचलेण, संवाहियाणि य धणेण
अंगाइं । जातो समासत्थो, नीतो सग्गाम, पटियरिओ य पच्छाऽऽहाराईहि ।
मुणिणा वि दिन्नो उचिओवएसो, जहा—इह दुहपउरे संसारे परलोगहियं
अवस्सं जणेण कायव्वं, ता तुम्हे वि ताव मस-मज्ज-पारद्धिमाईणं करेह
निव्वित्ति जइ सक्केइ पालेडं, जतो वहुदोसाणि एयाणि, तहाहि—

पंचिदियवहभूयं, मंसं दुग्गंधमसुइ . वीभत्थं ।
रक्खपरितुलिय भक्खग-मामय जणयं कुगइमूलं ॥ १ ॥

तहा—

गुरुमोह-कलह-निदा-परिहव-उवहास-रोस-भयहेऊ ।
मज्जं दोगगइमूलं, हिरि-सिरि-मइ-धम्मनासकरं ॥ २ ॥

अवि य—

मज्जे महुम्मि मंसे य, नवणीयम्मि चउत्थए ।
उप्पजंति असंखा, तव्वण्णा तत्थ जंतुणो ॥ ३ ॥

तहा—

सपरोवधायजणया, इहेव तह नरयतिरियगइमूलं ।
दुहमारणसयहेऊ, पारद्धी वेरुड्ढिकरा ॥ ४ ॥

इमं च सोऊग संजिग्गेहिं तेहि भणियं—भयवं ! देहि अम्ह अप्पणयं
धम्मं गिहत्थावत्थोचियं । तेणावि—

सो धम्मो जत्थ दया, दसद्धदोसा न जस्स सो देवो ।
सोहु गुरु जो णाणी, आरंभपरिगगहोवरतो ॥ ५ ॥

इच्चाइ सवित्थरं कहिऊण दिन्नो सम्मत्तमूलो य सावयधम्मो । परि-
तुट्ठाइं ताइं अणुसासियाइं मुणिणा, जहा—

तत्थ वसेज्जा सड्ढो, जईहि सह जत्थ होइ संजोगो ।
जत्थ य चेइयभवणं, अन्न वि य जत्थ साहम्मो ॥ ६ ॥

देवगुरूप तिसंभं, करेज्ज तह परमवंदणं विहिणा ।
तह पुष्पवत्थमाईहि पूयण सव्वकासं पि ॥ ७ ॥

अन्नं च—

अप्पुव्व नाणगहण, पच्चखाणं सुधम्मसवणं च ।
कुज्जा सइ जहसत्ति, तवसञ्जायाइं जोगं च ॥ ८ ॥

अन्नं च—

भोयणसमए सयणे, विवोहणे पसवणे भए वसणे ।
पंचनमोकारं खलु, सुमरेज्जा सव्वकज्जेसु ॥ ९ ॥

एवमाइधम्मो थिरीकाऊण ताइं आपुच्छिऊण य गतो अहाविहारं
साहू । ताइं वि कुणति साहूवड्ढमणुट्टाण, बद्धं च तेहि तवस्सिबच्छल्लपच्चयं
सुहाणुवंधि महंतं पुन्नं । अवि य—

वेयावच्चं कीरइ, समणाणं सुविहियाण जं किचि ।
पारंपरेण जायइ, मोक्खसुहपसाहरं तं पि ॥ १० ॥

पडिवन्नो य तेहि कालेण जइधम्मो । कालं काऊण सोहम्मे सामणितो
जातो धणो, इयरा वि जातो तस्सेव मित्तो । तत्थ, दिव्वं सुरसुहमणुभविडं
चुतो संतो धणो उव्वन्नो वेयइ सूरतेयराइणो पुत्तो वित्तगइनामा विज्जा-
हराया । धणवई वि सूररायकन्नगा होऊण जाया तरसेव भारिया रयणवई
नाम । आसेवियमुणिधम्मो माहिदे धणो सामाणितो, इयरा य तम्मित्तो
जातो । ततो चुतो धणो अवराजितो नाम राया जातो, सावि पिडमई तस्स
पत्ती । काऊण समणधम्मं गयाइं आरणके कप्पे । धणो सामाणितो जाओ,
इयरा वि तम्मित्तो । ततो चुओ धणो संखराया जाओ, सावि जसमई
तस्सेव कंता । तत्थ संखो पडिवन्नमुणिधम्मो अरहंतवच्छल्लाइहेऊहि
निवद्धतित्थयरनामो उव्वन्नो अवराइयविमाणे । जसमई वि साहूधम्मपहावेण
तत्थेवोववण्णा । तओ चविऊण धणो सोरियपुरे नयरे दसण्हं दसाराणं
जेट्ठस्स समुद्विजयस्स राइणो सिवादेवीए भारियाए कुच्छिसि सोडसमहा-
सुमिणसूइतो कत्तियकिण्हवारसीए उव्वन्नो पुत्ताए । उचियसमएण य
सावणसुद्धपंचमीए पसूया सिवादेवी दारयं । दिसाकुमारिकयजायकम्म-
सुरासुरविहियजम्माभिसेयाणंतरं कयं राइणा बद्धावणयं । दिट्ठो रिट्ठरयण-
मतो नेमी सुमिणे गव्वभागए इमम्मि सिवाए त्ति 'अरिट्ठनेमि' त्ति कयं
पिडणा नामं । जातो अट्ठवरिसो ।

एत्थंतरे य हरिणा कंसे विणिवाए जीवजसावयणेण जाथवाणमुवरिआसु
रुट्ठो जरासंधो महाराया' । तथा संकाए गया पच्छिम समुद्धं ते जायवा ।

तत्थ केसवाराहियवेसमणकयाए सव्वकंचणमयाए वारसजोयणायामाए नवजोयणवित्थराए वारवईए सुहेए चिट्ठंति । कालेण य निहयजरासंधा राम-केसवा भरहद्धाहिवडणो राया जाया । अरिट्ठनेमी य भयवं जोव्वणमणुपत्तो विसयपरम्मुहो विसिट्ठकीलाहि कीलतो सव्वजायवपिओ हिंडइ जहिच्छाए । अन्नया समाणवयवेसा-आयारेहिं निवक्कुमारेहि सह रमंतो गतो हरिणो आउहसालाए, दिट्ठाइं देवयाहिट्ठियाइं अणेगाइं आउहाइं । ततो दिव्वं कालवट्ठं गेण्हतो पाएसु निवडिऊण भण्णिओ आउहपालेण कुमार । किमणेण सयंभुरमणवाहतरणविभमेण असक्काणुट्ठाणेणं ? न खलु महुमहणं वज्जिय सदेवमणुयासुरे वि लोए इमं आरोविच्चं कोइ सत्तो । तओ ईसिहसंतेण तमवगणिऊणं आरोवियं लीलाए, अफ्फालिया जीवा । तीए रवेण य कंपिया मेइणी, थरहरिउमारद्वा गिरिणो, उत्तट्ठहियया इतो ततो पलायंति जल-थल-खहचारिणो जंतुगणा । ततो अच्चंत विम्हियाणाऽऽरक्खियनराणं मोत्तूण कालवट्ठं दुणरुत्तं वारंताण वि गहितो पंचयणो संखो, आऊरितो य कोउणेण । तस्स सहेण बहिरियं सव्वं पि भुयणं, आकपियं सदेवमणुयासुरं पि जयं, विसेसतो सा नयरी । ततो 'किमेस पलयकालसन्निहो संखोहो ?' त्ति विगप्पंतस्स हरिणो निवेइतो आउहपालेहि । जहट्ठितो वइयरो । विम्हितो हरी । ततो मुणियकुमारसामत्थेण भणितो बलदेवो हरिणा-जस्सेरिसं बालस्स वि सामत्थं नेमिणो सो वड्ढंतो रज्जं हरिस्सइ, तो दुणो बलं परिक्खिय रज्जरक्खोवायं चित्तयो ।

बलदेवेण भणियं अलमेयाए संकहाए त्ति,

जह चित्तिय दिण्णफलो एसो पणईण कप्परक्खोव्व ।

सो कह नरिद ! रज्जं, घेप्पइ कुमरो तुमाहितो ॥

जेण पुव्वं केवलनिहिट्ठो उप्पणो एस वावीसइमो नेमित्थियरो, तुमं दुण भरहद्धसामी नवमवासुदेवो, ता एस भयवं कवयरज्जो परिचत्तसयलसावज्जजोगो पव्वज्जं काहिति । अणुदियहंपि रज्जहरणसंकाए वारिज्जंतेणावि हरिणा उज्जाणमुवगतो भणितो नेमीकुमार ! निय-नियबलपरिक्खणनिमित्तं बाहुजुद्धेण जुज्झामो । नेमिणा भणियं—किमणेण बुहजणगिदिणज्जेण इयरजणबहुमएण बाहुजुज्जववसाएण ? विउसजणपससणिज्जेणं वायाजुज्जेण जुज्झामो, अण्णं च मए डहरएण तुज्जाभिभूयस्स महंतो अयसो । हरिणा पलत्तं—केलीए जुज्जंताणं केरिसो अयसो ? ततो पसारिया वामा बाहुलया नेमिणा-एयाए नामियाए विजितो मित्ति । अत्रि य—

उग्रहासं खलु जम्हा, जुञ्भं गोविद तेण वाहाए ।
 वालियमित्ताए च्चिचय, विजितो हं नत्थि संदेहो ॥ १ ॥
 अंदोलिया वि दूरं, नियसामत्थेण विण्हुणा वाहा ।
 थेवं पि सा न चलिया, यण व मयणस्स बाणेहि ॥ २ ॥

एवं च विनियत्तरज्जहरणसंकस्स दसारचक्रपरिवुडस्स हरिणो समञ्चकंतो कोड कालो । अन्नया संपत्तजोव्वण विसयसुहनिप्पिवासं नेमि
 निएऊण भणितो समुद्धविजयाइणा दसारचक्केण केसवो—तहा उग्रयरसु
 कुमारं जहाइत्ति पयट्टए विसएसु । तेण वि भणियातो रुपिणि-सच्चभा-
 मापमुहातो निययभारियाओ । ताहि वि जहावसरं मपणयं भणितो एसो
 कुमारो—सव्वत्तिहुयणाइक्कंतं तुह रुवं, निरुवमसोहग्गाडगुणोववेयं निरामयं
 देहं, सुरसुंदरीण वि उम्मायजणणं तारुण्ण, ता अपुरुवदारसंगहेण करेसु
 मफलं दुल्लहलंम मणुयत्तणं । ततो हसिऊण भणियं नेमिनाहेणमुहातो !
 असुइरुवाण बहुदोसालयाणं तुच्छसुहनिबंधणाणं अथिरसंगमाणं रमणीणं
 संगेण न होइ सफलं नरत्तणं ।

अवि य एगंतसुद्धाए निकलंकाए निरुवमसुहाए सासयसंजोगाए सिद्धि-
 वहूए चेवोवज्जणेण तस्स सफलत्तं । जओ—

माणुसत्ताइसामग्गी, तुच्छभोगाणकारणे ।

कोडि वराडियाए व्व, हारिति अवुहा जणा ॥ १ ॥

अहं सिद्धिनिमित्तमेव जइस्सं । साहितो ताहिं कुमाराभिप्पातो हरिणो ।
 तओ तेण सयं चिअ भणिओ नेमी-कुमार । उसभाइणो वि तित्थयरा-
 काऊण दारसंगहं जणिऊण तणए पूरिऊण पणइजणमणोरहे पच्छिमवयम्मि
 पव्वइया तहा वि संपत्ता मोक्खं, तो एस परमत्थो—दारसंगहेण पूरेसु
 दसारचक्कस्स मणोरहे । ततो निब्बंधं नाऊण भाविपरिणामं च वियाणं-
 तेण पडिबन्नं हरिवयणं नेमिणा । कहियं च तं दसारचक्कस्स हरिणा । तेण
 वि संजायहरिसाइरेणेण भणितो हरी—वरेसु कुमाराणुरुवं रायकुमारियं ।
 दिट्ठा गवेसंतेण उग्गसेणरायदुहिया रायमई कन्नगा । सा पुणधणवइ-
 जीवो अपराजियविमाणातो चविऊण य तत्थोववन्ना । ततो 'सा चेवाणुरुव'
 त्ति मग्गितो उग्गसेणो । तेण वि सहरिसेण 'मणोरहाइरित्तो एस अपुग्गहो'
 त्ति भणिऊण दिन्ना । ततो कारावियं दोसु वि कुत्तेसु वद्धावणयं । अन्न-
 दियहम्मि कारावितो वारेज्जमहूसवो । तओ निव्वत्तिएसु तयणुरुवेसुभत्त-
 वत्थालंकाराईसु करणिज्जेसु परमाणंदेण पत्तो वारिज्जियवासरो ।

जहात्रिहिं पंचगियारायमर्ह, कया सव्वालंकारसार । कुमारो वि पमा-
हिओ दिव्वरमणीहि समाकूढो मत्तवारणं । समागया दसारा^१ सह बलदेव
वामुदेवेहि । समाहयाइं तूराइं, ऊसिय^२ मियायवत्तं,^३ आऊरिया जमलसंखा,
पगाडयाइं, मगलाइं, जयत्रयावियं मागहेहिं । ततो थुव्वंतो नरदेवसघेण
अहिलसिञ्जंतो सुरनररमणीहि पेच्छिज्जतो मच्चलोणं महाविच्छड्डेण
पत्तो विवाहमंडवासन्नं । रायमई वि नेमिकुमारं दट्ठूण आणंदपरव्वसा
संजाया । अवि य-का हं ? किमेत्थ वट्ठइ ? कथं व चिट्ठामि ? को इमो
कालो ? जिणदंसणुत्थपहरिस-हरियमणावेयड न किंपि ।

एत्थंतरे कलुणरात्रे सोऊण जाणतेण वि नेमिनाहेण पुच्छितो सारही—
भो ! काग पुण सरणभीरुयाणं च एस कसुणो सहो ? तेण कहियं—
देव ! एए हरिणाडणो सत्त तुब्भ वारेज्जयपरमाणंदे वावाइय लोगो
भोयाविज्जिस्सइ । ततो तस्साऽऽहरणाणि पणामिऊण भणिया लोगा
नेमिणा—'भो ! भो ! केरिसो परमाणंदो जग्घि निखराहाण दीणाण
भीयाण एयाण बहो कीरइ ? ता कि इमिणा संसारपरिभमणहेउणा
वारिज्जएणं ? ति भणिऊण वालाविओ करी । सारहिणा वि भयवओ
अहिप्पायं नाऊण सोइया ते सत्ता । नेमि च बलंतं विरत्तचित्तं पेच्छिय
अयंदवज्जपहारताडियव्व मुच्छावसेण निवडिया धरणीए रायमई । ससंभ-
मेण य सहीयणेण सित्ता सीयलजलेण, वीइता तालविटेण, लद्धचेयणा
पभणिहं पयत्ता—अहो ! मे मूढया जमप्पागमयाणिऊण अच्चंतदुल्लहे
भुवणनाहे अणुरायं कुणंतीए लहुईकतो अप्पा, कि कयाइ कायकठिया
परममोत्तियहारसंगं पावई ? गुरुयाणुराएण जिणमुदिसिडं विलवइ—

धी मे सुकुलुप्पत्ती, धी रूवं जोव्वणं च मे नाह ।

धी मे कलाकुसलया पणिवज्जियं जं तुमे चत्ता ॥

एवं च महासोयभरोत्थथा विलवंती 'पियसहितो ! उलंघणिज्जो
दिव्वपरिणामो, ता अवलंवेसु धीरयं, अलमेत्थ विलविणं, सत्तपहाणतो
होति रायधूयाओ' त्ति भणिऊण सठविया सा सहियणेण । भणियं च
तीए पियसहीतो ! अज्ज चेव मे सुमिणए आगतो एरावणारूढो
बहुदेवदाणवपरिवुडो दुवारदेसे एगो दिव्वपुरिसो, तक्खणं च नियत्तिय
सो समाकूढो सुरसेलं, निसन्नो सीहासणे, अणेगे समागया जन्तुणो,
अहं वि तत्थेव गया, सो चउरो चउरो सारीरमाणसदुहपणासगाणि

१. समुद्रविजयादि दस यादव ।

२. ऊंचा क्रिया ।

३. श्वेतातपत्र-छाता या छत्र ।

कष्यपायवफलाणि तेसिं दितो मए भणिओ—भयवं ! मम वि देसु
 इमाणि, दिन्नाणि त तेण, तयणंतर च पडिवुद्धा अहं । सहीहिं भणियं
 पियसहि ! मुहकडुओ वि ते एस मुमिणतो झत्ति परिणामसुन्दरो
 होहिति । इतो ततो नियत्तो नेमिनाहो । चलियासणेहिं पडिवोहिओ
 'भयवं सव्व जगज्जीवहियं तित्थं पव्वत्तेहि' त्ति भणंतेहिं लोगंतित्रदेवेहिं
 पव्वज्जिओ नेमिनाहो ।

—सुखवोध टीका

इवभपुत्तकहाणगं

एगम्मि किर नयरे का वि गणिया ख्ववती गुणवती परिवसड । तीसे य समीवे महाधणा रायाऽमच्च—इवभपुत्ता उवगया परिभुत्तविभवा वच्चंति । सा य ते गमणनिच्छए पभणड—जइ अहं परिचत्ता, निग्गुणओ ता किंवि सुमरणहेउं घेप्पउ । एवं भणिआ य ते हारअद्धहार—कडग—क्रेऊराणि तीय परिभुत्ताणि गहाय वच्चंति । कयाडं च एगो इवभपुत्तो गमणकाले तहेव भणितो । सो य पुण रयणपरिक्खाकुसलो । तेण य तीसे कणयमयं पायपीढं पंचरयणमंडियं महामाल्ल दिट्ठं । तेण भणिया—सुंदरि ! जइ मया अवस्सं घेत्तव्वं तो इमं पायपीढं तव पादसंसग्गिसुभगं, एएण मे कुणह पसायं । सा भणति—कि एएण ते अप्पमोल्लेणं ? अन्नं क्विचि गिण्हसु त्ति । सो विदियसारो, तीए वि दिन्नं, तं गहेऊणं तओ सविसए रयण-विणिओगं काऊण दीहकालं सुहभागी जाओ । एस दिट्ठंतो ।

अयमुपसंहारो—जहा सा गणिया. तहा धम्म सुई । जहा ते रायसुयाई तहा सुर—मणुयसुहभोगिणो पाणिणो । जहा आभरणाणि, तहा देसविरति-सहियाणि तत्रोवहाणाणि । जहा सो इवभपुत्तो, तहा मोक्खकंखी पुरिसो । जहा परिच्छाकोसल्लं, तहा सम्मणाणं । जहा रयणपायपीढं, तहा सम्म-दंसणं । जहा रयणाणि तहा महव्वयाणि । जहा रयणविणिओगो, तहा निव्वाणसुहलाभो त्ति ।

किञ्च—

वरं प्रवेष्टुं ज्वलितं हुताशनं न चापि भग्नं चिरसंचितं व्रतम् ।
वरं हि मृत्युः सुविशुद्धकर्मणो, न चापि शीलस्खलितस्य जीवितम् ॥ १ ॥

अवि य—

निम्मम निरहंकारा, उज्जुत्ता संजमे तवे चरणे ।

एगक्खेत्ते वि ठिया, खवंति पोराणयं कम्म ॥ २ ॥

तहा य—

एगो जायइ जीवो एगो मरिऊण तह उव्वजेइ ।

एगो भमइ संसारे एगो च्चिय पावए सिद्धि ॥ ३ ॥

सव्वे वि दुक्खभीरु सव्वे वि सुहामिलासिणो जीवा ।

सव्वे वि जीवणप्पिया सव्वे मरणाओ वीहेति ॥ ४ ॥

अवि य—

धम्मो मंगलमउलं ओसहमउलं च सव्वदुक्खाणं ।

धम्मो बलमवि विउलं धम्मो ताणं च सरणं च ॥ ५ ॥

—वसुदेवहिंटी

कुवेरदत्ताकहाणम्

महुराए नयरीए कुवेरसेणा गणिया पढमगन्धदोहलखेदिया जणवीए तिगिच्छियस्स दंसिआ । तेण भणिया—जमलगन्धदोसेण एईसे परिवाहा, नत्थि कोइ वाहिदोसो दीसइ । एवमुवलद्धत्थाय जणणीए भणिया—पुत्ति ! पसवणकालसमए मा णे सरीरपीडा भवेज्जा, गालणोवायं गवेसामि, त ओ निरामया भविस्ससि, परिभोगवाधाओ य न होहिति, गणियाण य किं पुत्तमडेहि ? तीए न इच्छियं, भणइ जायपरिचायं करिस्सं । तहाणुमए य समए पसूया दारगं दारिगं च । जणणीए भणिया उज्झिज्जंतु । तीए भणियं दसरायं तात्र पूरिज्जइ । तओ अ णए तुवे मुद्दाओ कारियाओ नामं क्रियाओ—कुवेरदत्तो कुवेरदत्ता य ।

अतीत दसराइए डहरिकासु नावासु सुवण्णारयणपूरिआसु छोळ्ळण जउण णां पवाहियाणि । वुज्झतावि य भवियव्वयाए सोरियनयो पच्चूसे दोहिं इन्धदारएहिं दिट्ठाणि । धरियाउ नावाउ । गहिओ एगेण दारगो, इक्केण दारिया । 'सधणाइं' ति तुट्ठेहिं सयाणि गिहाणि नीयाणि त्ति । क्रमेण परिवड्डियाणि पत्तजोव्वणाणि 'जुत्त संवंधो त्ति कुवेरदत्ता कुवेरदत्तस्स दिन्ना । कल्याणदिवसेसु य वट्टमाणेसु बहुसहीहिं वरेण सह जूयं पयोजितं । नाममुद्दा य कुवेरदत्तहत्थाओ गहेऊण कुवेरदत्ताए हत्थे दिग्ना । सीसे पेच्छमाणीए सरिसघडणनामतो चिता जाया—केण कारणेण भन्ने नाम-मुद्दाकारसमया इमासिं मुद्दाणं ? ण य मे कुवेरदत्ते भत्तारचित्तं, न य अहं कोइ पुव्वजो एयनामो सुणिज्जइ, तं भवियव्वं एत्थ रहस्सेणंति चित्तेऊण वरस्स हत्थे दो वि मुद्दाउ ठावियाओ । तस्स वि पस्समाणस्स तहेव चिता समुप्पन्ना । सो वहूए मुद्दं अप्पेऊण माउसमीवं गतो । सा य णेण सबहसाविया पुच्छिया 'तीए जहासुत्तं कहियं' तेण भणिया—अम्मो ! अजुत्तं ते (भे) जाणमाणेहि कय ति । सा भणइ 'मोहियामो, तं होउ पुत्त । वधूहत्थग्गहणमेत्तदूसिआ, न एत्थ पावग । अहं विसिञ्जेहामि दारिगं सगिहं । 'तत्र पुण दिसाजत्तातो पडिनियत्तस्स विसिट्ठं विसम्बधं करिस्सं' एवं वोत्तूण कुवेरदत्ता सगिहं पेसिया । तीइवि जणणी तहेव पुच्छिया । तीए जहावत्तं कहियं ।

सा तेण निव्वेएण समाणी पव्वइया, पवत्तिणीए सह विहरइ 'मुद्दा-य णए सारक्खिया पवत्तिणिवयणेण । विसुज्झमाणचरित्ताए ओहिनायं

समुप्पन्नं । आभोइओ अ णाए कुवेरदत्तो कुवेरसेणाए गिहे वत्तमाणो । 'अहो' 'अन्नाण दोसु' त्ति चिंतेऊण तेसिं संवोहणनिमित्तं अज्जाहिं समं विहरमाणो महुरं गया, कुवेरसेणाए गिहे वसहिं मग्गिऊण ठिया । तीए वंदिऊण भणिया—अज्जाओ ! अहं नाम गणिया कुत्तवहूचिट्ठिया, असं-क्रियाउ वसहित्ति । तीसे य दारगो बालो, सा तं अभिक्खं, साहुणीसमीवे निक्खिवइ । तओ तेसि खणं जाणिऊण अज्जा पडिवोहनिमित्तं दारगं परियंदेइ ।

बालय ! भाया सि मे, देवरो सि मे, पुत्तो सि मे, सवत्तिपुत्तो सि मे, भत्तिज्जओ सि मे, जस्स आसि पुत्तो सो वि मे भाया, भत्ता, पिया, पिआमहां, ससुरो, पुत्ता वि; जीसे गन्भजा सि सा वि मे माया, सासू, सवित्ती, भाउज्जाया, पियामही, बधू ।

तं च तहाविहं परियंदणयं सोऊण कुवेरदत्तो वंदिऊण पुच्छइ—अज्जे ! कह इमं च कस्स विसद्धसंबद्धकित्तणं ? उदाहु दारग विणोयणात्थं अज्जु-ज्जमाणं भणियं । एवं पुच्छिइए अज्जा भणइ—सावग ! सच्च एयं । तओ अ णाए ओहिणा दिट्ठं तेसिं दोएह वि जणाणं सपच्चयं कहियं, मुदा य दंसिया । कुवेरदत्तो य तं सोऊण जायतिव्वसवेगो अहो ! अन्नाणेण अपदं कारिओ त्ति विभवं दारगस्स दाऊणं, अज्जाए कयनमोक्कारो तुम्हेहिं मे कओ पडिवोहो, करिस्सं अत्तणो पत्थं ति तुरियं निग्गओ, साहुसमीवे गहियलिगाऽऽयारो, अपरिवडियवेरगो, तवोवहाणेहिं विगिट्ठेहि खवि-अदेहो गओ देवलयं । कुवेरसेणा वि गहियगिहवासजोगनियमा साणुक्कोसा ठिया । अज्जा वि पवत्तिणीसमीवं गया । उक्तं च—

विसया विसं व विसमा विसया वेसानरव्व दाहकरा ।

विसया पिसायविसहरवाघाणसमा मरणहेऊ ॥ १ ॥

तो भे भणामि सावय विसयसुहं, दारुणं मुणेऊणं ।

चवलतडिविलसियं पिव मणुयत्तं भंगुरं तहय ॥ २ ॥

सुयणसमागमसोम्खं चवलं जोव्वणं पिय असारं ।

सोक्खनिहाणंमि सया धम्मंमि मइं दढं कुणसु ॥ ३ ॥

अवि य—

गयकण्णचंचलाओ लच्छीओ नियसचावसारित्थं ।

विसयसुहं जीवाणं वुब्भसु रे जीव ! मा मुब्भ ॥ ४ ॥

जह सभाए सउणाण संगमो जह पहे य पहिआणं ।
 सयणाणं संजोगो तहेव खणभंगुरो जीव ॥ ५ ॥
 जीअ जलविन्दुसमं संपत्तीओ तरंगलोलाओ ।
 सुमिणयसमं च पिम्मं जं जाणसु तं करिज्जासु ॥ ६ ॥
 कुसग्गे जह ओसविट्ठुए थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।
 एवं मणुआणं जीवियं समयं गोयम मा पयायए ॥ ७ ॥

— वसुदेवहिंटी

धुत्तसियालकहाणगं

सियालेण भमंतेण हत्थी मओ दिट्ठो 'सो चित्तेइ—“लद्धो मए उवाएण ताव णिच्छएण खाइयव्वो” । जाव सिंहो आगओ ।

तेण चित्तिं—“सच्चिट्ठेण ठाइयव्वं एयस्स” ।

सिहेण भणियं—“कि अरे ! भाइणेज्ज ! अच्छिज्जइ” ।

सियालेण भणियं—आमं ति माम ।

सिंहो भणइ—“किमेयं मयं ?” ति ।

सियालो भणइ—“हत्थी” ।

केण मारि ओ ?

वग्घेण ।

सिंहो चित्तेई—“कहं अहं ऊणजातिएण मारियं भक्खामि” ।

गओ सिंहो । एवरं वग्घो आगओ । तस्स कहियं “सीहेण मारिओ, सो पाणियं पाउं णिग्गओ ।

वग्घो एट्ठो । जाव काओ आगओ । सियालेण चित्तिं—
“जइ एयस्स ए देमि तओ 'काउ,' 'काउ' त्ति वायससहेण अण्णे कागा एहिति 'तेसि कागरडणसहेणं सियालादि अण्णे बहवे एहिति, कित्तिया बारेहामि ? ता एयस्स उवप्पयाणं देमि” ।

तेण तओ तस्स खंडं घित्ता दिण्णं । सो तं घेत्तएण गओ ।

जाव सियालो आगओ । तेण णायं एयस्स हठेण वारणं करेमि त्ति भिरुडिं काऊण वेगो दिण्णो । एट्ठो सियालो ।

उक्तं च—

उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत् ।
नीचमल्पप्रदानेन, सदृशं च पराक्रमैः ॥ १ ॥

अवि य—

जाइं रूवं विज्जा तिन्नि वि गच्छंतु कन्दरे विवरे ।
अत्थो च्चिय परिवड्डुज जेण गुणा पायडा हुन्ति ॥ २ ॥

—दशवैकालिकवृत्तिः

उवासगे कुण्डकोलिए

तेणं कालेणं तेणं समएण कम्पिल्लपुरे नाम नयरे होत्था । तस्स कम्पिल्ल-
पुरस्स नयरस्स बहिया सहस्सम्बवणे नाम उज्जाणे । तत्थं णं कम्पिल्ल-
पुरे नयरे जियसत्तू राया होत्था ।

तत्थं ण कम्पिल्लपुरे कुण्डकोलिए नामं गाहावई परिवसइ, अड्ढे...
दित्ते अपरिभूए । तस्स णं कुण्डकोलियस्स पूसा नामं भारिया होत्था,
कुण्डकोलिएणं गाहावइणा सद्धि अपुरत्ता, अविरत्ता, इट्ठा, पञ्चविहे
माणस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी विहरइ ।

तस्स णं कुण्डकोलियस्स गाहावइस्स छ हिरण्णकोडीयोनिहाण-
पउत्ताओ, छ हिरण्यकोडीयो वड्ढिपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीयो, छ वया
दसगोसाहस्सिएण वएण होत्था ।

से णं कुण्डकोलिए गाहावई बहुणं सत्थवाहाणं बहूसु कज्जेसु य
कारणेसु य ववहारेसु य आपुच्छण्णज्जे पडिपुच्छण्णज्जे सयस्स वि
य णं कुटुंबस्स मेढी, पमाण, आहारे सव्वकज्जवड्ढाव ए वायि होत्था ।

तेणं कालेण तेणं समएण समणे भगवं महावीरे समो सरिए । परिसा
निगया । जियसन्तू निग्गच्छइ, निग्गच्छिता पञ्जुवासइ ।

तए णं कुण्डकोलिए गाहावई इमीसे कहाए लद्धट्ठे समाणे सयाहो
गिहाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमिता कम्पिल्लपुरं नयरं मव्वमव्वमं
निग्गच्छइ, निग्गच्छिता जेणामेव सहस्सम्बवणे उज्जाणे जेणेव समणे भगवं
महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता तिव्वुत्तो आयाहिणं पञ्चहिणं
करेइ करित्ता वन्दइ नमंसइ...पञ्जुवासइ ।

तए ण समणे भगवं महावीरे कुण्डकोलियस्स गाहावइस्स तीसे व
मइमहालियाए परिसाए धम्मं परिकहेइ —

तए णं से कुण्डकोलिए गाहावई समणस्स मगव्वो महावीरस्स
अन्तिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठुत्तं एवं वयामी —

“सद्धासि णं भन्ते ! निग्गच्छं पञ्चणं पञ्चिणं णं भन्ते ! सि
पावयण, रोएमि ण भन्ते ! निग्गच्छं पञ्चणं पञ्चिणं भन्ते ! तद्वे
अवितहमेयं भन्ते ! इच्छिणं पञ्चणं पञ्चिणं वयह, सि

णं देवाणुप्पियाणं अन्तिए वहवे, राईसर—तलवर—माडम्बिय—कोडुम्बिय
सेट्ठि—सत्थवाहप्पभिइया मुण्डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइया,
नो खलु अहं तथा संचाएमि मुण्डे भवित्ता पव्वइत्तए । अह एं देवाणु-
प्पियाणं अन्तिए पञ्चाणुव्वइय, सत्तसिक्खावइयं, दुवालसविहं गिहिधम्म
पडिवज्जिस्सामि ।”

“अहासुह, देवाणुप्पिया ! मा पडिवन्धं करेह” ।

तए णं से कुण्डकोलिए गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स
अन्तिए पञ्चाणुव्वइय, सत्तासिक्खावइयं, दुवालसविहं सावयधम्मं पडिव-
ज्जइ पड्डिवज्जित्ता समणं भगवं महावीरं तिकखुत्तो वन्दइ वन्दित्ता समणस्स
भगवओ महावीरस्स अन्तियाओ सहस्सम्भवणाओ उज्जाणओ पडिणि-
क्खमइ पडिणिक्खमित्ता जेवेण कम्पिल्लपुरे नयरे, जेणेव सएगिहे, तणेव
उवागच्छइ ।

तए णं समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ वहिया जणवयविहारं
विहरइ ।

तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए जाए अमिगयजीवाजीवे उपलद्ध
पुण्णपावे आसवसंवरनिज्जरकरिया—अहिगरणबंधमुक्खकुसले, अस-
हेज्जे देवासुरनागसुवण्णजक्खरक्खसकिंनरकिंपुरिसगरुल्लगंधव्वमहोरगाइ-
एहि देवगणेहि निग्गंथाओ पावयणाओ अणइक्कमणिज्जे, निग्गन्थे पावयणे
निस्संक्रिये, निक्कंखिये, निव्वत्तिगिच्छे, अट्ठिभिजपेमाणुरागरत्ते ‘अयं
आउसो । निग्गंठे पावयणे अट्ठे, अयं परमट्ठे, सेसे अणट्ठे’ असिय-
फलहे अवंगुयदुवारे, वियत्तंतेउरपरधरदारप्पवेसे, चउइसट्ठमुद्दिट्ठपुण्ण-
मासिणीसु पडि पुण्णं पोसहं सम्म अणुपालेत्ता समणे निग्गंथे
फासुएसणिज्जेण असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थपडिग्गहकंबलपायपुद्द-
णेणं ओसह भेसजेणं पाडिदारिएणं य पीढफलगसेज्जासंथारएणं पडिला-
भेमाणे विहरइ ।

तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासये अन्नया कयाइ पुव्वावरण्हकाल-
समयसि जेणेव असोगवणिया, जेणेव पुढविसिलापट्टए, तेणेव उवागच्छइ,
उवागच्छित्ता नाममुद्दगं च उत्तरिज्जगं च पुढविसिलापट्टएठवेइ, ठवित्ता
समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियं धम्मपण्णति उवसम्पज्जिताणं
विहरइ । तए णं तस्स कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स एगे देवे अन्तियं
पाउव्वभित्था ।

तए णं से देवे नाममुद्दं च उत्तरिज्जं च पुढविसिलापट्टयाओ गेण्हइ, गेण्हित्ता सखिखिणि अन्तलिक्खपडिवन्ने कुण्डकोलियं समणोवासयं एवं वायसी ।

“हं भो कुण्डकोलिया समणोवासया ! सुन्दरी णं देवाणुप्पिया गोसालस्स मङ्खलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती, नत्थि उट्ठाणे इ वा, कम्मे इ वा बले इ वा कम्मे इ वा वीरिए पुरिसक्कार परक्कमे इवा, नियया सव्वभावा, मङ्गुली ण समणस्स भगवओ महावीरस्स धम्मपण्णत्ती, अत्थि उट्ठाणे इ वा... जाव परक्कमे इ वा, अणियया सव्वभावा” ।

तए ण से कुण्डकोलिए समणोवासए-तं देवं एवं वायसी—

“जइ णं देवा । सुन्दरी गोसालस्स मङ्खलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती, मङ्गुली णं समणस्स भगवओ महावीरस्स धम्मपण्णत्ती, तुमे णं, देवा ! इमा एयारूवा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवज्जुई दिव्वा देवाणुभावे किणा लद्धे किणा पत्ते अभिसमन्नागए, कि उट्ठाणेणं “जाव पुरिसक्कारपरक्कमेणं ?” उदाहु अणुट्ठाणेणं अक्कमेणं “जाव अपुरिसक्कारपरक्कमेणं ?”

तए णं से देवे कुण्डकोलियं समणोवासयं एवं वायसी एवं खलु देवाणुप्पिया । मए इमेयारूवा दिव्वा देविड्डी अणुट्ठाणेणं...जाव अपुरिसक्कारपरक्कमेण लद्धा पत्ता अभिसमन्नागया ।”

तए ण से कुण्डकोलिए समणोवासए तं देवं एवं वायसी “जइ णं देवा ! तुमे इमा एयारूवा दिव्वा देविड्डी...अणुट्ठाणेणं...जाव अपुरिसक्कारपरक्कमेण लद्धा पत्ता अभिसमन्नागया, जेसि णं जीवाणं नत्थि उट्ठाणे इ वा... ते कि न देवा ? अहं णं, देवा । तुमे इमा एयारूवा दिव्वा देविड्डी... उट्ठाणेणं...जाव परक्कमेणं लद्धा पत्ता अभिसमन्नागया तो जं वदसि ‘सुन्दरी णं गोसालस्स मङ्खलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती, मङ्गुली णं समणस्स भगवओ महावीरस्स धम्मपण्णत्ती त ते भिच्छा ।”

तए णं से देवे कुण्डकोलिएणं समणोवासएणं एवं वुत्ते समारो सङ्घिए, कङ्घिए, विइगिच्छासमावन्ने कलुस्स भाववन्ने नो संचाएइ कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स किचि णमोक्खं आइक्खित्तए, नाममुद्दयं च उत्तरिज्जयं च पुढविसिलापट्टए ठवेइ, ठवित्ता जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए ।

(उवासगदसाओ-अध्ययनम् ६)

रोहिणीए दक्षत्तणं

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नयरे होत्था । तत्थ णं रायगिहे णयरे सेणिए नामं राया होत्था ।

तत्थं णं रायगिहे नयरे धण्णे नामं सत्थवाहे परिवसति अट्ठे, दित्ते, विउलभत्तपाणे अपरिभूए । तस्स णं धण्णस्स सत्थवाहस्स भद्दा नामं भारिया होत्था, अहीण पंचिदियसरीरा, कंता पियदसणा, सुख्वा ।

तस्स णं धन्नस्स सत्थवाहस्स पुत्ता भद्दाए भारियाए अत्तया चत्तारि सत्थवाहदारया होत्था, तं जहा—धणपाले, धणदेवे, धणगोवे धणरक्खिए ।

तस्स णं धण्णस्स सत्थवाहस्स चउण्हं पुत्ताणं भारियाओ चत्तारि सुएहाओ होत्था, तं जहा—उज्झिया, भोगवतियां, रक्खतिया, रोहिणिया ।

तते ण तस्स धण्णस्स सत्थवाहस्स अन्नया कयाइं पुव्वरत्तावरत्तकाल-समयंसि इमेयारूपे अज्झत्थिए समुप्पज्जित्था—

“एवं खलु अहं रायगिहे णयरे बहूणं राईसर पभिईणं सयस्स कुडुंबस्स बहूसु कज्जेसु य करणिज्जेसु य कुडुंबेसु य मंतणेसु गुज्जे, रहस्से निच्छए, ववहारेसु य आपुच्छणिज्जे, पडिपुच्छणिज्जे, मेढी पमाणे, आहारे, आलंबणे, चक्खुमेढीभूते सव्वकज्जवट्टावए ।

तं ण णज्जइ जं मए गयंसि वा चुयसि वा मयंसि वा भग्गंसि वा लुग्गंसि वा सडियंसि वा पडियंसि वा विदेसत्थसि वा विप्पवसियसि इमस्स कुडुंबस्स कि मन्ते आहारे वा आलंबे वा पडिवन्धे वा भविस्सति ?

“त सेयं खलु मम कल्लं विपुलं असणं पाणं खादिमं सादिमं उपक्खडावेत्ता मित्तणातिणियगसयणसंबंधिपरियणे, चउण्हं सुण्हाणं कुलघरवग्गं आमंतत्ता तं मित्तणाइणियगसयणं चउण्हं य सुण्हाणं, कुलघरवग्गं विपुलेण असणपाणखादिमसादिमेणं धूवपुप्फवत्थगंधमल्लालंकारेण सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव मित्तणातिं चउण्हं य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरतो चउण्हं सुण्हाणं परिक्खणट्टायाए पंच पंच सालिअक्खए दलइत्ता जाणमि तावक्का किहं वा सारक्खेइ वा सगोवेई संवट्ठेति वा ?”

एवं संपेहेइ संपेहित्ता मित्तणातिं चउण्हं सुण्हाणं कुलघरवग्गं आमंतंइ, आमंतित्ता विपुलं असणं पाणं खादिमं सादिमंजाव सक्कारेति समाणेति, सक्कारिता सम्माणित्ता तस्सेव मित्तणातिं चउण्हं य सुण्हाणं

कुलधरवग्गस्य पुरतो पंच सालि अक्खए गेण्हति, गेण्हत्ता जेट्ठा सुण्हा उज्झितिया तं सद्दावेत्ता, सद्दवित्ता एवं वदासी—

“तुमं णं पुत्ता ! मम हत्थाओ इमे पंच सालिअक्खए गेण्हदि, गेण्हत्ता अणुपुव्वेणं सारक्खेमाणी संगोवेमाणी विहराहि । जया णं अहं पुत्ता ! तुमं इमे पंच सालिअक्खए जाएज्जा, तथा णं तुमं मम इमे पंच सालिअक्खए पट्टिदिज्जाएज्जासि” त्ति कट्ठु सुण्हाए हत्थे दलयति, दलइत्ता पडिविसज्जेति ।

ततो णं सा उज्झिया धण्णसा “तह त्ति” इयमट्ठं पट्टिसुणेति पट्टि-सुणित्ता धण्णस्स सत्थवाहस्स, हत्थाओ ते पंच सालिअक्खए गेण्हति, गेण्हत्ता एगंतमवक्कमति, एगंतमवक्कभियाए इमेयारूवे अज्झात्थिए समुप्पज्जेत्था—

“एवं खलु तथाणं कोट्टागारंसि बहवे पल्ला सालीणं पट्टिपुण्णा चिट्ठंति, तं जया णं मम ताओ इमे पंच सालिअक्खए जाएस्सति, तथा णं अहं पल्लंतराओ अन्ने पंच सालिअक्खए गहाय दाहामि” त्ति कट्ठु कट्ठु एवं संपेहेइ संपेहित्ता ते पंच सालिअक्खए एगते एडेति, पट्टित्ता सकम्मसंजुत्ता जाया यावि होत्था । एवं भोगवतीयाए त्रि, णवरं सा छेस्सेति, छोल्लित्ता अणुगिलति अणुगिलित्ता सकम्मसंजुत्ता जाया । एवं रक्खिया वि नवरं गेण्हति गेण्हत्ता इमेयारूवे अग्गत्थिए समुप्पज्जेत्था—

एव खलु मम ताओ इमस्स मित्तणाति पउण्ह सुण्हाणं कुलधरवग्गस्स य पुरतो सद्दावेत्ता एवं वदासी—‘तुमं णं पुत्ता । मम हत्थाओ...जाव पट्टिदिज्जाएज्जासि ति कहु मम हत्थसि पंच सालिअक्खए दलयति, तं भवियव्वमेत्थ कारणेण” ति कहु एवं संपेहेनि, संपेहित्ता ते पंच सालि अक्खए सुद्धे वत्थे वंअइ वधित्ता रयणकरंढियाए पक्खिवेइ, पक्खिवेइ, पक्खिवित्ता असीसामूले ठावेइ, ठावित्ता तिसंभं पठिजागरमाणी त्रिदरइ ।

तए णं से धण्णे सत्थवाहे तस्सेव मित्तं जाव चउत्थिं रोहिणीयं सुण्हुं सद्दावेति सद्दावित्ता...जाव ‘तं भवियव्वं एत्थ कारणेणं, तं सेयं खलु मम एए सालिअक्खए सार अक्खमाणीए सगोवेमाणीए, संबड्ढमाणीए” ति कहु एवं संपेहेति संपेहित्ता कुलधरपुरसे सद्दावेति, सद्दाविता एवं पयासी—

“तुम्हे णं देवाणुप्पिया ! एते पंच सालिअक्खए गेण्हह, गेण्हत्ता पढमपाउसंसि महावुट्टिकायसि निवइयंसि समाणंसि खुड्डागं केयारं सुपरि-करेह कम्मियं करित्ता इमे पंच सालिअक्खए वावेह वावित्ता दोच्चंफि

उक्खयनिक्खए करेह करित्ता वाडिपक्खेवं करेह, करित्ता सारक्खेमाणा संगोवेमाणा अणुपुब्बेणं सवह्वेह” ।

तते णं ते कोडुंबिया रोहिणीए एतपट्ठं पडिसुणेंति, पडिसुणित्ता ते पंच सालिअक्खए गेण्हंति, गेण्हंत्ता अणुपुब्बेण सारक्खंति संगोवति विहरति ।

तए ण ते कोडुंबिया पढमपाउससि महाबुट्टिकायंसि णिवइयंसि समाणंसि खुड्डायं केदारं सुपरिकम्मियं करेंति, करित्ता ते पंच सालि अक्खए ववंति ववित्ता दोच्चपि तच्चपि उक्खयनिहए करेंति करित्ता वाडिपरिक्खेवं करेंति करित्ता अणुपुब्बेणं सारक्खेमाणा संगोवेमाणा संपड्ढेमाणा विहरंति । तते ए ते सालीअक्खए अणुपुब्बेणं सारक्खिज्जमाणा संगोविज्जमाणा संबड्ढिज्जमाणा साली जाया किण्हा किण्होभासा । निउरंवझया पासादीया, दंसणीया, अभिरूवा, पडिरूवा ।

तते णं ते साली पत्तिया, वत्तिया, गब्भिया, पसूया, आगयगंधा, खीरइया, बद्धफला, पक्का परियागया सल्लइया पत्तइया हरियपव्वकंडा जाया यावि होत्था ।

तते णं ते कोडुंबिया ते सालीए पत्तिए...जाव सल्लइए पत्तइए जाणित्ता तिक्खेहि णवपज्जएएहि असिय एहि लुणेंति, लुणित्ता करयलमलिते करेंति, करित्ता पुणंति, तत्थ णं चोक्खाणं, सूयाणं, अखंडाणं, अफोडियाणं छड्डु-छड्डुपूयाणं सालीणं मागहए पत्थए जाए ।

तते णं ते कोडुंबिया ते साली नवएसु घडएसु पक्खिवंति, पक्खिवित्ता उपल्लिपंति उपल्लिपित्ता लंछियमुद्धते करेंति, करित्ता कोट्टागारस्स एगदेसंसि ठावेंति, ठावित्ता सारक्खेमाणा संगोवेमाणा विहरति ।

तते णं ते कोडुंबिया दोच्चम्मि वासारत्तंसि पढमपाउसंसि महाबुट्टिकायंसि निवइयंसि खुड्डागं केदारं सुपरिकम्मियं करेंति, करित्ता ते साली ववंति दोच्चं पि तच्च पि उक्खयणिहए.....जाव लुणेंति.... . जाव चलण-तल्लमलिए करेंति, करित्ता पुणंति, तत्थ णं सालीणं वहवे कुडए जाए जाव एगदेसंसि ठावेंति, ठावित्ता सारक्खेमाणा संगोवेमाणा विहरंति ।

तते ण ते कोडुंबिया तच्चंसि वासारत्तंसि महाबुट्टिकायंसि वहवे केदारे सुपरिकम्मिए करेंति,जाव लुणेति, लुणित्ता संवहति, संवहित्ता खल्लय करेति, करित्ता मल्लेंति, जाव वहवे कुंभा जाया ।

तते णं ते कोडुंबिया साली कोट्टागारंसि पक्खिवंति.....जाव विहरंति । चउत्थे वासारत्ते वहवे कुंभसया जाया ।

तते णं तस्स धण्णस्स पंचमयंसि संवच्छरंसि परिणममाणंसि पुव्वर-
त्तावरत्तकालसमयंसि इमेयारूवे अब्झत्थिए समुपज्जित्था—

एवं खलु मम इओ अतीते पंचमे संवच्छरे चउण्हं सुण्हाणं परिकख-
णट्टयाए ते पंच सालिअकखता हत्थे दिआ । तं सेयं खलु मम कल्लं पंच
सालिअकखए परिजाइतए, जाणामि ताव काए किहं सारक्खिया वा सगोव्विया
वा संवड्ढिया ? त्ति कट्ठुकट्ठु एवं सपेहेति, संपेहित्ता कल्लं विपुलं असणं
पाणं खाइमं साडमं मित्तणाइ० चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गं.....जाव
सम्माणित्ता वस्सेव मित्तणाइ० चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरआ
जेट्ठं उज्झियं सदावेइ, सदावित्ता एवं वयासी—

“एवं खलु अह पुत्ता । इतो अताते पचमंसि संवच्छरंसि इमस्स
मित्तणाइ० चउण्ह सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स य पुरता. तव हत्थसि पचसालि
अकखए दलयामि, ‘जया ण अहं पुत्ता ! एए पंच सालिअकखए, पांडाद-
ज्जाएसि’ त्ति कट्ठु त हत्थंसि दलयामि, से नूणं पुवा अट्ठे समट्ठे ?”

“हंता अत्थि .”

“तं ण पुत्ता ! मम ते सालि अकखए पडिनिज्जाए हि ।”

तते ण सा उज्झितिया एयमट्ठं धण्णस्स पडिसुणेति, पडिसुणित्ता जेणेव
कोट्टागारं तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पल्लातो पंच सालिअकखए
गेण्हति, गेण्हित्ता, जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता
धण्णं सत्थवाहं एवं वयासी—

“एए णं ते पंच सालिअकखए” त्ति कट्ठु धण्णस्स सत्थवाहस्स
हत्थंसि ते पंच सालिअकखए दलयति । तते ण धण्णे सत्थवाहे उज्झियं
सवहसावियं करेति, करित्ता एवं वयासी—

“कि णं पुत्ता ! एए चेव पंच सालिअकखए उदाहु अन्ने ?”

तते णं उज्झिया धण्णं सत्थवाहं एवं वयासी—

“तं णो खलु ताओ । ते चेव पंच सालिअकखए एएणं अन्ने” ।

तते णं से धण्णे उज्झियाए अंतिए एयमट्ठं सोच्चा णिसम्म
असुरुत्ते मिसिमिसे माणे उज्झितियं तस्स मित्तनाति० चउण्ह सुण्हाणं
कुलघरवग्गस्स य पुरओ तस्स कुलघरस्स छारुज्झियं च छाणुज्झियं
च कयवरुज्झियं च समुच्छियं च सम्मज्झिअं च पाउवदाइं च ण्हाणोवदाइं
च वाहिरपेसणकारि ठवेति ।

एवामेव समणाउसो । जो अहं निग्गंथो वा निग्गंथी वा जाव
पव्वतिते पंच य से महव्वयाति उज्झियाइं भवति, से णं इह भवे चेव

बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं बहूणं सावियाणं हीलण्डजे संसारकंतारं अणुपरियदृइस्सइ, जहा सा उच्चिया ।

एवं भोगवइया वि । नवर तस्स कुलघरस्स कंडितियं च कोट्टितियं च पीसतियं च एवं रुधंतियं च रंधतियं च परिवेसंतियं च परिभायतियं च अत्रिभतरियं च पेसणकारिं महाणसिणि ठवेइ ।

एवामेव समणाउसो । जो अहं समणो वा समणी वा पंच य से महव्वयाइं फोडियाइं भवति, से णं इह भवे चेव बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं, बहूणं सावयाणं, बहूणं सावियाणं हीलण्डजे, जहा व सा भोगवतिया ।

एवं रक्खितिया वि । नवरं जेणेव वासघरे तेवेण उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मंजूसं विहाडेइ, विहाडित्ता रयणकरंडगाओ ते पंच सालिअक्खए गेणहाति. गेणित्ता जेणेव धणणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पंच सालिअक्खए धणणस्स सत्थवाहस्स हत्थे दलयति ।

तते णं से धणणे सत्थवाहे रक्खितियं एवं वदासी—

“किं णं पुत्ता ! ते चेव एए पंच सालिअक्खए उदाहु अन्ने !” त्ति ।

तते णं रक्खितिया धणणं सत्थवाहं एवं वदासी—

ते चेव ते पंच सालिअक्खए णो अन्ने ।”

तते णं से धणणे सत्थवाहे रक्खितियाए अंतिए एयमट्ठं सोच्चा हट्टुट्ठे तस्स कुलघरस्स हिरन्नस्स य कंसदूसविपुलधणसंतसारसावतेज्जस्स य भंडागारिणिं ठवेति । एवामेव समणाउसो ! “जाव पंच य से महव्वयाति रक्खियाति भवन्ति, से णं इह भवे चेव बहूणं समणाणं, बहूणं समणीणं, बहूणं सावयाणं, बहूणं सावियाणं अच्चण्डजे जहा सा रक्खिया ।

रोहिणिया वि एवं चेव । नवरं “तुब्भे ताओ । मम सुवहुयं सगढी-सागढं दलाहिं जेणं अहं तुब्भं ते पंच सालिअक्खए पडिणज्जाएमि ।”

तते णं से धणणे सत्थवाहे रोहिणि एवं वदासी—

“कदं णं तुणं मम पुत्ता ! ते पंच सालिअक्खए सगढसागडेणं निज्जाइस्ससि ?”

तते णं सा रोहिणी धणणं सत्थवाहं एवं वदासी—

“एवं खलु तातो ! इओ तुब्भे पंचमे संवच्छरे इभस्स मित्तं जाव चहवे कुंभसया जाया, तेणेव कमेणं । एवं खलु ताओ ! तुब्भे ते पंच सालिअक्खए सगढसागडेणं निज्जाएमि ।”

तते णं से धणणे सत्थवाहे रोहिणी याए सगढसागढं दलयति । तते णं, रोहिणी सुवहुं सगढसागढं गहाय जेणेव सए कुलघरे तेणेव उवागच्छइ

उवागच्छत्ता कोट्टागारे विहाडेति, विहाडित्ता पल्ले उट्ठिभदति उट्ठिभदित्ता सगड्डीसागडं भरेति, भरित्ता रायगिहं नयरं मज्झमंमज्झेणं जेणोव सए गिहे, जेणोव धणणे सत्थवाहे तेणोव उवागच्छति ।

तते णं रायगिहे नगरे बहुज्जणो अन्नमन्नं एवमातिक्खात—“धन्ने णं देवाणुप्पिया ! धणणे सत्थवाहे, जस्स णं रोहिणिया सुण्हा जीए ण पंच सालिअक्खए सगडसागडि एणं निज्जाएति ।”

तते णं से धणणे सत्थवाहे ते पंच सालिअक्खए सगडसागडेणं निज्जाएतिते पासति, पासित्ता हट्ठुट्ठे पडिच्छति, पडिच्छित्ता तस्सेव मित्तनाति० चउण्ह य सुण्हाणं कुलवरवग्गस्स पुरतो रोहिणीयं सुण्हं तस्स कुलवरस्स बहुसु कज्जेसु म जाव रहस्सेसु य आपुच्छ-
गिज्ज पमाणभूयं ठावेति ।

एवामेव समणाउसो ! जाव पच अहव्वया संवड्ढिया भवंति, से णं इह भवे चेव बहूणं समणणं अण्णिज्जे संसारकंतरं वीतीवइस्सड जहा वसा रोहिणीया ।

(श्रीजाताधर्मकथाङ्गम् , अध्ययन ७)

दुवे कुम्मा

तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नामं नयरी होत्था ।

तीसे णं वाणारसीए नयरीये वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसिभागे गंगाए महानदीए मयंगतीरद्वहे नामं दहे होत्था—अणुपुव्वसुजायवप्पूगंभीर-सीयलजले, अच्छविमलसलिलपलिच्छन्ने संछन्नपत्तपुप्फपलासे, बहुउपल—पउम—कुमुय—नल्लिणसुभय सोगन्धियपुंदरीय—सयपत्त—सदूसरत्त—वेसरपुप्फोवचिये पासादीये, दरिसणिज्जे, अमिरूवे, पडिरूवे ।

तत्थ णं बहूणं मच्छाण य कच्छभाण य गाहाण य मगराण य संसुभाराण य सइयाण य साहस्सियाणय य सयसाहस्सियाण च जूहाइं निब्भमाइं, निरूविग्गाइं सुहंसुहेण अमिरममाणगाति अमिरममाणगाति विहरति ।

तस्स णं मयंगतीरद्वहस्य अदूरसामंते एत्थ णं महं एगे मालुयाकच्छए होत्था ! तत्थ णं दुवे पावसियालगा परिवसंति, पावा, चंडा, रोहा तल्लिच्छा साहसिया, लोहितपाणी अभिसत्थी, आमिसाहारा, आमिसप्पिया आमिसलो-ला, आमिसं गवेसमाणा रति वियालचारिणो दिया पच्छन्नं चात्रि चिट्ठंति ।

तते णं ताओ मयंगतीरद्वहातो अन्यया कदाइं सूरियंसि चिरत्थमियंसि लुलियाए संझाए, पविरलमाणुसंसि णिसंतपडिणिसंतंसि समाणसि दुवे कुम्मगा आहारत्थी, आहारं गवेसमाणा सणियं सणियं उत्तरंति, तस्सेव, मयंगतीरद्वहस्स परिपेरंतेणं सव्वतो समंता परिघोलेमाणा परिघोलेमाणा विति कप्पेमाणा विहरति ।

तयणतरं च णं ते पावसियालगा आहारत्थी, आहारं गवेसमाणा मा-लुयाकच्छयाओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ताजेणेव मयंगतारे दहे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छत्ता तस्सेव मयंगतीरद्वहस्स परिपेरंतेणं परि-घोलेमाणा परिघोलेमाणा चित्ति वित्ति कप्पेमाणा विहरति ।

तते णं ते पावसियाला ते कुम्मए पसंति पासित्ता जेणेव ते कुम्मए तेणेव पहारेत्थ गमणाए ।

तते णं ते कुम्मगा ते पावसियालए एज्जमाणे पासंति, पासित्ता भीता, तत्था, तसिया, उव्विग्गा, संजातभया हत्थे य पादेय गीवाए य सएदि काएदि साहरंति साहरित्ता निच्चला, निप्फंदा तुसिणिया संचिट्ठति ।

तते णं ते पावसियालया जेणेव ते कुम्भगा तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छिता, ते कुम्भगा सव्वतो समंता उव्वतेति, परियतेति, आसारंति, संसारंति, चालेंति, घट्टेति, फट्टेति, खोभेति नहेहि आलुपंति, दंतेहि य अक्खोडेंति, नो चेव णं संचाएंति तेसि कुम्भगाण सरीरस्स आवाहं वा पवाहं वा वावाहं वा उप्पाएत्तए छविच्छेयं वा करेत्तए ।

तते णं ते पावसियालया एय कुम्भए दोच्चं पि तच्चं पि सव्वतो समंता उव्वतेति .. जाव णो चेव णं संचाएंति करित्तए । ताहे संता, तंता परितंता, निव्विन्ना समाणा सणियं सणियं पच्चोसक्केति, एगंतमवक्कमंति, निच्चला निष्फंदा तुसिणीया संचिट्ठंति । तत्थ णं एगे कुम्भगे ते पावसियालए चिरंगते दूरगए जाणित्ता सणियं सणियं एगं पायं निच्छुभति ।

तते णं ते पावसियालया तेणं कुम्भएणं सणियं सणियं एगं पायं नीणियं पासंति, पासित्ता, ताए उक्किट्ठाए गईए सिग्घं, चवलं, तुरियं, चंडं, वेगितं जेवेण से कुम्भए तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छिता तस्स णं कुम्भगस्स तं पायं नखेहि आलुपंति, दंतेहि अक्खोडेंति, ततो पच्छा मंसं च सोणियं च आहारंति, आहारित्ता त कुम्भगं सव्वतो समंता उव्वतेति .. जाव नो चेव णं संचाएंति करेत्तए, ताहे दोच्चं पि अवक्कमंति । एवं चत्तारि वि पाया जाव सणियं सणियं गीवं णीणेति । तते णं ते पावसियालगा तेणं कुम्भएणं गीवं णीणिय पासंति, पासित्ता सिग्घं, चवलं, तुरियं, चंडं नहेहि दंतेहि कवालं विहाडेंति, विहाडित्ता तं कुम्भगं जीवियाओ ववरोवेति, ववरोवित्ता मंसं च सोणियं च आहारंति ।

एवामेव समणाउसो ! जो अम्मह निग्गन्धो वा निग्गंधी वा आयरिय-उव्वज्जायाणं अंतिए पव्वतिए समाणे पंच य से इंदियाइं अगुत्ताइं भवंति, से णं इह भवे बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं सावगाणं साविगाणं हीलणिज्जे परलोगे वि य णं आगच्छति बहूणं दंडणाणं संसारकंतारं अणु-परियट्टति, जहा से कुम्भए अगुत्तिदिए ।

तते णं ते पावसियालगा जेणेव से दोच्चए कुम्भए तेणेव उवागच्छंति उवागच्छिता, तं कुम्भगं सव्वतो समंता उव्वतेति... जाव दंतेहि अक्खोडेंति... चेव णं संचाएंति... करेत्तए ।

तते णं ते पावसियालगा पि तच्चं पि... जाव नो संचाएंति तस्स कुम्भगस्स किचि आवाहं वा विवाहं वा... जाव छविच्छेयं वा करेत्तए, ताहे संता, तंता, परितंता, निव्विन्ना समाणा जामेव दिसि पाउवभूअए तामेव दिसि पडिगया ।

तते णं से कुम्मए ते पावसियालए चिरंगए दूरंगए जाणित्ता सणियं
 सणियं गीवं नेणेति, नेणित्ता दिसावलयं करेड, करित्ता जमगसमगं चत्तारि
 वि पादे नीणेति, नीणेत्ता ताए उक्किट्ठाए कुम्मगईए वीईवयमाणे वीईवयमाणे
 जेणेव मयंगतीरह्हे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता मित्तनातिनिगसयण-
 बंधिपरियणेणं सद्धि अभिसमन्नागए यावि होत्था ।

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं समणो वा समणी वा पंच से
 इंदियाति गुत्ताति भवंति से ण इदभवे अच्छणिज्जे जहा उ से कुम्मए
 गुत्तिदिए ।

(श्रीज्ञाताधर्मकथाङ्गम् , अध्ययनम् ४)

सिरिसिरिवालकहा

अरिहाइनवपयाइं, झाइत्ता हिअयकमलमज्झमि ।
 सिरिसिद्धककमाहप्पमुत्तमं क्किपि जंपेमि ॥ १ ॥
 अत्थित्थ जंबुदीवे, दाहिणभरहद्धमज्झिमे खंडे ।
 बहुधणधन्नसमिद्धो, मगहादेसो जयवसिद्धो ॥ २ ॥
 जत्थुप्पन्नं सिरिवीरनाहतित्थं जयंमि वित्थरियं ।
 तं देसं सविसेसं, तित्थं भासंति गीयत्था ॥ ३ ॥
 तत्थ य मगहादेसे, रायगिहं नाम पुरवरं अत्थि ।
 वेभारविडलगिरिवरसमलंकियपरिसरपएसं ॥ ४ ॥
 तत्थ य सेणियराओ, रज्जं पालेइ तिजयविक्खाओ ।
 वीरजिणचलणभत्तो, विहिअज्जिय तित्थयरगुत्तो ॥ ५ ॥
 जस्सत्थि पढमपत्ती, नंदा नामेण जोइ वरपुत्तो ।
 अभयकुमारो बहुगुणसारो चउबुद्धिभंडारो ॥ ६ ॥
 चेडयनरिंदधूया, बीया जस्सत्थि चिल्लणा देवी ।
 जीए असोगयंदो पुत्तो हल्लो विहल्लो अ ॥ ७ ॥
 अन्नाउ अणेगाओ धारणीपमुहाउ जस्स देवीओ ।
 मेहाइणो अणेणो, पुत्ता पियमाइपयभत्ता ॥ ८ ॥
 सो सेणियनरनाहो, अभयकुमारेण विहियउच्छाहो ।
 तिहुयणपयडपयाडो, पालइ रज्जं च धम्मं च ॥ ९ ॥
 एयंमि पुणो समए, सुरमहिओ वद्धमाण तित्थयरो ।
 विहरंतो संपत्तो, रायगिहासन्ननयरंमि ॥ १० ॥
 पेसेइ पणमसीसं, जिट्ठं गणहारिणं गुणगरिट्ठं ।
 सिरिगोयमं मुणिंदं, रायगिहलोयलाभत्थं ॥ ११ ॥
 सो लद्धजिणाएसो, संपत्तो रायगिहपुरोज्जाणे !
 कइवयमुणिपरियरिओ, गोयम सामी समोसरिओ ॥ १२ ॥
 तस्सागमणं सोउं, सयलो नरनाहपमुहपुरलोओ ।
 नियनियरिद्धिसमेओ, समागओ भत्ति उज्जाणे ॥ १३ ॥
 पंचविहं अभिगमणं, काउं तिपयाहिणाउ दाऊणं ।
 पणमिय गोयम चलणे, उवविट्ठो उचियभूमीए ॥ १४ ॥

भयवंपि सजलजलहर-गंभीरसरेण कहिउमाढत्तो ।
 धम्मसरुवं सम्मं, परोवयारिक्कतलिच्छो ॥ १५ ॥
 भो भो महाणुभागा ! दुलहं लहिऊण माणुसं जंमं ।
 खित्तकुलाइपहाणं, गुरुसामग्गि च पुण्णवसा ॥ १६ ॥
 पंचविहंपि पमायं गुरुयावायं विवड्जिउं झत्ति ।
 सद्धम्मकम्मविसए, समुज्जमो होइ कायव्वो ॥ १७ ॥
 सो धम्मो चउभेओ, उवइट्ठो सयलज्जिणवरिदेहि ।
 दाणं सीलं च तवो. भावोऽवि अ तस्सिमे भेया ॥ १८ ॥
 तत्थवि भावेण विणा, दाणं नहु सिद्धिसाहणं होई ।
 सीलंपि भाववियलं, विहहं चिय होइ लोगंमि ॥ १९ ॥
 भावं विणा तवोवि हु, भवोहवित्थारकारणं चेव ।
 तम्हा नियभावुच्चिय, सुविसुद्धो होइ कायव्वो ॥ २० ॥
 भावोवि मणोविसओ, मणं च अइदुज्जयं निरालवं ।
 तो तस्स नियमणत्थं, कहियं, सालवणां क्षाणं ॥ २१ ॥
 आलंवणाणि जइवि हु, बहुप्पयाराणि संति सत्थेसु ।
 तह वि हु नवपयझाणं विति जगसुपहाणंगुरुणो ॥ २२ ॥
 अरिहंसिद्धायरिया, उज्जाया साहुणो अ सम्मत्तं ।
 नाणं चरणं च तवो, इव पयनवगं मुणोयव्वं ॥ २३ ॥
 तत्थऽरिहंतेऽट्टारसदोषविमुक्के विसुद्धनाणमए ।
 पयडियतत्ते नयसुरराए झाएह निच्चंपि ॥ २४ ॥
 पनरसभेयपसिद्धे, सिद्धे घणकम्मबंधणविमुक्के ।
 सिद्धाणंतचउक्के, झायह तम्मयमणा सययं ॥ २५ ॥
 पंचायारपवित्ते, विसुद्धसिद्धंतदेसणुज्जुत्ते ।
 परउवयारिक्कपरे, निच्चं झाएह सूरिवरे ॥ २६ ॥
 गणत्तिस्सु निउत्ते, सुत्तत्थज्जावणंमि उब्जुत्ते ।
 सव्भाए लीणमणे, सम्मं भाएह उज्जाए ॥ २७ ॥
 सव्वासु कम्मभूमिसुं, विहरंते गुणगणेहि संजुत्ते ।
 गुत्ते मुत्ते झायह, मुणिराए भिट्ठियकसाए ॥ २८ ॥
 सव्वन्नुपणीयागमपयडियतत्तत्थसदहणरुवं ।
 दंसणरयणपईवं, निच्चं धारेह मणभवणे ॥ २९ ॥
 जीवाजीवाइपयत्थ सत्थ तत्ताववोहरुवं च ।
 नाणं सव्वगुणाणं, मूलं सिक्खेह विणएणं ॥ ३० ॥

असुह किरियाण चाओ, सहासुकिरियासु जोय-अपमाओ ।
 तं चारित्तं उत्तममुवजुत्तं पालह निरुत्तं ॥ ३१ ॥
 घणकम्मतमोभरहरणभाणुभूयं दुवालसंगधरं ।
 नवरमकसायतावं, चरेह सम्मं तवोकम्मं ॥ ३२ ॥
 एयाई नवपयाई, जिणवरधम्मंमि सारभूयाई ।
 कल्लाणकारणाई, विहिणा आराहियव्वाई ॥ ३३ ॥
 अन्न च-एएहि नवपएहि, सिद्धं सिरिसिद्धचक्कमाउत्तो ।
 आराहंतो संतो, सिरिसिरिपालुव्व लहइ सुहं ॥ ३४ ॥
 तो पुच्छइ मगहेसो को एसो मुणिवरिंद ! सिरिपालो ।
 कह तेण सिद्धचक्कं, आराहिय पावियं सुक्खं ? ॥ ३५ ॥
 तो भणइ मुणो निमुणसु, नवर! अक्खाणयं इमं.रम्मं ।
 सिरिसिद्धचक्कमाहप्पसुंदरं परमचुज्जकरं ॥ ३६ ॥

तथाहि—

इत्थेव भरहखित्ते, दाहिणखंडंमि अत्थि सुपसिद्धो ।
 सव्वट्टिकयपवेसो, मालवनामेण वरदेसो ॥ ३७ ॥

सो य केरिसो ? :—

पए पए जत्थ सुगुत्तिगुत्ता, जोगप्पवेसा इव संनिवेसा ।
 पए पए जत्थ अगंजणीया, कुडुंबमेला इव तुंगसेला ॥ ३८ ॥
 पए पए जत्थ रसाउलाओ, पणंगणाओव्व तरंगिणीओ ।
 पए पए जत्थ सुहंकराओ, गुणावलीओव्व वणावलीओ ॥ ३९ ॥
 पए पए जत्थ सवाणियाणि, महापुराणीव महासराणी ।
 पए पए जत्थ सगोरसाणि, सुहीमुहाणीव सुगोउलाणि ॥ ४० ॥
 तत्थ य मालवदेसे, अकयपवेसे दुकालउमरेहिं ।
 अत्थि पुरी पोरणा, उज्जेणी नाम सुपहाणा ॥ ४१ ॥

सा य केरिसा ? :

अण्णोसो जत्थ पयावईओ, नरुत्तमाणं च न जत्थ संखा ।
 महेसरा जत्थ गिहे गिहेसु, सचीवरा जत्थ समग्गलोया ॥ ४२ ॥
 वरे घरे जत्थ रमंति गोरी-गणा सरीओ अ पए पए अ ।
 वणे वणे यात्रि अण्णोसंभा, रई अ पीईविय ठाणठाणे ॥ ४३ ॥
 तीसे पुरीई सुरवर पुरीई अहियाइ वणणण काउं ।
 जइ निउणवुद्धिकलिओ, सक्कगुरु चेव सक्केइ ॥ ४४ ॥
 तत्थत्थि पुहविपालो, पयपालो नामओ अ गुणओ अ ।
 जस्स पयावो सोमो, भीमो विय सिद्ध दुट्टजणे ॥ ४५ ॥

तस्सवरोहे बहुदेहसोह अवहरिय गोरिगव्वेवि ।
 अच्चंतं मणहरणे, निउसाओ दुन्नि देवीओ ॥ ४६ ॥
 सोहग्गलडहदेहा, एगा सोहग्गसुन्दरीनामा ।
 वीया अ रूवसुंदरी, नामा रूवेण रइतुल्ला ॥ ४७ ॥
 पढमा माहेसर कुलसंभूया तेण मिच्छदिट्ठित्ति ।
 वीया साअवधूया तेणं सा सम्मदिट्ठित्ति ॥ ४८ ॥
 तओ सरिसवयाओ, समसोहग्गाउ सरिसरूवाओ ।
 सावत्तेवि हु पायं, परूप्परं पीतिकलिआआ ॥ ४९ ॥
 नवरं ताण मणट्टियधम्मसरूवं विचारयंताणं ।
 दूरेण विसंवाओ, विसपीऊसेहि सारिच्छो ॥ ५० ॥
 तओ अ रमंतीओ, नवनवलीलाहि नरवरेण समं ।
 थोवंतरंमि समए, दोवि सगव्भाउ जायाओ ॥ ५१ ॥
 समयंमि पसूयाओ, जायाओ कन्नगाउ दोहिपि ।
 नरनाहोवि सहरिसो, वद्धावणयं करावेई ॥ ५२ ॥
 सोहग्गसुंदरी नंदणाइ सुरसुंदरित्ति वरनामं ।
 वीयाइ मयणसुंदरि, नामं च ठवेइ नरनाहो ॥ ५३ ॥
 समये समप्पियाओ, तओ सिवधम्मजिणमयविऊणं ।
 अञ्जावयाण रन्ना, सिवभूतिसुबुद्धिनामाणं ॥ ५४ ॥
 सुरसुंदरी अ सिक्खेइ, लिहियं गणियं च लक्खणं छंदं ।
 कव्वमलंकारजुयं, तक्कं च पुराणसमिईओ ॥ ५५ ॥
 सिक्खेइ भरहसत्थं, गीयं नट्टं च जोइसतिगिच्छं ।
 विज्जं मंतं तंतं, हरमेहलचित्तकम्माइं ॥ ५६ ॥
 अन्नाइंपि कुंडलहाराइं करलाघवाइकम्माइं ।
 सत्थाइं सिक्खियाइं, तीइ चमुक्कारजणयाइं ॥ ५७ ॥
 सा कावि कला तं क्किपि, कोसलं तं च नत्थिं विन्नाणं ।
 जं सिक्खियं न तीए, पन्नाअभिओगजोगेणं ॥ ५८ ॥
 सविसेसं गीयाइसु, निउणा वीणाविणीयलीणा सा ।
 सुरसुन्दरी वियट्ठा,—जाया पत्ता य तारुन्नं ॥ ५९ ॥
 जारिसओ होह गुरु, तारिसओ होइ सीसगुणजोगो ।
 इत्तुच्चिय सा मिच्छ—दिट्ठि उक्किट्ठदापा अ ॥ ६० ॥
 तह मयणसुंदरीवि हु, एया उ कलाओ लीलमित्तेण ।
 सिक्खेइ विमलपन्ना, धन्ना विणएण संपन्ना ॥ ६१ ॥

जिणमयनिउरोणञ्जावण सा मयणसुंदरीवाला ।
तह सिक्खविया जह जिणमयमि कुसलत्तणं पत्ता ॥ ६२ ॥

एगा सत्ता दुविहो नओ य कालत्तयं गइचउक्कं ।
पंचेव अत्थिकाया, दव्वल्लक्कं च सत्त नया ॥ ६३ ॥

अठ्ठेव य कम्माइं नवतत्ताइं च दसविहो धम्मो ।
एगरस पडिमाओ वारस वयाइं गिहीणं च ॥ ६४ ॥

इच्चाइ वियाराचारसारकुसलत्तणं च संपत्ता ।
अन्ने सुहुमवियारेवि मुणइ सा निययनामं वि ॥ ६५ ॥

कम्मणं मूलत्तरपयडीओ गणइ मुणइ- कम्मठिइं ।
जाणइ कम्मविवागं, वंधोदयदीरणं संतं ॥ ६६ ॥

जीसे सो उव्व्हाओ, संतो दंतो जिडदिओ धीरो ।
जिणमयरओ सुबुद्धि, सा किं नहु होइ तस्सीला ? ॥ ६७ ॥

सयलकलागमकुसला, निम्मलसम्मत्तसीलगुणकलिया ।
लज्जा सज्जा सा मयणसुंदरी जुव्वण पत्ता ॥ ६८ ॥

अन्नदिणे अत्थिभतरसहानिविठ्ठेण नरवरिंदेण ।
अज्जावयसहियाओ, अणाविआओ कुमारीओ ॥ ६९ ॥

विणओणयाउ ताओ, सरुवलावन्नखोहिअसहाओ ।
विणिवेसिआउ रत्ता, नेहेणं उभयपासेसु ॥ ७० ॥

हरिसवसेणं राया, तासि बुद्धिपरिक्खणनिमित्तं ।
एगं देइ समस्सा—पयं दुविन्दिपि समकालं ॥ ७१ ॥

यथा “पुन्निहि लब्भइएहु,”
तो तक्कालं अइचंचलाइ अच्चंतगव्वगहिलाए ।
सुरसुन्दरीइ भणियं, हुं हुं पूरेमि निसुणेह ॥ ७२ ॥

यथा—धणजुव्वण सुत्रियडुपण, रोगरहिअ निअ देहु ।
मण वल्लह मेलावडउ, पुन्निहि लब्भइ एहु ॥ ७३ ॥

तं सुणिय निवो तुठ्ठो, पसंसए साहु साहु वज्जाओ ।
जेणेसा सिक्खविआ, परिसावि भणेइ सच्चमिणं ॥ ७४ ॥

तो रत्ता आइठ्ठा, मयणा विहु पूरए समस्सं तं ।
जिणवयणरया संता दंता ससहावसारिच्छं ॥ ७५ ॥

यथा—विणयविवेयपसणमणु सीलसुनिम्मलदेह ।
परमप्पहमेलावडउ, पुण्णेहि लब्भइ एहु ॥ ७६ ॥

तो तीए उवभाओ, मायावि अ हरिसिआ न उणसेसा ।
जेण तत्तोवएसो न कुणइ हरिसं कुदिट्ठिणं ॥ ७७ ॥

इओ अ—

कुरुजंगलंमि देसे, संखपुरीनामपुरवरी अत्थि ।
जा पच्छा विकखाया, जाया अहिच्छत्तनामेणं ॥ ७८ ॥
तत्थत्थि महीपालो कालो इव वेरिआण दमिआरी ।
पइवरिसं सो गच्छइ, उज्जेणि निवस्स सेवाए ॥ ७९ ॥
अन्नदिणे तप्पुत्तो, अरिदमनो नाम तारतारुओ ।
सम्पत्तो पिअठाणे, उज्जेणि रायसेवाए ॥ ८० ॥
तं च निवपणमणत्थं समागयं तत्थ दिव्वरूवधरं ।
सुरसुन्दरी निरिक्खइ, तिक्खकउक्खेहिं ताडति ॥ ८१ ॥
तत्थेव थिरनिवेसिआदिट्ठी दिट्ठा निवेण सा बाला ।
भणिया य कहसु वच्छे ! तुज्ज वरो केरिसो होउ ? ॥ ८२ ॥
तो तीए हिट्ठाए, धिट्ठाए मुक्कलोअलज्जाए ।
भणियं तायपसाया, जइ लब्भइ भणियं कहवि ॥ ८३ ॥
ता सव्वकलाकुसलो, तरुणोवररुवपुण्णालावन्नो ।
एरिसओ होउ वरो, अहवा ताओचिअ पमाणं ॥ ८४ ॥
जेण ताय तुमं चिय, सेवयजणमणसमीहियत्थाणं ।
पूरणपवणो दीससि, पच्चक्खो कप्परुक्खव्व ॥ ८५ ॥
तो तुट्ठो नरनाहो, दिट्ठिनिवेसेण नायतीइमणा ।
पभणेइ होउ वच्छे ! एसऽरिदमणो वरी तुज्ज ॥ ८६ ॥
तो सयलसभात्ताओ, पभणइ नरनाह एस सजोगो ।
अइसोहणीऽहिवल्लीपूगतरूणं व निव्वमंतं ॥ ८७ ॥
अह मयण सुन्दरीवि हु, रन्ना नेहेण पुच्छिया वच्छे ।
केरिसओ तुज्ज वरो, कीरउ ? मह कहसु अविलंबं ॥ ८८ ॥
सा पुण जिण वयणवियारसारसंजणियनिम्मलविवेआ ।
लज्जागुणिकसज्जा, अहोमुही जा न जंपेइ ॥ ८९ ॥
ताव नरिंदेण पुणो पट्ठा सा भणइ ईसि हसिऊणं ।
ताय विवेयसमेओ, मं पुच्छसि तंसि किमजुत्तं ॥ ९० ॥
जेण कुलवालिआओ, न कहंति हवेउ एस मज्जवरो ।
जो किर पिऊहिं दिन्नो, सो चेव पमाणियव्वुत्ति ॥ ९१ ॥
अम्मा पिउणोवि निमित्तमित्तमेवेह वरपयाणंमि ।
पायं पुव्वनिवट्ठो, सम्बन्धो होइ जीवाणं ॥ ९२ ॥

जं जेण जया जारिसमुवज्जियं होइ कम्म सुहमसुहं ।
तं तारिसं तयासे, संपज्जइ दोरियनिबद्धं ॥ ९३ ॥
जा कन्ना बहुपुन्ना, दिन्ना कुकुलेवि सा हवइ सुहिया ।
जा होइ हीणपुन्ना, सुकुले दिन्नावि सा दुहिया ॥ ९४ ॥
ता ताय ! नायतत्तस्स, तुज्झ नो जुज्जए इमो गव्वो !
जं मज्झ कयपसयापसायओ सुहदुहे लोए ॥ ९५ ॥
जो होइ पुन्न बलिआं, तस्स तुमं ताय ! लहु पसीएसि ।
जो पुण पुण्णविहूणो, तस्स तुमं नो पसीएसि ॥ ९६ ॥
भवियव्वया सहावो, दव्वाइया सहाइणो षावि ।
पायं पुव्वोवज्जियकम्माणुगया फलं दिति ॥ ९७ ॥
तो दुम्मिओय राया, भणेइ रे तंसि मह पसाएण ।
चत्थालंकाराइ, पहिरंती कीसिमं भणसि ? ॥ ९८ ॥
हसिऊण भणइ मयणा, कयसुक्यवसेण तुज्झ गेहंमि ।
उप्पन्ना ताय ! अहं, तेणं माणेमि सुक्खाइं ॥ ९९ ॥
पुव्वकयं सुकयं चिअ, जीवाणं सुक्खकारणं होइ ।
दुकयं च कयं दुक्खाण, कारणं होइ निब्भतं ॥ १०० ॥
न सुरासुरेहि, नो नरवरेहिं, नो बुद्धिबलसमिद्धेहिं ।
कहवि खल्लिज्जइ इंतो, सुहासुहो कम्मपरिणामो ॥ १०१ ॥
तो रुट्ठो नरनाहो, अहो अहो अप्पपुन्निष्ठा एसा ।
मज्झ कयं क्किपि गुणं, नो मन्नइ दुव्वियङ्गा य ॥ १०२ ॥
पभणेइ सहालोओ, सामिय ? किमियं मुणेइ मुद्धमई ।
तं चेव कप्परुक्खो, तुट्ठो रुट्ठो कयंतो य ॥ १०३ ॥
मयणा भणेइ धिद्धी, धणत्तवमित्तत्थिणो इमे सव्वे ।
जाणंतावि हु अलिअं, मुहप्पियं चेव जंपंति ॥ १०४ ॥
जइ ताय ! तुह पसाया, सेवयलोआ हवंति सव्वेवि ।
सुहिया ता समसेवानिरया किं दुक्खियया एगे ? ॥ १०५ ॥
तम्हा जो तुम्हाण, रुक्खइ सो ताय ! मज्झ होउवरो ।
जइ अत्थि मज्झपुन्नं, ता होही निग्गुणोवि गुणी ॥ १०६ ॥
जइ पुण पुन्नविहिणा, ताय ! अहं ताव सुंदरोवि वरो ।
होही असुंदरुक्खिय, नूणं मह कम्मदोसेण ॥ १०७ ॥
तो गाढयरं राया, रुट्ठो चित्तेइ दुव्वियङ्गाए ।
एयाइ कओ लहुओ, अहं तओ वेरिणी एसा ॥ १०८ ॥

रोसेण वियडभिउडी भीसणवयणं पलोइऊण निवं ।
 दिक्खो भणेइ मंती, सामिय ! रइवाडियासमओ ॥ १०९ ॥
 रोसेण धमधमंतो, नरनाहो तुरयरयणमारूढो ।
 सामंतमंतिसहिओ, विणिग्गओ रायवाडीए ॥ ११० ॥
 जाव पुराओं बाहिं, निग्गच्छइ नरवरो सपरिवारो ।
 ता पुरओ जणवंदं, पिच्छइ साढंवरमियंतं ॥ १११ ॥
 तो विम्हिण्ण रत्ता, पुट्टो मंती स नायवुत्तंतो ।
 विन्नवइ देव निसुणह, कहेमि जणवंद परमत्थं ॥ ११२ ॥
 सामिय ! सरूवपुरिसा, सत्तसया नववया ससौंडीरा ।
 दुट्ठक्कुट्टभिभूया, सव्वे एगत्य संमिलिया ॥ ११३ ॥
 एगो य ताणु बालो, मिलिओ उंवरयवाहिगहियंगो ।
 सो तेहि परिगहिओ, उंवरराणुत्ति कयनामो ॥ ११४ ॥
 वरमेसरिमारूढो, तयदोसी छत्तधारओ तस्स ।
 गयनांसा चमरधरा, धिणिधिणिसद्दा य अग्गपहा ॥ ११५ ॥
 गयकत्ता घटकरा, मंडलवइ अंगरक्खगा तस्स ।
 ददुल्ल थइआइत्तो गलीअगुलि नामओ मंती ॥ ११६ ॥
 केवि पसूइयवाया, कच्छादब्भेहि केपि विकराला ।
 केवि विउचिअपामासमन्निया सेवगा तस्स ॥ ११७ ॥
 एवं सो कुट्टिअपेउण्ण परिवेढिओ महीवीढे ।
 रायकुत्तेसु भमंतो, पंजिअदाणं पगिण्हेइ ॥ ११८ ॥
 सो एसो आगच्छइ, नरवर ! आढंवरेण संजुत्तो ।
 ता भग्गमिण मुत्तुं, गच्छह अन्नं दिसं तुब्भे ॥ ११९ ॥
 तो बलिओ नरनाहां, अत्ताइ दिसाइ जाव ताव पुरो ।
 तो पेडयंपि तीए, दीसाइ बलियं तुरिअ तुरितं ॥ १२० ॥
 राया भणेइ मंति, पुरओ गंतूणिमे निवारेसु ।
 मुहमग्गियंपि दाडं, जेणेसि, दसणं न सुहं ॥ १२१ ॥
 जा तं करेइ मंती, गलिअंगुलिनामओ दुयं ताव ।
 नरवर पुरओ ठाडं, एवं भणिडं समाढत्तो ॥ १२२ ॥
 सामिअ ! अम्हाण पहू, उवरनामेण राणओ एसो ।
 सव्वत्थ वि मन्निज्जइ, गरुएहि द्दाणमाणेहि ॥ १२३ ॥
 तेणऽम्हाणं धणकणयचीरपमुहेहि कीरड न क्विपि ।
 एदस्स पसायेणं, अम्हे सव्वेवि अइमुहिणो ॥ १२४ ॥

किञ्च—एगो नाह ! समरिथि अम्ह मण्चिंतिओ विअप्पुत्ति ।
 जइ लहर राणओ राणियंति ता सुन्दरं होइ ॥ १२५ ॥
 ता नरनाह ! पसायं, काऊणं देहि कज्जगं एगं ।
 अवरेण कणगकप्पणदारोणं तुम्ह पज्जतं ॥ १२६ ॥
 तो भणइ रायमंती अहो अजुत्तं विमग्गिअं तुमए ।
 को देइ नियं धूय कुट्ठकिलिट्ठस्स जाणंतो ॥ १२७ ॥
 गल्लिअंगुलिणा भणियं, अम्हेहि सुया निवस्सिमा कित्ती ।
 जं किल मालवराया, करेइ नो पत्थणाभगं ॥ १२८ ॥
 तो सा निम्मलकित्ती, हारिज्जउ अज्ज नरवरिदस्स ।
 अहवा विज्जउ कावि हु, धूया कुकुलेवि संभूया ॥ १२९ ॥
 पभण्णइ नरवरिदो, दाहिस्सइ तुम्ह कन्नगा एगा ।
 को किर हारह कित्ति, इत्तियमित्तेण कज्जेण ? ॥ १३० ॥
 चित्तेइ मणे राया, कोवानलजलियनिम्मलविवेगो ।
 नियधूयं अरिभुयं, तं दाहिस्सामि एयस्स ॥ १३१ ॥
 सहसा वल्लिऊण तओ, नियआवासंमि आगओ राया ।
 बुल्लावइ तं मयणासुन्दरिनामं नियं धूयं ॥ १३२ ॥
 हुं अज्जवि जइ मन्नसि, मज्झ पसायस्स संभवं सुक्खं ।
 ता उत्तमं वरं ते, परिणाविय देमि भूरि धणं ॥ १३३ ॥
 जइ पुण नियकम्मं चिय, मन्नसि ता तुज्झ कम्मणाणीओ ।
 एसो कुट्ठिअराणो, होउ वरो कि वियप्पेण ? ॥ १३४ ॥
 हसिऊण भणइ बाला, आणीओ मज्झ कम्मणा जो उ ।
 सो चेव मह पमाणं, राओ वा रंकजाओ वा ॥ १३५ ॥
 कोबंधेणं रन्ना, सो उंवरराणओ समाहूओ ।
 भणिओ य तुममिमीए, कम्माणीओसि होसु वरो ॥ १३६ ॥
 तेणुत्तं नो जुत्तं, नरवर ! वुत्तंपि तुज्झ इय वयणं ।
 को कणयरयणमालं बंधइ कागस्स कंठमि ॥ १३७ ॥
 एगमहं पुव्वकयं, कम्मं भुजेमि एरिसमणज्जं ।
 अवरं च कहगिमीए, जम्मं बोलेमि जाणतो ? ॥ १३८ ॥
 ता भो नरवर ! जइ देसि कावि ता देसू मज्झ अणुख्वं ।
 दासी विलासिणिधूयं, नो वा ते होउ कल्लणं ॥ १३९ ॥
 तो भणइ नरवरिदो, भा भो महनंदणी इमा किंपि ।
 नो मज्झकयं मन्नइ, नियकम्मं चेव मन्नेइ ॥ १४० ॥

तेणं चिअ कम्मेणं, आणीओ तंसि चेव जो इ वरो ।
 जइ सा निअकम्मफलं, पावइ ता अम्ह को दोसो ? ॥ १४१ ॥
 तं सोउणं बाला, उट्ठिता भक्ति उंबरस्स करं ।
 गिण्हइ निययकरेणं, विवाहलगंगं साहंति ॥ १४२ ॥
 सामंतमंतिअंतेउरिउ वारंति तहवि सा बाला ।
 सरयससिसरिसवयणा, भणइ सई सुच्चि अपमाणं ॥ १४३ ॥
 एगत्तो माउलओ, एगत्तो रूपसुंदरीमाया ।
 एगत्तो परिवारो, रुयइ अहो केरिसमजुत्तं ? ॥ १४४ ॥
 तहवि न नियकोवाओ, वलेइ राया अईव कट्ठिणमणो ।
 मयणावि मुणियतत्ता, निअसद्वाओ न पचलेइ ॥ १४५ ॥
 तं वेसरिमारोविअ, जा चलिओ उंबरो निअयठाण ।
 ता भणइ नयरलोओ, अहो अजुत्तं अजुत्तंति ॥ १४६ ॥
 एगे भणंति धिद्धी, रायाणं जेणिमं कयमजुत्तं ।
 अन्ने भणंति धिद्धी, एयं अइदुव्विणीयंति ॥ १४७ ॥
 केवि निंदंति जणणि, तीए निदंति केवि उवभायं ।
 केवि निदंति दिव्वं, जिणधम्मं केवि निदंति ॥ १४८ ॥
 तहवि हु वियसियवयणा, मयणा तेणुंवर्रेण सहजंति ।
 न कुणइ मणे विसाय, सम्मं धम्मं वियाणंति ॥ १४९ ॥
 उंबरपरिवारेणं, मिलिणं हरिसनिव्वरंणेणं ।
 निअपहुणो भत्तेणं, विवाहक्किच्चाइं विहियाइं ॥ १५० ॥
 इत्तो—रन्ना सुरसुंदरीइ वीवाहणत्थमुज्झाओ ।
 पुट्ठो सोहणलगंगं, सो पभणइ राय ! निसुणेसु ॥ १५१ ॥
 अज्जं चिय दिणसुंद्री, अत्थि परं सोहणं गयं लगंगं ।
 तइया जइया मयणाइ, तीइ कुट्ठिअकरो गहिओ ॥ १५२ ॥
 राया भणेइ हुं हुं नाओ लगंगस्स तस्स परमत्थो ।
 अहुणावि हु निअधूयं एयं परिणावइस्सामि ॥ १५३ ॥
 रायाएसेण तओ, खणमित्तेणावि विहिअसामग्गि ।
 मंतीहिं पट्ठिठेहि, विवाहपव्वं समाढत्तं ॥ १५४ ॥

तं च केरिसं :—

ऊसिअतोरणपयडपडायं, वज्जिरतुरगहीरनिनायं ।
 नच्चिरचारुविलासिण्णित्ठं, जयजयसदकरंत सुभट्टं ॥ १५५ ॥
 पट्टं सुयवड ओलिज्जमालं, कूरकपूरतंबोल विसालं ।
 धवलदिअंतमुवासिणिवग्गं तुट्टपुरंधिकहिअविहिमग्गं ॥ १५६ ॥

मभगणजगद्विजंतसुदानं, सयण सुवासिणिक्रयसम्माणं ।
 मद्दलवायचरुफललोयं जणजणवयमणि जणियपमोयं ॥ १५७ ॥
 कारिअसुरसुंदरिसिणगारं, सिगारिअअरिदमनकुमारं ।
 हथलेवइ मंडलविहिचगं करमो-यण करिदाणसुरंगं ॥ १५८ ॥
 एवं विहिअविवाहो, अरिदमणो लद्धहयगयसणाहो ।
 सुंदरीसमेओ, जा निगच्छइ पुरवरीओ ॥ १५९ ॥
 ता भणइ सयललोओ, अहोऽगुरुओ इमाण संजोगो ।
 धन्ना एसा सुरसुंदरी य जीए वरो एसो ॥ १६० ॥
 केवि पसंसंति निवं, केवि वरं केवि सुंदरि कन्नं ।
 केवि तीएँ उञ्जायं, केवि पसंसंति सिवधम्मं ॥ १६१ ॥
 सुरसुंदरीसमाणं, मयणाइ विहंढणं जणो दट्ठुं ।
 सिवसासणप्पसंसं, जिणसासणनिदणं कुणइ ॥ १६२ ॥
 इओय-निअपेढयस्स मउम्मे, रयणीए अंवरण सांमयणा ।
 भणिआ भहे ! निसुणसु, इमं अजुत्तं कयं रन्ना ॥ १६३ ॥
 तहवि न किपि विणट्ठं, अज्जवि तं गच्छ कमवि नररयणं ।
 जेण होइ न विहलं, एयं तुह रुवनिम्माणं ॥ १६४ ॥
 इअ पेढयस्स मउम्मे, तुब्भवि चिट्ठंतिआइ नो कुसलं ।
 पायं कुसंगजणिअं, मञ्जवि जायं इमं कुट्ठं ॥ १६५ ॥
 तो तीए मयणाए, नयणंसुयनीरकलुसवयणाए ।
 पइपाएसु निवेसिअ-सिराइ भणिअं इमं वयणं ॥ १६६ ॥
 सामिअ ! सव्वं मह आइसेसु किचेरिसं पुणो वयणं ।
 नो भणियव्वं जं दूहवेइ मह माणसं एयं ॥ १६७ ॥
 अन्नं च पढमं महिलाजम्मं, केरिसयं तंपि होइ जइ लोए ।
 सीलविहूणं नूणं, ता जाणह कंजिअं कुहिअं ॥ १६८ ॥
 सीलं चिअ महिलाणं, विभूसणं सीलमेव सव्वस्सं ।
 सीलं जीवियसरिसं, सीलाउ न सुंदरं किपि ॥ १६९ ॥
 ता सामिअ ! आमरणं, मह सरणं तंसि चेव नो अन्नो ।
 इअ निच्छियं वियाणह, अवरं जं होइ तं होउ ॥ १७० ॥
 एवं तीए अइनिच्च—ताइ ददसत्तपिक्खणनिमित्तं ।
 सहसा सहस्सकिरणो, उदयाचलचूलिअं पत्तो ॥ १७१ ॥
 मयणाए वयणेणं, सो उंवरराणओ पभायंमि ।
 तीए समं तुरंतो, पत्तो सिरिरिसहभवणंमि ॥ १७२ ॥

आणंदपुलइ अंगेहि तेहिं दोहिवि नमंसिओ सामी ।
 मयणा जिणमयनिउणा, एवं थोउं समाढत्ता ॥ १७३ ॥
 भत्ति भरनमिरसुरिंदवद-वंदिअपयपढमजिणंदचंद ।
 चंदूजल केवल कित्तिपूरपूरियभुवणंतरवेरिसूर ॥ १७४ ॥
 सूरूव्व हरिअतमतिमिरदेवदेवासुरखेयरविहअसेव ।
 सेवागयगयमयरायपायपायडियपणामह कयपसाय ॥ १७५ ॥
 सायरसमसमयामयनिवास, वासवगुरूणोयरगुणविकास ।
 कासुज्जलसंजमसीललील, लीलाइविहिअमोहावहील ॥ १७६ ॥
 हीलापरजंतुसु अकयसाव, सावयजणजणिअआणंदभाव ।
 भावलयअलंकिअ रिसहनाह, नाहत्तणु करिहरि दुक्खदाह ॥ १७७ ॥
 इअ रिसह जिणेसर भुवणदिणेसर, विजयविजयसिरिपालपहो !
 मयणाहिअ सामिअ सिवगइगामिअ, मणह मणोरह पूरिमहो ॥ १७८ ॥
 एवं समाहिलीणा, मयणा जा थुणइ ताव जिणकठा ।
 करठिअफलेण सहिआ उच्छलिआ कुसुमवरमाला ॥ १७९ ॥
 मयणा वयणाओ उंवरेण सहसत्ति तं फलं गहिअं ।
 मयणाइ सयं माला, गहिया आणंदिअमणाए ॥ १८० ॥
 भणिअं च तीइ सामिअ किट्टिस्सइ एस तुम्ह तणुरोगो ।
 जेणेसो संजोगो जाओ जिणवरकयपसाओ ॥ १८१ ॥
 तत्तो मयणा पइणा सहिआ मुनिचंदगुरुसमीवंमि ।
 पत्ता पमुइअचित्ता भत्तीए नमइ तस्स पए ॥ १८२ ॥
 गुरूणो य तथा करुणापरित्तचित्ता कहंति भवियाणं ।
 गंभीरसजलजलहरसरेण धम्मस्स फलमेवं ॥ १८३ ॥
 सुमाणुसत्तं सुकुलं सुरूवं, सोहगमारुग्गमतुच्छमाउ ।
 रिद्धि च विद्धि च पहुत्त कित्ति पुन्नपसाएण लहंदि सत्ता ॥ १८४ ॥
 इच्चाइ देसणंते गुरूणो पुच्छंति परिचियं मयणं ।
 वच्छे कोऽयं धन्नो वरलक्खणलक्खिअसुपुन्नो ? ॥ १८५ ॥
 मयणाइ रुअंतीए कहिओ सव्वोवि निअयवुत्तंतो ।
 विन्नतं च न अन्नं भयवं ! मह किपि अत्थि दुहं ॥ १८६ ॥
 एयं चिअ मह दुक्खं जं मिच्छादिट्ठिणो इमे लोआ ।
 निंदंति जिणहधम्म सिवधम्मं चेव संसंति ॥ १८७ ॥
 ता पहु कुणह पसायं किपि उवायं कहेह मह पइणो ।
 जेणेस दुट्ठवाही जाइ खयं लोअवायं च ॥ १८८ ॥

पभरोइ गुरुभदे ! साहूण न कप्पए हु सावज्जं ।
 कहिडं किपि तिगिच्छं विज्जं मंतं च तंतं च ॥ १८९ ॥
 तहवि अणवज्जमेगं समत्थि आराहणं नवपयाणं ।
 इहलोइअपरलोइअसुहाणमूलं जिणुद्दिठं ॥ १९० ॥
 अरिहं सिद्धायरिआ उज्जाया साहुणो य सम्भत्तं ।
 नाणं चरणं च तवो, इअ पयनवगं परमतत्तं ॥ १९१ ॥
 ए एहि नवपएहि, रइअं अन्नं न अत्थि परमत्थं ।
 ए एसु च्चिअ जिण सासणस्स सव्वस्स अवयारो ॥ १९२ ॥
 जे किर'सिद्धा, सिज्झंति जे अ, जे आवि सिब्झइस्संति ।
 ते सव्वेवि हु नवपयझाणेणं चेव निव्वं तं ॥ १९३ ॥
 ए एसि च पयाणं पयमेगयरं च परम भत्तीए ।
 आराहिऊण रोगे संपत्ता तिजयसामित्तं ॥ १९४ ॥
 ए एहि नवपएहिं सिद्धं सिरिसिद्धचक्कमेअं जं !
 तस्सुद्धारो एसो पुव्वायरिएहिं निद्दिठो ॥ १९५ ॥
 गयणमकत्तिआयंतं उड्ढाहसरं सनायविन्दुकलं ।
 सपणव वीआणाहय—मंतसरं सरह पीढंमि ॥ १९६ ॥
 ज्ञायह अउदलवलए, सपणवमायाइएसुवाहंते ।
 सिद्धाइए दिसासुं विदिसासुं दंसणाईए ॥ १९७ ॥
 वी अवलयंमि अडदिसि, दलेसु साणाहए सरहवग्गे ।
 अंतरदलेसु अट्टसु, भायह परमिड्डिपढमपए ॥ १९८ ॥
 तइ अयलएवि, अडदिसि, दिप्पंत अणाहएहि अंतरिए ।
 प्रायाहियेण तिहिपंतिआहि ज्ञाएह लाद्धपए ॥ १९९ ॥
 ते पणववीअअरिहं, नमो जिणाणंत्ति एवमाईआ ।
 अडयालीसं शेआ, संमं सुगुरुवएसेणं ॥ २०० ॥
 तं तिगुणेणं मायावीएणं सुद्धसेयवण्णेणं ।
 परिवेडिऊण परिहीइ तस्स गुरुपायए नमह ॥ २०१ ॥
 अरिहं सिद्धगणीणं गुरुपलादिट्ठणंतसुगुरुणं ।
 दुरणंताण गुरुण य सपणववीयओ ताओ य ॥ २०२ ॥
 रेहादुगकयकलसागारामिअमंडलं व तं सरह ।
 चउदिसि विदिसि कमेणं जयाइजंमाइकयसेवं ॥ २०३ ॥
 सिरिविमलसामिपमुहाहिट्ठायगसयलदेवदेवीणं ।
 सुह गुरमुहाओ जाणिअ ताए पयाणं कुणह भाणं ॥ २०४ ॥

तं विज्जादेविसासणसुरसासणदेविअट्टुपासं ।
 मूलगहं कंठणिहि, चउपडिहारं च चउवीरं ॥ २०५ ॥
 दिसिवालखित्तवालेहि सेविअं धरणिमंडलपइट्ठं ।
 पूयंताण नराणं नूणं पूरेइ मणइट्ठं ॥ २०६ ॥
 एयं च विमलधवलं जो ज्ञायइ सुक्कञ्जाणजोएण ।
 तवसंघमेण जुत्तो, सो पावइ निज्जरं विउल ॥ २०७ ॥
 अक्खयसुक्खो सुक्खो जस्स पसाएण लब्भए तस्स ।
 ज्ञाणेणं अन्नाओ सिद्धाओ हुंति कि चुज्जं ? ॥ २०८ ॥
 एयं च परमतत्तं, परमरहस्सं च परममंतं च ।
 परमत्थं परमपयं, पन्नत्तं परमपुरिस्सेहि ॥ २०९ ॥
 तत्तो तिजयपसिद्धं अट्ठमहासिद्धिदायगं सुद्धं ।
 सिरिसिद्धचक्कमेअं, आराहइ परमभत्तीए ॥ २१० ॥
 खंतो दंतो संतो, एयस्साराहगो नरो होइ ।
 जो पुण त्रिवरीयगुणो, एयस्स विराहगो सो उ ॥ २११ ॥
 तम्हा एयस्साराहगेण एगंतसंतचित्तेणं ।
 निम्मलसीलगुणेणं मुणिणा गिहिणा वि होयव्वं ॥ २१२ ॥
 जो होइ दुट्ठचित्तो एयस्साराहगोवि होऊण ।
 तस्स न सिज्जइ एयं किंतु अवायं कुणइ नूणं ॥ २१३ ॥
 जो पुण एयस्साण्हगस्स उवरिमि सुद्धचित्तस्स ।
 चित्तइ किंपि विरुवं तं नूणं होइ तस्सेव ॥ २१४ ॥
 एएण कारणेणं पसन्नचित्तेण सुद्धसीलेण ।
 आराहणिज्जमेअं सम्मं तवकम्मविहिपुव्वं ॥ २१५ ॥
 आसोअसेअअट्टुमिदिणाओ आरंभिऊणमेयस्स ।
 अट्टुविहपूयपुव्वं, आयामे कुणह अट्टु दिणे ॥ २१६ ॥
 नवमंमि दिणे पंचामएण ष्हव्वणं इमएस काउणं ।
 पूयं च वित्थरेणं, आयंविममेव कायव्वं ॥ २१७ ॥
 एवं चित्तेवि तहा, पुणो पुणाऽट्ठाहियाण नवगेणं ।
 एगासीए आयंविलाण एयं हवइ पुन्नं ॥ २१८ ॥
 एयंमि कीरमाणे, नवपयम्माणं मणंमि कायव्वं ।
 पुन्ने य तवोकम्मो, उज्जमणंपि विहेयव्वं ॥ २१९ ॥
 एअं च तवोकम्मं, संमं जो कुणइ सुद्धभावेणं ।
 सयलसुरासुरनरवररिद्धीउ न दुल्लहा तस्स ॥ २२० ॥

एयंमि कए न हु दुट्ठकुट्टुखयजरभगंदराईआ ।
 पव्वंति महारोगा पुव्वुप्पन्नावि नासंति ॥ २२१ ॥
 दासत्तं पेसत्तं विकलत्तं दोहगत्तमंधत्तं ।
 देहकुल्लजुंगियत्तं न होइ एयस्स करणेणं ॥ २२२ ॥
 नारीणवि दोहगं, विसकन्नत्तं कुरंढरंढत्तं ।
 वंभत्तं मयवच्छत्तणं च न हवेइ कइयावि ॥ २२३ ॥
 कि बहुणा जीवाणं, एयस्स पसायओ सयाकालं ।
 मणवंल्लियत्थसिद्धी, हवेइ नत्थित्थ संदेहो ॥ २२४ ॥
 एवं तेसि सिरिसिद्धचक्कमाहप्पमुत्तमं कहिउं ।
 सावय समुदायस्सवि गुरुणो एवं उवइसंति ॥ २२५ ॥
 एएहि उत्तमेहि, लक्खिज्जइ लक्खणेहिं एसनरो ।
 जिणसासणस्स नूणं, अचिरेण पभावगो हो ही ॥ २२६ ॥
 तम्हा तुम्हं जुज्जइ, एसि साहम्मिआण वच्छल्लं ।
 काउं जेण जिणिदेहि वन्निअं उत्तमं एयं ॥ २२७ ॥
 तो तुट्ठेहिं तेहि, सुसावएहि वरंमि ठाणंमि ।
 ते ठाविऊण दिन्नं, धणरुणवत्थाइयं सव्वं ॥ २२८ ॥
 न य तं करेइमाया, नेव पिया नेव वंधुवग्गो अ ।
 जं वच्छल्लं साहम्मिआण सुस्सावओ कुणइ ॥ २२९ ॥
 तत्थ ठिओ सो कुमरो मयणावयणेण गुरुवएसेणं ।
 सिक्खेइ सिद्धचक्कप्पसिद्धपूआविहिं सम्मं ॥ २३० ॥
 अह अन्नदिणे आसोअसेअअट्टमितिहीइ सुमुहुत्ते ।
 मयणासहिओ कुमरो, आरंभइ सिद्धचक्कतवं ॥ २३१ ॥
 पढमं तणुमणसुद्धिं काऊण जिणालए जिणच्चं च ।
 सिरिसिद्धचक्कपूयं अट्पयारं कुणइ विहिणा ॥ २३२ ॥
 एवं कयविहिपूओ पच्चक्खाणं करेइ आयामं ।
 आणंदपुल्लइअंगो जाओ सो पढमदिवसे वि ॥ २३३ ॥
 बीअदिणे सविसेसं संजाओ तस्स रोगउवसामो ।
 एवं दिवसे दिवसे रोगखए वड्ढए भावो ॥ २३४ ॥
 अह नवमे दिवसंमी पूअं काऊण वित्थरविहीए ।
 पंचामएण ष्हवणं करेइ सिरिसिद्धचक्कस्स ॥ २३५ ॥
 ष्हवणसव्वंमि विहिए तेणं संतीजलेण सव्वंगं ।
 संसित्तो सो कुमरो जाओ सहसत्ति दिव्वतरू ॥ २३६ ॥

सव्वेसि संजायं अच्चरिअं तस्स दंसणे जाव ।
 ताव गुरु भणइ अहो एयस्स किमेयमच्चरिअं ? ॥ २३७ ॥
 इमिणा जलेण सव्वे दोसा गहभूअसाइणीपमुहा ।
 नासंति तक्खणेणं, भविआणं सुद्धभावाणं ॥ २३८ ॥
 खयकुट्ठजरभगंदरभूया वाया विसूइआइआ ।
 जे केवि दुट्ठरोगा ते सव्वे जंति उवसामं ॥ २३९ ॥
 जलजलणसप्पसावयभयाइं विसवेअणा उ ईईओ ।
 दुपयचउप्पयमारीउ नेव पहवंति लोअंमि ॥ २४० ॥
 वंझाणवि हुंति सुया, निंदूणवि नंदणा य नंदंति ।
 फिट्ठंति पुट्ठदोसा, दोहग्गं नासइ असेसं ॥ २४१ ॥
 इच्चाइ पहारवं निसुणिऊण दट्ठूण तं च पच्चक्खं ।
 लोआ महप्पमोआ संतिजलं लित्ति सविसेसं ॥ २४२ ॥
 तं कुट्ठिपेयदं पि हु तज्जलसंसित्तगत्तमचिरेण ।
 उवसंतप्पायरुअं जायं धम्मंमि सरुई य ॥ २४३ ॥
 मयणापइणो निरुवमरूवं च निरुविऊण साणंदा ।
 पमणेइ पइं सामिअ ! एसो सव्वो गुरुपसाओ ॥ २४४ ॥
 माअविअसुअसहोअरपमुहावि कुणंति तं न उवयारं ।
 जं निक्कारणकरूणापरो गुरु कुणइ जीवाणं ॥ २४५ ॥
 तं जिणधम्मगुरुणं, माहप्पं मुणिय निरुवमं कुमरो ।
 देवे गुरुंमि धम्मे, जाओ एगंतभत्तिपरो ॥ २४६ ॥
 धम्मपसाएणं चिय जह जह माणंति तत्थ सुक्खाइ ।
 ते दंपईउ तह तह धम्मंमि समुज्जमा निच्चवं ॥ २४७ ॥
 अह अन्नया उ ते जिणहराउ जा नीहरंति ता पुरओ ।
 पिक्खंति अद्धवुड्ढं एगं नारिं समुहमिति ॥ २४८ ॥
 तं पणमिऊण कुमरो पभणइ रोमंचकंचुइज्जंतो ।
 अहो अणवभा वुट्ठी संजाया जणणिदंसणओ ॥ २४९ ॥
 मयणा वि हु पिय जणणि नावं जा नमइ ता भणइ कुमरो ।
 अम्मा ! एस पहारवो सव्वो इमिए तुह ण्हुहाए ॥ २५० ॥
 साणंदा सा आसीसदाणपुवं सुयं च सुण्हं च ।
 अभिनंदिऊण पभणइ तइयाऽहं वच्च ! तं मुत्तुं ॥ २५१ ॥
 कोसंबीए विज्जं सोऊणं जाव तत्थ वच्चामि ।
 ता तत्थ जिणाययणे, दिट्ठो एगो मुणिवरिदो ॥ २५२ ॥

स्वतो दंतो संतो, उवउत्तो गुत्तिमुत्तिसंजुत्तो ।
 करुणारसप्पहाणो अवितहनाणो गुणनिहाणो ॥ २५३ ॥
 धम्मं वागरमाणो पत्थावे नमिय सो मए पुट्ठो ।
 भयवं ! किं मह पुत्तो कयावि होही निरुयगतो ॥ २५४ ॥
 तेण मुणिदेणुत्तं, भदे ! सो तुब्झ नंदणो तत्थ ।
 तेणं चिय कुट्ठियपेडण दट्ठूण संगहिओ ॥ २५५ ॥
 विहिओ उंवरराणुत्ति नियपहू लद्धलोयसम्माणो ।
 संपइ मालवनरयइधूयापाणप्पिओ जाओ ॥ २५६ ॥
 रायसुयावयणेणं गुरुवइठ्ठं स सिद्धवरचक्कं ।
 आराहिऊण सम्मं संजाओ कणयसमकाओ ॥ २५७ ॥
 सो य साहम्मिएहि, पूरियविह्वो सुधम्मकम्मपरो ।
 अच्छइ उज्जेणीए, घणीइ समन्निओ सुहिओ ॥ २५८ ॥
 तं सोऊणं हरिसिअचित्ताऽहं वच्छ ! इत्थ संपत्ता ।
 दिट्ठोसि बहूसहिओ, जुणहाइ ससिउव कयहरिसो ॥ २५९ ॥
 ता वच्छ ! तुमं बहुयासहिओ जयजीव नंद चिरकालं ।
 एसुच्चिय जिणधम्मो, जावज्जीवं च मह शरणं ॥ २६० ॥
 जिणारायपायपउमं, नमिऊणं वंदिऊण सुगुरुं च ।
 तिन्निवि करंति धम्मं, सम्मं जिणधम्मविहिनिउणा ॥ २६१ ॥
 ते अन्नदिणे जिगवरपूअं काऊण अंगअग्गमयं ।
 भावच्चयं करंता, देवे वंदंति उवउत्ता ॥ २६२ ॥

इओ य :—

धूयादुहेण सा रूपसुंदरी रुसिऊण सह रत्ता ।
 निअभायपुण्णपालस्स मंदिरे अच्छइ ससोया ॥ २६३ ॥
 वीसारिऊण सोअं, सणिअं सणिअं जिणुत्तवयणेहिं ।
 जार्गअचित्तविवेआ समागया चेइयहरंमि ॥ २६४ ॥
 जा पिकखइ सा पुरओ, तं कुमरं देववंदणापउणं ।
 निउणं निरुवमरुवं पच्चक्खं सुरकुमारं व ॥ २६५ ॥
 तपुट्ठोइ ठिआओ जणणीजायाउ ताव तस्सेव ।
 दट्ठूण रूपसुंदरि राणी चितेइ चित्तंमि ॥ २६६ ॥
 ही एसा क लहुया बहुया दीसेइ मज्झ पुत्तिसमा ।
 जाव निउणं निरिक्खइ उवलक्खइ ताव तं मयणं ॥ २६७ ॥
 नूणं मयणा एसा, लग्गा एयस्स कस्सवि नरस्स ।
 पुट्ठीइ कुट्ठिअं तं मुत्तूणं चत्तसइमग्गा ॥ २६८ ॥

मयणा जिणमयनिउणा संभाविज्जइ न एरिसं तीए ।
 भवनाडयंमि अहवा ही ही किं किं न संभवइ ? ॥ २६९ ॥
 विहिअं कुले कलंकं आणाअं दूसण च त्तिणधम्मे ।
 जीए तीइ सुयाए न मुयाए तारिसं दुक्खं ॥ २७० ॥
 जारिसमेरिस असमंजसेण चरिएण जीवयंतीए ।
 जायं मज्झ इमीए धूयाइ कलंकभूयाए ॥ २७१ ॥
 एवं चितंती रूपसुंदरी दुक्खपूरपडिपुण्णा ।
 करुणसरं रोयंती भणेइ एयारिसं वयणं ॥ २७२ ॥
 धिद्धी अहो अकज्जं निवडह वज्जं च मज्झ कुच्छीए ।
 जत्थुप्पन्नावि वियक्खणावि ही एरिसं कुणइ ॥ २७३ ॥
 तं सोऊणं मयणा जा पिक्खइ रूपसुंदरीजणणि ।
 रुयमाणिं ता नाओ तीए जणणीअभिप्पाओ ॥ २७४ ॥
 चिअवंदणं समगं काऊणं मयणसुंदरी जणणि ।
 कर वंदणेण वंदिअ विअसिअवयणा मणइ एवं ॥ २७५ ॥
 अम्मो ! हरिसट्ठाणे कीस विसाओ विहिज्जए एवं ? ।
 जं एसो नीरोगो जाओ जामाउओ तुम्हं ॥ १७६ ॥
 अन्नं च जं वियप्पह तं जइ पुव्वाइ पच्छिमदिसाए ।
 उगमइ कहवि भारू तहवि न एयं निय सुयाए ॥ २७७ ॥
 कुमरजणणीवि जंपइ सुंदरि । मा कुणसु एरिसं चित्ते ।
 तुज्झ सुआइ पभावा मज्झ सुओ सुंदरो जाओ ॥ २७८ ॥
 धन्नासि तुमं जीए कुच्छीए इत्थिरयणमुप्पन्नं ।
 एरिसमसरिससीलप्पभावचित्तामणिसरिच्छं ॥ २७९ ॥
 हरिसवसेणं सा रूपसुन्दरी पुच्छए किमेअं ति ? ।
 मयणावि सुविहिनिउणा पभणइ एयारिसं वयणं ॥ २८० ॥
 चेइअहरंमि वत्ताळावंमि कए निसीहिआभंगो ।
 होइ तओ मह गेहे वच्चह साहेमिमं सव्वं ॥ २८१ ॥
 तत्तो गंतूण गिहं मयणाए साहिओ समगोवि ।
 सिरिसिद्धचक्रमाहप्पसंजुओ निययवुत्तंतो ॥ २८२ ॥
 तं सोऊणं तुट्ठा रूपा पुच्छेइ कुमरजणणिपि ।
 वंसुप्पत्तिं तुह नंदणस्स सहि ! सोरमिच्छामि ॥ २८३ ॥
 पभणेइ कुमरमाया अंगादेसंमि अत्थि सुपसिद्धा ।
 वेरिहि कयअकंपा चंपानामेण वरनयरी ॥ २८४ ॥

तत्थ य अरि करिसीहो सीहरहो नाम नरवरो अत्थि ।
 तस्स पिया कमलपहा कुंकुण नरनाहलहुभइणी ॥ २८५ ॥
 तीए अपुत्तिआए चिरेण वरसुविणसुइओ पुत्तो ।
 जाओ जणि आणंदो वद्धावणयं च कारवियं ॥ २८६ ॥
 पभरोइ तओ राया अम्हं अणाहाइ रायलच्छीए ।
 पालणखमो इमो ता हवेउ नामेण सिरिपालो ॥ २८७ ॥
 सो सिरिपालो बालो जाओ जा वरिसजुयत्तपरियाओ ।
 ता नरनाहो सूलेण इत्ति पंचत्तमणुपत्तो ॥ २८८ ॥
 कमलपहा रुयंती मइसायरमंतिणा निवारित्ता ।
 धाईउच्छंगठिओ सिरिपालो थापिओ रज्जे ॥ २८९ ॥
 जं बालस्सवि सिरिपालनाम रत्तो पवत्तिआ आणा ।
 सव्वत्थवि तो पच्छा, निवमियकिच्चंपि कारवियं ॥ २९० ॥
 बालोवि महीपालो रज्जं पालेइ मंतिसुत्तेणं ।
 मंतीहि सव्वत्थवि रज्जं रक्खिज्जए लोए ॥ २९१ ॥
 कइवयदिणपज्जते बालयपित्तिज्जओ अजिअसेणो ।
 परिगहभेअं काउं, मंतइ निवमंतिवहणत्थं ॥ २९२ ॥
 तं जाणिऊण मंती कहिउं कमलपभाइ सव्वंपि ।
 विन्नवइ देवि जह तह रक्खिज्जमु नंदणं निययं ॥ २९३ ॥
 जीवंतेण सुएणं होही रज्जं पुणोवि निब्भंतं ।
 ता गच्छ इमं धित्तुं कत्थवि अहयंपि नासिस्सं ॥ २९४ ॥
 तत्तो कमला धित्तूण नंदणं निग्गया निसिमुहंमि ।
 मा होउ मंतभेओ त्ति सव्वहा चत्तपरिवारा ॥ २९५ ॥
 निवभज्जा सुकुमाला वहियव्वो नंदणो निसा कसिणा ।
 चंकमणं चरणेहि ही ही विहिविलसियं विसमं ॥ २९६ ॥
 पिअमरणं रज्जसिरीनासो एगागिणित्तमरितासो ।
 रयणीवि विहायंती हा संयइ कत्थ वच्चिस्सं ? ॥ २९७ ॥
 इच्चाइ चितयंती जा वच्चइ अग्गओ पभायंमि ।
 ता फिट्ठाए मिलियं कुट्टियनरपेडयं एगं ॥ २९८ ॥
 तं दट्ठूणं कमला, निरुपमरूवा महग्गआहरणा ।
 अव्वला वालिकसुत्ता भयकंपिरतणुलया रुयइ ॥ २९९ ॥
 तं रुयमाणि दट्ठुं पेडयपुरिसा भणंति करुणाए ।
 भदे ! कहेसु अम्हं काऽसि तुमं कीस वीहेसि ? ॥ ३०० ॥

तीए निअबंधूणं व, कहिओ सव्वोऽवि निययवुत्तंतो ।
 तेहि च सा सभइणिव्व सम्ममासासिआ एवं ॥ ३०१ ॥
 मा कस्सवि कुणसु भयं, अम्हे सव्वे सहोअरा तुब्भ ।
 एयाइ वेसरीए आरूढा चलसु वीसत्था ॥ ३०२ ॥
 ततो जा सा वरवेसरीए चडिआः पडेण पिहिअंगी ।
 पेडयमज्झंमि ठिया, नियपुत्तजुआ सुहं वयइ ॥ ३०३ ॥
 ता पत्ता वेरिभडा उब्भडसत्थेहिं भीसणायारा ।
 पुच्छंति पेडयं भो दिट्ठा कि राणिआ एगा ? ॥ ३०४ ॥
 पेडयपुरिसेहिं तओ, भणिअं भो अत्थि अम्ह सत्थंमि ।
 रउताणियावि नूनं, जइ कज्जं ता पगिण्हेह ॥ ३०५ ॥
 एगेग भडेण तओ, नायं भणिअं च दिति मे पामं ।
 सव्वं दिज्जइ संतं, तो कुट्टभएण ते नट्टा ॥ ३०६ ॥
 तेहि गएहि कमला, कमेण पत्ता सुहेण उज्जेणि ।
 तत्थ ठिआ य सपुत्ता, पेडयमन्नत्थ संपत्तं ॥ ३०७ ॥
 भूसणधणेण तणओ, जा विहिओ तीइ जुव्वणाभिमुहो ।
 ता कम्मदोसवसआं, उंबररोगेण सो गहिओ ॥ ३०८ ॥
 बहुएहिपि कएहिं, उवयारेहि गुणो न से जाओ ।
 कमलपहा अदन्ना, जणं जणं पुच्छए ताव ॥ ३०९ ॥
 केणवि कहिअं तीसे, कोसंबीए समत्थि वरविज्जो ।
 जो अट्टारसजाइ, कुट्ठस्स हरेइ निव्वंतं ॥ ३१० ॥
 कमला पुत्तं पाढोसिआण सम्मं भलाविऊण सयं ।
 विज्जस्स आणणत्थं, पत्ता कोसंबिनयरीए ॥ ३११ ॥
 तं विज्जं तित्थगयं, पडिक्खमाणी चिरं ठिआ तत्थ ।
 मुणिवयणाओ मुणिऊण पुत्तसुद्धिं इहं पत्ता ॥ ३१२ ॥
 साऽहं कमला सो एस मव्वं पुत्तुत्तमो (त्थि) सिरिपालो ।
 जाओ तुज्झ सुयाए, नाहो सव्वत्थ विकखाओ ॥ ३१३ ॥
 सीहरहरायजायं, नाढं जामाउअं तओ रूप्पा ।
 साणंदं अभिणंदइ, संसइ पुन्नं च धूयाए ॥ ३१४ ॥
 गंतूण गिहं रूप्पा, कहेइ तं भायपुण्णपालस्स ।
 सोऽवि सहरिसो कुमरं, सकुटुवं नेइ निचगेहं ॥ ३१५ ॥
 अप्पेइ वरावासं पूरइ धणधन्नकंचणाईयं ।
 तत्थऽच्छइ सिरिवालो दोगुट्टादेवलीलाए ॥ ३१६ ॥

अन्नदिणे तस्सावासपाससेरीइ निग्गओ राया ।
 पिक्खइ गवक्खसंठिअकुमरं मयणाइसंजुत्तं ॥ ३१० ॥^०
 तो सहसा नरनाहो मयणं दट्ठूण चितए एवं ।
 मयणाइ मयणवसगाइ मह कुलं महल्लियं नूणं ॥ ३१८ ॥
 इक्कं मए अजुत्तं कोवंधेणं तथा कयं वीअं ।
 कामंधाइ इमीए विहियं ही ही अजुत्तयरं ॥ ३१९ ॥
 एवं जावविसायस्स तस्स रत्तो सुपुण्णपालेण ।
 विन्नत्तं तं सव्वं धूयाचरिअं सअच्छरिअं ॥ ३२० ॥
 तं सोऊणं राया विम्हिअचित्तो गअओ तमावासं ।
 पणओ य कुमारेणं मयणासहिणण विणएणं ॥ ३२१ ॥
 लज्जाऽऽणओ नरिदो पभणइ धिद्धी ममं गयविवेअं ।
 जं दप्पसप्पविसमुच्छिणण कयमेरिसमकज्जं ॥ ३२२ ॥
 वच्छे ! धन्नाऽसि तुम कयपुन्ना तंसि तंसि सविवेआ ।
 तं चेव मुणियतत्ता जीए एयारिसं सत्तं ॥ ३२३ ॥
 उद्धरिअं मज्झ कुलं उद्धरिया जीइ निययजणणी वि ।
 उद्धरिओ निरधम्मो सा धन्ना तसि परमिक्का ॥ ३२४ ॥
 अन्नाणतमंधेणं दुद्धरऽहंकारगयविवेगेणं ।
 जो अवराहो तइआ कअओ मए तं खमसु वच्छे ! ॥ ३२५ ॥
 विणओणया य मयणा भणेइ मा ताय ! कुणसु मण खेयं ।
 एयं मह कम्मवसेण चेव सव्वपि संजायं ॥ ३२६ ॥
 नो देइ कोइ कस्सवि, सुक्खं दुक्खं च निच्छओ एसो ।
 निअयं चेव समज्जिअमुवभुञ्जइ जंतुणा कम्मं ॥ ३२७ ॥
 मा वहउ कोइ गव्वं जं किर कज्जं मए कयं होइ ।
 सुरवरकयंपि कज्जं कम्मवसा होइ विवरीअं ॥ ३२८ ॥
 ता ताय ! जिणुत्तं तत्तमुत्तमं मुणसु जेण नाएणं ।
 नज्जइ कम्मजियाणं बलावलं वंधमुक्खं च ॥ ३२९ ॥
 तत्तो धम्मं पडिबज्जिऊण राया भणेइ संतुट्ठो ।
 सीहरहराय तएअोजं जामाया मए लद्धो ॥ ३३० ॥
 तं पत्थरमित्तकए हत्थंमि पसारियंमि सहसत्ति ।
 चडिओ अचित्तिओ चिय नूनं चिंतामणी एसो ॥ ३३१ ॥
 जामाइयं च धूयं आरोविय गयवरंमि नरनाहो ।
 महया महेण गिहमाणिऊण सम्माणइ धणेहि ॥ ३३२ ॥

जायं च साहुवायं मयणाए सत्तसीलकलियाए ।
 ° जिण सासणप्पभावो सयले नयरंमि वित्थरिओ ॥ ३३३ ॥
 अन्नदिणे सिरिपालो ह्यगयरहसुहडपरियरसमेओ ।
 चडिओ रायवाडीए पच्चक्खो सुरकुमारुव्व ॥ ३३४ ॥
 लोए अ सप्पमोए पिवखंते चडिअ चंदसालासुं ।
 गामिल्लएण केणवि नागरिओ पुच्छिआ कोवि ॥ ३३५ ॥
 भो भो कहेसु को एस जाइ लीलाइ रायतणउव्व ? ।
 नागरिओ भणइ अहो, नरवर जामाउओ एसो ॥ ३३६ ॥
 तं सोऊण कुमारो सहसा सरताडिओव्व विच्छाओ ।
 जाओ वलिऊण समागओ अगेहंमि सविस्साओ ॥ ३३७ ॥
 तं तारिसं च जणणी दट्टूण समाकुला भणइ एवं ।
 किं अज्ज वच्छ ! कोवि हु तुह अंगे वाहए वाही ? ॥ ३३८ ॥
 किवा आखंडल सरिस तुज्झ केणावि खंडिया आणा ? ।
 अहवा अघटंतोवि हु पराभवो केणवि कओ 'ते ? ॥ ३३९ ॥
 किवा कन्नारयणं, क्किपि हु हियए खडुक्कए तुज्झ ।
 वरणीकओ अविणओ, सो मयणाए न संभवइ ॥ ३४० ॥
 केणावि कारणेणं, चिंतातुरमत्थि तुह मणं नूणं ।
 जेणं तुह मुहकमलं, विच्छायं दीसई वच्छ ! ॥ ३४१ ॥
 कुमरेण भणिअ मम्मो ! एएसि मज्झओ न एककंपि ।
 कारणंमत्थित्थमिमं, अन्नं पुण कारणं सुणसु ॥ ३४२ ॥
 नाहं निअयगुणेहि, न तायनामेण नो तुह गुणेहि ।
 इह विकूखाओ जाओ, अहयं सुसुरस्स नामेणं ॥ ३४३ ॥
 तं पुण अहमाहमत्तकारणं वज्जिअं सुपुरिसेहिं ।
 तत्तुच्चिय मज्झ मणं दूमिज्जइ सुसुरवासेणं ॥ ३४४ ॥
 तो भणिअं जणणीए, बहुसिन्नं मेलिऊण चउरंगं ।
 गिण्हसु निअपिअरज्जं, मह हिययं कुगसु निस्सल्लं ॥ ३४५ ॥
 कुमरेणुत्त सुसुरयवलेण जं गिण्हणं सरज्जस्स ।
 तं च महच्चिअ दूमइ, मज्झं चित्तं धुवं अम्मो ! ॥ ३४६ ॥
 ता जइ सभुयज्जिअ सिरिवलेण गिण्हामि पेइअं रज्जं ।
 ता होइ मज्झ चित्तंमि निव्वुई अम्मदा नेव ॥ ३४७ ॥
 तत्तो गंतूणमहं, कत्थवि देसंतरंमि इक्किल्लो ।
 अज्जिअलच्छिवलेणं, लहं गहिस्सामि पिअरज्जां ॥ ३४८ ॥

तं पइजंपइ जणणी, बालो सरलोऽसि तं सि सुकुमालो ।
देसंतरेसु भमणं, विसमं दुक्खावहं चेव ॥ ३४९ ॥
तो कुमरो जणणी पइ, जंपइ मा माइ ! एरिसं भणसु ।
तावच्चिय विसमत्तं, जाव ण धीरा पवज्जंति ॥ ३५० ॥
पभणइ पुणाऽवि माया, वच्छय ! अम्हे सहागमिस्सामो ।
को अम्हं पडिबंधो तुमं विणा इत्थ ठाणंमि ? ॥ ३५१ ॥
कुमरो कहेइ अम्मो ! तुम्हेहि सहागयाहि सव्वत्थ ।
न भवामि मुक्कलपत्तो, ता तुम्हे रहह इत्थेव ॥ ३५२ ॥
मयणा भणेइ सामिअ ! तुम्हं अणुगामिणी भविस्सामि ।
भारंपि हु क्विपि अहं न करिस्सं देहञ्जायव्व ॥ ३५३ ॥
कुमरेणुत्तं उत्तमधम्मपरे देवि ! मज्झ वयणेणं ।
नियसस्सुसुस्सुसणपरा तुमं रहसु इत्थेव ॥ ३५४ ॥
मयणाऽऽह पइपवासं सइओ इच्छंति कहवि नो तहवि ।
तुम्हं आयेसुच्चिय महप्पमाणं परं नाह ! ॥ ३५५ ॥
अरिहंताऽऽइपयाइं खणंपि न मणाउ मिद्धियव्वाइं ।
तियजणणि च सरिज्जसु कइयावि हु मंऽपि नियदासो ॥ ३५६ ॥
जणणीवि तस्स नाडण निच्छयं तिलयमंगलं काडं ।
पभणइ तुह सेयत्थं नवपयझाणं करिस्समहं ॥ ३५७ ॥
मयणा भणेइ अहयंपि नाह ! निच्चंपि निच्चलमणेणं ।
कल्लाणकारणाइं ज्ञाइस्सं ते नवपयाइं ॥ ३५८ ॥
तेणं मयणावयणामएण सित्तो नमित्तु माइपए ।
संभासिऊण दइयं सिरिपालो गहिअ करवालो ॥ ३५९ ॥
निम्मलवारुणमंडल मंडिअससिचारपाणसुपवेसे ।
तच्चरणपढमकमणं कमेण चल्लेइ गेहाओ ॥ ३६० ॥
सो गामागरपुरपत्तनेसु कोऊहलाइं पिक्खंतो ।
निठंमयचित्तो पंचाणणुव्व गिरिपरिसरं पत्तो ॥ ३६१ ॥
तत्थ य एगंमि वणे त्दणवणसरिससरसपुप्फफले ।
कोइल कलरव रम्मं तरुपंति जा निहालेड ॥ ३६२ ॥
ता चारुचंपयतले आसीणं पवररूवनेवत्थं ।
एगं सुंदरपुरिसं पिक्खइ मतं च ज्ञायंतं ॥ ३६३ ॥
सो जावसमत्तीए विणयपरो पुच्छिओ कुमारेण ।
कोऽसि तुमं कि ज्ञायसि एगागी किं च इत्थ वणे ? ॥ ३६४ ॥

तेणुत्तं गुरुदत्ता विज्जा मह अत्थि सा मए जविआ ।
 परमुत्तरसाहगमंतरेण सा मे न सिज्जेइ ॥ ३६५ ॥
 जइ तं होऽसि महायस ! मह उत्तरसाहगो कहवि अज्ज ।
 ताऽहं होमि कयत्थो, विज्जासिद्धीइ निब्भंत ॥ ३६६ ॥
 तत्तो कुमरकणं साहज्जेणं स साहगो पुरिसो ।
 लीलाइ सिद्धविज्जो जाओ एगइ रयणीए ॥ ३६७ ॥
 तत्तो साहगपुरिक्षेण तेण कुमरस्स ओसहीजुअलं ।
 पडिउवयारस्स कए दाऊणं भणियमेयं च ॥ ३६८ ॥
 जलतारिणी अ एगा परसत्थनिवारिणी तहा बीया ।
 एयाउ ओसहीओ तिधाउमढियाउ धारिज्जा ॥ ३६९ ॥
 कुमरेण समं सो विज्जसाहगो जाइ गिरिनियवंमि ।
 ता तत्थ धाउत्राइअ पुरिसेहि परिसं भणिओ ॥ ३७० ॥
 देव ! तुह दंसिएणं कप्पपमाणेण साहरयंताणं ।
 केणावि कारणेणं अम्हाण न होइ रससिद्धी ॥ ३७१ ॥
 कुमरेण तओ भणियं भो मह दिट्ठीइ साहह इमंति ।
 ता तेहिं तहाविहिए जाया कल्लाणरससिद्धी ॥ ३७२ ॥
 काऊण कंचणं साहगेहि भणिअं कुमार ! अम्हाणं ।
 जं जाया रससिद्धी तुम्हाणं सो पसाओत्ति ॥ ३७३ ॥
 ता गिण्ह कणगमेयं नो गिण्हइ निप्पिहो कुमारो य ।
 तहवि हु अल्लयतस्सवि किपि हु वंधंति ते वत्थे ॥ ३७४ ॥
 तत्तो कुमरो पत्तो कमेण भरुयच्छनामयं नयरं ।
 कणगव्वपण गिण्हइ वत्थालंकारसत्थाइं ॥ ३७५ ॥
 काऊण धारमढियं ओसहिजुयलं च वंधइ भुर्यमि ।
 लीलाइ भमइ नयरे सल्लंदं सुरकुमारुव्व ॥ ३७६ ॥

इओ य—

कोसंबीनयरीए धवलो नामेण वाणिओ अत्थि ।
 सो बहुधणुत्ति लोए, कुवेरनामेण त्रिकखाओ ॥ ३७७ ॥
 बहुकणयकोडिगाहिअकयाणगो रोगवाणुत्तेहि ।
 सहिओ सो सत्थवई भरुयच्छे आगओ अत्थि ॥ ३७८ ॥
 जाओ य तत्थ लाहो पवरो सो तहवि दव्वलोहेणं ।
 परकूलगमणपउणो पउणइ बहुजाणवत्ताइं ॥ ३७९ ॥

मञ्जिमजुंगो एगो सोलसवरकूवएहि कयसोहो ।
 चत्तारि य लहुजुंगा चउचउकूवेहि परिकलिआ ॥ ३८० ॥
 वउसफरपवहणाणं एगसयं वेडियाण अट्टसयं ।
 चउरासी दोणाणं चउसट्ठी वेगढाणं च ॥ ३८१ ॥
 सिल्लाणं चउपन्ना आवत्ताणं च तह य पंचासा ।
 पणतीसं च खुरप्पा एवं सयपंच बोहित्था ॥ ३८२ ॥
 गहिऊण निवाएसं भरिया विविहेहि ते कयाणेहि ।
 ना खुइयमालमेहि अहिट्टिया वाणिउत्तेहि ॥ ३८३ ॥
 मरजीवएहि गच्छिभल्लएहि खुल्लासएहि खेलेहि ।
 सुंकाणिएहि सययं कयजालवणीविहिविसेसा ॥ ३८४ ॥
 नाणविहसत्थविहत्थहत्थसुइडाण दससहस्सेहि ।
 धवलस्स सेवगेहि रक्खिज्जंता पयत्तेणं ॥ ३८५ ॥
 बहुचमरल्लत्तसिक्करिधयवढवरमड्डविहिअसिंगारा ।
 सिहदोरसारनंगरपक्खरभेरीहि कयसोहा ॥ ३८६ ॥
 जलसंबलइंधणसंगहेण ते पूरिऊण समुहुत्ते ।
 धवलो य सपरिवारो चडिओ चालावए जाव ॥ ३८७ ॥
 ताव बलीसुवि दिज्जंतयासु वज्जंततारतूरेसुं ।
 निज्जामएहि पोआ चालिज्जंतावि न चलंति ॥ ३८८ ॥
 "तत्तो स संजाओ धवलो चिंताइ तीइ कालसुहो ।
 उत्तरिय गओ नयरि पुच्छइ सीकोत्तरि चैगं ॥ ३८९ ॥
 सा कहइ देवयार्थंभियाइं एयाइं जाणवत्ताइं ।
 वत्तीससुलक्खणवरबलीइ दिन्नाइ चलंति ॥ ३९० ॥
 तत्तो धवलो सुमहग्घवत्थुभिट्टाइ तोसिऊण निवं ।
 विन्नवइ देव ! एगं बलिकज्जे दिज्जउ नरं मे ॥ ३९१ ॥
 रत्ता भणियं—जो कोऽवि होइ वइदेसिओ अणाहो अ ।
 तं गिण्ह जहिच्छाए अन्नो पुण नो गहेयव्वो ॥ ३९२ ॥
 तत्तो धवलस्स भटा जाव गवेसंति तारिसं पुरिसं ।
 ता सिरिपालो कुमरो विदेसिओ जाणिओ तेहि ॥ ३९३ ॥
 वत्तीसलक्खणधरो कहिओ धवलस्स तेहि पुरिसेहिं ।
 धवलेण पुणो रायाएसो गहिओ य तग्गहणे ॥ ३९४ ॥
 सो सिरिपालो चउहट्टयंमि लीलाइ संनिविट्ठोवि ।
 धवलभडेहि व्वभडसत्थेहि सत्ति अक्खित्तो ॥ ३९५ ॥

रे रे तुरिअं चल्लमु रुद्धो तुह अज्जधवलसत्थवई ।
 तं देवया वलीए दिज्जसि मा कहसि नो कहिअं ॥ ३९
 कुमरेणुत्तं रेरे देह वलिं तेण धवलपसुणावि ।
 पंचाणणेण कत्थवि किं केणवि दिज्जए हु वली ? ॥ ३९
 तत्तो पयडंति भडा क्किपि बलं जाव ताव कुमरकयं ।
 सोऊण सीहनायं गोमाडगणुव्व ते नट्टा ॥ ३९
 धवलस्स पेरीएणं रत्तावि हु पेसियं नियं सिन्नं ।
 तंपि हु कुमरेण कयं हयप्पयावं खणद्धेणं ॥ ३९

सीलवई कहाणगं

इत्थेव जंबुद्वीवे भारह वासंमि वासवपुरं व ।
 कय-विबुह जणाणंदं नंदणपुरमत्थि वर-नयरं ॥
 पडिहय-पडिवक्ख-बलो हरि व्व अरि-भदणो तहि राया ।
 गुण-रयण-निही रयणायरु त्ति सिट्ठी तहि अत्थि ॥
 तस्स सिरीनाम-पिया रूव-गुणेणं सिरि व्व पच्चक्खा ।
 तीए न अत्थि पुत्तो, तेण दढं तम्मए सेट्ठी ॥

अन्नया भणिओ भज्जाए-अज्जउत्त ! अत्थि इत्थेव नयरुज्जारो अणिय-
 जिणिंद-मंदिर-दुवार-देसे अजियबला देवया अपुत्ताण पुत्तं, अवित्ताण
 वित्तं, अरज्जाण रज्जं, अविज्जाण विज्जं, असुक्खाण सुक्खं, अचक्खूण
 चक्खुं, सरोयाण रोय-क्खयं देइ एसा । कयं सेट्ठिणा तीए ओवाइयं ।
 कमेण जाओ पुत्तो । तस्स कयं 'अजियसेणो' त्ति नामं । जाओ जिण-
 धम्मज्जुओ सिट्ठी । जणयमणोरहेदि सह वड्ढिओ अजियसेणो । सिक्खिय-
 कलाकलावो लावन्नलच्छि-पुन्नं पवओ तारुन्नं । तस्स य सयल-जणव्भहिए
 स्वाइ-गुणे पिच्छिऊणचितियं सेट्ठिणा-जइ एस मह नंदणो निय-गुणाणु-
 रूवं कलत्तं न लहइ ता इमस्स अकयत्था गुणा ।

जओ—

सामी अविसेसन्नू अविणीओ परियणो पर-वसत्तं ।
 भज्जा य अणणुरूवा चत्तारि मणस्स सल्लाई ॥

इत्थंतरे आगओ एगो वाणिउत्तो । पणमिऊण सिट्ठि निविट्ठो समीवे ।
 पुट्ठो य सेट्ठिणा ववहार-सरूवं । कहियं तेण सव्वं । अन्नं च, तुहाएसेण
 गओहं कयंगलाए नयरीए । जाओ मे जिणदत्त-सिट्ठिणा समं ववहारो ।
 निमंतिओऽहं तेण भोयणत्थं । दिट्ठा मए तीग्गहे चंदकत्तेणं वयणोणं पओ-
 अराएहि हत्थपाएहि पवालेणं अहरेणं दिप्पमाणोहि रयणोहि रयणं नियंवेणं
 सुवन्नेणं अंगेणं मयण-महाराय-भंडार-मंजूस व्व संचारिणी एगा कन्नगा ।
 पुट्ठी मए सिट्ठी का एस त्ति । सिट्ठिणा वुत्तं भद ! मह धूया-मिसेण
 मुत्तिमई एसा चिंता ।

जञ्चो—

कि लट्ठं लहिही वरं पिययमं किं तस्स संपज्जिही
 कि लोयं ससुराइयं निय-गुण-ग्गामेण रंजिस्सए ।
 किं सीलं परिपालिही पसविही किं पुत्तमेवं धुवं
 चिंता मुत्तिमई पिऊण भवणे संवट्टए कन्नगा ॥

एसा य सरीर-सुंदरिम-दलिय-देव-रमणी-मडप्पा अणप्प-गुण-सोहिया
 हियाहिए-विचार-फुसला सलाहणिज्ज-सीला सीलमइ त्ति गुण-निप्पन्ननामा
 चालत्तणओ वि पुब्ब-कय-सुकय-वसेण सउणरुय-पज्जंताहि कलाहि सहीहिं
 व पडिवन्ना । इमीए अणुरुवं वरं अलहंतस्स मे अंचचंतं चिंता । अओ
 मए एसा वि चिंत त्ति वुत्ता । मए भणियं सिट्ठि । मा संतप्प, अत्थि
 नंदणपुरे रयणायरसिट्ठिणो विसिट्ठरूवाइ गुणो, पुत्तो अजियसेणो सो तुह
 धूआए अणुरुवो वरो त्ति । जिणदत्तेण वुत्तं भद्द ! तुमए मे महंत-चिंता
 समुद्द-मग्गस्स पवर-वरो-वएस-बोहित्थेण नित्थारो कओ त्ति भणिऊण
 तेण अजियसेणस्स सीलमइं दाउं पेसिओ जिणसेहरो निय-पुत्तो मए
 समं । सो इहागओ चिट्ठइ । ता जहा जुत्तमाइसउ सिट्ठी । जुत्तं कयं
 तुमए त्ति भणिऊण हक्काराविओ जिणसेहरो सिट्ठिणा । सगोरवं दिन्ना
 तेण अजियसेणस्स सीलमई । अजियसेणेणावि तेणेव सह गंतूण कयंगलाए
 परिणीया सीलमई । चित्तण तं आगओ स-नयरं अजियसेणो । भुंजए
 भोए । अन्नया मज्झ-रत्ते वडं चित्तूण गिहाओ निग्गया सीलमई । कित्तिय-
 वेलाए आगया दिट्ठा ससुरेण । चित्तियं नूणं एसा कुसील त्ति गोसे
 गहिणी-समक्खं वुत्तो पुत्तो वत्थ ! तुहेसा धरिणी कुसीला, जओ अज्ज
 मज्झ-रत्ते निग्गंतूण कत्थवि गया आसि, ता एसा न जुज्जइ गिहे धरिउं ।

जओ—

वण-रस-वसओ उम्मग्ग-गामिणी-भग्ग-गुण दुमा कलुसा ।
 महिला दो वि कुलाइं कूलाइं नइ व्व पाडेइ ॥

ता पराणेमि एयं पिइ-हरं । पुत्तेण वुत्तं ताय ! जं जुत्तं तं करेसु ।
 भणिया बहुया-भद्दे ! आगओ 'सीलवइं सीग्घं पेसिज्जसु' त्ति तुह
 जणयसंदेसओ । ता चलसु जेण तुमं सयं पराणेमि । सा वि 'रयणि-
 निग्गमणेण ममं कुसीलं संकमाणो एवमाइसइ ससुरो, पिच्छामि ताव
 एयं पि' त्ति चित्तिऊण चलिया रहारूढेण सिट्ठिणा समं । वच्चंतो
 सेट्ठी पत्तो नइं । सेट्ठिणा वुत्ता वहू-पाणहाओ मुत्तए नइं
 ओयरसु । तीए न मुक्काओ ताओ । सेट्ठिणा चित्तियं अविणीय

त्ति । अगगओ दिट्ठं पढम-वत्ता-पइन्नं अच्चंत-फलियं सुगखेत्तं । सेट्ठिणा भणियं-अहो ! सुफलियं सुग-खेत्तं । सव्व-संपया खेत्तसामिणो । तीए भणियं एवमेयं, जइ न खद्धं ति । सेट्ठिणा चितियं अक्खयं पेक्खंती वि ! खद्धंति अक्खइ । अओ असंबद्ध-प्पलाविणी एसा । गओ एगं समिद्ध-पमुइय-जण-संकुलं नगरं । सेट्ठिणा भणियं अहो ! रम्मत्तणं इमस्स तीए भणियं जइ न उच्चसं ति । सेट्ठिणा चितियं उल्लंठ-भासिणी इमा ।

अगगओ गच्छंतेण सेट्ठिणा दिट्ठो पच्छागोपपहारो पहरण-करो ताव कुट्टिओ । सेट्ठिणा चितियं किं न सूरुो जो सत्थेहि कुट्टिज्जइ, परं अजुत्त-जंपिरी इमा । गओ अगगओ नगगोह-तले वीसंतो सेट्ठो । बहू उण नगगोह-च्छायं छड्डिऊण ठिया दूरे । सेट्ठिणा भणियं अच्छसु छायाए, न तत्थ ठिया । सेट्ठिणा चितियं सव्वहा विवरीय त्ति । पत्तो गाममेक्कं । बहूए वुत्तो सेट्ठी, एत्थ अत्थि मे माडल्लगो तं जाव पेच्छामि ताव तुव्वे पड्डिवा-लेह त्ति गया सा मज्जे । दिट्ठा माडल्लगेण ससंभमं भणिया वच्छे ! कत्थ पत्थियासि ? । तीए भणियं-ससुरेण सह पिइहरं पत्थियम्हि । तेण भणियं कत्थ ते ससुरो ? । तीए वुत्तं वाहिं चिट्ठइ । गंतूण माडलेण द्दक्कारिओ सायरं सेट्ठो । सकसाउ त्ति अणिच्छंतो वि नीओ निव्वंधेण गेहं । भोयणं काऊण आगओ वाहि । मज्झण्हसमओ त्ति वीसमिओ रह्वभंतरे । शीलमई वि निसन्ना रह-च्छायाए । एत्थंतरे करीर-त्थंवावत्तंवी पुणो पुणो वासए वायसो । भणियं अणाए-अरे ! काय ! किं न थक्कसि करयंतो ।

एक्के दुन्नय जे कया तेहि नीहरिय घरस्स ।

बीजा दुन्नय जइ करउं तो न मिलउं पियरस्स ॥

सुयमिणं सेट्ठिणा भणिया सा-वच्छे ! किमेवं जंपसि ? बहूए भणियं न किं चि । सेट्ठिणा भणियं कहां न किंचि । वायसमुद्दिसिऊण 'एक्के दुन्नय' त्ति जं पढियं तं साहिप्पायं । बहूए वुत्तं-जइ एवं ता सुणेउ ताओ ।

सोरव्व-गुणेणं छेय-वरिसणार्इणि चंदणं लहइ ।

राग-गुणेणं पावइ खंडण-कडणाइं संजिट्ठा ॥

एवं ममावि गुणो सत्तू संजाओ । जओ-सयल-कला-सिरोमणि-भूयं सउण-रुयं अहं सुणेमि । तओ अइक्कंतदिण-रयणीए सिवाए वासंतीए साहियं, जहा नईए पूरेण वुव्वममाणं मडयं कड्डिऊण सयं आहरणाणि गिण्हसु । मम भक्खं तं खिवसु । इमं सोऊण गयाहं घेत्तूण घडगं । तं

हियए दाऊण पविट्ठा नइं । कङ्कियं मडयं । गहियाणि आभरणाणि । खित्तं सिवं सिवाए । आगया अहं णिहं । आभरणाणि घडए खिविऊण निखियाणि खोणीए एवं एक्क-दुन्नयस्स पभावेण पत्ता एत्तियं भूमि । संपयं तु वासंतो वायसो कहइ, जहा-एयस्स करीर-त्थं बम्स हेट्ठा दस-सुवण लक्ख-प्पमाणं निहाणमत्थि तं घेत्तूण मम करं वयं देसु त्ति । इमं सोऊण सहसा उट्ठिओ सेट्ठी भणइ-वच्छे ! सच्चमेयं ? बहूए जंपियं-कि अलियं जंपिज्जे ताथ-पायाणं पुरओ । अहवा इत्थत्थे कंकरे किं दप्पणेणं ति निहालेउ ताओ । तओ तत्थेव ठिओ सेट्ठी गहियं निहाणं रयणीए । अहो ! मुत्तिमंती इमा लच्छित्ति जाय बहु-माणो बहुं रहे आरोविऊण नियत्तो सेट्ठी । पत्तो नग्गोहं । पुच्छए बहुं-किं न तुमं इमस्स छायाए ठिया ? बहूए अक्खियं-रुक्ख-मूले अहि-दंसाइ भयं, चिरासणे चोराइ-भयं, हेट्ठओ काग-बगाइ-विट्ठा-पडण-भयं, दूर-ट्ठियाणं तु न सव्वमेयं । पुणो पुट्ठं सेट्ठिणा वुत्तं-कहमेयमुव्वसं ? तीए वुत्तं-जत्थ नत्थि सयणो सागय-पडिबत्ति कारओ तं कहं वसिमं । खेत्तं दट्ठूण सेट्ठिणा पुट्ठं-कहमेयं खट्ठंति ? तीए वुत्तं-ववहरणाओ दव्वं वुट्ठीए कहिऊण खेत्तसामिणा खट्ठंति खट्ठं । नइं दट्ठूण भणियं सेट्ठिणा-किं तए नईए पाणहाअ । न मुक्काओ ? तीए जंपियं-जल-मउक्के-कीड-कंटगाइ न दीसइ त्ति । पत्तो गिहं सेट्ठी । दंसियाइं तीए महि-निहित्ता-हरणाइं । तुट्ठेण सेट्ठिणा भज्जाए सुयस्स सव्वं कहिऊण कया सा घर-सामिणी ।

अह जीवियस्स तरलत्तणेण पंचत्तमुवगओ सेट्ठी ।

निहणं गया सहयरी सिरी वि छाया व्व तव्वि रहे ॥

अजियसेणो वि जिण-धम्म-परो कालं बोलेइ । अन्नया अरिमदण-नरिदो एगूण-पंच-सयाणं मंतीणं पहाण मंति मग्गेमाणो नायरए पत्तेयं पुच्छइ-भो भो ! जो मं पाएण पहणइ तस्स किं कीरइ ? पुच्छिओ अजियसेणो । तेण वुत्तं-परिभाविऊण काहस्सं । गिहागएण पुच्छिया तस्सुत्तरं सीलवई । तीए चउव्विह-बुद्धि-जुत्ताए जंपियं-जहा-तस्स महंतो सक्कारो कीरइ । भत्तुणा भणियं कहमेयं ? तीए वुत्तं-वल्लहाए विणा नत्थि अन्नस्स गयाणं पाएण पहणेमि त्ति चित्तिदं पि जोगया, किं पुण पहणिउं । तओ गओ सो रायसहाए, कहियं पुव्वुत्तं । तुट्ठो राया । कओ अणेण सव्व-मंतीण सिरोमणी सो । अन्नया रन्नो विउत्थिओ सीहरहो पच्चंतो राया । तस्सोवरिं चलंत-मय-गल-मय-जलासार-सित्त महि यलो-तरल-तुरय-

खुरुक्खय-खोणि-रेणु-घण पडल-पूरिय नहंगणो संचरंत-रह-धवल-धयवढाया-
वलाय-पंति मणोहरो गहि-खज्जिराउज्ज-गज्जि-जज्जरिय-वंभंड-भंडोयरो नव-
पासु व्व चलिओ राया । अजियसेणो वि दिट्ठो सीलमईए चिंताउरो ।
पुच्छिओ चिंताए कारणं । तेण वुत्तं गंतव्वं मए रन्ना समं । तुमं घेत्तूण
वच्चंतस्स मे गिहं सुन्नं । तहा जइ वि तुमं अक्खलिय-सीला तहवि
एगागिणीं गिहे मुत्तए वच्चंतस्स मे न मणनिव्वुई । अओ चिंताउरोमिह ।
तीए वुत्तं—

जलणो वि होइ सिसिरो रवी वि उग्गमइ पच्छिम दिसाए ।
मेरु-सिहरं पि कंपइ उच्छलइ धरणि-वीढं पि ॥
जायइ पवणो वि थिरो मिलइ जलही वि नियय-मज्जायं ।
तहवि मह सील-भंगं सक्को वि न सक्कए काउं ॥
तहवि तुमं भण-निव्वुइ-हेउं गिहसु इमं कुसुम-मालं ।
मह सील-पभावेणं अमिलाण च्चिय इमा ठाही ॥
जइ, पुण मिलाइ तो सील-खंडणं निम्मियं ति जंपंती ।
सा खिवइ निय-करेहि पइणो कंठे कुसुम-मालं ॥
तो अजियसेण-मंती सीलमइं मदिंरंमि मुत्तूण ।
निव्वुय-चित्तो चलिओ सह अरिमहण नरिदेण ॥
अणवरय-पयाणेहि तम्मि पएसंमि नरवई पत्तो ।
जत्थ न हवंति कुसुमाइं जाइ-सयवत्तियाईणि ॥
दट्ठूण कुसुम-मालं अमिलाणं अजियसेण-कंठंमि ।
तं भणइ निवो कत्तो तुह अमिलाणा कुसुम-माला ॥
अच्छरियमिणं गरुयं मए गवेसावियाइं सव्वत्थ ।
निय-पुरिसे पठ्ठविउं तहवि न पत्ताइं कुसुमाइं ॥
जंपइ मंती जह मह पियाइ पत्थाण-वासरे खित्ता ।
स च्चिय माला न मिलाइ तीइ सील-पभावेण ॥
तं सोउं नरनाहो विम्हिय-हियओ गए अजियसेणे ।
निय-नम्म-मंति-मण्डलमालवइ वियार-सारमिणं ॥
जं अजियसेण-सचिवेण जंपियं तं किमित्थ संभवइ ।
कामंकुरेण वुत्तं कत्तो सीलं महिलियाणं ॥
ललियंगएण भणियं सच्चं कामंकुरो भणइ एयं ।
रइ-केलिणा पलित्तं देवस्स किमित्थ संदेहो ॥
भणियमसोगेणं पठ्ठवेसु मं देव ! जेण सीलमइं ।
वियलिय-सीलं काउं देवस्स हरामि संदेहं ॥

तो नरवङ्गणा एसो आङ्गो अप्पिऊण बहु दव्वं ।
 पत्तो य नंदणपुरे सीलवईए गिहासन्ने ॥
 गिहाइ गरुयं गेहं कंठ-पवोलंत-पंचमुग्गा रो ।
 किन्नर-गीयाणुगुण गायइ गीयं गवक्ख-गओ ॥
 पयडिय-उज्जल-वेसी पलोयए साणुराय-दिट्ठोए ।
 निच्चं पयासए चाय-भोय-दुल्लियमप्पाणं ॥
 एवं बहु-प्पयारे कुणइ वियारो इमो तओ एसा ।
 चितइ नूणं मह सील-खलणमिच्छइ इमा काउं ॥
 फणि फण-रयणुकखणण व जलग-जालावली कवलण व ।
 केसरि-केसर-गहण व दुक्करं तं न मुणइ जडो ॥

पिच्छामि ताव कोउगं ति विचिंतित्ठण पयट्टा तं पलोइउं । असोगो
 वि सिद्धं मे समीहियं ति मन्ततो पट्टवेइ दूई । भणिया तीए सीलमई-भदे ।
 कुमुमं व थोव-काल-मणहरं जुव्वणं । ता इमं विसय-सेवणेग सहलं काउं
 जुत्तं । भत्ता य तुह रत्ता समं गओ । एसो य सुहओ तुमं पत्थेइ । तीए
 चित्तियं सु-हओ त्ति सुट्टुहओ वराओ जो एरिसे पावे पयट्टइ । दुईए
 भणियं । पसयच्छि । पसीयसु मयण-जलण-जाला कलाव संतत्तं ।

निय अंग-संगमामय-रसेण निव्ववसु मम गत्तं ॥
 सीलमईए वुत्तं-जुत्तमिणं, कि तु पर-पुरिस-संगो ।
 कुल-महिलाण अजुत्तो दव्व पसंग व्व साहूणं ॥
 नवरं इभो वि कीरइ जइ लवभइ भगिगयं धणं कहवि ।
 उच्चिट्ठं पि हु भत्तं भक्खिज्जइ नेह लोहेण ॥
 तीए-वुत्तं-मग्गसि कित्तियमित्तं धणं तुमं भदो ।
 सीलमई जंपइ अद्ध-लक्खमिद्धिं समप्पेउ ॥
 गहिऊण अद्ध-लक्खं निसाइ पंचम दिणे सयं एउ ।
 जेण अपुव्वं वियरेमि रइ-सुहं तस्स सुहयस्स ॥

तीए य कहियमेयं असोगस्स । तेणावि समप्पियं अद्ध-लक्खं ।
 सीलमईए वि गूढ-ओयरए पच्छन्न-पुरिसेहि खणाविया खड्डा । ठाविया
 तीए उवरि वर-वत्थ-पच्छाइया अवुणिया खड्डा । पंचम-दिण रयणीए
 दाऊण अद्ध-लक्खं आगओ असोगो । निविट्ठो खट्टाए । धस त्ति निवडिआं
 खड्डाए । सीलमई वि दयाए तस्स दिणे दिणे डोर-वद्ध-सरावेण भोयणं
 देइ । पुण्णे य मासे रन्ता भणिया नम्म-मंतिणे-कि नागओ असोगो ? ।
 तेहि वुत्तं नयाणीयइ कारणं । रइकेलिणा वुत्तं देह ममापसं जेणाहं साहंमि

सिग्धं चैव चित्तियत्थं । रत्ना बहु-दव्वं अप्पिऊण विसज्जिओ सो ।
आगओ नयरे । सो वि लक्खं दाऊण तहेव निविट्ठो खड्डाए, पडिओ
खड्डाए । एवं लीलयंगयकामंकरा वि लक्खं दाऊण पडिया खड्डाए ।
असोग-कमेण चैव स-सोगा चिट्ठंति । अरिमहण-नरिदो वि वसीकाऊण
सीहरहं समागओ निय-नयरं । भणिया सीलमई कामंकराईहिं—

जे अप्पणो परस्स य सत्तिं न मुणंति माणवा मूढा ।
वर-सीलवंति जं ते लहंति तं लद्धमम्हेहिं ॥

ता दिट्ठं तुह माहप्पं, सिद्धा अम्हे । करेहि पसाय । नीसारेहि
एक्कवारं नरयाओ व्व विसमाओ इमाओ अगडाओ । तीए वुत्तं-एवं
करिस्सं, जइ मह वयणं करेह । तेहि वुत्तं समाइससु जं कायव्वं । तीए
वुत्तं जयाइहं एवं होउ त्ति भणेमि, तथा तुव्वेहि पि एवं होउ त्ति वत्तव्वं ।
पडिवन्नमणेहिं । तीए वुत्तो मंतीनिमंतेसु रायाणं । तेण तहेव कयं । आगओ
राया । कया पडिवत्ती । तीए य पच्छन्नं कया भोयणाइ-सामग्गी ।
रत्ना चित्तियं—निमंतिओऽहं ताव न दीसएभोयणोवक्कमो को वि । ता
किमेयंति ? ।

तीए य खड्डाए काऊण कुसुमाईहिं पूयं, भणियं—भो ! भो ! जक्खा
रसवई सव्वा वि होउ, तेहि भणियं 'एवं होउ' त्ति । तओ आगया रसवई ।
रन्ना कयं भोयणं । तओ पुव्व-पउणी कयाइं तबोल-फुल्ल-विलेवण-वत्था-
हरणाइं ताइ च चत्तारि लक्खाइं इच्चाइं सव्वं पि होउ त्ति तीए जंपिए
खड्डाएहि जंपियं 'एवं होउ' त्ति । सव्वं दुक्कं समपियं रन्नो । चित्तियं
रत्ना-अहो ? अउव्वा सिद्धि जं खड्डा-समुट्ठिए वयणेणंतरमेव सव्वं
संपज्जइ त्ति । विम्बियमणेण पुढा सीलमई-भदे ! किमेयमच्छेरयं ? तीए
वुत्तं-देव ! मह सिद्धा चिट्ठंति चत्तारि जक्खा ते सव्वं संपाडंति ।
रन्ना वुत्तं-समप्पेहि मे जक्खे । तीए वुत्तं देव । गिण्हेसु । तुट्ठो राया
गओ नियावासं ।

तीए वि ते चच्चिया चंदणेण, अच्चिया कुसुमेहि, चउसु चुल्लगेसु
चत्तारि वि खित्ता, सगडेसु आरोविऊण वज्जंतेहि तूरेहिं नीया रायभव्वणं
संजाए । पभाए य अज्ज जक्खा भोयणाइं दाहिति त्ति निवारिया रत्ना
सूयाराइणो । भोयण-समए सयं कुसुमाईहिं पूइऊण चुल्लगाइं भणियं 'रसवई
होउ' चुल्लग-एहि वुत्तं 'एवं होउ' त्ति जाव न कि पि होइ, रत्ना विलक्ख-
वयणेण उग्घाडियाइं चुल्लगाइं । दिट्ठा छुहा-सुसियत्तणेण पणट्ट-मंस-
सोणिया फुडीवल्लिज्जमाणअट्ठि-संचया पयड-डीसतं-नसा-जाला गिरी-

कंदर-सोयरोयरा खाम-कवोला मिलान-लोयणा असंमत्त-सीय-वायत्तणेण
 विच्छाय-काय-च्छविणो विसन्नचित्ता पयाव-चत्ता चत्तारि जणा । अहो !
 न हुंति एए जक्खा, कि तु रक्खस त्ति भणंतो भणित्थो अणेहिं राया-
 देव ! न जक्खा न रक्खस । अग्हे, किन्तु कामंकराइणो तुह वयंसय त्ति
 जंपंता पडिया पाएसु । रत्ता वि सम्मं निरुवंतेण उवलक्खिउण भणिया
 स-विम्हयं भद्दा ! कहां तुम्हाणमेरिसी अवत्था जाया । तेहि पि क्कहिउओ
 जहावित्तो वुत्तंतो । हकारिउण रत्ता-अहो ! ते बुद्धि कोसल्लं, अहो !
 ते सील-पालण-पयत्तो, अहो ! ते उभय-लोय-भयालोयण-प्पहापवत्ति
 सलाहिया सीलमई । वुत्तं च अमिलाण-कुसुममाला-दंसणेण, पयडं पि
 ते सील-माहाप्पं असद्वंतेण मए चेव इमे पट्ठविया, ता न कायव्वो कोवो
 त्ति खमाविया । तीए वि धम्मं क्कहिउण पडिवोहिउओ राया । राय-नम्म-
 सच्चिवा य कराविया सव्वे पर-दार-निवित्ति । रन्ना य सक्कारिया
 सीलमई । गया सट्ठाणं । अन्नया आगओ गंध-गओ उव कलहेहि परिगओ
 समणेहिं चडनाणी दमघोसो आयरियो । गओ तस्स वंदणत्थं समं सील-
 मईए अजियसेणो । वंदिउण गुरुं निविट्ठो पुरओ ।

भणिया गुरुणा सीलमई—भद्दे ! धन्ना तुमं पुव्व-भवव्भासाओ चेव ते
 सील-परिपालणपयत्तो । मंतिणा वुत्तं-भयवं ! क्कहमेयं ति ? वागरियं
 गुरुणा-कुसमउरे नयरे कुसलाणुट्ठाण-लालसो पावक्कम्म-करणालसो सुलसो
 सावओ । तस्स सुजसा भज्जा ताण धरे पयइ-भद्दओ दुग्गओ कम्मयरो ।
 दुग्गला से घरिणी । कयाइ सुजसाए समं गया दुग्गला साहुणीणं सयासं ।
 कया सुजसाए तत्थ सवित्थरं पुत्थय-पूया पसत्थ-वत्थ-कुमुमाईहि । वदिया
 चंदणा पवत्तिणी । विहीयं उववास-पच्चक्खाणं । पणमिउण पुच्छिया दुग्गि-
 लाए पवत्तिणी-भयवइ । किमज्ज एवं ? भणियं भयवईए-अज्ज सियपंचमी
 सुय-तिहि त्ति सा जिण-मए समक्खाया । एयाइ नाण-पूया तवां य
 सत्ति कायव्वो ।

इह पुत्थयाइं जे वत्थ-गंध-कुसुमुच्चएहिं अचंचंति ।
 ढोर्यंति ताण पुरओ नेवज्जं दीवयं दिति ॥
 सत्तीए कुणंति तवं ते हुंति विसुद्ध-बुद्धि-संपन्ना ।
 सोहग्गाइ-गुणट्ठा सव्वन्नु-पयं च पावंति ॥
 तो दुग्गिलाइ वुत्तं धन्नामह सामिणी इमा सुजसा ।
 अत्थि तवे सामत्थं जीए धम्मत्थमत्थो य ॥
 अम्हारिसो वण जणो अधणो तव-करण-सत्ति-रहिउओ य ।
 किं कुणउ मंदभगो पवत्तिणीए तओ भणियं ॥

सत्तीए चाग-ततो करेसु सीलं तु अप्प-वसमेयं ।
पर-नर-निवित्ति-रुवं जावज्जीवं तुमं धरसु ॥
अट्टमि-चउदसीसु य तिहीसु तह निय पइं पि वज्जिज्जा ।
एयं कयंमि भदे ! तुमं पि पावहिसि कल्लाणं ॥
पडिवन्नमिमं तीए मन्नंतीए कयत्थमप्पाणं ।
गेहं गयाइ कहियं निय-पइणो सो वि तं सोउं ॥
तुट्ट-मणो बहु मन्नइ तए फलं जीवियस्स पत्तं ति ।
भणइ य अओ परमहं काहं पर-दार-परिहारं ॥
पव्व-तिहिसु इमासु य विरइस्सं निय-कलत्त-नियमं पि ।
इम कय-नियमेहि कमेण तेहिं पत्तं च सम्मत्तं ॥
अह दुग्गिला विसेसुल्लसंत-सद्धा सयं तवं काउं ।
पूएइ पुत्थएसु य तिहीसु तद्वियह-वित्तीए ॥
कालेण दो वि मरिउं सोहम्मे सुर-वरत्तणं लहिउं ।
चइऊण दुग्ग-जीवो जाओलि तुमं अजियसेणो ॥
एसा य दुग्गिला तुह सीलमई भारिया समुपन्ना ।
नाणाराहण-वसओ विसिद्ध मइ भायणं जाया ॥
तो जाय-नाईसरणेहि तेहि भणियं मुणिइ ! जं तुमए ।
अक्खायं तं सच्चं तो एवं वागरइ गुरु ॥
जइ देसओ वि परिवालियस्स सीलस्स फलमिणं पत्तं ।
ता कुणह पयत्तं सव्वओ वि परिपालणे तस्स ॥
तं सव्व-सग-परिहाररुव-दिक्खाइ होइ गहणेण ।
तेहिं भणियं पंसायं काउं तं देहि अम्हाणं ॥
तो दिक्खियाइं दुन्नि वि गुरुणा संवेग-परिगय, मणाइं ।
पालंति जावजीवं अकलंकं सव्वओ सीलं ॥
मरिऊण वंभलोयं गयाइं भुत्तूण तत्थ दिव्व-सुहं ।
ततो चुयाइं दुन्नि वि निव्वाण पयंमि पत्ताइं ॥

कुमारपाल प्रतिबोध (तृतीय प्रस्ताव)

मागधी

[शकार वसंतसेना को रोकता हुआ कहता है]

चियष्ट वशंत शेणिए ! चियष्ट,
 कि याशि धावशि पलाअशि पक्खलंती
 वाशू ! पशीद ण मलिस्सशि चियष्ट दाव ।
 कामेण दञ्जदि हु मे हडके तवशी
 अंगाललाशि पडिदे विअ मंशखंडे ॥ १८ ॥

[चेट भी रुकने को कहता है]

अञ्जुके ! चिट्ठ, चिट्ठ,
 उत्ताशिता गच्छशि अंतिका मे शंपुण्णपच्छा विअ गिम्हमोरी ।
 ओवग्गदी शामिअभष्टके मे बण्णे गडे कुक्कडशावके व्व ॥ १९ ॥

शकारः—चियष्ट वशंतशेणिए ! चियष्ट,
 मम मअणमणंगं मम्मथं वड्डअंती
 णिशि अ शऊणके मे णिहअं अक्खिवंती ।
 पशलशि भअभीदा पक्खलंती खलंती
 ममवशमणुजादा लावणशशेव कुंती ॥ २१ ॥

शकारः—भावे भावे !

एशा णाणकमूशिकामकशिका मच्छाशिका लाशिका,
 णिण्णाशा कुलणाशिका अवशिका कामस्स मंजूशिका ।
 एशा वेशवहू शुवेशणिलआ वेशंगणा वेशिआ
 एशे शे दशणामके मयि कले अज्जावि मं शेच्छदि ॥ २३ ॥

माणञ्जणंत बहुभूशणशहमिश्शं,
 कि दोव्वदी विअ पलाअशि लामभीदा ?
 एशे हलामि शहश त्ति जधा हरण्णे
 विशशावशुश्श वहिणि विअ तं शुमहं ॥ २५ ॥

चेटः—

लामेहि अ लाअवहहं तो क्खाहिशि मच्छमंशकं ।
 एदेहि मच्छमंशकेहि शुणआ महअं ण शेवदि ॥ २६ ॥

शकारः—

अम्हेहि चंडं अहिशालिअंती वरो शिआली विअ कुक्कुलेहिं ।
पलाशि शिग्घं तुलिदं शवेग्गं शर्वेटणं मे हलअं हलंती ॥ २८ ॥

भावे भावे ! मणुण्णे मणुण्णे ।

भावे भावे ! इत्थिअं अण्णेशदि ।

इशियआणं शदं मालेमि ।

वशंतशेणिए विलव विलव पलहुदिअं वा पलवअ वा शव्वं वा वशंतमाशं ।
मए अहिंशालिअंतीं तुमं के पलित्ता इशदि ?

कि भीमशेणे जमदग्गिपुत्ते कुंतीशुदे वा दशकंधले वा ।

एशे हगे गेण्हिय केशहरते दुशशाशणशशाणुकिदि कलेति ॥ २९ ॥

णं पेक्ख णं पेक्ख

अशी शुतिक्खे वलिदे अ मरुतके

कप्पेम शीशं उद मालएम वा ।

अलं तवेदेण दत्ताइदेण

मुमुक्खु जे होदि ण शे खु जीअदि ॥ ३० ॥

अदो उजेव्व ण मालीहशि ।

हगे वरपुलिशमणुशे वाशुदेवके कामइदव्वे ।

(सतालिकं विहस्य)—

भावे भावे ! पेक्ख दाव । मं अतलेण शुशिणिद्धा एशा गणिआदालिआ
णं । जेण मं भणदि—

‘एहि । शंते शि । किलिते शि’ त्ति । हगे ण गामंतलं ण णगलंतलं
वा गडे । अब्जुके ! शवामि भावरश शीश अत्तण्णेहिं पादेहि । तव उजेव्व
पञ्चाणुपश्चिआए आहिदंते शंते किलिते म्हि शंबुत्ते ।

भावे भावे ! एशा गव्वभदाशी कामदेवाअदणुज्जाणादो पहुदि ताह
दुलिदचालुदत्ताह आपुलत्ता ण म कामेदि । वामदो तरश घलं । जधा तव
मम अ हरतादो ण एशा पलिव्वं शदि तधा कलेदु भावे ।

अध इं । वामदो तरश घलं ।

भावे भावे ! बलिए खु अंधआले माशलाशिपविश्टा विअ मशिगुडिआ
दीशंती उजेव्व पणश्टा वशंतशेणिया ।

भावे भावे ! आण्णेशामि वशंतशेणिअं ।

मागधी

[शकार वसंतसेना को रोकता हुआ कहता है]

चियष्ट वशंत शेणिए ! चियष्ट,
 कि याशि धावशि पलाअशि पक्खलंती
 वाशू ! पशीद ण मल्लिस्सशि चियष्ट दाव ।
 कामेण दब्झदि हु मे हडके तवश्री
 अंगाललाशि पडिदे विअ मंशखडे ॥ १८ ॥

[चेट भी रुकने को कहता है]

अब्जुके ! चिट्ट, चिट्ट,
 उत्ताशिता गच्छशि अंतिका मे शंपुण्णपच्छा विअ गिम्हमोरी ।
 ओवग्गदी शामिअभरटके मे बण्णे गडे कुक्कडशावके व्व ॥ १९ ॥

शकारः—चियष्ट वशंतशेणिए ! चियष्ट,
 मम मअणमणंगं मम्मथं वड्डअंती
 णिशि अ शऊणके मे णिद्धअं अक्खिवंती ।
 पशलशि भअभीदा पक्खलंती खलंती
 ममवशमणुजादा लावणशेव कुंती ॥ २१ ॥

शकारः—भावे भावे !

एशा णाणकमूशिकामकशिका मच्छाशिका लाशिका,
 णिण्णाशा कुलणाशिका अवशिका कामस्स मंजूशिका ।
 एशा वेशवहू शुवेशणिलआ वेशंगणा वेशिआ
 एशे शे दशणामके मयि कले अज्जावि मं रोच्छदि ॥ २३ ॥

म्हाणब्झणंत बहुभूशणशद्मिशं,
 कि दोव्वदी विअ पलाअशि लामभीदा ?
 एशे हलामि शहश त्ति जधा हरामे
 विशशावशुश वहिणि विअ तं शुभहं ॥ २५ ॥

चेटः—

लामेहि अ लाअवहहं तो क्खाहिशि मच्छमंशकं ।
 एदेहिं मच्छमंशकेहि शुणआ मडअं ण शेवंदि ॥ २६ ॥

शकारः—

अम्हेहि चंडं अहिशालिअंती वणे शिआली विअ कुक्कुलेहिं ।
पलाशि शिग्घं तुलिदं शवेग्गं शवेटणं मे हलअं हलंती ॥ २८ ॥

भावे भावे ! मणुण्णे मणुण्णे ।

भावे भावे ! इत्थिअं अण्णेशदि ।

इत्थिआणं शदं मालेमि ।

वशंतणेणिए विलव विलव पलहुदिअं वा पल्लवअ वा शव्वं वा वशंतमाशं ।
मए अहिशालिअंती तुमं के पलित्ता इरशदि ?

कि भीमशेणे जमदग्गिपुत्ते कुंतीशुदे वा दशकंधले वा ।

एशे हगे गेण्हिय केशहरते दुरशशणशशाणुकिदिं कलेति ॥ २९ ॥

णं पेक्ख णं पेक्ख

अशी शुत्तिकखे वलिदे अ मशतके

कप्पेम शीशं उद मालएम वा ।

अलं तवेदेण दत्ताइदेण

मुमुक्खु जे होदि ण शे खु जीअदि ॥ ३० ॥

अदो ज्जेव्व ण मालीहशि ।

हग्गे वरपुलिशमणुशे वाशुदेवके कामइदव्वे ।

(सतालिकं विहस्य)—

भावे भावे ! पेक्ख दाव । मं अतलेण शुशिणिद्धा एशा गणिआदालिअणं ।
जेण म भणदि—

‘एहि । शंते शि । किलिते शि’ त्ति । हग्गे ण गामंतलं ण णगलंतलं
वा गडे । अज्जुके ! शवामि भावश शीग अत्तणकेहिं पादेहि । तव ज्जेव्व
पश्चाणुपश्चिआए आहिदंते शंते किलिते म्हि शंनुत्ते ।

भावे भावे ! एशा गम्भदाशी कामदेवाअदणुज्जाणादो पहुदि ताह
दलिद्वचालुदत्ताह आणुलत्ता ण म कामेदि । वामदो तश घलं । जघा तव
मम अ हरतादो ण एशा पलिव्वं शदि तथा कलेटु भावे ।

अध इं । वामदो तश घलं ।

भावे भावे ! वलिए खु अंधआले माशलाशिपविश्टा विअ मशिगुडिआ
दीशंती ज्जेव्व पणश्टा वशंतणेणिया ।

भावे भावे ! आण्णेशामि वशंतणेणिअं ।

नाटकीय शौरसेनी

[प्रतिमागृह की व्यवस्था के लिए सुधाकार और भट का वार्तालाप]
 सुधाकारः (सम्मार्जनादीनि कृत्वा)—भोटु दाणि किदं एत्थ कय्यं
 अय्य संभवअस्स आणत्तं । जाव मुहुत्तं सुविस्सं ।

भटः (चेटमुपगम्य ताडयित्वा)—अंधो दासीए पुत्त । कि दाणि
 कम्मं एण करोसि ।

सुधाकारः (बुद्ध्वा)—तालेहि मं तालेहि मं ।

भटः—ताडिदे तुवं कि करिस्ससि ?

सुधाकारः—अहण्णस्स मम कत्तवीअस्स विअ वाहुसहस्सं एत्थि ।

भटः—बाहुसहस्सेण कि कय्यं ?

सुधाकारः—तुवं हणिस्सं ।

भटः—एहि दासिए पुत्त ! मुदे मुंचिस्सं (पुनरपि ताडयति)

सुधाकारः (रुदित्वा)—सक्कं दाणि भट्टा ! मे अवराहं जाणिदुम ।

भटः—एत्थि किल अवराहो एत्थि । ण मए संदिट्ठो भट्टिदारअस्स
 रामस्स रज्जविबभट्टिकिदसंदावेण सग्गं गदस्स भट्टिणो दसरहस्स पडिमा-
 गेहं देट्ठुं अज्ज कोसल्लापुरोएहि सव्वेहि अंतउरेहि इह आअंतव्वं त्ति'
 एत्थ दाणि तुए किं किदं ?

सुधाकारः—पेक्खदु भट्टा अवणीदक्कवोदसंदाणअं दाव गवभगिहं ।
 सोहवण्णअदत्तचंदणपंचांगुला भित्तीओ । आसत्तमल्लदामसोहीणि दुवा-
 राणि । पइण्णा वालुआ । एत्थ दाणि मए किं ण किदं ।

भटः—जइ एवं, विस्सत्थो गच्छ । जाव अहं वि सव्वं किदं त्ति
 अमच्चस्स णिवेदेमि ।

—प्रतिमानाटक—तृतीय अंक

×

×

×

[विजया और नन्दिनिका का वार्तालाप]

विजया—हला एण्दिणिए ! भणेहि भणेहि । अज्ज कोसल्लापुरोगेहि
 सव्वेहि अवंतवुरेहि पडिमागेहं दट्ठुं गदेहि तहि किल भट्टिदारओ भरदो
 दिट्ठो ? अहं च मंदभाअा दुवारे ट्टिदा ।

नन्दिनिका—हला ! दिट्ठो अम्हेहि कोदूहलेण भट्टिदारओ भरदो ।

विजया—भट्टिणी कुमारेण किं भणिदा ।

नन्दिनिका—किं भणिदं ? ओलोइदुं वि ऐच्छदि कुमारो ।

विजया—अहो अच्चाहिदं रज्जुद्धाए भट्टिदारअस्स रामस्स रज्ज-
विष्मट्ठं करंतीए अत्तणो वेह्वं आदिट्ठं । लोआ वि विणासं गमिओ ।
णिग्घणा हु भट्टिणी । पापअं किदं ।

नन्दनिका—हला सुणाहि । पइदीहि आणीदं अहिसेअं त्रिसज्जिअ
राम तवोवणं गदो कुमारो ।

विजया—हं, एवं गदो कुमारो । एंदिणिए । एहि अम्हे भट्टिणीं
पेक्खामो ।

—प्रतिमा नाटक—चतुर्थ अंक

[विदूषक—मृगयाशील राजा दुष्यन्त की मित्रता के कारण अपने
कष्टों का वर्णन करता हुआ कहता है ।

भो दिट्ठं । एदस्स मअआसीलस्स रण्णो वअस्सभावेण णिविण्णो
मिह । अअं मओ अअं वराहो अअं सद्दूलो त्ति मज्झण्णे वि गिम्हविर-
अपाअवच्छाआसु वणारईसु अहिण्डीअदि अडवीदो अडवी । पत्तसंकर-
कसाआइं कटुण्हाइं गिरिण्णईजलाइं पीअंति । अणिअदवेलं सुल्लमंसभूइडो
आहारो अण्हीअदि । तुरगाणुधावणकण्डिदसन्धिणो रत्तिम्मि वि णिकामं
सइदव्वं णत्थि । तदो महन्ते एव्व पच्चूसे दासीएपुत्तेहि सउणिलुद्धएहि
वणग्गहणकोलाहलेण पडिबोधिदो मिह । एत्तएण दाणिं वि पीडा ण णिकक-
मदि । तदो गण्डस्स उवरि पिएडओ संवुत्तो । हिओ किल अम्हेसु ओही-
णेषु तत्तहोदो मआणुसारेण अस्समपद पविट्ठस्स तावसकण्णआ सउन्दला
मम अधण्णदाए दंसिदा । संपदं णअरगमणस्स मणं कहं वि ण करेदि ।
अज्ज वि से तं एव्व चित्तअन्तस्स अच्छीसु पमादं आसि । का गदी ।
जाव णं किदाचारपरिकम्मं पेक्खामि । एसो वाणासणहत्थाहि जवणीहि
वणपुष्कमालाधारिणीहि पडिवुदो इदो एव्व आअच्छदि पिअवअस्सो ।
होदु । अङ्ग-भङ्गविअलो विअ भविअ चिट्ठिस्सं । जइ एव्वं वि णाम विस्सामं
लहेअं ।

—शाकुन्तल—द्वितीय अंक

×

×

×

[शाकुन्तला राजा को पहचान के लिए अंगूठी दिखलाना चाहती है,
पर अंगूठी नहीं मिलती— इसीका वर्णन किया गया है]

होदु । जइ परमत्थतो परपरिग्गहसंकिणा तुए एव्वं वत्तुं पउत्तं वा
अहिण्णारेण इमिणा तुह आसंकं अवणइस्सं ।

इद्धी । अंगुलीअसुण्णा मे अंगुली ।

राणं दे सककात्रदारब्धन्तरे सचीतित्यसलिलंबंदमाणाए पव्भट्टं अंगु-
लीञ्जत्रं ।

एत्थ दाव विहिणा दंसिदं पट्टत्तणं । अवरं दे कहिस्सं ।

णं एक्कस्सि दिअहे गोमालिअमंडवे णालिणीपत्तभाअणगअं उअअं
तुह हत्थे सणिएहिदं ।

तक्खणं सो मे पुत्तकिदओ दीहापंगो णाम मिअपोदओ उवट्ठिओ ।
तुए अअं दाव पढमं पिअउ त्ति अणुऊंपिणा उवच्छन्दिदो उअएण ।
ण ण दे अपरिचआदो हत्थव्भासं उवगदो । पच्छा तस्सि एव्व मए
गहिदे सलिले रोण किदो पणओ । तदा तुमं इत्थं पहसिदा सि । सव्वो
सगन्धेसु विस्ससिदि । दुवेवि एत्थ आरण्णआ त्ति ।

—शाकुन्तल पञ्चम अंक

महाराष्ट्री

अइंसरोण पेम्मं अवेइ अइदंसरोण वि अवेइ ।

पिसुणजगजंपिएण वि अवेइ एमेअ वि अवेइ ॥ १।८१ ॥

राूपेन्ति जे पट्टत्तं कुविअं दासा व्व जे पसाअन्ति ।

ते विअ महिलाणं पिआ सेसा सामि विअ वराआ ॥ १।९१ ॥

अइंसरोण महिलाअणस्स अइदंसरोण णीअस्स ।

मुक्खस्स पिसुणअणजम्पिएण एमेअ वि खलस्स ॥ १।८२ ॥

पोट्टपडिएहि दुःखं अच्छिज्जइ णणएहि होऊण ।

इअ चिन्तआणं मणो थगाणं कसणं मुहं जाअं ॥ १।८३ ॥

सो तुज्ज कए सुन्दरि तह छीणो सुमहिला हलिअउत्तो ।

जह से मच्छरिणीएँ वि दोच्चं जाआएँ पडिवणं ॥ १।८४ ॥

दक्खिण्णोण वि एन्तो सुहअ, सुहावास अह्म हिअआइं ।

णिक्कइअवेण जाणं गओसि का णिव्वुदी ताणं ॥ १।८५ ॥

एक्कं पहरुविण्णं हत्थं मुहमारुण वीअन्तो ।

सो वि हसन्तोएँ मए गहिओ वीएण कंठम्मि ॥ १।८६ ॥

अवलम्बिअमाणपरम्मुहीएँ एन्तस्स माणिणि पिअस्स ।

पुट्टपुलउगमो तुह कहेइ संमुहट्ठिअं हिअअं ॥ १।८७ ॥

जाणाइ जाणावेळं अणुणअविदविअमाणपरिसेसं ।

अइरिक्कम्मि वि विणआवलम्बणं सच्चिअ कुणन्ती ॥ १।८८ ॥

सुहमारुण तं क्लृ गोरअं राहिआएँ अवणेन्तो ।
 एताएँ वल्लवीणं अण्णाण वि गोरअं हरसि ॥ १८९ ॥
 कि दाव कआ अहवा करेसि कारिस्सि सुहअ एत्ता हे ।
 अवराहाणँ अल्लज्जिर साहसु कअए खमिज्जन्तु ॥ १९० ॥
 तइआ कअग्घ महुअर ण रमसि अण्णासु पुप्फजाईसु ।
 वद्धफलभारिगुरुई मालई एल्लि परिच्चअसि ॥ १९२ ॥
 अविअल्लपेम्खणिज्जेण तक्खणं मामि तेण दिट्ठेण ।
 सिविणअपीएण व पाणिएण तण्ह विअ ण किट्ठा ॥ १९३ ॥
 सुअणो जं देसमलंकरेइ तं विअ करेइ पवसंतो ।
 गामासणुम्मूलि—अमहावड्ढाणसारिच्छं ॥ १९४ ॥
 सो णाम संभरिज्जइ पब्भसिओ जो खणं पि हिअआहि ।
 संभरिअठ्वं च कअं गअं च पेम्म णिरालम्ब ॥ १९५ ॥
 — गाथाशप्तशती

विन्ध्यवासिनी-स्तुति

वन्दी-कय-महिसासुर-कुल-कण्डुमोइएहिव तुमाए ।
 माहवि घंटादामेहि मण्डियं तोरण-हारं ॥ २८५ ॥
 दिट्ठं साहेज्जारूढ-तुहिण-गिरी-खण्ड-दिण्ण-पीढं व ।
 महिसासुरस्स सीसं तुह चलण-णह-प्पहा-भरियं ॥ २८६ ॥
 सोहसि नारायणिरणिर गोउराराव-मिलिअ-हंस-उत्ते ।
 भवणम्मि कवालाविल-मसाण-राएणव ममंती ॥ २९१ ॥
 तुह दारं धाम त्याम-दिण्ण-सहिरोवहारमाभाइ ।
 हर-पण्य-रोस-विससिय-संज्झा-सयलावइणं व ॥ २९४ ॥
 णिमिसंपि रोअ मुच्चइ आययणोव्वण-मण्डलं तुव्व ।
 संणिएहिअ-कुमार मऊर-रोह-रसिएहिव सिहीहि ॥ २९९ ॥
 वीर-विइण्ण विकीसासिधेणु-करवाल-कन्ति कज्जलियं ।
 दिअसम्मि वि देवि असंक-कोसियं गव्व-भवणं ते ॥ ३०६ ॥
 सुलहोवहार-रुहिर-प्पवाह-संभावणाए लिठ्ठन्ति ।
 अरुण पढाया-पडिमा-गव्भाओ लिल्ला इह सिवाहिं ॥ ३१० ॥
 — गौडवहो

सेलसिलाहआ समुदोअरे मणीणं

चुण्णिज्जन्ति वित्थरा रअणगामणीणम् ।

भरइ णहङ्गणं अण्णिविण्णमेहलाणं

हंसाउलावलीण वणराइमेहलाणम् ॥ ७६० ॥

भमिओ अ तह धाराहरपहरुच्छित्तसल्लिओ णहम्मि समुदो ।
 मरिहराअमइलाइं जह धोआईं समअं दिसाण मुहाइं ॥८१३॥
 धरिआ भुएहि सेला, सेलेहि दुमा, दुमेहि घगसंधाआ ।
 णवि णज्जइ कि पवआ सेउं बन्धन्ति ओ मिणेन्ति णहअलम् ॥७५८॥
 —सेतुबन्ध

हा जीविएस हा सुयणु हा अणंत-गुण-भूमि हा दरय ।
 हा णिक्कारण-वच्छल कथ पुणो तं सि दीसिहसि ॥७०८॥
 जं पढम-दंसणाणंद-वाह-पडिपूरिएहि अच्छीहि ।
 सच्चविओ सिण सुइरं तं इण्हि कि णियच्छिस्सं ॥७०९॥
 जं तंगुलियाहरण-च्छलेण सुदूरं णिपीडिओ तुम्हि ।
 सो मे तह लग्गो च्चिय अज्ज वि हत्थो ण वीसरइ ॥७१०॥
 दिण्णाइं जाइं माहविलयाइ जह तुह स हत्थ-लिहियाइं ।
 अमय-मयाइं व लेहक्खराइं इण्हि विसायति ॥७११॥
 —लीलावई (कुवलयमाला द्वारा महानुमति की
 मनोदशाका चित्रण)

मूलदेवो

१. अत्थि उज्जेणी नयरी । तीए य असेस-कला-कुसलो अरोग-विज्ञान-निउणो उदार-चित्तो कयन्नु पडिवन्नसूरो गुणाणुराई पियंवओ दक्खो रूव-लावण-तारुण-कलिओ मूलदेवो नाम रायउत्तो पाडलिपुत्ताओ जूय-वसणासत्तो जणगावमाणेण पुहविं परिब्भमंतो समागओ । तत्थ गुलिया-पओगेण परावत्तिय-वेसो वामणयागारो विम्हावेइ विचित्त-कहाहि गंधव्वाइ-कलाहिं नाणा-कोउगेहि य नायर-जणं । पसिद्धो जाओ । अत्थि य तत्थ रूव-लावण-विण्णाण-गव्विया देवदत्ता नाम पहाणा गणिया । सुयं च चेण, न रंजिउजइ एसा केणइ सामन्न-पुरिसेण अत्त-गव्विया । तओ कोउगेण तीइ खोहणत्थं पच्चूस समए आसन्न-त्थेण आढत्तं सु-महुर-रवं बहु-भंगि-घोलिर-कंठं अन्नन्न-वण-संवेह-रसणिज्जं गंधवं । सुयं च तं देवदत्ताए । चितियं च । अहो, अउव्वा वाणी, ता दिव्वो एस कोइ, न मणुस्स-मेत्तो । गवेसाविओ चेडीहि । गविट्ठो दिट्ठो मूलदेवो वामण-रूवो । साहियं जहट्ठियमेईए । पेसिया तीए तस्स वाहरणत्थं माहवा-भिहाणा खुज्ज-चेडी । गंतूण विणय-पुवं भणिओ तीए । भो महासत्त, अम्ह सामिणी देवदत्ता विन्नवेइ । कुणह पसायं-एह अम्ह घरं । तेण य वियड्ढयाए भणियं । न पओयणं मे गणिया-जण-संगेण, निवारिओ विसिट्ठाण वेसा-जण-संसग्गो । भणियं च—

या विचित्र-विट-कोटि-निघृष्टा मद्य-मांस-निरताति-निकृष्टा ।

कोमला वचसि चेतसि दुष्टा तां भजन्ति गणिकां न विशिष्टाः ॥१॥

योपतापन-पराग्नि-शिखेव चित्त-मोहन-करी मदिरेव ।

देह-दारण-करी लुरिकेव गर्हिता हि गणिका शलिकेव ॥२॥

२. अओ नत्थि मे गसणाभिलासो । तीए वि अरोगाहि भणिइ-भंगीहिं आराहिऊण चित्तं महा-निव्वंधेण करे धेत्तण नीओ घरं । वच्चंतेण य सा खुज्जा कला-कोसल्लेण विज्ञा-पओगेण य अफ्फालिऊण कया पडणा । विम्हय-खित्त-मणाए पवेसिओ सो भवणे । दिट्ठो देवदत्ताए वामण रूवो अउव्व-लावण-धारी । विन्धियाए य द्वावियमासणं । निसण्णो य सो, दिन्नो तंबोलो, दंसियं च माहवाए अत्तणो रूवं, कहिओ य वइयरो । सुट्ठुयरं विन्धिया, पारद्धो आलावो महुराहि वियड्ढ-भणिईहि । आगरिसियं च तेण तीए हियं । भणियं च—

अणुणय-कुसलं परिहास-पेसलं लडह वाणि दुल्ललियं ।

आलवणं पि हु छेयाण कम्मणं कि च मूलीहिं ॥ ३ ॥

३. एत्थंतरे आगओ तत्थेगो वीणा-वायगो । वाइया तेण वीणा । रंजिया देवदत्ता । भणियं च, साहु भो वीणा-वायग, साहु सोहणा ते कला । मूलदेवेण भणियं, अहो अइनिउणो उज्जेणीजणा, जाणइ सुंदरासुंदर-विसेसं । देवदत्ताए भणियं, भो किमेत्थ खूणं । तेण भणियं, वंसो चैव असुद्धो, सगव्भा य तंती । तीए भणिय, कहं जाणिज्जइ । दंसेमि अहं समप्पिया वीणा, कड्ढिओ वंसाओ पाहणगो, तंतीए वालो । समारिऊण वाइवं पयत्तो । कया पराहीण-माणसा स-परियाणा देवदत्ता । पचासन्ने य करेणुया सया रवण-सीला आसि । सा वि ठिया घुम्मंती ओलंबिय-कण्णा । अईव विम्हिया देवदत्ता वीणा-वायगो य । चितियं च, अहो पच्छन्न-वेसो विस्सकम्मा एस । पूइऊण तीए पेसिओ वीणा-वायगो । आगया भोयण-वेला । भणियं देवदत्ताए, वाहरइ अंग-मदयं, जेण दो वि अम्हे मज्जामो । मूलदेवेण भणियं, अणुमन्नह, अहं चैव करेमि तुम्ह अब्भंगणकम्मं । किमेयं पि जाणासि । न-याणामि सम्मं परं ठिओ जाणगाण सयासे । आणियं चंपग-नेल्लं, आढत्तो अब्भंगिउं । कया पराहिण-मणा । चितियं च णाए, अहो विन्नाणाइसओ, अहो अउवो करयल-फासो । ता भवियव्वं केणइ इमिणा सिद्ध-पुरिसेण पच्छन्न-रुवेण, न पयईए एवं रुवरस इमो पगरिसो त्ति । ता पयडीकरावेमि रुवं । निवडिया चल्लोसु, भणिओ य, मो महाणु-भाव, असरिस-गुणेहि चैव नाओ उत्तम-पुरिसो पडिवन्न-वच्छलो दक्खिण-पहाणो य तुमं । ता दंसेहि मे अत्ताणयं । वाढं उक्कंठियं तुह दंसणस्स मे हिययं । मूलदेवेण य पुणो पुणो निव्वंधे कए ईसि हसिऊण अवणीया वेस-परावत्तिणी गुलिया । जाओ सहावत्थो । दिट्ठो दिण-नाहो व्व दिप्पंत-तेओ, अणंगो व्व मोहयंतो रुवेण सयल-जणं नव-जोव्वण-लायण-संपुण-देहो । हरिस-वसुभिन्न-रोमंचा पुणो निवडिया चल्लोसु । भणियं च महा-पसाओ त्ति । अब्भंगिओ स-हत्थेहि । मज्जियाइं दो वि जिमियाइ महा-विभूईए, पहिराविओ देव-दूसे, ठियाइं विसिट्ठ-गोट्ठीए । भणियं च तीए, महाभाग, तुमं मोत्तण न केणइ अणुरंजियं मे अवर-पुरिसेण माणसं । ता सच्चमेयं,

नयणेहि को न दीसइ केण समाणं न होति उल्लावा ।

दिययाणंदं जं पुण जरोइ तं माणुसं विरलं ॥४॥

ता ममाणुरोहेण पत्थ घरे निच्चमेवागंतव्वं । मूलदेवेण भणियं, गुणराइणि,

अन्न-देसिएसु निद्धणेसु अम्हारिसेसु न रेहए पडिवंधो, न य थिरी-ह्वइ ।
पाएण सव्वस्स वि कज्ज-वसेण चैव नेहो । भणियं च,

वृक्षं क्षीण-फलं त्यजन्ति विहगाः शुष्कं सरः सारसाः
पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति सधुपा दग्धं वनान्तं मृगाः ।
निर्द्रव्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं नृपं सेवकाः
सर्वः कार्यवशाज्जनोऽभिरमते कः कस्य को बल्लभः ॥ ५ ॥

तीए भणियं, स-देसो पर-देसो वा अकारणं सप्पुरिसाणं । भणियं च
जलहि-विसंघडिएण वि निवसिज्जइ हर-सिरम्मि चंदेणं ।
जत्थ गया तत्थ गया गुण्णिणो सीसेण वुज्झंति ॥ ६ ॥

तहा अत्थो वि असारो, न तम्मि वियक्खणाण बहुमाणो । अवि य गुणेसु
चैवाणुराओ ह्वइ त्ति । कि च,

वाया सहस्स-मइया सिणेह-निज्झाइयं सय-सहस्सं ।
सव्भावो सज्जण-माणुसस्स कोडि विसेसेइ ॥ ७ ॥

ता सव्वहा पडिवज्जसु इमं पत्थणं ति । पडिवन्नं तेण । जाओ तेसिं नेह-
निव्वभरो संजोगो ॥

४. अन्नया राय-पुरओ पणञ्चिया देवदत्ता । वाइओ मूलदेवेण पडहो ।
तुट्ठो तीए राया । दिन्नो वरो । नासी-कओ तीए । सो य अईव जूय-
पसगी, निवसण सेत्तं पि न रहए । भणिओ य साणुणयं तीए पिय-वाणीए ।
पिययम, को तुह इमं मयंकस्सेव हरिण-पडिवंधं तुम्हं सयल-गुणालयाणं
कलंकं चैय जूय-वसणं । बहु-दोस-निहाणं च एयं । तहा हि

कुल-कलंकणु सच्च-पडिवक्खु गुरु-लज्जा-सोय-हरु
धम्म विग्घु अत्थह पणासणु जु दाग-भोगहि रहिड
पुत्त-दार-पिइ-माइ-मोसणु ।

जहि न गणिज्जइ देउ गुरु जहि न वि कज्जु अकज्जु ।
तणु-संतावणु कुगइ-पहु तहि पिय जूइ म रज्जु ॥ ८ ॥

ता सव्वहा परिच्चयसु इमं । अइ-रसेण य न सक्कए मूलदेवो परिहरिं ॥

५. अत्थि य देवदत्ताए गाढाणुरत्तो मूलिल्लो मित्तसेणो अथल नामा
सत्थवाह-पुत्तो । देइ सो जं मग्गियं, संपाडेइ वत्थाभरणाइयं वहइ य सो
मूलदेवोवरि पओसं, मगइ य छिड्डाणि । तस्स संकाए न गच्छइ मूलदेवो
तीए घरं अवसरमंतरेण । भणिया य देवदत्ता जणणीए । पुत्ति, परिच्चय
मूलदेवं । न किंचि निद्धण-चगेण पओयणमेएण । सो महाणुभावो दाया

अयलो पेसेइ पुणो पुणो बहुयं दव्व-जायं । ता तं चेत्र अंगीकरेसु सव्व-
प्पणयाए । न एक्कम्म पडियारे दोम्मि करवालाइं मायंति, न य अलोणिय
सिलं कोइ चट्टेइ । ता मुंच य जूरियमिमं ति । तीए भणियं, नाहं अंब,
एगंतेण धणाणुरागिणी. गुणोसु चैव मे पडिवंधो । जणणीए भणियं, केरिसा
तस्स जूयगारिस्स गुणा । तीए भणियं, अंब केवल-गुणमओ खु सो ।
जओ

धीरो उदार-चित्तो दक्खिण्ण-महोयही कला-निउणो ।

पिय-भासी य कयन्नू गुणाणुराईं विसेसन्नू ॥ ९ ॥

अओ न परिच्चयामि एयं । तओ सा अणोगेहिं दिट्ठंतेहि आढत्ता पडि-
बोहिउं । अलत्तए मगिए नीरसं पणामेइ, उच्छुखडे पत्थिए छोइयं
पणामेइ, कुसुमेहि जाइएहि वेंट-मेत्ताइं पणामेइ । चोइया य पडिभणइ ।
जारिसमेयं तारिसो एसो ते पिययमो, तहा वि तुमं न परिच्चयसि । देव-
दत्ताए चितियं, मूढा एसा, तेणेवंविहे दिट्ठंते देइ ॥

६. तओ अन्नया भणिया जणणी, अम्मो मग्गेहि अयलं उच्छुं ।
कहियं च तीए तस्स । तेण वि सगडं भरेऊण पेसियं । तीए भणिय, किमहं
करिणिया जेणेवंविहं स-पत्त-ढालं उच्छुं पभूयं पेविज्जइ । तीए भणियं,
पुत्ति, उदारो खु सो, तेण एवं पेसियं ति । चितियं च रेण, अज्जाणं पि
सा दाहि त्ति । अवरदियहे देवदत्ताए भणिया माहवी । हला, भणाहि
मूलदेवं जहा, उच्छूण उवरि सद्धा ता पेसेहि मे । तीए वि गतूण कहियं ।
तेण वि गहियाओ दोम्मि उच्छु-लट्ठीओ, निच्छोलिऊण कयाओ दुयंगुल-
पमाणाओ गंडियाओ, चाउज्जाएण य अवचुण्णयाओ, कपूरेण य मणागं
वासियाओ मूलाहि य मणागं भिन्नाओ । गहियाइं अभिणव-मल्लगाइं,
भरिऊण ताइं ढक्किऊण य पेसियाणि । ढोइयाइं च गंतूण माहवीए
दंसियाणि तीए वि जणणीए । भणिया य, पेच्छ, अम्मो, पुरिसाण अंतरं
ति । ता अहं एएसि गुणाणमणुरत्ता । जणणीए चितियं । अच्चंत-मोहिया
एसा, न परिच्चयइ अत्तणा इमं । ता करेमि किं पि उवायं जेण एसो वि
कामुओ गच्छइ विएसं । तओ सुत्थं हवइ त्ति चित्तिऊण भणिओ अयलो ।
कहसु एईए पुरलो अलिय-गामंतर-गमणं । पच्छा मूलदेवे पविट्ठे मणुस्स-
सामग्गीए आगच्छेज्जह विमाणेज्जह य तं, तेण विमाणो संतो देस-चायं
करेइ । ता संजुत्ता चिट्ठेज्जह, अहं ते वत्तं दाहामि । पडिवन्नं च तेण ।
अन्नम्मि दिणे कयं तहेव तेण । निग्गओ अलिय-गामंतर-गमण-मिसेण ।
पविट्ठो य मूलदेवो । जाणाविओ जणणीए अयलो, आगओ महा-

सामगाए । दिट्टो य पविसमाणो देवदत्ताए । भणियो य मूलदेवो, ईइसो
 चेव अवसरो, पडिच्छियं च जणणीए एय-पेसियं दव्वं, ता तुमं, परलंक-
 हेट्टओ मुहुत्तगं! चिट्ठह ताव । ठिओ सो परलंक-हेट्टओ । लक्खिओ
 अयलेणं । निसण्णो परलंके अयलो । भणिया य सा तेणं, करेह ण्हाण-
 सामगि । देवदत्ताए भणियं एवं ति, ता उट्टह, नियंसह पोत्ति, जेण
 अब्भंगिज्जइ । अयलेण भणियं । मए दिट्टो अज्ज सुमिणओ जहा,
 नियत्थिओ चेव अब्भंगिय-गतो एत्थ परलंके आरूढो एहाओ त्ति । ता
 सच्चं सुमिणयं करेसु । देवदत्ताए भणियं, नणु विणासिज्जए महग्घियं तूलियं
 गंडुयमाइयं । तेण भणियं, अन्नं ते विसिट्ठतरं दाहामि । जणणीए भणियं,
 एवं ति । तओ तत्थ-ट्ठिओ चेव अब्भंगिओ उव्वट्ठिओ उण्ह-खलि-उदगेहिं
 पमज्जिओ । भरिओ तेण हेट्ठ ट्ठिओ मूलदेवो । गहियाउहा पविट्ठा
 पुरिसा । सन्निओ जणणीए अयलो । गहिओ तेण मूलदेवो वालेहिं भणियो
 य । रे, संपयं निरुवेहि, जइ कोइ अत्थि ते सरणं । मूलदेवेण य निरुवियाइं
 पासाइं, जाव दिट्ठं निसियासि-हत्थेहिं वेढियमत्ताणयं मारूसेहिं । चित्थियं
 च, नाहमेएसि उच्चरामि कायव्वं च मए वइर-निज्जायणं, निराउहो संपयं
 ता न पोरिसस्सावसरो त्ति चित्थिय भणियं । जं ते रोयइ तं करेहि । अयलेण
 चित्थियं, उत्तम-पुरिसो कोइ एस आगईए चेव नज्जइ । सुत्तभाणि य संसारे
 महा-पुरिसाण वसणाइं । भणियं च,

को एत्थ सया सुहिओ कस्स व लच्छी थिराइं पेम्माइं ।

कस्स व न होइ खलियं भण को व न खंडिओ विहिणा ॥ १० ॥

भणियो मूलदेवो । भो एवंविहावत्था-गओ मुक्को संपयं तुमं, ममं पि
 विहि-वसेण कयावि वसण-यत्तस्स एवं चेव करेज्जह ।

७. तओ विमण-दुम्मणो निग्गओ नयराओ मूलदेवो । पेच्छ, कहं
 एएण छलिओ त्ति चित्तयंतो ण्हाओ सरोवरे, कया पडिवत्ती । चित्थियं,
 गच्छामो विएसं, तत्थ गंतूण करेमि किपि इमस्स पडिविप्पिउवायं ।
 पट्ठिओ वेण्णायड-संमुहं । गाम-नगराइ-मज्जेग वच्चंतो पत्तो दुवालस-
 जोयण-पमाणाए अढवीए मुहं । चित्थियं च तत्थ, जइ कोइ वच्चंतो
 वाया-साहेज्जो वि दुइओ लब्भइ ता सुहं चेव छिज्जइ अढवी । जाव
 थेव-वेलाए आगओ विसिट्ठाकार-दंसणओ संवल-थइया-सणाहो ढक्क-
 वंभणो । पुच्छिओ य, भो भट्ट, केदूरं गंतव्वं । तेण भणियं, अत्थि अढवीए
 परओ वीरनिहाणं नाम ठामं, तं गमिस्सामि । तुमं पुण कत्थ पत्थिओ ।
 इयरेण भणियं, वेण्णायडं । भट्टेण भणियं, ता एहि, गच्छम्ह । तओ पयट्टा
 दो वि । मज्जण्ह-समए य वच्चंतोहि दिट्ठसरोवरं । ढक्केण भणियं, भो

वीसमामो खणमेगं ति । गया उदग-समीवं, धोया हृत्थ-पाया । गओ मूलदेवो पालि-संठिय-रुक्ख-च्छायं । ढक्केण छोडिया संबल-थइया, गहिया वट्टयम्मि सत्तुया । ते जलेण ओलित्ता लग्गो भक्खिखवं । मूलदेवेण चित्तिं, एरिसा चैव वंभण-जाई भुक्का-पहाणा हवइ ता पच्छा मे दाही । भट्टो वि भुंजिता वंधिऊण थइयं पयट्टो । मूलदेवो वि, नूणं अवरणहे दाहि त्ति चित्तैतो अणुपयट्टो । तत्थ वि तहेव भुत्तं, न दिन्नं तस्स । कल्लं दाहि त्ति आसाए गच्छइ एसो । वंचंताण य आगया रयणी । तओ वट्टाओ ओसरिऊण वड-पायव-हेट्ठओ पसुत्ता । पच्चूसे पुणो वि पत्थिया, मज्झणहे तहेव थक्का, तहेव भुत्तं ढक्केण, न दिन्न एयस्स । जाव तइव-दियहे चित्तिं मूलदेवेण । नित्थिण-पाया अडवी, ता अज्ज अवस्सं मम दाही एस । जाव तत्थ वि न दिन्नं । नित्थिन्ना य तेहिं अडवी । जायाओ दोण्ह वि अन्नन्न-वट्टाओ । तओ भट्टेण भणियं, भो तुज्झ एसो वट्टा, ममं पुण एसो । ता वच्च तुमं एयाए । मूलदेवेण भणियं, भो भट्ट, आगओ हं तुज्झ पहावेणं, ता मज्झ मूलदेवो नामं, जइ कयाइ किपि पओयणं मे सिञ्चइ ता आगच्छेज्ज वेण्णायडे । किं च तुज्झ नामं । ढक्केण भणियं, सद्धडो, जण-कयावडंकेण निग्घिणसम्मो नाम । तओ पत्थिओ भट्टो स-गामं । मूलदेवो वि वेण्णायड-संमुहं ति ।

८. अंतराले य दिट्ठं वसिमं । तत्थ पविट्ठो भिक्खा-निमित्तं । हिंदिय असेसं गामं, लद्धा कुम्मासा, न किपि अन्नं । गओ जलासया-भिमुहं । एत्थंतरम्मि य तव-सुसिय देहो महाणुभावो महातवस्सी मासो व्वास-पारणय-निमित्तं दिट्ठो पविसमाणो । तं च पेच्छिय हरिस-वसुद्धिभन्न-पुल्लण चित्तिं मूलदेवेण । अहो, धन्नो कयत्थो अहं, जस्स इमम्मि काले एस महा-तवस्सी दंसण-पहमागओ । ता अवस्सं भविचर्व्वं मम कल्लाणेण । अवि य,

मरुत्थलीए जह कप्प-रुक्खो दरिद-गेहे जह हेम-वुट्ठी ।

मायंग-गेहे जह हृत्थि-राया सुणी महप्पा एत्थ एसो ॥ ११ ॥

कि च,

दंसण-नाण-विसुद्धं पंच-महव्वय-समाहियं धीरं ।

खंती-महव-अज्जव-जुत्तं मुत्ति-प्पहाणं च ॥ १२ ॥

सज्जाय-ज्जाण-तवोवहाण-निरयं विसुद्ध-लेसागं ।

पंच-समियं ति-गुत्तं अकिंचणं चत्त-गिहि-संगं ॥ १३ ॥

सुपत्तं एस साहू । ता

एरिस-पत्त-सुखेत्ते विसुद्ध-सद्धा-जलेण संसित्तं ।

निहियं तु दव्व-सस्सं इह-पर-लोए अणंत-फलं ॥ १४ ॥

९. ता एत्थ कालोचिया देमि एयस्स चेत्र कुम्मासाः। जओ अदायगो एस गामो, एसो य महप्पा कइवय-चरैसु दरिसावं दाऊण पडिनियत्तइ। अहं पुण दो तिण्णि वारे हिडामि, तो पुणो लभिस्सं। आसन्नो अवरो विइओ गामो, ता पयच्छामि सव्वे इमे त्ति। पणमिऊण तओ समप्पिया भगवओ कुम्मासा। साहुणा वि तस्स परिणाम-पयरिसं मुणंतेण दव्वाइ-सुद्धि च वियाणिऊण, धम्म-सील, थोवे देज्जह त्ति भणिऊण धरियं पत्तयं। दिन्ना य तेण पवड्ढमाणाइ-सएण। भणियं च तेण,

धन्नाणं खु नराणं कुम्मासा हौंति साहु-पारणए।

१०. एत्थंतरम्मि गयणंतर-गयाए रिसि-भत्ताए मूलदेव-भत्ति-रंजियाए भणियं देवयाए। पुत्त मूलदेव, सुंदरमणुचिट्ठयं तुमे। ता एयाए गाहाए पच्छद्वेण मगगह जं रोयए, जेण संपाडेमि सव्वं। मूलदेवेण भणियं,

गणियं च देवदत्तं दंति-सहस्सं च रज्जं च ॥ १५ ॥

देवयाए भणियं, पुत्त, निच्चितो विहरसु। अत्रस्सं रिसि-चलणाणुभावेण अइरेण चैव संपज्जिस्सइ एयं। मूलदेवेण भणियं, भयवइ, एवमेयं ति। तओ वंदिय रिसि पडिनियत्तो, रिसी वि गओ उज्जाणं। लद्धा अवरा भिक्खा मूलदेवेण। जेमिओ पत्थिओ य वेन्नायड-संमुहं, पत्तो य कमेण तत्थ ॥

११. पसुत्तो रयणीए बाहि पहिय-सालाए। दिट्ठो य चरिम्-जामे सुमिणओ, पडिपुण्ण-मंडलो निम्मल-प्पहो मयंको उयरम्मि पविट्ठो। अन्नेण वि कप्पडिएण एसो चेत्र दिट्ठो, कहिओ तेण कप्पडियाणं। तत्थेगेण भणियं, लभिहिसि तुमं अज्ज यय गुल-संपुण्णं महंतं रोट्ठगं। न-याणंति एए सुमिणस्स परमत्थ ति न कहियं मूलदेवेण। लद्धो कप्पडिएण भिक्खा-गएण घर-छायणियाए जहोवइट्ठो रोट्ठगो। तुट्ठो य एसो, निवेइओ य कप्पडियाणं। मूलदेवो वि गओ एगमारामं। आवज्जिओ तत्थ कुसुमोच्चय-साहिज्जेण मालागारो। दिन्नाइं तेण पुप्फ-कळाइं। ताइं घेत्तुं सुइ-भूओ गओ सुविण सत्थ-पाढयस्सं गेहं। कओ तस्स पणामो। पुच्छिया खेमारोग-वत्ता। तेण वि संभासिओ स-बहुमाणं, पुच्छिओ य पओयणं। मूलदेवेण य जोडिऊण कर-जुयलं कहिओ सुविणग-वइयरो। उवज्जाएण वि भणियं सहरिसेण। कहिस्सामि सुह-मुहुत्ते सुविणय-फलं, अज्ज ताव अतिही होसु अम्हाणं। पडिवन्तं च मूलदेवेण। ण्हाओ जिमिओ य विभूर्इए। भुत्तत्तरे य भणिओ उवज्जाएण, पुत्त, पत्त-वरा मे एसा कन्नगा, ता परिणेषु ममोवरोहेण एयं तुमं ति। मूलदेवेण भणियं, ताय, कहं अन्नाय-कुल-सीलं जामाज्जं करेसि। उवज्जाएण भणियं पुत्त, आयारेण चैव नज्जइ अ-कहियं पि कुलं। भणियं च

आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति जल्पितम् ।
संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम् ॥ १६ ॥

तद्वा

को कुवल्याण गंधं करेइ महुरत्तणं च उच्छूणं ।
वर-हत्थीण य लीलं विणयं च कुल-प्पसूयाणं ॥ १७ ॥

अहवा

जइ होंति गुणा तो किं कुलेण गुणिणो कुलेण न हु कज्जं ।
कुलमकलंकं गुण-वज्जियाण गरुयं चिय कलंकं ॥ १८ ॥

१२. एवमाइ-भणिईहि पडिवज्जाविओ सुह-मुहुत्तेण परिणाविओ ।
कहियं सुवियण-फलं, सत्त दिणव्भंतरे राया होहिसि । तं च सोऊण जाओ
पहट्ठ मणो । अच्छइ य तत्थ सुहेणं । पंचमे य दिवसे गओ नयर-वाहिं,
नुवण्णो य चंपग च्छायाए ॥

१३. इओ य तीए नयरीए अपुत्तो राया काल-गओ । तत्थ अहि-
यासियाणि पंच दिव्वाणि । ताणि आहिडिय नयर-मज्जे निग्गयाणि वाहि,
पत्ताणि मूलदेव-सयासं । दिट्ठो सो अपरित्तमाण-छायाए हेट्ठओ । तं
पेच्छिय गुलुगुलियं हत्थिणा, हेसियं तुरंगेण, अहिसित्तो भिंगारेण, वीइओ
चामरेहिं, ठियमुवरि पुंडरीयं तओ कओ लोएहिं जयजया-रओ ।
चडाविओ गएण खंधे, पइसारिओ य नयरि । अहिसित्तो मंति-सामंतेहिं ।
भणियं च गयण-तल-गयाए देवयाए । भो भो, एस महाणुभावो असेस-
कलाधारगो देवयाहिट्ठिय-सरीरो विकमराओ नाम राया । ता एयस्स
सासणे जो न वट्टइ, तस्स नाहं खमामि त्ति । तओ सव्वो सामंत-मंति-
पुरोहियाइओ परियणो आणा-विहेओ जाओ । तओ उदारं विसय-
सुहमणुवंतो चिट्ठइ । आढत्तो उज्जेणि-सामिणा विचारधवलेण सह
संववहारो जाव जाया परोप्परं निरंतरा पीई ॥

१४ इओ य देवदत्ता तारिसं विडंबणं मूलदेवस्स पेच्छिय विरत्ता अईव
अयलोवरि । तओ य निव्वच्छिओ अयलो; भो अहं वेसा, न उण अहं
तुज्ज कुल-वरिणी । तद्वा वि मज्ज गेहत्थो एवंविहं ववहरसि । ता मम-
त्थाए पुणो न खिव्जियव्वं ति भणिय गया राइणो सयासं । भणिओ य
निवडिय चलणेसु राया । सामि तेण वरेण कीरउ पसाओ । राइणा भणियं
भण, कओ चेव तुच्छ पसाओ । किमवरं भणीयइ । देवदत्ताए भणियं ।
ता, सामि मूलदेवं वज्जिय न अओ पुरिसो मम आणावेयव्वो । एसो
अयलो मम घरागमणे निवारेयव्वो । राइणा भणियं, एवं, जद्दा तुज्ज

रोयए, परं कहेह, को पुण वुत्तन्तो। तओ कहिओ माहवीए। रुठो राय अयलोवरि। भणियं च, भो मम एईए नयरीए एयाइं दोन्नि रयणाइं ताइं पि खली-करेइ एसो। तओ हक्कारिय अंबाडिओ भणिओ य। रे, तुमं एत्थ राया जेण एवंविहं ववहरसि। ता निरुवेहि संपयं सरणं-करेमि तुइ पाण-विणासं। देवदत्ताए भणियं, सामि, किमेइणा सुणह-पाएण पडिखद्धेणं ति। ता मुंचह एयं। राइणा भणिओ, रे, एईए महाणुभावाए वयणेणं लुट्ठो संपयं, सुद्धी उण तेणेवेह आणिएणं भविस्सइ। तओ चलणेसु निवडिऊण निग्गओ राय-उत्ताओ। आढत्तो गवेसिहं दिसो-दिसिं। तहा वि न लद्धो। तओ तीए चेव ऊणिमाए भरिऊण भंडस्स वहणाइं पत्थिओ पारसउलं ॥

१५. इओ य मूलदेवेण पेसिओ लेहो कोसल्लियाइं च देवदत्ताए तस्स य राइणो। भणिओ य राया, मम एईए देवदत्ताए उवरि महंतो पडिबंधो। ता जइ एईए अभिरुचियं, तुन्हं वा रोयए, तो कुणह पसायं, तेसेह एयं। तओ राइणा भणिया राय-दोवारिणा। भो किमेयं एवंविहं लिहावियं विकमराएण। किं अम्हाणं तस्स य अत्थि कोइ विसेसो। रउजं पि सव्वं तस्सेयं, कि पुण देवदत्ता। परं इच्छउ सा। तओ हक्कारिया देवदत्ता। कहिओ वुत्तंतो, ता जइ तुम्ह रोयए, ताहे गम्मउ तस्स सगासं। तीए भणियं, महापसाओ, तुम्हाणु-नायाण मणोरहा एए अम्हं। तओ महा-विभवेणं पूइऊण पेसिया गया य। तेण वि महा-विभूर्इए चेव पवेसिया। जायं च परोपरमेगरउजं। अच्छए मूलदेवो तीए सह विसयसुहमणुहवंतो जिण-भवण-विंन-करण-पूयण-तप्परो त्ति ॥

१६. इओ य सो अयलो पारस-उत्ते विडविय बहुयं दव्वं पवरं च भण्डं भरेऊण आओ वेण्णायडं। आवासिओ य नाहि। पुच्छिओ लोगो, किं-नामाभिहाणो एत्थ राया। कहियं च, विकमराओ त्ति। तओ हिरण-सुवण-मोत्तियाणं थालं भरेऊण गओ राइणो पेक्खगो। द्वावियं राइणा आसणं। निसण्णो पच्चभिन्नाओ य। अयलेण य न नाओ एसो। रआ पुच्छियं, कुओ सेट्ठी आगओ। तेण भणियं, पारस-उत्ताओ। रआ पूइएण अयलेण भणियं, सामि, पेसेह कोवि उवरिगो, जो भंड निरुवेइ। तओ राइणा भणियं, अहं सयमेव आगच्छामि। तओ पंच-उल-सहिओ गओ राया। दसियं वहणेसु संख-फोफ्फल-चंद्रणागरु-मंजिट्ठाइयं भंडं। पुच्छियं पंचउल-समक्खं राइणा। भो सेट्ठि, एत्तियं चेव इमं। तेण भणियं, देव, एत्तियं चेव। राइणा भणियं, करेह सेट्ठिस्स अद्ध-दाणं, परं मम समक्खं तोलेह चोहए। तोल्लियाइं पंचउलेण। भारेण य पाय-प्पहारेण

य वंस-वेहेण य लक्खियं, मंजिट्ठमाइ-मज्झ-गयं सार-भंडं । राइणं
 उक्केलावियाई चोळयाइं, निरुवियाई समंतओ, जाव दिट्ठं कत्थइ सुवणं,
 कत्थइ रूपयं, कत्थइ मणि-मोत्तिय-पवालाई महग्घं भंडं । तं च दट्ठूण
 रुट्ठेण निय-पुरिसाण दिन्नो आएसो । अरे, वव्ह पच्चक्ख-चोरं इमं ति ।
 वद्धो य थगथगित्त-हियओ तेहिं । दाऊण रक्खवाले जाणेषु गओो राया
 भवणं । सो वि आणिओ आरक्खिण्णेण राय-समीवं । गाढ-वद्धं च दट्ठूण
 भणियं राइणा । रे, छोडेह छोडेह । छोडिओ अन्नेहि । पुच्छिओ राइणा,
 परियाणसि ममं । तेण भणियं सयल-पुहवि-विक्खाए महा-नरिंदे को न-
 याणइ । राइणा भणियं, अल उवयार-भासणेहि, फुडं साहसु, जइ
 जाणसि । अयलेण भणियं, देव, न-याणामि सम्मं । तओ राइणा बाहरा-
 विया देवदत्ता । आगया वरच्छर व्व सव्वंग-भूसण-धरा, विन्नाया अयलेण ।
 लज्जिओ मणम्मि बाढं । भणियं च तीए, भो, एस सो मूलदेवो, जो तुमे
 भणिओ तम्मि काले, ममावि कयाइ विहि-जोगेण वसणं पत्तस्स उवयारं
 करेज्जह । ता एस सो अवसरो । मुक्को य तुमं अत्थ-सरीर-संसयमावओ
 वि पणय-दीण-जण-वच्छलेण राइणा संपयं । इमं च सोऊण विलक्ख-
 माणसो, महा-पसाओ त्ति भणिऊण निवडिओ राइणो देवत्ताए य
 चलणेषु । भणियं च, कयं मए जं तथा सयल-जण-निव्वुइ-करस्स नीसेस-
 कला-सोहियस्स देवस्स निम्भल-सहावस्स पुण्णिमा-चंदस्सेव राहुणा
 कयत्थणं, ता तं खडम मम सामी । तुम्ह कयत्थणामरिसेण महाराओ वि
 न देइ मे उज्जेणीए पवेसं । मूलदेवेण भणियं, खमियं चैव मए, जस्स तुह
 देवीए कओ पसाओ । तओ सो पुणो वि निवडिओ दोण्ह वि चलणेषु
 परमायरेण । ण्हाविओ य देवदत्ताए परिहाविओ महग्घ-वत्थे । राइणा
 मुक्कं दाणं । पेसिओ उज्जेणि । मूलदेव-राइणो अब्भत्थणाए खमियं
 वियारधवलेण । निग्घणसम्मो वि रज्जे निविट्ठं सोऊण मूलदेवं आगओ
 चेण्णायडं । दिट्ठो राया । दिओ सो चैव अदिट्ठ-सेवाए गामो तस्स
 रत्ता । पणमिऊण महा-पसाओ त्ति भणिऊण य सो गओो गामं ॥

१७. इओ य तेण कप्पडिण सुयं जहा । मूलदेवेण वि एरिसो
 सुमिणो दिट्ठो जारिसो मए । परं सो आएस-फलेण राया जाओ । सो
 चित्तेइ, वच्चामि जत्थ गोरसो, तं पिचित्ता सुवामि, जाव तं सुमिणं पुणो वि
 पेच्छामि । अवि सो पेच्छेज्ज, न य माणुसाओ विभासा ॥

करकंडु

१. चंपाए नयरीए दहिवाहणो राया । तस्स चेडग-धूया उपमावई देवी । अन्नया य तीसे दोहलो जाओ । किहाहं राय-नेवत्थेण नेवत्थिया महाराय-धरिय-छत्ता उज्जाण-काणणाणि हत्थि-खंध-वर-गया विहरेज्जा । सा ओलुगगा जाया । राइणा पुच्छिया । कहिओ सब्भावो । ताहे राया सा य जय-हत्थिम्मि आरूढाई । राया छत्तं धरेइ । गया उज्जाणं । पढम-पाउसो य तथा वट्टइ । सीयलएणं सुरहि-गंध-मट्टिया-गंधेणं (हत्थी) अज्जाहओ वणं संभरेइ । करी वि पयट्टो वणाभिमुहो, पयाओ पहाओ । जणो न तरइ पिट्टओ ओलगिडं । दो वि अडवि पवेसियाई । राया वडरुक्खं पेक्खइ । देवि भणइ । एयस्स वडस्स हेट्ठेण जाहिइ; तओ तुमं साहं गेण्हेज्जासि । ताए पडिसुयं । न तरइ गेण्हिडं । राया दक्खो, तेण साहा गहिया । सो उत्तिण्णो निराणंदो किं कायव्यया-मूढो गओ चंपं ॥

२ सा य पउमावई नीया निम्माणुसि अडवि । जाव तिसाइओ ताव पेच्छइ तलागं महइ-महालयं हत्थी । तओ तत्थ ओइएणो अभिरमइ । इमा वि सणियं सणियं ओइण्णा करिणो, उत्तिण्णा तलागाओ । दिसाओ न जाणइ, भय-भीया समंतओ तं वणं पलोएइ । तओ, अहो कम्माण परिणई, जेण अतक्कियमेव परिसं वसणमहं पत्ता । ता किं करेमि, कत्थ गच्छामि, का मे गइ त्ति । सा य परव्वसा रोविडं पयत्ता । खण-मेत्तेण य काउए धीरयं चितियं तीए । न नज्जइ. बहु-दुट्ट-सावय-संकुले एयम्मि भीसणे वणे कि पि हवइ । ता अप्पमत्ता हवामि । तओ कयं चर-सरण-गमणं, गरहियाईं दुच्चरियाईं, खमिओ सयल-जीव-रासी; कयं सागारं भत्त-पच्चक्खाणं ।

जइ मे होज्ज पमाओ इमस्स देहस्सिमाए वेलाए ।

आहारमुवहि-देहं चरिमे समयम्मि वोसिरियं ॥१॥

तहा पंच-नमोकारो मे सरणं । जओ सो चेव इह-लोग-पर-लोगेसु कल्लणावहो । भणियं च

वाहि-जल-जलण-तक्कर-हरि करि-संगाम-विसहर-भयाईं ।

नासंति तक्खयेणं नवकार-पहाण-मंतेणं ॥ २ ॥

न य तस्स किंचि पव्वइ डाइणि-वेयाल-रक्ख मारि-भयं ।
नवकार-पद्दावेणं नासंति य सयल-दुरियाइं ॥ ६ ॥

तद्दा

हियय-गुहाए नवकार-केसरी जाण-संठिओ निच्चं ।
कम्मट्ठ-गंठि-दोघट्ट-वट्टयं ताण परिनट्ठं ॥ ४ ॥

३. तओ नवकारमणुसरंती पट्ठिया एग-दिसाए । जाव दूरं गया,
ताव दिट्ठो एगो तावसो । तस्स मूलं गया । अभिवाइओ सो । पुच्छिया
तेण । कओ सि अम्मो इहागया । ताहे कहेइ । अहं चेडगस्स धूया, जाव
हत्थिणा आणीया । सो य तावसो चेडगस्स नियल्लओ । आसासिया
मा बीहेहि त्ति । भणिया य, मा सोयं करेहि, ईइसो चेव एस संजोग-
विओग-हेऊ जम्मण-मरण रोग-सोग-पररो असारो संसारो । वण-फलेहि
अणिच्छंती वि काराविया पाण-वित्ति, नीया य वसिमं, भणिया य । एत्तो
परेण हल-किट्ठा भूमी, तं न अक्कमामो अम्हे । एसो दंतपुरस्स विसओ
दंतवक्को य एत्थ राया । ता तुमं निब्भया गच्छ एयम्मि नयरे, पुणो
सुसत्थेण गच्छेज्जसु चंपं ति । नियत्तो तावसो । इयरा वि पविट्ठा दंतपुरं ।
गया य पुच्छंती साहुणी-मूलं । वंदिया पवत्तिणी । पुच्छिया, कुओ
ताविगा । कहियं तीए जहट्ठियं । परुण्णा मणागं, संठविया पवत्तिणीए ।
महाणुभावे, मा कुणसु चित्त-खेयं, अलंघणीओ हु विहि-परिणामो । जओ
विहडावइ घडियं पि हु विहडियमवि किं चि संघडावेइ ।
अइ-निरणो एस विही सत्ताण सुहासुह-करणे ॥५॥

किं च

खण-दिट्ठ-नट्ठ-विहवे खण-परियट्ट-विविह-सुह-दुक्खे ।
खण-संजोग-विओगे संसारे नत्थि किं पि सुहं ॥६॥
जेणं चिय संसारो बहुविह-दुक्खाण एस भंडारो ।
तेणं चिय इह धीरा अपवग्ग-पहं पवज्जंति ॥७॥

एवमाइ अणुसासिया संवेगमुवगर्या ताणं चेव मूले पव्वइया । पुच्छियाए
वि दिक्खाए अदाण-भएण गव्भो न अक्खाओ । पच्छा नाए मयहरियाए
सव्भाओ कहिओ । पच्छन्नं धरिया । पसूया समाणी सह नाम-मुद्दाए
कंबल-रयणेण य सुसारो छड्ढेइ । पच्छा मसाण-पालेण गहिओ भज्जाए
अपिओ । अवकिरणओ त्ति नामं कयं । सा य अज्जा तीए पाणीए समं
मेत्तिं करेइ त्ति । सा अज्जा ताहिं संजईहिं पुच्छिया । कहि गव्भो । भणइ,
मयगो जाओ, तो मे उज्झिओ । सो तत्थ संवड्ढइ । ताहे दारग-रूवेहिं

समं रमइ । सो ताणि डिभ-रूवाणि भणइ । अहं तुव्भं राया, मम करं देह । सो लुक्ख-कच्छुए गहिओ । ताणि भणइ, ममं कंङ्खयह । ताहे से करकंडु त्ति नामं कयं । सो य ताए संजईए अणुरत्तो । सा य से मोयए देइ, जं वा भिक्खं लट्ठं लहेइ ॥

४. संवड्ढिओ सो सुसाणं रक्खइ । तत्थ दो संजया तं मसाणं केणइ कारणेण अइगया, जाव एगतथ वंस-कुडंगे दंडं पेच्छंति । तत्थ एगो दंड-लक्खणं जाणइ जहा ।

एग-पव्वां पसंसंति दु-पव्वा कलह-कारिया ।

ति-पव्वा लाभ-संपन्ना चउ-पव्वा मारणतिया ॥ ८ ॥

पंच-पव्वा उ जा लट्ठी पथे कलह-निवारिणी ।

छ-पव्वा य आयंको सत्त-पव्वा अरोगिया ॥ ९ ॥

चउरंगुल-पहट्ठाणा अट्ठगुल-समूसिया ।

सत्त-पव्वा उ जा लट्ठी मत्त-गय-निवारिणी ॥ १० ॥

अट्ठ-पव्वा असंपत्ती नव-पव्वा जस-कारिया ।

दस-पव्वा उ जा लट्ठी तहियं सव्व-संपया ॥ ११ ॥

वंका कीड-क्खइया चित्तलया पोल्ला य दड्ढा य ।

लट्ठी य उव्व-सुक्का वज्जेयव्वा पयत्तेण ॥ १२ ॥

धण-वट्ठमाण-पव्वा निद्धा वणणेण एग-वण्णा य ।

एमाइ-लक्खण-जुया पसत्थ-लट्ठी मुणेयव्वा ॥ १३ ॥

तओ तेण भणियं । जो एवं दंडं गेण्हिस्सइ सो राया होदिइ कि तु पडिच्छियव्वो, जाव अन्नाणि चतारि अंगुलाणि वड्ढइ, ताहे जोगो त्ति । त तेण मायंग-चेडगेण सुयं, एक्केण य धिज्जाइएण । सो धिज्जाइओ अप्पसारियं तस्स चउरंगुल खणिऊणं छिदेइ । तेण य चेडगेणं दिट्ठो सो उद्दालिओ । सो तेण धिज्जाइएण करणं नीओ । भणइ, देहि दंडगं । सो भणइ, मम मसाणे एस वड्ढिओ अओ न देमि । विज्जाइओ भणइ, अन्नं गेण्ह । सो नेच्छइ, भणइ य, एएण मम कव्वं ति । सो दारगो न देइ । तेहि सो दारगो पुच्छिओ, किं न देसि । भणइ य, अहं एयस्य दंडगस्स पहावेण राया होहामि त्ति । ताहे कारणिया हसिऊण भणंति । जया तुमं राया होज्जासि, तथा तुमं एयस्य गामं देज्जासि । पडिन्नं तेण । धिज्जाइएण वि अन्ने धिज्जाइया भणिया जहा । एवं नारेत्ता दंडगं हरामो । तं तस्स पिउणा सुयं । ताणि तिण्णि दि नट्ठाणि जाव कंठणपुरं गयाणि । तत्थ राया अपुत्तो मओ । आसो अहियासिओ । तम्म वाहिं सुयंतस्स

मूलमागत्रो, पयाहिणी-काऊण ठिओ । जाव आग्रेण नायरा पेच्छंति
लक्खणं-जुत्तं । जय-सदो कओ । नंदी-तूरमाहयं । इमो वि जंभंतो उट्ठिओ ।
वीसत्थो आसे विलग्गो पवेसिज्जइ । मायंगो त्ति धिज्जाइया न देति
पवेसं । ताहे तेण दंढ-रयणं गहियं । तं जल्लिउमाढत्तं । ते भीया ठिया ।
ताहे तेण वाडहाणग हरिएसा धिज्जाइया कया । उक्तं च—

दधिवाहन-पुत्रेण राजा तु करकंडुना ।

वाटधानक-वास्तव्यश्चांडाला ब्राह्मणीकृताः ॥ १४ ॥

तस्स य घर-नामं अवकिण्णगो त्ति अवहीरिऊण तेहिं तं चेव चेडग-कयं
नामं पइट्ठियं करकंडु त्ति । ताहे सो धिज्जाइओ आगओ । देहि मम
गामं । भणइ जो ते रुच्चइ तं गेण्ह । सो भणइ, मम चंपाए घरं. ता तीए
विसए देहि । ताहे दहिवाहणस्स लेहं देइ । देहि ममं गामं एगं, अहं तुज्जा
ज रुच्चइ गामं वा नगरं वा तं देमि । सो रुट्ठो । दुटठ-मायंगो अप्पाणं
न-याणइ त्ति । दूएण पडियागएण कहियं । करकंडु कुविओ । चंपा
रोहिया । जुद्धं वट्टइ । ताए संजईए सुयं । मा जण-क्खओ होहि त्ति
मयहरियं आपुच्छिऊण गया तं नयरि । करकंडुं उस्सारित्ता रहस्सं भिदइ,
एस तव पिय त्ति । तेण ताणि अम्मा-पियरो पुच्छियाणि । तेहिं सव्भावो
कहिओ । माणेणं न ओसरइ । ताहे सा चंपं अइगया । रण्णो घरं अईइ,
नाया, पाय-वडियाआ दासीओ परुण्णाआ । राइणा वि सुयं । सो वि
आगओ । वंदित्ता आसणं दाऊण तं गव्व पुच्छइ । सा भणइ, एस सो
जेण रोहियं नयरं । तुट्ठो निग्गओ म्मिलिओ । दो वि रज्जाणि तस्स
दाऊण दहिवाहणो पव्वइओ ॥

५. करकंडू य महा-सासणो जाओ । सो किल गोडल-प्पिओ ।
अणोगाणि तस्स गोडलाणि जायाणि । जाव सरय-काले एगं गो-वच्छं
थोर-गत्तं सेयं पेच्छइ । भणइ, एयस्स मायरं मा दुहेज्जइ । जया वड्ढिओ
होज्जा तथा क्षण्णाणं गावीणं दुद्धं पाएज्जाह । ते गोवा पडिसुणति ।
सो उच्चत्त-विसाणो गंध-वसहो जाओ । राइणा दिट्ठो । सो जुद्धिक्कओ
जाओ । पुणो कालेण राया आगओ पेच्छइ महाकायं जुण्ण-वसभं
पड्डुएहि परिघट्टिज्जंतं । गोवे पुच्छइ कहिं सो वसभो त्ति । तेहिं सो दाइओ
तयव्वत्थो । भणियं च

गोदंठंगणस्स मज्जे ढक्किय-सहेण जस्स भव्वंति ।

दित्ता वि दरिय-वसभा सुतिकख-सिगा समत्था वि ॥ १५ ॥

पोराणय-गय-दप्पो गलंत-नयणो चलंत-विसमोट्ठो ।

सो चेव इमो वसभो पड्डुय-परिघट्टणं सहइ ॥ १६ ॥

६. तं तारिसं पेच्छिय गओ विसायं । चितेइ अणिच्चयं । अहो तारिसो होऊण संपइ एयारिसो जाओ एस वसभो । ता सब्बे अथिरा संसारे पयत्था । तथा हि, जो ताव मोग-निबंधणं महा-मोह-हेऊ य अत्थो, सो अधुवो । भणियं च

चवलं सुर-चावं व विञ्जु-लेह व्व चंचलं ।
पाआवलगं पंसु व्व धणं अथिर-धम्मयं ॥ १७ ॥
अत्थं चोरा विलुंपंति उद्दालंति नरेसरा ।
वतरा य निगूहंति गेण्हंति अह दाइया ॥ १८ ॥
हुयासणो ढहे सव्वं जलुप्पीलो विणासए ।
सव्वस्स हरणं चावि करेइ कुविओ जमो ॥ १९ ॥

तहा परमाणंद-हेऊ इट्ठ-जण-संगमो वि अणिच्चो । कहं

जहा संभाएँ रुक्खम्मि मिलंति विहगा बहू ।
पंथिया पहियावासे जहा देसंतरागया ॥ २० ॥
पहाए जंति सब्बे वि अन्नमन्नं दिसंतरं ।
एवं कुटुंब-वासे वि संगया बहवो जिया ॥ २१ ॥
नरामर-तिरिक्खाइ-जोणीसु कम्म-संजुया ।
मच्चु-प्पहाय-कालम्मि सब्बे जंति दिसो-दिसि ॥ २२ ॥

तहा

जेणुम्मत्त-पमत्तउ हिडइ पुरि-पहिहिं
मोढाओट्टि करंतउ वेढिउ बहु-नरहिं ।
तं जोयणु अइरेण जण खण-भंगुरउ
जर-रोगिहि सोसिज्जइ रक्खंतह खरउ ॥ २३ ॥

तहा

गव्भे जम्भे बालत्तणम्मि तरुणत्तणम्मि थेरत्ते ।
मट्टिय-भंडं व जिया सव्वावत्थासु विहट्टंति ॥ २४ ॥

एमाइ चितंतो पडिबुद्धो, पत्तेयबुद्धो जाओ । काऊण पंचमुट्टियं लोयं देवया-विइण-लिंगो विहरइ । भणियं च

सेयं सुजायं सुविभत्त-सिंग
जो पासिया वसभं गोट्ट-मउम्मे ।
रिद्धि अरिद्धि समुपेडियाण
कलिंग-राचा वि समिक्ख धम्मं ॥ २५ ॥

